

स्तु तरेय ३० समुपाय ३१ खेस ३२ कुसुपाय ३३ । भावे ३४ परिभाषे ३५ खलु अप्यावपुय ३६ नियुक्ता ३७ ३८ एताः पुन रुद्रेयकात्यायनमगम्या
 इति । तत्र ७ पञ्चवर्षति ८ द्वारान्निषाणायाङ्-कड्यमित्यादि ९ नियुक्ति १० निगताः सबाह्यान्त्यन्तरपन्यादिति नियन्त्याः सापव यतेपा च प्र
 तिपकमुवत्रितोनामपि विविचित्रवारिचमोहनीयकसद्योपक्षमादिकृती प्रदी वसेय सत्र ११ पुलायति १२ पुलाको नि सारी बाम्यकः पुलाकवस्यु
 माकः समयसारापेक्षया सु च समयनवाजपि मनाकससार कुवन् पुलाक इत्युच्यते १३ वरसति १४ बकुल खवल कर्जुर मित्यमत्सौत्तर तात य वजु

कड्डण चने । णियठा पखत्ता ? गीयमा , पच णियठा पखत्ता , तजहा-पुलाए वउसे कुसीले णियठे सि
 णाते । पुठाएण जते । कहविहे पखत्ते , गीयमा । पचविहे पखत्ते , तजहा-णणपुलाए वसणपुलाए चरि

राचयहे यावदव मवारीत्-कति नवल । मिग्रन्त्याः प्रक्षता ? गीतम । पच नियन्त्याः प्रक्षता सद्यथा-पुलाको बकुशः कुशीला नियन्मः
 खातक । पुलाको नवल । कतिविधः प्रक्षस ? गीतम । पचविच प्रोक्त सद्यथा-ज्ञानपुलाको वसणपुलाक हरिचपुलाको सिक्कपुलाको
 निचे पन्यावइल १६ निर्देबनी ए खपोसहार बडणे । १७ विहे पववबहार । राबगिह काव पववयाची । राकसइगरनेविये यावत् एम बडे । वर
 च भते बियठा प । कातजा हेमगवन् निर्गेव प्रक्या निर्गेवकडिये वास्य पभ्यतर परिग्रहको निपेव बवा एतसे साधु एहाने प्रतिपद्य सब विरतिने
 पचि विविच चारिचमाइनीव जतभेइ जीवना । मायमा पच बियठा प त । इगीतम पाचमरे निपेव कड्या ते कड्ये - पुलाए वउसे कुसीले बिय
 ठ गिवाए । नि मार बाबना पुलाचनीपरि पुलाक सयमसार पपेचारे तेइ सवमपत्त वकी पचि तेइ चारिचप्रते पसारकरता, बकुय कडता काव
 ए ते सयमसागको बक्य कखित गीव कडता करच खेइने ते कुगीव १ नीबळा पंच बडता मोइनीव कसडकी ते निर्धेव ४ वातकम खपच मलापट
 च चाभनवकी त खातक १ । पुनाएच भते करविह प । पलाक हेमगवन् केतसमेरे प्रक्या १ म छतर । गायमा पचबिहे प त । खीतम पच
 मेइ प्रक्या ते बडणे - चाचपुलाए इचपपुलाए चरिचपुलाए सिगपुलाए पहासुइमपुलाए बाम पचमए । ज्ञानपुलाक ज्ञानप्रते पसार करे इयनप्रते

तामपानी वक्रय चानोवदुष्ट, एव मय्यपि इहामुक्त-धामीनेकापतो करेइदीसकायमकलोने । मुल्लरेहियुल विवरीठ्ठिअवधुकीइोइ ॥ १ ॥
 क्विमइमज्जमावा डोरपइ।मुमुमठ्तइवडको चइवाजाविज्जतो असवुकीसधुआएयो ॥ १ ॥ पत्तिसवणाकुसीलियत्ति ॥ तत्र योगेना मय्यगारापमा
 तत्प्रतिपवल्नु प्रतिपवद्या तथा कुमीनः ॥ कसायकुशीसत्ति ॥ कपायो कुशीसः ॥ नाकपत्तिसवणाकुशीसत्ति ॥ ज्ञानस्य प्रतिपेवकपा
 कुगीनो ज्ञानप्रतिपवणाकुशीस एव मय्येपि वत्तचइ-इइनावाइकुशीसो सवत्रीअरोइनायपमिइए । अइहुमुनोपुणुत्तस्य एसमवस्सिसत्तिसंसाए ॥ १०
 नाइकमापकुशीसत्ति ॥ ज्ञानमामित्य कपायकुशीसो ज्ञानकपायकुशीसः, एव मय्यपि इइ गाया-नाकवसवत्तिगे जोमुंअइोइमावसाईहि । सोमा

कुसीलेण जंतै ! कडयिहे पखत्ते ? गीयमा ! दुविहे पखत्ते, तजहा--पत्तिसेवणाकुसीले य कसायकुसीले य
 पत्तिसेवणाकुसीलेण जंतै । कडयिहे पखत्ते ? गीयमा ! पंचविहे पखत्ते, तजहा--जाणपत्तिसवणाकुसीले
 वसणपत्तिसवणाकुसीले चरित्तपत्तिसेवणाकुसीले अहासुज्जामपत्तिसेवणाकुसीले णाम

वत्तपहुआ उमएतपहुगो मयासूत्तमवकुआनाम पच्छमः । कुशीसो जइल । कत्तिविषः मज्जसः ? गीतम । द्विविषः मज्जसत्तएया-प्रतिसवनामु
 गीसय कपायकुशीसय । पत्तिसेवणाकुशीसो जइल । कत्तिविषः मज्जसः ? गीतम । पंचविषः मज्जसत्तएया-ज्ञानप्रतिसेवणाकुशीसो वसंजम

८ ८ इत्तर । गावमा दुविहे प त । इगीतम वडभेदे कड्या ते कडेइ--पत्तिसेवणाकुसीलेय कसायकुसीलेव । प्रतिसवना कमीक ते सव्यकए या
 एअनको रइम कसावकरो कमीक पपमानाटिकने विपे कपायेकरो विरायना करे । पत्तिसवणा कुमीसय भते करविहे प । प्रतिसवना कमीक इअ
 मय्यु केअमभेदे कड्या इ म जत्तर । पायमा पचविहे प तं । जेगीतम पचेभेदे कड्या ते कडेइ । पाचपत्तिसेवणाकुमीसे इअचपत्तिसेवणाकुमीसे । ज्ञा
 नमा मय्यकुपाएअक कको ज्ञानेकरो इअत्रीकना करेते ज्ञानप्रतिसेवना कुमीन इअजना विरायक तेइ सयंजप्रतिसेवना कुमीस । चरित्तपत्तिसेवणा
 कुमीक चित्तपत्तिसेवणाकमीन । चारिकना विरायक ते चरित्त पत्तिसेवना कुमीक चिक्कना विरायक विजेकरो उपलोचना करेते । यइ।मुमुम पत्तिसेव

कदाचिदुसी तस्याथश्रीशक्तिं ॥ १ ॥ चरित्तन्त्रिकुलीसो कदाचिदुसीपत्न्यैसायं ॥ महासाकोशार्थे निवेद्यहीच्छहासुभो ॥ २ ॥ चहवाचि
 सायदि नायार्कविराष्टोठो । सोभावाङ्कुलीसो नेष्टवयक्काकनेपक ॥ ३ ॥ पदमसमयनियतइत्यादि ॥ उपमास्तमोहातुयाः शीकमोइकज्जत्वा
 तुया दान्तर्मुहताप्रमावाया । प्रथमसमये वर्तेनामः प्रथमसमयनियन्तः कापप्रथमसमयनियन्तः एवं नियन्त्याहाया करमसमये परमसमयनिये

पंचमे । कसायकुसील्लिण जंतै ! कइविहे पखत्ते ? गोयमा ! पचविहे पखत्ते , तजहा--णाणकसायकुसीले
 दुसणकसायकुसीले चरिसकसायकुसीले डिगकसायकुसीले छहासुज्जमकसायकुसीले णाम पचमे । णियठेण
 जत ! कइविहे पखत्ते ? गोयमा ! पचविहे पखत्ते , तजहा--पठमसमयणियठे छपठमसमयणियठे चरिम

तिसवनाकुलीसविरियप्रतिसवनाकुलीसो सिद्धप्रतिसेवनाकुलीसो पचासुल्लप्रतिसेवनाकुलीसो नाम पंचमः । कपायकुलीसो मदत्त । कतिवि
 पाः प्रसतः ? गीतम । पंचविधः प्रसतस्तथा-ज्ञानकपायकुलीसो दयमकपायकुलीसो चरिक्कपायकुलीसो लिङ्गकपायकुलीसो यथासुसमन्वया
 यकुलीसोनाम पंचमः । भियन्तो प्रवृत्त । कतिविक्र प्रसतः ? गीतम ! पचविधः प्रसत स्तथा-प्रथमसमयनियन्तो ऽप्रथमसमयनियन्तश्च

वा कुमीसे नाम पंचम । तथादिक् पाससावि द्वाप खगाने ते देवतादि पर्वो वास ते यथा सूक्ष्मप्रतिभेवना कुमीबनास पचमो १ । कसायकुभासिं १ भ
 ते कइविह प० । कपायकुमीस देवगवन् केतनेभेदे कथा १ प्र उत्तर । गाथमा पचविह प त । हेगीतम पचेभेदे कथा ते कचेवे--वायकथाय बु
 मोमे दमकसायकुमीस । ज्ञानप्रते पायबोने कपायबरो कुमीस ते ज्ञानकपाय कुमीस उर्यनप्रते पायबोने कपायबरो कुमीस । चरित्तकसायकुमीसे
 लीनकपाय कुमीसे । चरित्तप्रते पायबोने कपायबरो कुमीस सिगप्रते पायबोने कपायबरो कुमीस । पचासुसमकसायकुमीसे नाम पचमे । मनेचरो
 आवादि सवे ते बन्ना सूक्ष्मनाम पचमो । चिसठच भते कइविह प । निर्पव हेभयवन् केतकभेदे कथा ६ प्र उत्तर । गाथमा पचविह प० त० । हेमी
 तम पाचभेदे कथा ते कचेवे--पठमसमयनियन्ते पपठमसमयनियन्ते । उपमास्त महाकास तथा योचमास्त महाकास य वेजना प्रत्तर्मुहत् प्रसाचये

न्यः प्रवेदितः। मामान्येन तु यथा मूर्ध्नि पारिजायित्रीधरा उक्तचेह-यंतमुत्तुपमाबाय निर्मायद्याएपदमसमर्पमि । पठमसमर्पमिपठो श्रुतेसुप्र
 पठमसमर्पमि ॥ १ ॥ पमपतपदाय चरनेसमर्पमिचरमसमर्पमि । सेवेसुपुण्यचरमो सामणेणुतुप्रसुप्तुमो ॥ २ ॥ अष्टवीत्यादि ४ अष्टाविति ॥ अ
 प्यपक इत्येके षड्विंशोऽपि शरीरं तद्योगनिरोधेन यस्य भास्त्यऽसा षड्विंश इत्यस्ये उपवासकरो व्यापार सास्या आसितात्वात् सपी तान्निपे
 पा दृषीत्यस्य पातिचतुष्टयस्यैवान्तर वा तत्पुत्राजावा दृषीत्युच्यते १ । अथयत्न एकान्तविमुक्तुचरोतिचारयङ्गानायात् २ । अष्टमांशो वि
 गतपातिकांशः ३ । गशुभ्रानमर्दानपरः क्वसप्तानमर्दानपरः शशुभ्रय पशुप्रातकमेदार्यांनिपायक मपरि

समयणियंठे श्युचरिमसमयणियंठे श्युहासुजामणियंठे नाम पचमे । सिगाएण नते ! कडविहे पखडे ? गो
 यमा ! पचाथिहे पयात्ते, तजहा-श्युच्छयी श्युसवले श्युकम्मने ससुठगाणदसणधरेश्वरहाजिणेकेयली श्युपरि

मसमयानग्रन्थो ऽचरमसमयमिग्रन्थो यथासूक्तमिग्रन्थो नाम पचमः । आतको जदस्य । कतिविधः प्रसप्तः १ गीतम । पचविधः प्रसप्तसप्त

तेहन पचमसमसमविधे पत्ते १ गेयेविधे अप्रथमसमसम निषेधकविधे २ । चरिमसमसम विधेति पचरिमसमसमविधे । निषेधकामने चरिमसमयनेविधे
 यत्माने त चरिमसमसम निषेध यत्माने त पचरिमसमसम निषेध । पहासुजामणियंठे चामपचमे । सामान्येचरो यत्माने ते यथा सूत्रानिषे
 ध नाम पाचमा । विद्याएव भते कडविहे प । आतक हेमगवन् भेतकमेदे कश्चो इतिप्रये उत्तर । गायमा पंचविधे पचते तजहा । गीतम पाचमेदे
 कथा ते कडवे-पचमो १ पचमसे २ पचमसे १ पचमशाचदसचधरे चरहाविधेकेयली ४ पपरिष्ठावी ५ । क्वमिना योग्यको क्वमि कडिये यरोर ते
 इ यरोर्यागने इधेने केहेने नको ते पचमी, कडपुरना भापुरहित एकांत विगड चरचवत्त पतोवार कदमना पभावकको पचमसम कडिये, पचमीम
 विगत पातिकास ते घातिकासना पंचमरो रहित ते पचमीम कडिये, सप्त प्रातदयनवर केवलीप्रात चरचकार परिहित विम केवली ४ प
 पचमिचरपयाग एव १ चार १, विने देदवार कडवे-पुवाएव भते कि सवेवए हासा पवेदएशोप्या । पुवाक हेमगवन् क्लं सुवेदक पुने पचमा पने

खावी परिसरव त्पासवति कर्म ब्रह्माली त्वेवं शीलाः परिस्रावी तन्विषेया स्परिस्रावी अवन्वको निरुदयोग इत्यर्थः अयं च पञ्चम स्वातकने
 १: उत्तराध्यपनेपुत्र ऽहन् विनः केवलीत्यप पञ्चमी प्रवृ क्तो परिस्रावीति तु नाथीत मेव इहवा यस्याजेदेम प्रेदी न केनचि हृति कृत हा
 म्यत्र च ग्रन्थ व्याख्यात एत वीव सन्नावयाम - शङ्कनयापठया एतया प्रवो प्रावनीयः शङ्कपुरन्धरादिवदिति प्रष्टापनति गत । अप वेदद्वारे-नो
 अवपपु शोचति ॥ पुसाकवबुधप्रतिपेवाकुश्रीसाता सुपञ्चमपञ्चम्येसो रजावात् ० मोइत्विषेयपति ॥ स्त्रियाः पुसाकत्वत्वे रजावात् ॥ पुरिसम

रसावी । पुष्पाण जते ! किं संवेयए होजा श्रुवेदए होजा ? गोयमा ! संवेयए होजा णो श्रुवेदए होजा ।
 जइ संवेदए होजा किं इत्यीवेदए होजा पुरिसणपुसगवेयए होजा ? गोयमा ! णो इत्यी
 वेयए होजा पुरिसंवेयए होजा पुरिसणपुसगवेयए होजा । वउसेण जते ! किं संवेयए होजा श्रुवेदए

या-अप्ययि असवसोऽकमास समुद्रुचामवर्जमथरो ऽहन् विन कवली अपरिस्रावी । पुसाको प्रवत्त । किं संवेदको संवेदवेदको प्रवत् ? गो
 तम । संवेदको प्रवे को प्रवेदको प्रवत् । यदि संवेदको प्रवेत् किं खीवदको प्रवेत् पुरुषवेदको प्रवेत् पुरुषपपुसकवेदको प्रवेत् ? गो
 वदको प्रवेत् पुरुषवेदको प्रवेत् पुरुषपपुसकवेदको प्रवेत् । यजुगो प्रवत्त । किं संवेदको प्रवेदवेदको प्रव द्नीतम । संवेदको प्रवे का प्रवदको प्रवे
 दव हुवे इ म उत्तर । गायमा संवेदए हाळा वा पवेदए हाळा । वेगीतम सवठ हुवे यदि प्रवेदके नहुव पुसाक वजुय जुगोह ३ एहाने उपयम च
 पव र वज यचिना पभावको । अइ संवेदएहाळा । जो संवेदक हुवे ता । किं इत्योवेदएहाळा परिसवएहाळा पुरिच वपुसगवेदएहाळा । ता क्खं खो
 वेदे हुवे पववा पुरपवेद हुवे पववा पुक्य मप सव वदे हुवे इ म उत्तर । गायमा यो इत्योवेदएहाळा पुरिसवेदएहाळा परिसवप सगवेदएहाळा ।
 इभीतम स्त्रीवेदे नहुव स्त्रीने पसाकसन्विता पभावको पश्यवेद हुवे तथा पुरुषपिच वाचो इत्यादिक् ते पुरव नपु सव वेद हुवे यदि अज्जनप सववेदे न
 हुवे त्वेव । नउसव भते किं संवेदएहाळा पवदएहाळा पवदक हुवे इ० म० उ र । गायमा संवेदएहाळा वा

पुंसगणपपत्ति ० पुरुषः तस्योत्पुंसकवदको षड्विंशत्कालादिमावात् । वेदयथा होज्जा श्रीश्वेयए वा होज्जति ० सूक्ष्मसंपरायगुणस्थानक याव एव

होज्जा ? गीयमा ! सवेदए होज्जा णो श्वेदए होज्जा । जइ सवेयए होज्जा कि इत्थीवेयए होज्जा पुरिस वेयए होज्जा पुरिसणपुसगवेयए होज्जा ? गीयमा ! इत्थीवेयए होज्जा पुरिसवेयए होज्जा पुरिसणपुसगवे यए होज्जा । एव पत्तिसेयणाकुसीले थि । कसायकुसीलेण जंत । कि सवेयए पुच्छा, गीयमा । सवेयए वा होज्जा श्वेदए था होज्जा । जइ श्वेदए होज्जा कि उवसतवेदए होज्जा खीणवेदए होज्जा ? गीयमा । उव

त् । यदि सबदको जवेत् कि स्त्री वेदको भवेत् पुरुषवदको जवेत् ? गीतम । स्त्री वदको जवेत्पुरुषवदको जवेत् पु रुषपुसकवदको जवेत् । एव प्रतिसेयनाकुसीलापि । कपायकुशीलो जदत्ता । कि सवेदए पच्छा भीतम । सबदको वा जवेदवेदको वा जवेत् यद्यवदको जवे रिक्क सुपञ्चान्तवदको मवस्त्रीकवदको जवेत् ? गीतम । उपपञ्चान्तवदको वा जवत् स्त्रीकवदको वा जवत् यदि

पवेदएहाळा । हेभीतम सपदे हुने पथि चवदके न हुने । जइ पवेदएहाळा कि इत्थीवेयएहाळा पुरिसवदएहाळा पुरिसवपुसमवेयएहाळा । जो सवेदके हुने ता ए स्त्रीवेदे हुने यथथा पुरुषवेदे हुन पुरुष नपसकवेदे हुने इ प्र उत्तर । मायमा इत्थीवेयएहाळा पुरिसवेयएहाळा पुरिसवपसमवे यएहाळा । हेभीतम स्त्रीवेदे हुने पुरुष वेदे हुने पुरुष नपसक वेद हुने इ प्र उत्तर । मायमा इत्थीवेयएहाळा पुरिसवेयएहाळा पुरिसवपुसगवदए हाळा । हेभीतम स्त्रीवेदे हुने पुरुषवेदे हुने पुरुषनपसक वेदे हुने । इव पत्तिसेयणाकुसीले थि । इम प्रतिसेयनावसोह पथि जइयो । कसायकुसीले भ ते थि सवेयए पुरहा । कसायकमीह हेमपदन् ए सवेदके हुने इ प्र उत्तर । मायमा सवेयएहाळा पवेदएवा हाळा । हेभीतम सवेदके हुने सवे दके पथि हुने । जइ पवेदएहाळा कि जवसत वेदएहाळा स्त्रीकवेदएहाळा स्त्रीकवेदएहाळा । जइ उपयांतवेद हुने ते उपयम ज्जि चवथा स्त्रीकवे दे हुने ते चपचथि इ प्र उत्तर । मायमा जवसतवेदएहाळा स्त्रीकवेदएवा हाळा । हेभीतम उपयमांतवेदे पथिहुने स्त्रीकवेदे पथिहुने इहा ए भाव

पापकुक्षीप्तो ज्ञवति सच प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकारकेषु सर्वेदी ऽनिश्चिन्निवादेरे तुपशास्त्रेषु कीर्तये वा वेदेषु ऽवेकः स्यात्, सूक्तसम्पत्त्यारथेति ॥ नियते षमित्यादी ॥ उपसतवेद्यया होञ्जा स्त्रीबन्धेयया होञ्जति ॥ अेखिद्रय निर्गुन्त्यत्वज्ञावादिति ॥ सिखाएषमित्यादी नोउपसतवेद्यएहोञ्जा स्त्रीष

सतत्रेदए वा होञ्जा स्त्रीणवेद्यए वा होञ्जा कि इत्थीवेद्यए होञ्जा पुच्छा, गोयमा ! तिसुवि जहा घउसे । णियठेण जते ! कि सर्वेद्यए पुच्छा, गोयमा णी सर्वेद्यए होञ्जा स्ववेद्यए होञ्जा । जह्र स्ववेद्यए होञ्जा कि उयसतपुच्छा, गोयमा ! उयसतवेद्यए वा होञ्जा स्त्रीणवेद्यए वा होञ्जा । सिणाए ण जते ! कि सर्वेद्यए होञ्जा जहा णियठे तहा सिणाएधि, णवर णी उयसतवेद्यए होञ्जा स्त्रीणवेद्यए होञ्जा

सर्वेद्यको ज्ञवत् कि स्त्री वेद्यको ज्ञवत्पुच्छा गौतम । त्रिष्वपि यया बहुश्रुः । निपन्थो ज्ञवत् । कि सर्वेद्यः पुच्छा गौतम । नो सर्वेद्यको ज्ञवत्वेद्यको ज्ञवत् । यद्यप्येद्यको ज्ञवत् किं उपशास्त्रवेद्यको ज्ञवत्पुच्छा, गौतम । उपशास्त्रवेद्यको वा ज्ञवत् स्त्रीबन्धेद्यको वा ज्ञवत् । ज्ञातको सद्यसपरायनाम सूत्रागुच्छाया ज्ञो ज्ञपयजुसोय इवे ते प्रमत्त यप्रमत्त २ यपूर्वकरयुच्छाबानेविये सर्वेद्य इवे यने अनिहत्त वाहरनाम मवमा गुच्छाबानेविये वेद उपयमाया यज्ञया स्त्रीबन्धोया यवेद्य इवे ते सूत्रसपरायनेविये इति । अर सर्वेद्यहोञ्जा कि इत्थीवेद्यहोञ्जा । नो सर्वेद्ये इव स्वोवेदे इवे इ म ज्ञतर । गावमा तिसुवि जज्ञावउसे । जेगौतम तोनेरे वेदनेविये ज्ञिम ज्ञुयने तिम । बिषंठेच भति कि सर्वेद्यए पुच्छा । निर्गुन्त्य जेभयवन् स्वू वेदे इवे इ म ज्ञतर । गावमा नो सर्वेद्यए होञ्जा यवेद्यहोञ्जा । जेगौतम सर्वेद्ये इवे मज्ञी यवेद्ये । अर यवेद्यहोञ्जा उपसत पु यज्ञा । आ यवेद्ये इवे ता स्वू उपयामवेदे इवे इतिमत्र ज्ञतर । गावमा उपसतवेद्यया होञ्जा स्त्रीवेद्येद्ययाहोञ्जा । जेगौतम उपयातवेदे यवि इवे स्त्रीवेदे यवि इवे याना अेखिन्विये निर्गुञ्जना भाषयती । सिखाएष भते कि सर्वेद्यएहोञ्जा । छातक जेभयवन् स्वू सर्वेद्ये इवे इत्यादि । जज्ञा बिषंठे जज्ञा सिखाएधि । ज्ञिम निर्गुन्त्य जे जज्ञा तिम ज्ञातवती पवि जज्ञया । अवर नो उपसतवेद्यए होञ्जा स्त्रीबन्धेयए होञ्जा । एतदोविषयम उपयातवेदे मज्ञी

पुढाणुण जते ! कि सरागे होजा वीयरगे होजा ? गोयमा ! सरागे होजा जो वीयरगे होजा, एव जाय कसायकुसीडे । गियठेण जते ! कि सरागे होजा पुच्छा, गोयमा । जो सरागे होजा वीयरगे होजा । उत्रसत जड वीयरगे होजा कि उयसतकसायवीयरगे होजा । खीणकसायवीयरगे होजा ? गोयमा । उत्रसत कसायवीयरगे होजा स्तीणकसायवीयरगे होजा । सिगाते एयचेय, णयर णो उयसतकसायवीयरगे

प्रवत्त । किं मवदको प्रवेद्यया निर्यन्त्यलाया स्नातकोपि भवर सो उपशान्तवेदको प्रवेत् वीयवेदको प्रवेत् । पुसाको मवत्त । कि सरागे प्रव वीतरागी प्रवेत् ? भौतम । सरागे प्रवे स्त्रैव वीतरागे प्रवत् । एव यावत्कपायकुसीत् । निर्यन्त्रो प्रवत्त । किं सरागे प्रवरपच्छा, गौतम । नी सरागे प्रवेत् वीतरागी प्रवेत् । यवि वीतरागी प्रवेत् किमुपशान्तकपायवीतरागे प्रवत् वीयकपायवीतरागे प्रवत् ? गौतम । उपशान्तकपायवीतरागा मयेत वीयकपायवीतरागे मवत् । स्नातक एव चैव । भवरं नी उपशान्तकपायवीतरागे प्रवेत् वीयकपायवीतरागे

इवे उपमम नेबिय न पुव तेसाटे सपव यबिसविदे स्नातकवर्ना भाववको सोववठ इव दार २ इवे बोजा रामद्वार कहेवे—पुसाएव भते विरा रानेहाळा वीयरगे हाळा । पुसाव इभमवत्त एव सराग सबपाये इवे पववा सवपायेइवे इतिमय उत्तर । गावमा सरागेहाळा वा वीयरामहाळा । इभौतम सबपाये इव नथी सवपाये इवे । एव जाव असायकुसीत् । एम यावत् कपावकयोसवगे कववा । बिद्यठेव भते कि सरागेहाळा पववा । मि गुव इभमवत्त एव सरागे सबपाये इवे इत्यादि प्रय उत्तर । गोयमा वा सरागेहाळा वीयरगेहाळा । इभौतम सरागी न पुवे वीतरागी इवे । अत्र वीयरगेहाळा किं उत्रसतकसाव वीयरग हाळा सोवकसाव वीयरग हाळा । जो वीतराग इवे ता एव उपमावकपाय वीतरागी इव ययवा वी कपाव वीतरागे इवे इतिमय उत्तर । यावमा उवसतकसाव वीवराये हाळा सोवकसाव वीयरग हाळा । इभौतम उपमावकपाय वीतराग पुव सोवकपाय वीतराग पचि इवे । सिवाइ एववव । स्नातक पचि इमसोव कववो । अवर जो उवसतकसाव वीवराने हाळा सोवकसाव वीतरागे जो

वेदयहीकृत्ति । उपकरीस्यामेव कातकत्वनावा इति । राबद्धारे-पुसाएवं जने । कि सरागेति । सरागः सकृपायः । कल्पद्वारे-पुसाएवं मते । कि विधिक्रमेत्यादि ॥ आबेलक्यादिषु दशानु पदेषु मध्यमपद्विमतीपकरसाधक स्थिता एवावश्यं तत्प्राप्ततादिति लेवा स्थितिक्रमस्य सप्रवा पुत्रा को प्रवेत् मध्यमतीपकरसाधकषु तेषु स्थितायास्थिताया स्थिताद्येत्स्थितकस्य सायां तत्र वा पुसाको जने इव सर्वेपि अपवा कस्यो विमलरूपः

हीजा खीणकसायवीतरागे हीजा । पुलाएण जने ! कि ठियकप्ये हीजा स्थियकप्ये हीजा ? गीयमा । ठियकप्ये या हीजा स्थियकप्ये वा हीजा । एय जाय सिणाए । पुलाएण जने ! कि जिणकप्ये हीजा येरकप्ये हीजा कप्यातीते हीजा ? गीयमा ! जो जिणकप्ये हीजा येरकप्ये हीजा जो कप्यातीत हीजा । प्रवेत् । पुसाको जदल । कि स्थितिकस्यो जनेइस्थितिकस्यो जवत् ? गीतम । स्थितिकस्ये वा जने इस्थितिकस्येवा प्रवेत् । एय याव त्था तक । पुसाको जदल । जिनकस्ये जने त्स्वविर कस्ये जवत् कप्यातीतो जवेत् ? गीतम । जो जिनकस्ये जने त्स्वविर कस्ये जवत् जो कस्या

या । पतकाविमेष उपमांतज्जाव नोतराग न पुवे नोवकथाव नोतराग पुवे दार र इविवे कल्पद्वार कइवे--पुसाएव मते कि ठियकप्ये हाजा पठियक के हाजा । पसाक हेमगनम् च् स्थितिकस्ये पुवे पयवा पस्थितिकस्ये इम तिहा कल्पकइविये पाचार ते स्थितिक पापेसक्यादि इय पत्रनेविये मयम पथिम तोपेकरना साधुनास्थितिकेण पुवे पयस्ये तेहाना पाकवाकको तेहाने पयवा विहा स्थितिकस्य तिहा पसाक पुवे पयवा पस्थितिकस्य मयम म बावीस तबेकरना साधु तेहाने ए पस्थितिके तेमाटे पस्थितिकस्य तहाने पय । तिहा पुसाक पुवे र प्र उत्तर । मोबसा ठियकप्यहा हाजा पठि यकप्येहा हाजा एव ज्ञान विचार । हेगीतम स्थितिकस्यनेविये पुवे पस्थितिकस्यने विये पविपुवे इम घामत् कातकमग कइवा । पुसाएव मते खू रि नकस्ये पुवे पयवा । घरकप्ये हाजा कप्यातीतेहाजा । स्वविरकस्ये पुवे पयवा कप्यातीते पुवे र प्र० उत्तर । गीयमा जो विमलकप्ये हाजा घरकप्य हाजा वा कप्यातीते हाजा । हेगीतम नही जिनकस्ये पुवे स्वविरकस्ये पुवे कप्यातीते न पुवे । पठयेवं मते पुबद्ध । मकुय हेमगनम् इत्यादि मत्र उत्त

क्वचिरकल्प येतद्विधीति तन्मात्रित्वाद्-पुसाएवं जते । किं विरकल्पे इत्यादि ० क्वपातीति ॥ क्वपात्यकुसीले
 क्वमित्वादी ॥ क्वपातीतवाङ्गोत्पत्ति ॥ क्वपातीतेवा क्वपायकुसीले मव स्वस्पातीतस्य क्वत्तस्पातीतस्य क्वपायत्वादिदि ॥ निपठकमित्वादी क
 प्यातीतेङ्गोत्पत्ति ॥ निग्रन्थः क्वपातीत एव मवे घात कास्य विमकल्पस्यविरकल्पसर्मा न सन्तीति । चरित्रद्वार क्वकर्मथ प्रतिघवना द्वारेव-पुसा

यउसेण जते । पुच्छा , गीयमा ! जिणकल्पे वा होज्जा येरकल्पे वा होज्जा णो कप्पातीते होज्जा । एव
 पफिसियगाकुसीलेयि । कसायकुसीले पुच्छा , गीयमा ! जिणकल्पे वा होज्जा येरकल्पे वा होज्जा कप्पातीते
 वा होज्जा । णियठेण पुच्छा , गीयमा ! णो जिणकल्पे होज्जा णो येरकल्पे होज्जा कप्पातीते होज्जा एव
 सिणाएयि ४ पुलाएण जते । कि सामाइयसजमे होज्जा तेउयठावणियसजमे होज्जा परिहारविमुच्चियसयमे

तीतो जवेत् । ककुयपुच्छा , गीतम । जिणकल्पे वा जवेत् नो क्वपातीतो जवेत् । एव प्रतिघवनाकुसीलापि । कपायकु
 सीलेपुच्छा गीतम । जिणकल्पो वा जव स्वस्पातीतीवा जवेत् । निग्रन्थः पुच्छा , गीतम । ना जिणकल्पे जवेओ स्यचि
 रकल्पे जवेत् क्वपातीतो जवेत् । एव खातकोपि ४ । पुसाको जदत्त । कि सामायिकसयमे जवे क्वेवोपस्थापनीयसयमे जवेत् परिहारवि

र । मायमा विरकल्पेवा हाव्वा वेरकल्पेवाहाव्वा षो क्वपातीते होव्वा । हेगीतम जिणकल्पे पुवे यजवा क्वचिर कल्पे पुवे पचि क्वपातीते न पुवे । ए
 वं पचिसेववाकुसीलेयि कसायकसीले पुच्छा । इम पचिसेववाकुसीले पचि क्वचि क्वपायकुसीले हेमसवन् इत्यादि मत्र उत्तर । मायमा विरकल्पे
 वा हाव्वा येरकल्पेवा हाव्वा क्वपातीतेवा हाव्वा । हेगीतम जिणकल्पे पचि पुवे क्वपातीते पचि पुवे । चियठक पुच्छा । निगुंय
 हेमसवन् इत्यादि मत्र उत्तर । मायमा षो विरकल्पे हाव्वा षो येरकल्पे होव्वा क्वपातीते होव्वा । हेगीतम जको जिणकल्पे पुवे नको क्वचिरकल्पे पु
 वे क्वपातीते पुवे । एवं सिधाएवि ४ । इम खातकले पचि क्वचि, चिंवे चारिणवार कवेले-पुसाएवं मते कि सामाइव सवमे होव्वा । पुसाक

होजा सुकमसंपरायसजमे होजा छहस्कायसंजमे होजा ? गीयमा ! सामाहयसजमे होजा लेनुयहाव
 णियसजमे होजा नी परिहारयिसुदियसजमे होजा नी सुकमसपरायसजमे होजा नी सुहस्कायसजमे
 होजा । एय वउसेवि । एय पठिसेवणाकुसीलेयि । कसायकुसीलेण पुच्छा, गीयमा । सामाहयसजमे या
 होजा जाय सुकमसपरायसजमे वा होजा नी सुहस्कायसजमे होजा । णियठेण पुच्छा, गी० ! णो सामा

सुदिसंपमनवरसूक्तसपराये समये तव यथा स्वावसयमे तवत् ? नीतम । सामायिकसंयमे तवच्छदीपस्थापनीयसयमे तवे को परिहारयि
 सुदिसयमे तवको सूक्तसम्परायसयमे तवे को यथास्थातसयमे तवेत् । एवं बहुशायि । एवं प्रतिसेवनाकुसीलोपि । कसायकुसीलपुच्छा,
 नीतम । सामायिकसयमे वा तवत् यावत्सूक्तसम्परायसयमे वा तवे को यथास्थातसयमे वा तवेत् । नियन्त्यपुच्छा नीतम । नी सामा
 हेभगवन् नू सामायिक सवम हुव यवथा । अथावशावविह सवमहात्ता । अथापस्थापनीयसंयमे हुवे यवथा । परिहार विसदियसजम हात्ता । परि
 हारविसुदिसयमे हुवे यवथा । सुकमसपराय सवमहात्ता । सूक्तसपराय सयमे हुवे यवथा । यद्वस्वायसजमेहात्ता । यद्वस्वायसजमे हुवे इ प्र सप्त
 र १ । मायमा सामाहयसंजमे हात्ता । नीतम सामायिक सयमे हुवे । अथोपस्थापनीयसजमहात्ता । अथापस्थापनीयसजम हुवे । या परिहारविसद्वि
 यसजमे हात्ता । परिहारविसुदिसयमे न हुवे । वा सुकमसंपरायसजम हात्ता । तद्वो सूक्तसपरायसयमे इव । वो यद्वस्वायसंजमे हात्ता एव यवस
 वि । यथा स्थातसयमे पठि न इव इम बहुयनेविये पठि अइथा । एव पठिसेवथा कसोलेवि । इम प्रतिसेवनाकुसीलनेविये पठि अइथो । कसायकसी
 सेव पच्छा । अथावकुसीलना मन्त्रबोधा उत्तर । मायमा सामाहयसजमेहा हात्ता आब सुकमसपरायसजमेहा हात्ता । देवीतम सामायिकसंयमने विये
 हुवे इम यावत् सूक्तसपराय सयमनेविये हुव पठि । वा यद्वस्व यसजम हात्ता । यथास्थातसयमनेविये न इवे । वियठक पुच्छा । नियन्ती प्रत्यकोधा
 उत्तर । यावमा वा सामाहय सवमहा हात्ता आब वा सुकमसपरायसजमहा हात्ता । देवीतम सामायिक सवमनेविये न हुवे इम यावत् सूक्तसपराय

उच्चमित्यादि ० पण्डितैश्चरति ० सुप्रथमप्रतिकूलसाधस्य सञ्जलनकपायोदया रसेवकः प्रतिसेवकः सयमविरापक इत्यय ॥ मूलमुच्चपण्डितैरेवपति ॥ मूल
मुखाः प्राणातिपातविरमसादयः तथा प्रातिङ्मुख्यन सेवकः मूलगुणप्रतिसेवकः एवमुत्तरगुणप्रतिसेवकः एवमुत्तरगुणप्रतिसेवकोपि नवर मूत्रगुणाः दशविधप्रत्याख्यानक
पाः ० इतिविद्वत्स पञ्चकापरवर्ति ० तत्र दशविध प्रत्याख्यान मनागतमदकृतं कीलीशद्विय मित्यादि प्राग्भ्याप्यातस्वरूप षषषवा नवकारयो

इयसुजमे या होजा जात्र णी सुजमसपरायसजमे या होजा अह्रकायसजमे या होजा एव सिंगातेत्रि ५
पुलाण भते । कि पण्डिसेवए होजा ? गी० ! पण्डिसेवए होजा णी अण्डिसेवए होजा
जइ पण्डिसेवए होजा कि मूलगुणपण्डिसेवए होजा उत्तरगुणपण्डिसेवए होजा ? गी० ! मूलगुणपण्डिसेवए

विद्वत्सयम वा प्रवत याव को सुल्लसम्परायसयमे वा भवेत् यथास्यातसयमे वा प्रवेत्त्व स्नातकोपि ५ । पुलाको भवत्त । कि प्रतिसेवको ज
वदप्रतिसेवको प्रवत् ? गीतम । प्रतिसेवको प्रवे स्ना ऽप्रतिसेवको भवत्त । यदि प्रतिसेवको प्रवे रिक् मूलमुच्चप्रतिसेवको प्रवदुत्तरगुणप्रति
सेवको प्रवत् ? गीतम । मूलगुणप्रतिसेवका प्रवदुत्तरमुच्चप्रतिसेवको प्रवत् मूलमुच्चं प्रतिसेवयत्पञ्चानामनाशनाबाहामस्यतर प्रतिसेवते एत

भयमनेविक न इव । पञ्चकायमजमेवा ज्ञात्वा एवं सिवाएवि ५ । यथाऽस्नातसवमने विपे बुध इम स्नातकने पण्डि अइवा डार ५, इति प्रतिसेवकाडार
बदेहे—पुलाएच भते कि पण्डिसेवए ज्ञात्वा पण्डिसेवए ज्ञात्वा । पुलाक जेमगायन् मू प्रतिसेवक सबम प्रतिङ्खल यर्चना सख्यजन कपायना उदयवको
मेवक सवमविराधक इत्यर्थं बुवे भववा पण्डितसेवक पण्डिराधक बुवे इ म उत्तर । मायमा पण्डिसेवए ज्ञात्वा चोपपण्डिसेवए ज्ञात्वा । जेभोतम प्रतिसे
वक संयमविराधक बुवे पण्डि नको पण्डितसेवक पण्डिराधक बुवे । अर पण्डिसेवए ज्ञात्वा किं मूलगुण पण्डिसवएज्ज्ञा उत्तरगुण पण्डिसेवए ज्ञात्वा । जो
प्रतिसेवक इवे ता च्छू मलगुण प्राणातिपात विरलवादिक् तेजने प्रतिङ्खलपञ्चेकरी सेवक एतसे विराधक ते मूच्चगुण प्रतिसेवक बुवे इम उत्तरगुण
जे इयदिप्र प्रत्याख्यान जे 'पञ्चमदमदकृत' इत्यादिक् पूर रकाया तेइना विराधक बुवे इ० प्र० उत्तर । मायमा मूलमुच्चपण्डिसेवए ज्ञात्वा उत्तरगुण

रिपीय इत्याद्यावशकप्रसिद्धं च कश्चरं पक्रिसेवेज्जपि च एतत्तरं प्रत्यास्थानं विराचये दुपलसचत्वा द्वास्य विक्रिमुञ्चादिविराचकत्वमपि सभा

होज्जा उत्तरगुणपक्रिसेवए होज्जा मूलगुणपक्रिसेवमाणे पचरइ स्थुणासथाण स्थुय्यर पक्रिसेवेज्जा उत्तरगुण
पक्रिसेवमाणे दसविहस्स पच्चस्काणस्स स्थुय्यर पक्रिसेवेज्जा । वउसेणं पुच्छा, गोयमा । पक्रिसेवए होज्जा
णो थुपक्रिसेवए होज्जा । जइ पक्रिसेवए होज्जा किं मूलगुणपक्रिसेवए होज्जा । उत्तरगुणपक्रिसेवए होज्जा ?
गोयमा । णो मूलगुणपक्रिसेवए होज्जा उत्तरगुणपक्रिसेवमाणे दसविहस्स पच्च

एणुं प्रतिसेवयन् दसविहस्स प्रत्यास्थानस्य (मध्यात्) अन्तर प्रतिसेवेत् । अणुसपुच्छा, गीतम । प्रतिसेवको ज्ञव को ज्ञमतिसेवको ज्ञव
त् । यदि मतिसेवको ज्ञव त्विह मूलगुणमतिसेवको मनेतुत्तरगुणमतिसेवको मनेत् ? गीतम । नो मूलगुणमतिसेवको मनेत् । उत्तरगुणमतिसे
वको मनेत् । उत्तरगुण प्रतिसेवयन् दश विहस्स प्रत्यास्थानस्या न्यतरं प्रतिसेवेत् । प्रतिसेवनाकुञ्जीसो यथा मुसाकः । अयायकुञ्जीसः पुच्छा ।

पक्रिसेवए होज्जा । गीतम मूलगुण प्रतिसेवक पवि दूरे पने उत्तरगुण प्रतिसेवक पवि दूरे । मूलगुण पक्रिसेवमाके पवपइ अथासवाच पचरइ पक्रि
सेवेज्जा । मूलगुण प्रतिसेवक आतावको पव पायवकारे ते प्राजातिपातादि यावत् परिगइ तेइ मादिवा एककारं एक सेवे । उत्तरगुणपक्रिसेवमाके
इसविहस्स पचकावस्य पचकरं पक्रिसेवेज्जा वउसें पुच्छा । उत्तरगुणमतिसेवक आतावका 'पचामयमइत्त इत्यादि, पचमा मन्कार सच्चिब योरि
को यादि पावत्तव एव प्रसिद्ध तेइ मादिको पनेता कार्पक सेवे तथा पिंइ विद्युत्तादि विराचक बहुमुना पत्रकीधा उत्तर । गायमा पक्रिसेवए होज्जा
वा पचक्रिसेवए होज्जा । गीतम प्रतिसेवक इवे पचिपमतिसेवक न इवे । अइ पक्रिसेवए होज्जा किं मूलगुण पक्रिसेवए होज्जा उत्तरगुण पक्रिसेवए
होज्जा । वा प्रतिसेवक इव ता एव मूलगुण प्रतिसेवक इव पचवा उत्तरमव प्रतिसेवक इव इ० प उत्तर । गायमा वा मूलगुण पक्रिसेवए होज्जा ।
गीतम नहो मूलगुण प्रतिसेवक होइ । उत्तरगुण पक्रिसेवए होज्जा । एतावता उत्तरगुण प्रतिसेवक इव । उत्तरगुण पक्रिसेवमाके इसविहस्स पचरइ

व्यत इति, प्राग्भूते-आग्निनिवोधिर्वादिशानमस्तावात् शानविद्यपन्नूत मृत विशेषेण शिल्पयज्ञाद्-पुलाएण प्रते । केवलय सुपमित्यादि ऽ ऽए
 कश्च वसुपत्रयवमायुर्भिति ऽ ऽएप्रवचनमानुपालनरूपत्वा वारित्रस्य तद्गता ऽएप्रवचनमातृपरिधाने माऽवद्वय नाव्य शानपूवकत्वा वारित्रस्य सत्य
 रिशानं च युता इतो ऽएप्रवचनमायुप्रतिपादनपर मृत यफुहास्य अपम्यतोपि प्रवतीति ऽ तत्र अठवर्षं पवयवमाश्च मित्यस्य यद्विपरवसूत्र तदस्य

रक्राणरम श्ययार पन्निसेत्रेज्या । पन्निसेत्रणाकुसीले जहा पुलार्ण । कसायकुसीले पुच्छा, गोयमा ! णो प
 क्रिसेत्रणु होज्या । एव णियठेयि । एव सिगातेयि ६ । पुलार्ण नते ! कदसु णाणसु होज्या ? गोयमा ।
 डोसु या तिसुया होज्या दोसु होज्यामाण दोसु श्यान्निणिवीहियणांसु सुश्याणांसु होज्या तिसु होज्यामा
 ण तिसु श्यान्निणिवीहियणाणसुश्याणाण्ठीहिणांसु होज्या । एव वउसत्रि । एव पन्निसेत्रणाकुसीलेवि ।

गौतम । नो मत्तिसुवको प्रवत् । एव निपेयापि । एयञ्जातकीपि । पुलाको प्रदत्त । कतिपु शानपु मवत् । गौतम । इयोवा । त्रिपुवा मयेत्
 द्वयोमवशुपाराभिनिवापिकप्रतशानया प्रवत् । त्रिपु प्रवत्तिस्यान्निनियोधिकशानदुतशानाऽवधिश्चानपु प्रवत् । एव मत्तिसे
 वपु पचपर पदिसेज्या । उत्तरमत्र मत्तिसेवच आतावका इयविध पचलापमाहे पनेरा वाऽएव विरावे । पदिसेववाकनोख अहा पच ए । मत्तिसे
 वना कुयोक्त विम पमाक अज्ञा तिम अकवा । असावकुसोम सुषव् । कसायकुसोम प्रशुभोधा उत्तर । गावमा वा पदिसेवए श्याव्या एव शिबठेवि प
 व विवाकवि ६ । देगौतम मत्तिसेवच न शाय इम निपवत् पवि अकवा इम आतकने पवि अकवा ६ । पुलाएव भत कदसु वाचमु श्योव्या । पलाक
 देमववत् अतना शानत्रिये काव इ म उत्तर । गावमा कामुवा तिमवा श्याव्या । देगौतम देहनेविये पचवा तीनत्रिये काव । दासश्याव्यानाके श्याम
 पाभिनिवादिवाकस मपवाकेम श्याव्या । दोयनेविये आतावका दोयनेविये पाभिनिवाविच शानत्रिये पने दुतशानत्रिये काव । तिमश्याव्यानाके
 तिसु पाभिनिवोदिपवाकेनुपवार पादिवाकेसु श्याव्या एव वउसत्रि एवं पदिसेववाकुसोकेवि । तीननेविये आतावका तीनत्रिये पाभिनिवादिवाक

प्राप्यते, यत्सुमत्तराध्ययनेषु प्रपञ्चनमाद्यप्रतिपादनमामकमप्ययमं तद्गुणत्वादिद्विधसंस्तत्या च न क्षपन्त्यतः सम्भवतीति यावत्स्वाययं वेद दु

कनायकुसीलेण पुच्छा, गोयमा ! वीसुवा तिसुना चउसुना होज्जा । दोसु होज्जमाणे दोसु श्यान्निणिवोहि
यणाणसुशुयणाणसु होज्जा । तिसु होज्जमाणे तिसुश्यान्निनिवोहि यणाणसुशुयणाणसु होज्जा, श्यहवा
तिसुश्यान्निनिवोहि यणाणसुशुयणाणसु पज्जायणाणसु होज्जा, चउसु होज्जमाणे चउसु श्यान्निनिवोहि यणा
णउहिणाणसु पज्जायणाणसु होज्जा । एव गियठंदि । सिगातेण पुच्छा, गोयमा ! एगम्मि केवलणाणेसु

यमाकुसीलेपि । कपायकुसीलानो पुच्छा गीतम । द्वयो वा त्रियुवा चतुसु वा जवेत । द्वयो प्रवण्णयोराग्निविधोचिककञ्चानसुतञ्चामयो जवत् ।
त्रियु जवन्नत्रियान्नियोपिककञ्चानसुतञ्चामाश्वपिञ्चानपु जयेत् । अपवा विद्यान्निनिवोचिककञ्चानसुतञ्चानमन पर्यवञ्चानेषु जयेत् । चतुसु जवन्
चतुसु श्यान्निनिवोचिककञ्चानसुतञ्चामाधपिञ्चानमनाप्यवञ्चानपु जयेत् । एव निर्धन्योपि । खातकपुच्छा गीतम । एकस्सिककवलञ्चाने जयेत् ।

ननेविये द्युतञ्चाननविये पवधियञ्चानने विये इवे इम वकयने पवि कइवा इम प्रतिसेवना कयोचनेविये पवि कइवा । कसावज्जुसोसिच पुच्छा । कपायक
गोसभा मन्त्रबोधा उत्तर । मायमा दासवा तिसवा चउसवा हाज्जा । इगीतम दासनेविये तथा तोमनेविये इवे । इमीमहाज्जमाने वामु
पामिनिवादिपवाच सुपवाचेम हाज्जा । दासनविये वातावका दायनविये पामिनिवाधिककञ्चानने विये द्युतञ्चाननेविये इवे । तिसु इज्जमाने तिस वा
मिनिवादिपवाच सुपवाच पादिवाचेस होज्जा । तोमनविये वातावका तोमनेविये पामिनिवाधिककञ्चानने विये द्युतञ्चाननेविये पवधियञ्चाननविये इवे ।
पइवा तिसपामिनिवादिपवाच सुपवाचमपचववाचेस हाज्जा । पववा तोमनेविये पामिनिवाधिककञ्चान द्युतञ्चान मनपववञ्चाननेविये इवे । चउ
मु हाज्जमाच ववन्न पामिनिवादिपवाच सुपवाच पादिवाच मकपल्लववाचेसु हाज्जा एवं बिबठेवि । पारिजेनिये वातावका पारिजेनिये पामिनि
वाधिककञ्चानं द्युतञ्चान पवधियञ्चान मनपववञ्चाननेविये इवे इम निर्धनेविये पवि कइवा । सिबाएच पुच्छा । खातकना मन्त्रबोधा उत्तर । मायमा

होजा । पुलाणुण जने । केवइय सुय थ्वाहिजेज्जा ? गोयमा ! जह्खेण णवस्स पुवस्स ततिय थ्वायारयत्थुं उक्खीमण गयपुव्वाइ थ्वाहिजेज्जा । यउसण पुव्का, गोयमा ! जह्खेण थ्थठ पवपणमाथाठ उक्खीसेण वस पुव्वाइं थ्वाहिजेज्जा । एवं पफिसेयणाकुसीलेयि । कसायकुसीलेण पुव्का, गोयमा ! जह्खेण थ्थठ पवपण माथाठ उक्खीसेण चउद्वंसपुव्वाइ थ्वाहिजेज्जा एवं णियंठेयि । सिणातण पुव्का, गोयमा ! सुयव्रतिरिसे

गौतम । किपशुगमपीयत ? गौतम । जपयम नवमपुवस्याचारवस्तुं वृतीयं, उत्तरपत्तेतो नवपूर्वास्वपीयेत । वज्जयपुव्वा गौतम ।

जपयमाटमवचमयाववाः । उत्तरपत्तेतोदसुपूर्वास्वपीयेत । एवं प्रतिसेयनाकुसीलोपि । कसायकुसीलपुव्का, गौतम । जपय्यमाहवचममा

वगमि केवइयचमु हाज्जा । हेमोतम एक केवइयानेविपे इवे । पुलाणुण भते केवइयं वृत्ते वहिज्जेव्वर । पलाव हेमगणवुं किंका वुपसिहावत्त मधि र व उत्तर । मावमा जइवव ववणु पवणु तएय पायार वरुणु । हेमोतम जवववकी नवमा पुंमना पीजा पारारवसु पथिवाारविमयव तेवने मधि । उ हावव वर पुव्वाइं पडिजेज्जा वउसेय पव्वा । उत्तरवकी नव पूवमते मधि वज्जयमा प्ररुतकीवा उत्तर । गावमा जइवव वउ पवववसादाया । हेमो तम जवववकी वउ प्रवचन माताउप सिह्वाणमचे वारिणे पाठ प्रवचन माहपावन उपववा वकी तेव वारिववन्तनि पउप्रवचन मातूपरिचानि करो परमे पावनी वारिणे पानुवव पववकी तेवनां परिचान वुतवकीव इवे वतवामाटे पउप्रवचन मातू प्रतिपादन परवुत वज्जये जवववकी प विवुरे । वकीमेव दुसव्वाइं पडिजेव्वर । उत्तरवकी वय पूवमते भवे । एवं पडिसेयणाकुसीलेयि । इम प्रतिसेयना कुसीलेविसे पवि कइयो । जवा ववमेनेवं पुव्वा । कसायकुसीलेना प्ररुतकीवा उत्तर । गावमा जइवव वउ पवववसायापी उक्खीसेण वउवउ पुव्वाइं पडिजेव्वर । हेमोतम जवववकी वउ प्रवचन मातामचे मावमा वृठिठीपरं वतवामाटे पउप्रवचनमाटे प्रतिपादन परवुत जवववकी पवि इवे उत्तरवकी वउवे पूव मचे । एवं विवरेव । इम विगेवने पवि कइयो । विवएएवं पुव्वा । जवावकी प्ररुतकीवा उत्तर । गावमावुव वतिरिसे हाज्जा ० । हेमोतम वुतवकी वतिरिसे

ययुद्धे या होजा । एय गियठेवि । एय सिणाते ८ । पुलाएण जते । कि सल्लिगे होजा झणालिगे होजा
 गिहल्लिगे होजा १ गोयमा । वड्डल्लिग पढुच्च सल्लिगेया होजा झणालिगेया होजा । जायल्लिग पढुच्च णि
 यम मल्लिगे होजा एय जाय सिणाए १ । पुलाएण जते ! कडसु सरीरेसु होजा ? गोयमा ! तिसु इरा
 छियतयारुम्मएसु होजा । वउसेण जते ! पुच्छा, गोयमा ! तिसु या चउसु या होजा तिसु होजामाणे

एय गियन्यापि । एय प्पातकोपि ७ । पुसाको जदल । कि स्वस्सिण्णे जयत्तु एडल्लिङ्गे जयत्तु ? गीतम । ब्रह्मलिङ्ग पलोत्त
 रानिङ्ग वा भवदस्यलिङ्गे वा जयत्तु । प्राबलिङ्गप्लोत्तिय नियमारस्सालिङ्गे जयत्तु । एय याधरस्साठका ढं । पुसाको जदल । कतिपु सरीरेपु
 जयत्तु ? गीतम । विदीदारिकत्ते जसकामक्यारारुपु जयत्तु । पढुञ्जस्य जदल । पुच्छा गीतम । कियुवा वतुत्तुं वा जयेत्तु त्रिपु जयन्तियु

इषा इम खातक पवि कइवा छार ८ द्विजे विनवार जयमा कइये—पुडाएव भते किं सखिगे हाळा यवखिगे हाळा मिहखिग हाळा । पुसाक जेभम
 वत्तु प्पातामे निय बुवे पयवा यवखिगे बुवे इ म छतर । भोजमा यवखिग पठुच्च सखियेवा हाळा यवखियेवाहाळा । जेभी
 तम तिहाणिग हापयकारे एव द्रव्यनिग एव भावनिम इ तिहा भावनिम प्राणादिभोज एव खन्धिभोज प्राणादिभावने परिकल्पनाय भावबको
 गया द्रव्यनिग जेभूपकारे एव यवखिग बीजा परनिप २ तिहा सखिग त रखावरवादि तथा परखिम ते बहूपकारे क्तोर्विकखिग यवखिग २ एतथा
 माटे द्रव्यनिग यात्रयाने म्निगे इव पयवा यवखिगनेविपे बुवे २ यवथा यवखिगनेविपे ए बुवे । भावखिमं पठव । भावखिग यात्रयोनि । नियम स
 निजे हाळा । निय मखिगे इव । एव आत्र निखाणवि ८ । इम यावत्तु जनातकसये कइवा छार ८, इव गरोरहार एयमा कइये । पसाएव भते कइमु सरी
 रेव हाळा । पसाक जेभमवत्तु खतसा गरीरनेविपे इव ६ म छतर । तिसु पाराखिब तेवाक्यपरस हाळा । जगीतम तीज योदारिख तेजस कामरग
 रोररत्रिये बुव । इडसेण भते पुच्छा । बल्लुम जभमवत्तु खेतसे गरीरे बुव ६ म छतर । गायमा तिसुवा यवसुवाहाळा तिसुहाळाभावे । जगीतम ती

यात्, ब्रह्मसिंग तु द्वेषा स्वामिभूतपरल्लिङ्गभेदा सत्र स्वलिङ्गं रजोहरबादि परलिङ्गं च द्विषा भुस्तीर्थिकलिङ्गं गृहस्थलिङ्गं चेत्यत आह-पुसाएवं न
 ते । किं सलिंग इत्यादि ॥ त्रिषिपलिङ्गेऽपि तत्र ब्रह्मव्यसिङ्गामपेक्षत्वा हरणपरिचामस्यति शरीरद्वार ध्यात्, इन्द्रद्वारे-पुसाएव प्रते । किं कम्मजु
 मीए त्यादि ॥ अमकमतित्राय पदुचति ॥ अन्म सत्यादः सद्भावश्च विवर्जितशेना इम्यत्र तत्र वा पातस्य तत्र चरकजावे मास्तिस्व मतपो स्य सुमा

तिसु ठराळियतेयाकम्मएसु होज्जा । चउसु होज्जमाणे चउसु ठराळियवेउच्चियतेयाकम्मएसु होज्जा । एव
 पफिमयणाकुसीले पुच्छा, गो० ! तिसु या चउसुवा पचसुया होज्जा । तिसु होज्जमाणे
 तिसु ठराळियतेयाकम्मएसु होज्जा । चउसु होज्जमाणे चउसु ठराळियवेउच्चियतेयाकम्मएसु होज्जा । पचसु

धीदारवत्तैत्रसकामसु प्रवेत् । चतुपुं मवम् चतुर्धादारिकवैक्रियतेजसकामसु प्रवत् । एव प्रतिवचनाकुञ्जीसोपि । कयायकुञ्जीसपुष्पा,
 यीतम । त्रिपु या चतुपुं वा पचसुया प्रवेत् । त्रिपु मवन्तिवधीदारिकतेजसकामसेपु प्रवेत् । चतुपुं प्रवन् चतुपुं धीदारिकवैक्रियतेजसकाम
 सपु प्रवेत् । पचसु प्रवन्पचसु धीदारिकवैक्रियाहारकतेजसकामसेपु प्रवेत् । मिथन्य आसकथ यथा पुसाक १० । पुसाको प्रवत् । किं

मयरोत्ते विपे यवना चारमरोत्तविपे इवे तोत्तनेविपे होतावकी । तिसु धीदारिक तेयाकम्मएसु होज्जा । तीम धीदारिक तेजस काममयरोत्तनेविपे
 इवे । यन्म होज्जमाचे वडसु धारासिब वेडविचिय तेयाकम्मएसु होज्जा एव पडिसेवना कुषीसवि । चारनेविपे होतावकी चारि धीदारिक वेत्तिय तेज
 स काममनेविपे इवे इम प्रतिसेवना कयोत्तनेविपे पचि कडवना । कसावकमोत्तच मते पण्डा । कयाय कयीस जेमगवन् नेतवे यरोरे इवे इ म उत्तर ।
 गासमा तिमवा चउसुवा पंचमवा होज्जा । जेगीतम तोत्तनेविपे चारनेविपे यवना पांचनविपे इवे । तिसु होज्जमाचे तिसु धीदारिक तेया कम्मएसु
 होज्जा । तोत्तनेविपे होतावना तोत्तनेविपे धीदारिक तेजस काममनेविपे इवे । चउसुहोज्जमाचे वडसु धारासिब वेडविचिय तेया कम्मएसु होज्जा । चारि
 नेविपे होतावकी चारि धीदारिक वेत्तिय तेजस कामं च मरोत्तनेविपे इवे । पचसु होज्जमाचे पचसु धारासिब वेडविचि पाहारग तेया कम्मएसु होज्जा ।

शहरद्वी ॐ साप्रतीत्य पुनाकाः कर्मभूमौ प्रवे तत्र जायते विहरति च तत्रैवे त्यथा, अकर्मभूमौ पुन रथौ न जायते तज्जातस्य चारित्र्याना वात् न च तत्र यतते पुनाकमर्थी धामनास्य देवादिभिः सङ्गते मऽद्याप्यत्यात् यतुगसूत्रे ॥ नोचकर्मभूमौए होज्जति ॥ अकर्मभूमौ यतुञ्जी न कर्मतो यतति, अकर्मविहारतय परकर्मविहारतस्तु कर्मभूम्या मकर्मभूम्यां च सम्भवतीत्यतदेवाह-साहरत्पङ्कजेत्यादि ॥ ११ च सहरत्वे से

होज्जमाणे पचसु चैराखियेउच्चियथाहारगतेयाकम्मएसु होज्जा गियथो सिणाठय जहा पुलाठ १० । पुला एण ञ्ति ! कि कम्मभूमिसु होज्जा ? गोयमा ! जम्मणसतिनाथ पङ्कुच्च कम्मभूमौए होज्जा णो अकम्मभूमौए होज्जा । धउसेण पुष्का, गोयमा ! जम्मणसतिनाव पङ्कुच्च कम्मभूमौए होज्जा

कर्मभूमिपु प्रवत्कर्मभूमिपु प्रवत् । गीतम । अन्तसद्भावं प्रतीत्य कर्मभूमौ प्रवत् नो अकर्मभूमौ प्रवेत् । यत्तुष्ठापुष्वा, गीतम । अन्तसद्भाव प्रतीत्य कर्मभूमौ प्रवेत् नो कर्मभूमौ प्रवेत् । सहरत् प्रतीत्य कर्मभूमौ प्रवेत् एव यावरज्जातकः । ११ पुलाको प्र० ।

पचनेविषे ज्ञाताहवा पाच घोहादिक वैविध पाहारत् तेषस कामचनविषे बुवे । विर्यठा सिवापाच कडा पुष्वाया । निर्येव स्नातक इ वे जिन पमाच कडा तिम कडा एतसे योगदिक तेषस कामचने विषे बुवे चार १, विवे इय्यारमा चेषवार कचेवे—पुष्वाएव मते वि अकर्मभूमिसु हाज्जा । पसाच इभपरत्प्य कर्मभूमिनेविषे बुवे इ प उत्तर । मायमा अकर्मभूमौएहाज्जा । वा पचकर्मभूमौए होज्जा । वैभोतम अय त्रिधा पन ज्ञाताया मावपाचनेने पसाच कर्मभूमिनविषे अगमपामे थने कर्मभूमिनेविषेव विहारकरे पचि पचकर्मभूमिनेविषे अयजे तिङ्गी अयगाने वा रिचना पमाचको तिङ्गी भत्ते पचि नहो पसाच कर्मभूमिनेविषे यत्तमागने देवादिसे सहरत्ताना पंभाचको । अचयेव पुष्वा । पचकर्मना प्ररज्जकोथी उत्तर । मायमा अकर्मभूमिनेविषे अकर्मभूमौए हाज्जा थो पचकर्मभूमौण होज्जा । वैभोतम अयजेवा कडा ज्ञाता मावप्रते पाच्यथीने अकर्मभूमिनेविषेव बुवे पचकर्मभूमिनेविषे अगमचको तथा अज्जत विहारको पचि न बुवे तथा । साहरत् पङ्कुच्च कर्मभूमौए होज्जा पचकर्मभूमौएवा हाज्जा एवं जाव सिचाए ।

शास्त्रकारके शास्त्रदेवादिनिर्णयनं । कास्यद्वारे त्रिविधः कासो ऽवस्यप्यस्यादिः ॥ तत्रा र्थावय प्ररतैरावतयो र्ख्यतीपक्षु महाविदेहैर्मयंसाविपु । सुसमदुरसमकाल वा होज्जति ॥ भाविदेवकाले इत्ययः ॥ सुसमसुसमाकालेवेति ॥ बलुर्पे चरके इत्यर्थः सत्त्वा स्वमादुया व्याप्यत्रा ऽवी जायते

साहरण पशुस्र कम्मन्नुमीए होजा अकम्मन्नुमीए वा होजा । एव जाव सिणाए ११ । पुछाएण जते ! किं
 ठसप्यिणीकाले होजा उस्सप्यिणीकाले होजा णो ठसप्यिणी णो उस्सप्यिणीकाले होजा ? गोयमा । उग
 प्यिणीकाले वा होजा उस्सप्यिणीकाले वा होजा णो ठसप्यिणीणोउस्सप्यिणीकाले वा होजा । जह ठस
 प्यिणीकाले वा होजा किं सुसमसुसमाकाले होजा ? । सुसमाकाले होजा २ । सुसमदुसमाकाले होजा ३ ।

किंमुस्सप्यिणीकाले प्रवेदवस्यिणीकाले जवत्, मो अवस्यिणीनोउत्सप्यिणीकाले जवेत् ? यीतम । उत्सप्यिणीकाल वा जवेत् अवस्यिणी
 काले वा जवेत् । नो अवस्यिणी मो उत्सप्यिणीकाले वा जवत् । यद्यवस्यिणीकाले वा जवत् किं सुसमसुसमाकाले जवेत् १, सुसमाकाले

एषां सहरण जहतां विषात्तरवो यीजा विषात्तरनेविये जा देवादिक् जपाओ मूके ता त पाओनि परजतविहार वमभूमिनविये जवे तथा पक्कममूमि
 नेविये पवि हुवे एवा बमके इम जावत् स्मात्तक ताखगे जहवा ११, जिव बारमा कासहार कहेले - पुसाएव भते किं पासप्यिणीकाले होजा उच्छप्यिणी
 बासिहोवा की पासप्यिणी वा उच्छप्यिणीकास होजा । पहाक जेभगवत्सू पाखजा पवगाहना घटता जाय ते पवसप्यिणीकास कदिय ते सनेविये
 जव पवववा पाखची पववाहना जठवा जाय ते उच्छप्यिणी ते सनेविये हुवे ए पदिखा सासबासे भरतपिरवतनविये हुवे तथा बीजाकाल नको पवस
 प्यिणी उच्छप्यिणी नको ते महाविदेह जेसवतादि जेवनविये हुवे तिहा हुवे ए म उत्तर । गायमा आमप्यिणी नामदा । इत्थ । इगोतम पवसप्यिणी
 बासनेविये हुवे पवववा । उच्छप्यिणीबासनेविये पवि हुवे पवववा । वा पासप्यिणी वा उच्छप्यिणीकाले वा होजा । नको पवस
 प्यिणी नको उच्छप्यिणीबासनेविये हुवे । जह पासप्यिणीबासनेविये होजा किं सुसमसुसमा काले वा होजा । ए जो उच्छप्यिणीकासनेविये हुवे तो स्र सुपम

गुणिनाय पशुचेत्यादि ० अथमप्यिष्यां सद्गायं प्रतीत्य तृतीयपशुर्षषभारक्षेणु प्रवे तत्र बहुपर्याये जातः स प्यथने ऽपि वसते ॥ तृतीयपशुर्षार
 बन्द्गावन्तु तत्रत्नपूरक इति ॥ अथ उरभृष्विषीत्यादि ० उरभृष्विष्यां द्वितीयतृतीयचतुर्थेय रक्षणु जन्मतो जयति तत्र द्वितीयस्याने जायते
 गृणायेत अरवं प्रतिपठते ० तृतीयपशुपयो स्तु जायते अरवं च प्रतिपद्यत इति ० सद्गाव पुन प्रतीत्य तृतीयपशुपयो देव तस्य उता । तयोरेय
 परवप्रतिपत्त रिति । अथ षाष्ठमप्यिषीत्यादि ० सुषमसुषमपत्तिमागति ॥ सुषमसुषमायाः प्रतिप्रागः सावृश्य यत्र काले स तथा अथ देवजुक्तर

दुग्ममसुषमाकाले होजा १ । दुस्समाकाले हाजा ५ । दुस्समदुस्समाकाले होजा ६ । ? गीयमा ! जम्भ
 ण पशुञ्च णी सुमसुसमाकाले होजा १ । णा सुसमाकाले होजा २ । सुसमदुस्समाकाले या होजा ३ ।
 दुग्मसमुसमाकाले या होजा ४ । णी दुस्समाकाले होजा ५ । णो दुस्समदुसमाकाले होजा ६ । सतिचाय

प्रवेत् २ सुषमदु ममाकाले प्रवेत् ३, दुसमसुषमाकाले प्रवेत् ४ दुस्समाकाले प्रवेत् ५ दुस्समदुस्समाकाले प्रवेत् ६ ? गीतम । जन्म
 प्रतीत्य णो सुषमसुषमाकाल प्रवेत् १ णो सुसमाकाले प्रवेत् २ सुषमदुसमाकाले वा प्रवेत् ३ दु-समसुसमाकाले वा प्रवेत् ४ णो दुस्व
 सुषमाकाले इवे । अथवा । अथमाकाले इवाया सुषमदुसमाकाले इवाया ३ । अथमाकाले इवे सुषम सुषमाकाले इवाया ४ । दु
 यम अथमाकाले इवे । दुषमाकाले इवे पथवा । दुषम सुषमाकाले इवे इ० प्र उतर । गीय
 मा अथवा पथवा । इतीतम जग्म यात्रयेति । वा अथमससमाकाले इवाया १ । अथसविं बोकाठना पथिसो परतो तेइनेविये न इवे । णो सुषमाकाले
 इवाया २ । तथा सुषमा बोका परा तेइनेविये पथि न इवे तथा । सुषम सुषमाकाले इवाया । सुषम सुषमानाम णोवोपरो तेइनेविये इवे प्रथम तो
 अथरानो पथपाये ३ । सुषमससमाकाले इवाया ४ । दुषम अथमाकाले इवे इवे एतथे जग्मपात्रयेति बोका बोया परा विना न इवे ४ । वा सुम
 माकाले इवाया ५ । दुषुमाकाले पथमो परतो तेइनेविये न इवे । णो दुषुमसुषमाकाले इवाया ६ । दुषमदुषमा अथा परतो तेइनेविये पथि न इवे १ ।

समाकाले होजा १ । दुस्समाकाले होजा २ । दुस्समसुसमाकाले वा होजा ३ । सुसमदुस्समाकाले वा होजा ४ । जो सुसमाकाले वा होजा ५ । जो सुसमसुसमाकाले वा होजा ६ । सति नाव पदुच्च जो दुस्समदुस्समाकाले होजा ७ । जो दुस्समाकाले होजा ८ । दुस्समसुसमाकाले होजा ९ । सुसमदुस्समाकाले वा होजा १० । जो सुसमाकाले होजा ११ । जो सुसमसुसमाकाले होजा १२ । जइ जो ठसपिणीजीउ

१ गीतम । जन्म प्रतीत्य भी दुस्समसुसमाकाले जवेत् १ । दुस्समाकाले जवेत् २ । दुस्समसुसमाकाले वा जवेत् ३ । सुसमदुस्समाकाले वा जवेत् ४ । जो सुसमाकाले वा जवेत् ५ । जो सुसमसुसमाकाले जवेत् ६ । सद्भाव प्रतीत्य भी दुस्समसुसमाकाले जवेत् १ । जो दुस्समाकाले जवेत् २ । दुस्समसुसमाकाले जवेत् ३ । सुसमदुस्समाकाले जवेत् ४ । जो सुसमाकाले वा जवेत् ५ । जो सुसमसुसमाकाले वा जवेत् ६ । यदि भी अवसरिपस्सुसुस बस्यं पदव वा दुस्समसुसमाकाले होजा १ । तेनोतम अवसरिपोकाले जग्म पान्यवीने दुस्समसुसमाकाले पडिका परी. न हुने । सुसमाकाले होजा दुस्समसुसमाकाले होजा २ । सुसमदुस्समाकाले होजा ३ । तदा होजे परे होजे परे ३ ५ तीम उच्चपिपोकाकला परानेविने हुने तिहा होजा परानविने जग्म, पने होजा परानविने चारिप पडिवले पने होजे परे तो जग्म पने चारिप पडि पडिपोकार करे इति ४ । वा सुसमाकाले होजा ५ । सुसमाकाले न हुने । जो सुसमसुसमाकाले होजा ६ । सुसम सुसमाकाले हुने नहो तथा । संतिभाव पदुच । चारिभाव प्रते वा जयोगी । चारिपमदुस्समाकाले होजा १ । दुस्समदुस्समाकाले होजा २ । वा सुसमाकालेविने पडि नहुने । दुस्सम सुसमाकाले सुसमाकाले जवेत् ३ । जो सुसमाकाले होजा ४ । होजा होजा परानेविने नहुने ते उच्चपिपोकाले होजा ५ । सुसमाकाले होजा ६ । सुसमदुस्समाकाले होजा ७ । सुसमसुसमाकाले होजा ८ । सुसमसुसमाकाले होजा ९ । सुसमसुसमाकाले होजा १० । सुसमसुसमाकाले होजा ११ । सुसमसुसमाकाले होजा १२ । जइ वा अवसरिपो भी उच्चपिपोकाले होजा । जो नहो अवसरिपो नहो उच्चपिपोकाकाले होजा । कि सुसमसुसमाकाले पडिमाने वा

स्वप्पिणीकाले होजा कि सुसमासुसमापलिजागे होजा १ । सुसमापलिजागे होजा २ । सुसमदुस्समापलिजागे होजा ३ । दुस्समसुसमापलिजागे होजा ४ ? गो० ! जम्भणसंतिजाव पढुच्च णो सुसमसुसमापलिजागे होजा १ । णो सुसमापलिजागे होजा २ । दुस्समसुसमापलिजागे होजा ३ । वडसेण जंते ! पुच्छा, गोयमा ! संसप्पिणीकाले वा होजा होजा णो

प्पिणीकास जवेत् कि सुसमदुसमाप्रतिजागे जवेत् २ सुसमदुस्समाप्रतिजागे जवेत् ३, दुसमसुसमाप्रतिजागे जवेत् ४ गौतम । जम्भणसंतिजागे जवेत् १, गो सुसमाप्रतिजागे जवेत् २, जो सुसमदुसमाप्रतिजागे जवेत् ३, दुसमसुसमाप्रतिजागे जवेत् ४ । वडुक्कस्य जदत्त । पुच्छा गौतम ! अथसप्पिणीकासे वा जवेत्, अथसप्पिणीकासे वा जवेत्, जो अथसप्पि

या १ । ता एव सुसम सुसमा त सरोया तिहाकाव तेजनेविये एतथे देवकाव उत्तरकुइनेविये इवे । सुसमा पखिमागे होजा । सुसम सरोयोकाव ४ इनेविये इतल इरिवव एस्सवसेनेविये इवे । सुसमदुसमा पखिमाने होजा २ । सुसम सुसमा सरोयाकाव हेमवत ऐरएवतथेव तेइदेविये इयाय । सुसमसुसमा पखिमागे होजा ३ । दुसमदुसमा सरोयोकाव महादिइइसेनेविये इवे इ० प्र उत्तर । गोयमा अथसप्पिणीकासे पढुच्च । गौतम ए पवयो तथा जता भावपते पाचयीने । जो सुसम सुसमा पखिमागे होजा २ जो सुसमदुसमा पखिमाने होजा ३ । ज जो अथसमजमा कावसरोया कावनेविये इय १ तथा नही सुसमासरोया कावनेविये इय २ तथा सुसम सुसमासरोया कावनेविये इय नही ए तीन कावसरोयाकाव अथसमभूनेविये इया तिहा सुसावनी जग्ग तो नही पनी जताभाव पाचयीने पखिनी जिमाटे तिहा देवादिने अइरिये करो प वि नही पुसाव अन्विनविये वत्तमाने देवादि अइरियेने अथसमं पचायको । दुसम अथसमा पखिमागे होजा । सुसम सुसमासरोयो काव महाविदे इ अथनेविये इय तिहा जग्गपाचयी तथा जता भावपाचयीने पवि इय । अथसेवं मंते पुच्छा । इकुप हेमगवत् इत्यादि प्रत्य उत्तर । गोयमा अथ

तसप्यिणीकाले वा होज्जा नी उस्सप्यिणीकाले वा होज्जा । जइ उस्सप्यिणीकाले होज्जा कि सुसमसुसमा
 काले वा होज्जा पुच्छा, गो० ! जअण्य सतिनाय पट्टुच्च नी सुसमसुसमाकाले होज्जा १ । नी सुसमाकाले
 होज्जा २ । सुसमदुस्समाकाले होज्जा ३ । दुसमसुसमाकाले वा होज्जा ४ । दुस्समाकाले वा होज्जा ५ । नी
 दुस्समदुस्समाकाले होज्जा ६ । साहरण पट्टुच्च स्थणुरे समाकाले । जवि उंसप्यिणीकाले होज्जा कि दुस्स

बीवाल, वृ प्रवे को तसप्यिणीकाले वा प्रवत् । ययवसप्यिणीकाले वा प्रवे त्वि, सुसमसुसमाकाले वा प्रवेरपुष्वा गौसम । अन्म सप्राय
 प्रतीत्य नी सुसमसुसमाकाले प्रवत् १ । नी सुसमाकाले प्रवत् २ । सुसमदुस्समाकाले प्रवत् ३ । सुसमसुसमाकाले वा प्रवत् ४ । दुस्समाकाले
 वा प्रवत् ५ । नी दुस्समदुस्समाकाले प्रवत् ६ । सहरण प्रतीत्या प्यठरे समाकाले । यदुस्सप्यिणीकाले प्रवे त्वि, सुसमदुस्समाकाले प्रवेत् ६

प्यिणी काले वा होज्जा, उस्सप्यिणीकाले वा होज्जा । वेगीतम यवसप्यिणीकाले प्रवे । नी प्रासप्यिणीकाले वा होज्जा वा उस्स
 प्यिणीकाले वा होज्जा । नी प्रवसप्यिणीकाले प्रवे । अर प्रासप्यिणीकाले वा होज्जा । वा यवसप्यिणीकाले प्रवे ता । प्रवे सु
 समसुसमाकाले वा होज्जा । प्रवे सुसमसुसमा काले प्रवे । वायमा अन्म सतिमा प्रवत् । वेगीतम अन्मपाययोनि तवत् ।
 ता सावते पाययोनि । नी सुसमसुसमा काले वा होज्जा । नी सुसमा काले वा होज्जा २ सुसमदुसमाकाले होज्जा ३ ।
 नी यवमाकाले प्रवे सुसमदुसमा काले प्रवे । दुसम सुसमाकाले प्रवे प्रवे ४ । दुसमाकाले वा होज्जा ५ ।
 दुसमाकाले प्रवे । वा दुसमे सुसमाकाले वा होज्जा ६ । नी दुसम सुसमा काले प्रवे प्रवे । देवादिने सहरण पाययोनि ।
 प्रवरे समाकाले । प्रवे काइएव परासरीका काले प्रवे । अर प्रासप्यिणीकाले वा होज्जा । वा उस्सप्यिणीकाले प्रवे । कि
 दुसमदुसमाकाले वा होज्जा ६ । ता च्च दुसम सुसमाकाले प्रवे प्रवे । वायमा अन्म पाययोनि । नी दुसमदुस

मनुस्वमाकाले होजा ६ ? गीयमा ! जम्मण पनुच्च णो दुस्समदुस्समाकाले होजा जहेव पुल्लए । सतिन्नाव पनुच्च णो दुस्समदुस्समाकाले होजा एव सतिन्नाविणवि जहा पुल्लए जाय णो सुसमसुसमाकाले होजा । साहरण पनुच्च च्छय्यरे समाकाले होजा । जहा णो उस्सप्विणी णो उस्सप्विणीकाले होजा पुच्छा, गीयमा । जम्मण सतिन्नाव पनुच्च णो सुसमसुसमापलिन्नागे होजा जहेव पुल्लए जाय दुस्समसुसमापलिन्नागे होजा

? गीतम । अत्त प्रतीत्य णो दुरस्समदुस्समाकाले, ज्वेत्त् यथेव पुल्लकः । सद्भाव प्रतीत्य णो दुस्समदुस्समाकाले मवेदेव सद्भावोमापि यथा पु साको याव को सुसमसुसमाकाले ज्वेत्त् । सहरणं प्रतीत्या स्वतर समाकाले मवेत्त् । यदि णो अस्सप्विणीकाले ज्वेत्त् पुच्छा, गीतम । अत्तसद्भाव प्रतीत्य णो सुसमसुसमाप्रतिज्ञाने मवेद्यथेव पुसाको यायदुस्समसुसमाप्रतिज्ञाने मवेत्त् । सहरण प्रतीत्या स्वतरे प्रतिज्ञा

माकासेहात्वा जहेव पुच्छए सतिन्नाव पनुच्च । नही सुखम सुखमाकासनेविदे बुवे जिनस्य पुसाकाले अद्वा तिम इहा पवि अहवो अता मावपते आयथी ने । वा दुस्समदुस्समाकाले होजा एव सतिन्नावे वरि अहा पुच्छए । नही दुखम दुखमाकासनेविदे इवे इम अता मावपते आयथीने पवि अिम पुसा काले तिम अहवो अता मावपते सुसमसुसमा काले होजा । यावत् नही सुखमसुखमा कासनेविदे बुवे । सहरणं पनुच्च अहवरे समाकाले हात्वा । देवादिने संहरणं आयथीने चोत्तरोत्तारिणं अजिसरीको काव जिहा इवे तेअनेविदे बुवे । अर वा चोत्तप्यथो वा अस्सप्विणीकाले होजा एव सतिन्नाव पनुच्च । गीतम अग्ग एवा अतामाव पते आयथीने । वा सुसम सुसमा पविभागे होजा जहेव पुल्लए । नही सुखमा सरोखाकासनेविदे बुवे जिन सोअ पुसाकाले विदे अद्वा तिम इहा पवि अहवो । जाव सुसमसुसमा पविभागे हात्वा । यावत् सुखम सुखमा सरोखाकासने विदे बुवे । सहरणं पनु च्छय्यरे पविभागे हात्वा अहा अउसे । देवादिक् सहरणं करी मरुहे ता अनेता आइएव अरा सरोखा कासनेविदे तेअने विदे बुवे जिन अग्गय कइती ।

ठंय जहा पुसाठेति ॥ एती पुसाक्यद्वयव्यो विष्टेयं पुनराह-नकरं एएचि अश्विहियं साहरवं जाबियेति ॥ पुसाकस्य हि पूर्वोक्तपुल्या संहर
 वं नास्त्यतयो य तस्वस्मवतीति कत्या गद्वायं सहरबहारेव च य स्यायोः सवबालेषु समस्यो अश्वी पूर्वसङ्गतयो मिप्रत्यजातकत्वमाशौ वृष्यो
 यतो नापनतवेदामां सहरबालीति पदाह-समसीभवगमयेवं परिहारपुसायमप्यस्तथ । ओषुवपुष्टिभावा रपननकोसहरइति ॥ १ ॥ गतिमा
 रे-श्रीपमोदिवा देवगति रिप्रारय कम्पेदा कावायु च पुलाकादीनां निरूप्यते तत्र च ॥ अचिरात्पुच पशुइति ॥ अचिरापना आनादीना मयवा

साहरण पशुश्च श्वस्यपरे पठिनागे होजा जह् यउसे एव पठिसेवणाकुसीलेति । एव कसायकुसीलेति ।
 णियठी सिणान्तय जहा पुलाए । णवर एएचि श्वश्विहिय साहरण जाजियसुं । सेस तचेव १२ । पुलाएण
 जन्ते ! कालगए समाणे क गति गच्छुह ? गीयमा ! देवगति गच्छुह देवगतिं गच्छुमाने किं नवणवाशी

ये प्रवेद्यया पशुश्च एवं प्रतिसेवनाकुसीतोपि । एवं कसायकुसीतोपि । निर्यन्त्यस्तातकच यथा पुसाको नवरमतयामप्यपिच सहरवं प्रति
 सव्यं । श्वेवं तचेव १२ । पुसाको नरत्स । कातकतः सव्यां गति गच्छति ? गीतम । देवगतिं गच्छति । देवगतिं गच्छन् विं प्रवत्वाविपुल्प्ये

एवं पठिसेवनाकुसीलेति एव कसायकुसीलेति । एत प्रतिसेवना कुसीलेतिवै पथि कइवा इम कसायकुसीलेने विवै पथि कइयो । विवठे सिषायो
 कथा पुलाए । निर्यन् कातक पवेकं पुसाकोपरे कइना । नवर एएचि प्रसदिव साहरवं भाविबवं सेसतचेव १२ । एतकावियेय ए वेकने पठिको
 सहरव जाबिवा ते किम पुसाकने प्रीत बुविंये करो संहरव नशेके पुसाककविनामयको पने वेकने सहरवको संभवइ इमकरीने ते कइको संव
 रवहारेकरो के तेइने सर्वकाकने विवै सभव ए वेकं पठिवा संहरा पठे निरीक कातकपचानो मातिवइवो केसटि अपपयत वेकने संहरव नको कइ
 इ- समसीभवगमयेवं परिहारपुसाकमप्यमस्तं च । अश्वसुण्णियाहारमपचबकोसहरइति ॥ १ ॥ इवै १२ अतिहार कइवै-पुसाहच मते काकय
 एसमावे चं मति नरत्सर । पुसाक इमननन् काव मास नवो नको विचो मतिपते काव इ म कतर । नोकमा देवमति गच्छइ देवमति गच्छमावे ।

नाम्ने रसुपीधना ऽत एतौ प्रतीत्य अविद्विर्पक्षा सप्त इत्यर्थः ॥ अक्षरपरेषु उच्यते अस्मिन् ॥ प्रयत्नपत्त्यादीनां मन्वतरेषु देवेषूपत्यद्यन्ते, विराचितसं

सु उच्यते जा याणमन्तरेषु उच्यते जा जोडसियेयमाणिषु उच्यते जा ? गीयमा ! णो नत्रणवासी णो याणमन्तर णो जोडसियेयमाणिषु उच्यते जा, वेमाणिषु उच्यते जा जहणेण सोहम्मे कप्पे उक्खी सेण सहस्सारे कप्पे उच्यते जा । यउसेण एव चेत्र णवर उक्खीसेण अच्चुए कप्पे । पण्डिसेवणाकुसीले जहा यउसे । कसायकुसीले जहा पुलाए णवर उक्खीसेण अणुत्तरयिमाणंसुय । णियठेण न्ते ! एवचेव जाय वे

त वागव्यन्तरपूपद्यत ज्योतिरूपेयमानिकपूपद्यते ? गीतम । मो प्रवत्तवाचिपु णो वागव्यन्तरेषु मी ज्योतिरूपे वेमानिकेपूपद्यते वेमानिकेपूपद्यमानो अपत्यन सौभर्मं करप उरुत्तपेत । सकुय एव चेत्र णवर सुत्तपेतो ऽप्युत्त कसप । प्रतिवचनाकुसीलो यथा वज्जु ष्ठ । कथापज्जुष्टिना यथा पुलाको णवर सुत्तपेतो नुत्तरविमानपु च । णियन्तो मदत्ता । एव चेत्र यावद्देमानिकपूपद्यमानो ऽअपत्यमनुत्तप मनु देवोत्तम वेववति प्रते काय देवगतियेविने ज्ञातावका । किं भवववासीस उच्यते ज्ञा । अं मवपतोनविदे अपत्ते । वाचमन्तरेषु उच्यते ज्ञा । वागव्यन्तर नेविदे अपत्ते । आरमिन्वमाचिपु उच्यते ज्ञा । ज्ञातियोनविदे अपत्ते वेमानिकने विदे अपत्ते इ म उ । गा यामववासी णो वाचमन्तरा आरुचिय वेमाचिपु उच्यते ज्ञा वेमाचिपु उच्यते ज्ञा । देवोत्तम मङ्गी भवमन्तरेविदे अपत्ते मङ्गी वागव्यन्तरनेविदे अपत्ते मङ्गी ज्योतियेने विदे अपत्ते वेमानि कइने विदे अपत्ते वेमानिकनेविदे अपत्ततोवका । अइसच साइअअपे उच्यते सइकारे अपत्ते उच्यते ज्ञा । अचम्यवको हीवमंनानामादेव नाक नेविदे याए उरुत्तपेतो सइसारानामा देवकावन्विदे अपत्ते सकुय पचि इमङ्गी उच्यते । अचम्यवको हीवमंनानामादेव तनासा वारमा देवकावन्विदे अपत्ते । पण्डिसेवणाकुसीले जहा यउसे । प्रतिवचनाकुसीले ज्ञिम सकुग कइता तिम कइता । कसायकुसीले जहा पुला० । कथावकमोच विम पुलाक कइता तिम कइता । अवर उच्यते पञ्चुत्तरविमाने विदे अपत्ते । एतथीविशेष पञ्चुत्तरविमाने विदे अपत्ते । विद्यते

पमानां प्रवनपत्याद्युत्पादस्योक्तत्वात् यच्च मागुक्तवमादिप्रसुतवधच्छेदिति । तदस्यपमाऽविरापकत्वमभित्यावसेयम् अयमह्वरे-अयसत्त्यागानि

माणिणिसु उयवज्जमाने अजहस्रमणुक्कोस अणुस्ररयिमाणेसु उयवज्जोजा । सिणाणुण ङते ! कालगणसमाणे
क गतिं गच्छति ? गीयमा ! सिद्धगतिं गच्छति । पुलणुण ङते ! देवेषु उयवज्जमाने किं इवस्राणु उयवज्जे
ज्जा तायत्तीसगस्राणु उयवज्जेज्जा लीगपालस्राणु उयवज्जेज्जा अहमिदस्राणु उयवज्जेज्जा ? गीयमा ! अयि
राहण पणुच्च इवस्राणु उयवज्जेज्जा सामापियस्राणु उयवज्जेज्जा तायत्तीसगस्राणु उयवज्जेज्जा लीगपालस्राणु

तरविमानपूत्यद्यत । आतको प्रदत्त । कासगत वन्नां गतिं गच्छति ? गौऽसिद्धगतिं गच्छति । पुसाको प्रदत्त । देवपूत्यद्यमानः किञ्चिन्नृतयोत्यद्योता
त्रापत्त्रिहाकतयोत्यद्योत सोकपासकतयात्यद्यो इमिन्नृतयोत्यद्योत ? नौतम । अविराजमां प्रतीत्येन्नृतयोत्यद्योत सामानिज्जतयोत्यद्योत त्रायत्त्रिहाकत
योत्यद्यत सोकपासकतयोत्यद्योत नैवाहमिन्नृतयोत्यद्यत । विरापनां प्रतीस्यान्वतरेपूत्यद्योत । एव चतुयोपि । एव प्रतिवेयनाकुञ्जीसोपि । कपाय

अथ एवेषु आथ वमादिपणु उयवज्जमाने । तियत्त इमववन् इत्यादि इमकोज वावत् वैसानिकनेविये अपज्जतीवको । अथ इवववन् बुवास अयत्तरवि
मानेस उयवज्जेज्जा । अययत्त पणुत्तरत्त चतुत्तरविमानेनोपये अपये । सिखाण्ठ भते काववण्ठ समये अंगतिं गच्छति । आतक इमववन् वासयत्तवको
वनेविये अपज्जतीवको । वि, ईदत्ता इ उयवज्जेज्जा । अ, इदुपये अपये पदववा । तावत्तीसगस्राणु उयवज्जेज्जा । वावविमव देवपये अपये पदववा । आमया
ज्जाणु उयवज्जेज्जा । सोकपालपये अपये पदववा । अहमिदत्ताणु उयवज्जेज्जा । अहमिदुपये अपये इ प्र उत्तर । नोवमा अविताइव पणुच्च इवताए
उयवज्जेज्जा । इगोतम विराजना प्रानादिकनो पदववा अविपाकोविका नहो विखा विराजना तेइमते पायये अविताइव इती इत्तव इग्गुपये अपये ।
आमापियत्ताए उयवज्जेज्जा । सामानिज्जयये अपये । तावत्तीसगस्राणु उयवज्जेज्जा । वावविमवपये अपये । लीकपालपये अपये । ली अहमिदत्ताए उ

उवयज्जेज्जा णो स्य्हमिदस्साए उवयज्जेज्जा । विराहण पढुच्च स्यस्यरैरसु उवयज्जेज्जा । एव वउसेधि । एव
 पक्रिसेवणाकुसीलेवि । कसायकुसीले पुच्छा , गोयमा ! स्यविराहण पढुच्च इदत्ताए था उवयज्जेज्जा जाय
 स्य्हमिदस्साए उवयज्जेज्जा विराहण पढुच्च स्यस्यरैरसु उवयज्जेज्जा । गियठे पुच्छा , गोयमा ! स्यविराहण
 पढुच्च णो इदत्ताए उवयज्जेज्जा जाय णो लोगपालत्ताए उवयज्जेज्जा स्य्हमिदत्ताए उवयज्जेज्जा । विराहण

कुकीसपुष्पा , गौतम । अविराजना प्रतीत्येन्द्रतया वोत्पद्येत यावत्स्यमिन्द्रतयोत्पद्येत । विराजना प्रतीत्यास्यत्तरूपत्पद्येत । निपन्यपुष्पा , गौतम ।
 अविरापनो प्रतीत्य मैवाहमिन्द्रतयोत्पद्येत यावको सोऽकपालतयोत्पद्येताहमिन्द्रतयोत्पद्येत विराजना प्रतीत्यास्यत्तरूपत्पद्येत । पुसाजस्य जय

बरखेया विराहच पश्य पश्यरेव उवयज्जेज्जा । नही पश्यमिद्वपेवे अपजे विराजनाप्रते पाचयोने भवतपतो पादिदेरे भनेरा कोरेद्व ब देवनेविने
 अपजे विराहित उवयने भवतपत्तादि उत्याहना ब्रह्मांमटे जेह पूरेबद्यो वेमाचिपसु उवयज्जेज्जेज्जि, वेमानिबनेविने अपजे तेह उवयम अविराचकपकी
 पाचयोने कजा इम लीबना । एव वउसेधि एव पच्छिरेवथा कुसोलेवि बसायकुसोसे पुच्छा । इम बकुयनेविपै पयि बहवा इम प्रतिसेवना कुयोबनेविपे
 पयि बहवो बपुबकुयोबनविपे प्रत्यकोवा उत्तर । गोयमा अविराहच पश्य । हेगौतम अविराजनाप्रते पाचयोने । इदत्ताएवा उवयज्जेज्जा जाय पश्य
 मिदत्ताए उवयज्जेज्जा । इन्द्रपजे अपजे इत्तादि यात्रम् पश्यमिद्वपेवे उवजे । विराहच पश्य पश्यरेसु उवयज्जेज्जा । विराजनाप्रते पाचयोने भनेरा भव
 नपत्तादि काइरबनेविपे उवजे । बिबठ पुच्छा । निर्गुना प्रत्यकोवा उत्तर । गोयमा अविराहच पश्य । हेगौतम अविराहित पाचयोने । वा इदत्ताए
 उवयज्जेज्जा जाय वा साकपालत्ताए उवयज्जेज्जा । नही इन्द्रपजे उवजे यावत् नही साकपालपजे उवजे । पश्यमिदत्ताए उवयज्जेज्जा । पश्यमिद्वपेवे उव
 से । विराहच पश्य । विराजना पाचयोने । पश्यरेसु उवयज्जेज्जा । पनरानेविपे अपजे । पुसाजस्य भते देवकांगे उवयज्जेज्जा कवइरयंवास ठिरे
 य० । पुसाजने हेमम्बन् इववाहन अपजवायवान अतसावाहनो स्थिति प्रकपो इ० प्र० उत्तर । गायमा बहसेव पच्छिरीदमपुस्तं । हेगौतम अवयव

तपः शान्तिश्चादि चिन्त्यते तत्र य पुनर्भाषसेत्यादि ॥ संयम शारिद्रं तस्य स्थानानि भ्रुदुिप्रकर्षोमर्क्यंस्तापेदाः संयमस्यामानि तानि च प्रत्येकं च

पद्भुञ्च श्रुयारैरु उग्रयज्ञेज्जा । पुलागस्सण नते ! देवलोगेसु उववज्जमागस्स केवइय काल ठिइ प०
? गोयमा ! जहयोगेण पलिउग्रमपुहस उक्कोसेण अठारससागरोयमाइ । वउसस्सण पुच्छा , गोयमा ! जह
योगं पलिउग्रमपुहस उक्कोसेण वायीस सागरोयमाइ एव पणिसवणाकुसीलस्सवि । कसायकुसीलस्स पुच्छा
? गोयमा ! जहयोगेण पलिउग्रमपुजात्त , उक्कोसेण तेप्पीस सागरोयमाइ । णियठस्स पुच्छा , गोयमा !
अजहयामणुक्कोस तेप्पीस सागरोयमाइ १३ । पुलागस्सण नत । केवइया सजमठाणा पयसशा , गोयमा !

॥ । इयमाकपुत्पयमानस जियत्त कात्वं स्वितिः प्रससा ? गौतम । जप्येन पत्थोपमपुपुत्तमुत्कपतोष्ठाकसागरोपमावि । धकुसुत्स पुच्छा
गौतम । जप्येन पत्थोपमपुपुत्तमुत्कपतोष्ठाकसागरोपमावि , एव प्रतिववनाकुसीलस्यपि । कपायकुसीलस्य पुच्छा । गौतम । जप्येन
पत्थोपमपुपुत्तमुत्कपतोष्ठाकसागरोपमावि निप्येत्सपुच्छा गौतम । अजप्येनपुत्तमुत्कपतोष्ठाकसागरोपमावि , १३ । पुलाकस्य इम

को पत्थापम इवज्जो स्विति प्रकपो । उक्कोसेण अठार सागरोयमनो स्विति प्रकपो वज्जगोस्सि
तिना मत्रकीधो उत्तर । गायमा अक्कोसेण पणिसवणो पत्थापम इवज्जगो स्विति प्रकपो । उक्कोसेण वायीस सागरोयमाइ ।
उत्तरकपो वायीस सागरोयम । एवं पणिसवणाकुसीलस्यपि । इम प्रतिववनाकुसीलस्य पुच्छा । कपायकुसीलस्य पुच्छा ।
उत्तर । गायमा अक्कोसेण पणिसवणो पत्थापम इवज्जगो । उक्कोसेण ततोस सागरोयमाइ विवठस्य पुच्छा । उत्तरकपो
तेपोस सागरोयमनो निगोबना मत्रकीधो उत्तर । गायमा अक्कोसेण मक्कास ततोस सागरोयमाइ १३ । गौतम अक्कोसेण अठार तानि सागरोयम
नो स्विति प्रकपो , इदं सवमहर । उ मा अक्कोसेण पुलागस्सण नते कइया सजमठाणा प । पुलाक इमगवन् केतवा सवमज्जान प्रकप्या इ म उत्तर

वाँकाग्रप्रदेशाग्रनुचितसर्वाकाग्रप्रदेशपरिमात्रपप्यवोपेतानि भवन्ति तानि च पुलाकस्यासङ्केपानि भवन्ति चित्रत्रत्वा चारित्रमोहमीयत्तयोपश्रमस्य एवं यावत्कथयपुङ्खीतस्य ॥ एगे अजहसमकुङ्खीसए सजमठावेत्ति ॥ निर्यन्यस्यै कं सयमस्यानं भवति कथायाद्यामुपश्रमस्य शयस्य चाविधि

असखेजा सजमठाणा पखत्ता । एव जाव कसायकुसीलस्स णियठस्सण नते ! केयइया सजमठाणा प०
 ? गीयमा ! एगे अजहसमणुक्कीसए सजमठाणे पखत्ते । एव सिणायस्सवि । एएसिण नते ! पुलागवउस
 पठिसेवणाकसायकुसीलेण णियठसिणायान सजमठाणाण कयरे कयरे जाव यिसेसाहियावा ? गीयमा !

भवन् । कियन्ति सयमस्यानानि मज्जसानि ? गीतम । असङ्कता सयमस्यानानि मज्जसानि ? एवं यावत्कथयपुङ्खीतस्य । निर्यन्यस्य नदत्त । कियन्त
 सयमस्यानानि मज्जसानि ? नौ० । एकमवपप्यमनुत्कपे सयमस्यान मज्जसम् - एवं स्नातकस्यापि । एतेपाभदत्त । पुलाकबहुश्रमतिसेवनाकथायपुङ्खीसा
 नात्रिर्यन्यजातकानां सयमस्यानाना कतरे कतरन्त्यो पावद्विषोपाचिकावा ? गीतम । सर्वस्वीकं निर्यन्यस्य स्नातकस्य एकमवपप्यमनुत्कट सय

र । गावमा असखेवा सजमठाणा पं एव जाव कसायकुङ्खीसए । त्रेगीतम पयस्साताःसजमस्मान प्रक्या तिहा सयम कइता चारिच तेइना स्नानक
 यधि प्रकप पप्रपर्यं कतमेव ते सजमस्मान तेइ प्रखेके सर्वं चाकायप्रदेय परिमाच पर्वावसहित इवे ते पुलाक असखेय इवे विविचयपवां कको चारिच
 माइगीय चबापममना पयसे कतथा साकाकायना प्रदेय तेतथा पुलाकना सयमनास्मान एतसे पयस्साता इम कथायपुङ्खीसने पवि कइवो । विबठ
 खवं मते केवया सजमठाणा प । निर्यवना हेमवण्णं केतथा संवम स्नान प्रकथा इ प्र कतर । गावमा एगे अजहस मखुळोसए संजमठावे प० ।
 हेमीतम निर्यवने एक पयस्य चपुरकड सजमस्मान प्रकथा कथायवपममना पयवा सयना विविचयपे करो मुत्तिना एक विविचयपवां कको तेइ पयस्य
 च चपुरकूट पचाने विवे कथत्वारकडभाच सजावकको । एवं सिचायच्छवि । इम स्नातकने पवि कइवो । एएसिच भत पलाय कडस पड्डिसेववा कसाय
 कुङ्खीसेच । एइने हेमवण्णं पुलाक बहुय प्रतिसेवना कुयीक कथायपुङ्खीसने । विबठ सिचायाय सजमठाबाच कयरे र जाव विसेसाहियावा । निर्यव

शब्देन सुन्दरेकविपत्वा देवत्वादेव च तदवयवस्योत्कृष्ट बहुवचनस्योत्कृष्टजावयवत्वाकाविति । अथ पुसाबादीना परस्परतः अयमत्यागाल्पव्युत्त्वमा
 इ-एयसिर्वाभिस्यपि च सर्वस्य । श्लोकं सवस्त्रोक्तं नियन्त्रस्य काठकस्य च अयमत्यागं कृतो पस्सादेकं किञ्चतं तदित्याह-अन्वयकृत्यादि च एतयोर्वच

सप्तत्योवे णियठस्स सिणायस्स (अ १४०००) एगे अजहसमणक्कोचए सजमठाणे । पुलागस्स सजमठा
 णा अ्सखेज्जागुणा । वउसस्स सजमठाणा अ्सखेज्जागुणा । पळिसेवणाकुसीलस्स सजमठाणा अ्सखेज्जागु
 णा । कसायकुसीलस्स सजमठाणा अ्सखेज्जागुणा १४ । पुलागस्सण जते ! केयहया चरित्तपज्जवा प०
 ? गोयमा ! अ्यणंता चरित्तपज्जवा पयसुत्ता । एअ जाव सिणायस्स । पुलाएण जते ! पुलागस्स सठाणस्

मस्यान । पुसाकस्य अयमत्यागानि अस्म्येयुग्मानि । बहुवचस्य अयमत्यागाम्यसक्येयुग्मानि प्रतिशयनाकुशीलस्य अयमत्यागाम्यसक्येयुग्मानि १४ ।

पुसाकस्य अस्यान । अियत्तवारिज्जपयवाः अयसाः । नीतम । अन्वयात्वारिज्जपयवाः । मज्झिमा एव यावत्स्यातकस्य । पुसाको जवत्त । पुसाकस्य अस्यान

आतकना सबमज्जानकने माथीमादि कुच २ वको आयत्त निमोयादिक् इव इ म उत्तर । गायमा अस्मन्मोवे विचयुक्त्त सिवायक्त्त [अन्व १४० एगे]
 रेभोयम सर्वेज्जो स्याकने ते निर्गुं च आयकना सबमज्जानक ते विस जेइ मवी एकहीक कइवी ते कइवे--अन्वइअमपुजासए सजमठावे । एइ इम
 विहरना एक विविपचरिक्को । अन्वअन्व अन्वन्तुइ उअमज्जानक तेइवी । पजागए उअमठावा असखेज्जगुणा । पुजावना सबमज्जानक असज्जातगु
 वा तेइ चवापयमना विविपपवी वको । तेइवी वउसए सजमठावा असखेज्जगुणा । बहुवचना सबमस्यान असज्जातगुणा भावना पूठ्ठीपरे तेइवी ।
 पविदेववा कुसीलए सजमठावा असखेज्जगुणा । प्रतिशयनाकुशीलना सबमज्जान असज्जातगुणा रीइवी । असावकुशीलए सजमठावा असखेज्जगुणा ।
 अनावकुशीलना संयमज्जान असज्जातगुणा वार १४, चिंवे अयंवार कइवे--तिइवी निक्कई सविक्कई पुजावादिक्को एएअरे क्वोअनतेइना प्रत्यावको
 कइवे । पुसाककए भते जेइवा चरित्तपज्जवा पयस्य । पुसाकना वेमनपत्तं जेतवा चारिप पयस्य इति मत्र उत्तर । भोवमा अर्थता चरित्त

कुद्रेकवित्त्वात्, पुसाकादीनां वृत्तान्तेवावद्वेषुकादि वाणि वयोपद्यमर्चिभ्यादिति । अत्र निरुप्यद्वार-तत्र निरुप्यः सखिकर्यः पुसाकादीनां
 परपरदेक संबोधनं तस्य प्रकाशनायार्थाद्-पुसाकस्तेत्वादि । वारित्तपञ्चवति । वारित्तस्य सर्ववितरित्कपपरिचामस्य पयवाजिदो वारित्तपय
 वा लोच द्रुष्टिकता कश्चिदायत्तिच्छेदा विषयकता वा । सहाकवजिनासेवंति । स्वमासीयं सजातीयं स्वानं पयवाका नामयः स्वस्वान पुसाका
 देः पुसाकादित्त्वं तस्य सखिकर्यः संबोधनं कस्मान्ननिबन्धेन । किंहीविति । विद्युत्संपन्नत्वानसम्बन्धित्वेन विद्युत्तरप्येवापेक्षया । अविद्युत्त
 रस्यमस्यासम्बन्धित्वना विद्युत्तरः पर्येवा हीना कापीया त्वापुरपि हीनः । तुझेति । तुल्यमुद्रिकप्येवयोना तुल्यः । अस्मद्दिति । विद्युत्
 तरपयंयोनादप्यधिकः । सियहीवेति । अद्भुत्संज्ञानवर्तित्वात् । सियतुजेति । एकसंयमस्यानवर्तित्वात् । सियअस्मद्दिति । विद्युत्तर
 संयमस्यानवर्तित्वात् । संज्ञतज्ज्ञानीवेति । कितासङ्गावस्थापनया पुसाकस्योत्कृष्टसंयमस्यानपयवार्थं यत्र सखिकादि [१०००] तस्य सर्ववीजान

खिगासेण वरित्तपञ्चवेदिं कि हीजे तुझे सिय तुझे सिय अस्मद्दिति । जइ

सखिकर्येव वारित्तपयंवेः कि हीनस्तुल्योप्यधिकः । नीतम । स्याहीनः स्यात्तुल्यः स्यादप्यधिकः यदि हीनोक्ततज्ज्ञानीना असंयमेपयान
 पञ्चवा पञ्चता एव वाव सिद्धावत् । इनीतम अतस्ता दरिपयर्वाव प्रकृत्या वारित्त एवविति रूपपरिचामना पञ्चव अद्विभे भद् ते वारित्तपयंवे
 तैव द्रुष्टिभूत इम वावत् प्राप्तकक्षने कश्वा । पुसाकस्य मते पुसाकस्य ठावद्विगासेव वरित्तपञ्चवेदि किं हीजे तुझे अस्मद्दिति । पुसाक वेमगतम् पुसाक
 ने पापवा सजातीय स्मान्न अद्विभे पर्यायना पात्रव ते स्मान्न पुसाकाद्विभने पुसाकाद्विभे सजाजन तेव सजाजन च
 याजन वारित्तपयंवेदितो स्म हीन विद्युत्सिद्धसम्मान सखिकर्ये करो विद्युत्तर पर्याय पयवाये पविद्युत्तर पर्यायहीन तेहना योगबन्धो साधु पवि
 हीन अद्विभे । तुल्यति, तुल्य मुद्रिकपयवीय यागबन्धो ते तुल्यअद्विभे र 'पञ्चवेदिति, विद्युत्तरपर्याय नामसन्धो पञ्चधिक अद्विभे र प्र उत्तर । गा
 यमा सियहीजे सिद्धतुजे सिय अस्मद्दिति । हेनीतम सियहीवेति, कदाचित् हीन प्रमुत्सवम स्मानवति पञ्चावधो सिद्धतुल्यति, कदाचित् सरोका ट

नानेन अतपरिमादतया कस्वितेन प्रागे इते सर्वं घत " १००० द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपयवाच नवसहस्राणि नवसहस्राणिपिकाणि [१००००]
 पूर्वजागणसर्वं इति तत्र प्रचित्त आतानि दश सहस्राणि ततो श्री सवमीवानलकभ्रागहारकल्पम इतेन हीन इत्यनलमागहीमः ४ असहस्रज्जागणही
 यवन्ति ॥ पूर्वीककस्वितपर्यायराष्ट्रे दशसहस्रस्य [१००००] लोकाकाशप्रदेशपरिमादना सङ्केयकन कल्पमया पञ्चाशत्प्रमाकेन प्रागे इते लब्धा द्वि
 शती द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपयवाच नवसहस्राणिपिकाणि [१००००] पूर्वजागणसब्धा च द्विशती तत्र प्रचित्त आतानि दश सहस्राणि
 ततो श्री लोकाकाशप्रदेशपरिमाकाऽसङ्केयकनागहारकल्पम इति इत्यसङ्केयजागहीमः ४ सकेज्जमागहीवेवन्ति ॥ पूर्वीककस्वितपर्यायराष्ट्रे
 दशसहस्रस्य १००० लकष्टसङ्केयकेन, कल्पमया दशकपरिमाकेन प्रागे इत सर्वं सहस्रं द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपयवाचं नवसहस्राणि १०००
 पूर्वमापसर्वं च सहस्रं तत्र प्रचित्त आतानि दश सहस्राणि ततोसा मुक्तष्टसङ्केयकमागहारकल्पेन सहस्रेक हीन इति सङ्केयजागहीमः ४ सहस्रेक
 मुक्तहीवेवन्ति ॥ किलेकस्य पुलाकस्य चरकपर्यवाच्य सहस्रदशकं द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपयवाच्य च सहस्रं ततोद्योक्तष्टसङ्केयकन

हीने स्थणतजागहीण या स्यसखेज्जादजागहीणे वा सखेज्जादजागहीणे वा सखेज्जागुर्हीणे वा सखेज्जागुर्हीणे वा सखेज्जागुण—

हीनीवा सखेयजागहीमी वा सखेयमुच्यन्तीवाऽसखेयगुर्हीमी वाऽनक्तगुर्हीमीवा । सपोभ्यापिकोऽनक्तजागभ्यापिकोवाऽसखेयजागस्य
 च स्थितिक पर्यायमानवकीऽनुच्य विदुः प्रपञ्चिपण्डित्वा कदाचित् पृथ्व्यधिक ते मियचितर एवम आनवन्ति पर्यायकी । अद्य हीने पचतमान हीनेवा ।
 चर हीनेति, वा, हीनइवे ता पुनस्तुभागुडोडवन्ति पत्रप्रभाग्य हीनः इहाऽपचतमान आयनावकीऽनुच्यकामाऽपरानुच्य एवमकाल पयवमान सखेय
 स तेऽने, सखेयोन परस्तुच यदाऽपरिमाऽनुपपे, कस्वितेवरी मान, इत्यादिकोः यवसोबाधा वितोच प्रतिबोध पलाकचरक पर्यवाच नवसहस्रज्जमसर्वे पूर्वमा
 गाबाधा यत्ते इहा प्रचित्तकीवाऽसखेयज्जागहीनीतिगारेऽऽनुच्यवकीर पनक्तमाग । इत्याकावा दशधो विचेवरी हीनातेमाटे पनक्तमान हीन कश्चि
 दे । असखेज्जागणहीनेवाऽसखेज्जागणहीनेवा परसखेज्जागुर्हीनेवा परसखेज्जागुर्हीनेवा चर्चतष्टसङ्केयकीवेवा परसखेज्जागुर्हीनेवा परसखेज्जागुर्हीनेवा । असखे

कल्पनया द्रव्यपरिमाणेन गुणकारेण हीनो नश्यत्सकृत्तुः । अथ संख्येयगुणहीनोऽपि कल्पितस्य पुलाकस्य चरकपर्यवाय कल्पनया स
 इत्यत्रागच्छ द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपर्यवायं च द्विद्यते ततश्च लोकाकाशप्रदशपरिमाणेन संख्येयकेन कल्पनया पञ्चाशत्प्रमाणेन गुणकारेण न
 चित्तो द्विद्यत्तित्तो राशिर्वाप्यत, दशसहस्राणि स च तत्र साकाशात्परिमाणेन कल्पनया पञ्चाशत्प्रमाणेन गुणकारेण हीन इति कल्पिते
 यपुण्यहीनः । अथ न्यूनगुणहीनवति ० कल्पितस्य पुलाकस्य चरकपर्यवाय कल्पनया सप्तसहस्राणि द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपर्यवायं च द्वात ततश्च स
 वहीवानन्तकेन कल्पनया द्वातपरिमाणेन गुणकारेण मुचिताः इति को राशिर्वाप्यत दशसहस्राणि स च तेन सवहीवानन्तकेन कल्पनया द्वातपरि
 माणेन गुणकारेण हीन इत्यन्तगुणहीनः एव न्यूनगुणहीनः । अथ न्यूनगुणहीनवति ० कल्पितस्य पुलाकस्य चरकपर्यवाय कल्पनया सप्तसहस्राणि
 नया दशसहस्राणि चरकपर्यवसानं तदव्यस्य नवदशतापिकाणि ततो द्वितीयापेक्षया प्रथमो नवदशतापिकाः तथा यस्य नवसहस्रा
 न्य हीनं च द्वातानि पपवायं तस्मात्प्रथमोऽसंख्येयप्राणादिकाः तथा यस्यानवसहस्राणि चरकपर्यवायं तस्मात्प्रथमः संख्येयमागापिकाः तथा य
 स्य चरकपर्यवायं सप्तसहस्राणि तदपेक्षया प्रथमः संख्येयगुणपिकाः तथा यस्य चरकपर्यवायं द्विद्यते तदपेक्षया द्विोऽसंख्येयगुणपिकाः तथा यस्य

अन्तर्भावोऽपि पूर्णतः कल्पितराशिर्वाप्यत इत्यत्रागच्छ द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपर्यवायं च द्विद्यते ततश्च लोकाकाशप्रदशपरिमाणेन संख्येयकेन कल्पनया पञ्चाशत्प्रमाणेन गुणकारेण न
 चित्तो द्विद्यत्तित्तो राशिर्वाप्यत, दशसहस्राणि स च तत्र साकाशात्परिमाणेन कल्पनया पञ्चाशत्प्रमाणेन गुणकारेण हीन इति कल्पिते
 यपुण्यहीनः । अथ न्यूनगुणहीनवति ० कल्पितस्य पुलाकस्य चरकपर्यवाय कल्पनया सप्तसहस्राणि द्वितीयप्रतियोगिपुलाकचरकपर्यवायं च द्वात ततश्च स
 वहीवानन्तकेन कल्पनया द्वातपरिमाणेन गुणकारेण मुचिताः इति को राशिर्वाप्यत दशसहस्राणि स च तेन सवहीवानन्तकेन कल्पनया द्वातपरि
 माणेन गुणकारेण हीन इत्यन्तगुणहीनः एव न्यूनगुणहीनः । अथ न्यूनगुणहीनवति ० कल्पितस्य पुलाकस्य चरकपर्यवाय कल्पनया सप्तसहस्राणि
 नया दशसहस्राणि चरकपर्यवसानं तदव्यस्य नवदशतापिकाणि ततो द्वितीयापेक्षया प्रथमो नवदशतापिकाः तथा यस्य नवसहस्रा
 न्य हीनं च द्वातानि पपवायं तस्मात्प्रथमोऽसंख्येयप्राणादिकाः तथा यस्यानवसहस्राणि चरकपर्यवायं तस्मात्प्रथमः संख्येयमागापिकाः तथा य
 स्य चरकपर्यवायं सप्तसहस्राणि तदपेक्षया प्रथमः संख्येयगुणपिकाः तथा यस्य चरकपर्यवायं द्विद्यते तदपेक्षया द्विोऽसंख्येयगुणपिकाः तथा यस्य

हीने वा स्थणतगुणहीने वा । स्थ स्थस्त्रिहिए वा स्थस्त्रिहिए वा स्थस्त्रिहिए वा । पुष्पाण जते ।
 ज्ञागमस्त्रिहिए वा स्थस्त्रिहिए वा स्थस्त्रिहिए वा । पुष्पाण जते ।

चिकी वा सकयमागाम्यचिकी वा सकयेयगुणाप्यचिकी वा । पुष्पाको प्रवण । बहुवचस्य परस्वा

रचरी गुणा सकयरायि ते समसश्च इवे तेच तिवे चत्तुह सकवेव कस्यनाये समकपरिमाच सुबकारेचरी हीन ते सकवेवकृच हीन ४ असयेयगुणको
 वेरति एक पञ्चाकना चरच पर्यवान् कस्यनाये चरच इय द्वितीय प्रतिबानि पुष्पाकचरच पर्यवान् इयसे तिवारे काकाकाम प्रयेमपरिमाच परचवेव
 ते कस्यनाये पचास परिमाच सुबकारेचरी कस्यनाका इयसे हीनरायि तिका इयसश्च इवे तेच तिवे काकाकामप्रयेम परिमाचे असयेय कस्यनाये
 चरी पचासप्रमाच सुबकारेचरी हीन इतले परसकवगच हीन ५ चरतगचहीचेवति, एक पञ्चाकना चरच पर्यवान् कस्यनाये चरी सकयदय एने द्वि
 तीये प्रतिबानि पुष्पाकचरच पर्यवान् यत तिवारे सकयोर चरक कस्यनाये यत परिमाच गचकारेचरी गुणवा एकहीरायि तेच इयसश्च इवे तेच
 तिवेचिकी चरक कस्यनाये यत परिमाच सुबकारेचरी हीन एतकामाटे चरकगच हीन ६ चरचपञ्च इएति, इम पञ्चधिव पटुस्मानक यथाप इयेही
 क माग चपहार सुबकारे चरी चरचावा त इयाकवे—एक पुष्पाकने कस्यनाये इयसश्च चरच पर्यायमान तेचचकी परेतेने नवसश्चय नवयत यधि
 क तिवारे बीजानी अपेचाये पञ्चिका-चरकमाय पञ्चिका काचवा । असखेज्जामाय मस्रिहिएवा सकयप्रभास मस्रिहिएवा सकयप्रभासमस्रिहिएवा पचखेज्ज
 गुचमस्रिहिएवा चरंतगचमस्रिहिएवा । तथा जइने नवसश्चय पाठसे चधिक पचरमानवे तेचवी पञ्चिका असखेयभाग चधिक तथा जइने नवसश्चयचर
 च पर्यवान् तेचवी पञ्चिकी सकयमाग चधिक १ तथा जइने चरचपचवान् नवसश्चयमान तेचनी अपचाये पञ्चिका सकयेयमुचाधिक ४ तथा जइने चर
 च पर्यवान् इयसे तेचनी अपेचाये पञ्चिका असखेवकृचधिक १ तथा जइने चरच पचवान् यत तेचनी अपेचाये पञ्चिका चरकगचधिक ६ । पुष्पाण
 च मते चरकच चरचाच चरिचपञ्चचि कि होवे तुवे पचइय । पुष्पाक इमयवन् पञ्चयने परकान सकयच चरिचपचाये चरी विजातो

परब्रह्मपदवाच्यं इतमानं ब्रह्मपदेषु ५५ श्लोके उक्तं गुणव्यक्तिक इति ॥ पुलाहं प्रते । ब्रह्मस्ये त्वादि ॥ परब्रह्मस्ये कियार्थे ब्रह्मि ॥ विज्ञातीययोगमात्रि
 त्से त्वाः । विज्ञातीयस्य पुलाहस्य ब्रह्मशक्तिः तत्र पुलाहो ब्रह्मशक्तिः सायाविश्विभ्रुयाभावात् ॥ कथायकुसीलके समं ब्रह्मावच्छिद्य एवेव सताणे
 ति ॥ पुलाहः पुलाहापचया ययातिदितः तथा भयायकुसीलापेचया पि वाच्य इत्यर्थः तत्र पुलाहः कथायकुसीलासीनो वा स्यात् विशुद्धमयम
 स्थानवृत्तित्वा तुस्यो वा स्यात् स्वमानसयमस्थानवृत्तित्वात् अचिन्तोना स्यात् शुद्धतरसयमस्थानवृत्तित्वात् पुलाहस्य कथायकुसीलस्यैव सवकषय
 म्यानि सयमस्त्वानाम्य प स्यात् शो युनपदस्येयानि तानि गच्छत स्तुत्याभ्यवसानत्वा ततः पुलाहो व्यवच्छिद्यत शोमपरिचामत्वात् व्यवच्छिद्ये प

यत्सत्स परठाणसखिगासेण चरित्तपञ्जवेदि कि हीणे तुल्ले स्युप्पहिणु ? गोयमा ! हीणे णो तुल्ले णो स्युप्प
 हिणु स्युणतगुणे । एव पत्तिसेवणाकुसीले वि । कसायकुसीलेण समं ब्रह्माणवक्रिणु जहेव सठाणे , णियठस्स

नसखिकर्षेव चरित्तपयवेः कि हीणस्तुस्योप्यपिचः ? गीतम । हीनो नैव तुल्लो नैवान्यपिखोमस्तगुण । एवं प्रतिसेवणाकुसीलोपि । कथाय
 कुसीलेण समं यत्स्थानपयवतो पयैव सत्त्वाने निर्यन्यस्य यथा वक्रुणस्य । एव ज्ञातब्रह्मस्यपि । यकुशो मवन्त । पुलाकस्य परस्थानसखिकर्षेव

य रामप्रते पाचरोने इत्यत्र विज्ञातोत्तरं ते पुलाहने ब्रह्मयादिकं यको प्लू शोनं यतया तुल्यं यतया अत्यधिकं १०० उत्तरं । मायना शीवे वा तुला
 वा यमद्वि पचतगुणे । ईशोतमं पुलाहं वक्रुणयको शोनं पुने तत्कारित्वं विगुहना अभाबको नको सरोका नको यनत्तगुणा । एवं पत्तिसेवणाकुसीले
 वि कथायकुसीलेचसमं ब्रह्मावच्छिद्य । इमं प्रतिसेवणाकुसीलेने पदि कर्षवो पुलाहं पसाबनो यपेचयै जिम कश्चा तिम कथायकुसीलनो यपेचयै प
 वि कथया इत्यत्र तिहा पुलाहं कथायकुसीलको शोनं पदि पुने पविमृतं सयमस्थानं वृत्तियवर्षको यतया तुल्यं यतया समानं ब्रह्मस्मान् वृत्तियवर्षको
 यतया अधिकं पुने मुत्तरं ब्रह्मस्मान् वृत्तियवर्षको ब्रह्मं पुलाहना तथा कथायकुसीलना सर्वं कश्चन्यं ब्रह्मस्मान् मोचा तिवारि ते ब्रह्मं समं वासे यस
 येव विज्ञा ज्ञातायको तुल्यं कश्चन्यं वाच पकीवको तिवारपको पुलाहं अत्यन्तं पामे शोनं परिचामवको अत्यन्तं यथा पुलाहं कथायकुसील शोच

पुलासे कपायकुशीसाएबस एवारकयेपानि संयमस्यानाभिः गच्छति शुभतरपरिबामत्वा । ततः कपायकुशीसप्रतिसेवनाकुशीसिवकुशा युगपदसक्ये
 पानि संयमस्यानाभि गुच्छन्ति तत इ बहुशो व्यवच्छिद्यते प्रतिसेवनाकुशीसकपायकुशीसावसकयेपानि संयमस्यानाभि गच्छत स्ततय प्रतिब
 वनाकुशीसो व्यवच्छिद्यते । कपायकुशीसस्वसकयेपानि संयमस्यानाभि गच्छति ततः सोपि व्यवच्छिद्यते ततो मियंन्यातावकवेक संयमस्यान

अहा यउसस्स । एव सिणायस्सधि । वउसेण नते । पुलागस्सपरठाणससिगासेण चरिस्सपज्जेवेहि कि
 हीणे तुल्ले अस्सहिणु ? गोयमा ! जो हीणे जो तुल्ले अस्सहिणु अणतगुणमस्सहिणु । वउसेण नत ! वउस

चारिषपपयवेः कि हीमसुखोऽप्यचिकः ? नीतम । नेव हीनो नेव तुल्लोऽप्यचिकः । बहुशो प्रदत्त । बहुशस्य स्वस्यानस
 विवर्षेव चारिषपपयवेः पृथा नीतम । स्याद्वीनेः स्यानुस्यः स्याद्वप्यचिकः । यदि हीनः पटस्यानपतिसः । बहुशो मदत्त । प्रतिसेवनाकुशी

पसख्याता संयमस्यान प्रते जाव शुभतर परिबाम बको तिवारपको कपावकयोव प्रतिसेवनाकयोव बक्य एव समवासे पसख्याता संयमस्यान प्रते
 जाव तिवारपको बक्य व्यवच्छेद पामे कपावकयोव प्रतिसेवनाकुशीस वे पसख्याता संयमस्यान प्रते जाता तिवारपको प्रतिसेवनाकुशीस व्यवच्छेद
 पामे तथा कपावकयोव पसख्याता संयमस्यान प्रते जाव तिवारपको तेव पचि व्यवच्छेद पामे तिवारपको निर्मुक्त जातक ए बज एव संयमस्यान
 पामे । विवर्षेव कथा वउसस्य एव चिवावच्छेदि । पुलाव निर्मुक्तने बक्यनीपरे कथवा निर्मुक्तको पलाव पनत्तगुव हीन इत्यत्र इन जानवने पचि
 कथो पतसे पलाव पचयेपचपाते चित्तको, चिचे बहुय चित्तकोयेवे । वउसेवं भते पुलागस्य पट्याव चचिगासेव चरितपप्यवेचि कि हीवे तुल्ले पपचि
 ए । बहुय हेमनवन् पलावने विजातोव भागतते पाचकोने चरित पचयेकरी खू हीनहुवे पचवा तुल्लहुवे पचवा पचिक हुवे इ० प्र० उत्तर । नीवत्ता
 वा हीवे को तुल्ले पपचिप पचतगुव मपचिप । हेनोतम हीन नही सरोखो नही पचिक हुवे बक्य पुलावको पनत्तगुव चचिक हीव हुवे पति चिच
 व परिबामबको । वउसेवं भते वउसस्य सहापच चचिगासेव चरितपप्यवेचि पुपवा । बहुय हेमनवन् बहुयने सजातोव योनप्रते पाचकोने चारिषप

प्राप्त इति ॥ निर्यतस्स च्छा वरवस्सति ॥ पुसाको नियन्त्याइत्तमुयहीन इत्यर्थः, चित्तिः पुसाको वक्ष्यैः सहाय दकुश यिगत्स्ये ॥ वरवसे
कमित्यादि ॥ वकुशः पुसाकावमल्लगुणाम्पिचक एव विमुहुरपरिणामत्वात्, वकुशा पु हीनावि विचित्रपरिणामत्वा त्प्रतिषवाकपायकुशीला

स्वसठाणस्स सखिगासण चरिप्तपज्जायेहि पुच्छा, गीयमा । सिय हीणे सिय तुहे सिय अस्सहिए अइ हीणे
ठठाणवहिणु । वउसेण जते ! पठिसेयणाकुसीलस्स परठाणसखिगासेण चरिप्तपज्जायेहि कि हीणे ठठा
णवहिणु । एव कसायकुसीलस्सयि । वउसेण जते ! नियठस्स परठाणसखिगासेण चरिप्तपुच्छा, गीयमा !
हीणे णो तुहे णो अस्सहिए अणतगुणहीणे । एव सिणायस्सवि । पठिसेयणाकुसीलस्स एवचंय । वउसस्स

सस्य परस्यानसखिचर्येव चरित्रपययैः कि हीनः षट्स्थानपतितः । एव कपायकुशीसस्यापि । वकुशो मदत्त । नियन्त्यस्य परस्यानसखिचर्ये
व चरित्रपुच्छा नीतम । हीनो नैव तुल्यो नोऽप्यपिचा अमलगुणहीनः । एव ज्ञातकस्यापि । प्रतिषवमाकुशीसस्याप्येवं नैव वकुशस्य व

नये करो खू हीन इव इत्यादि मत्र उत्तर । गावमा सिय होच शिव तुहे सिय मभहिणु । इगीतम कटाचित् हीन इव कटाचित् तत्त इवे कटाचित्
पथिक इवे विविच परिचामबवो । जइ होये कडाववहिणु । जा हीन इवे ता पट्थान पतित इवे । वरवसे मते पठिप्तवचकुसीलस्स परठाण सखिगा
सव चरित्रपययैवि वि हीरे । वकुम जेमगन् पतिसवना कुमोबनी परस्यान सखिचर्ये चरित्रपययै नरो खू हीन इवे इ म उत्तर गावमा । कडाव
वहिणु एवं कसायकुसीलस्सवि । इगीतम पट्थान पतित कइवो इम कपायकुशीस पवि कइवना । वउसे मत चियठस्स परठाणसखिगासेव चरित्र पु
च्छा । वकुम जेमगन् निपबनी परस्यान सखिचय चरित्र इत्यादि मत्र उत्तर । मावमा होये चा तुहे वा पमहिणु पचतमवचवो । इगीतम हीन इवे
तत्त नही पथिक नही पमलगुण हीन हीन इव । एव सिवावक्यवि पठिप्तवचकुसीलस्स एवचंय वउसस्स वतववा भाचिबवा । इम ज्ञातकने पथि व
इवा प्रतिषवमाकुशीबने इमत्र कइवना अिम वकुमग मववता कइवो तिम कइवो । कसायकुशीलस्स सखिगासेव एवचंय वउस वतववा । कपायकु

प्यामपि हीमादिरेव निप न्यखातकान्या तु इति एवति ॥ वठसवसव्या नाखियवृत्ति ॥ प्रतिवेवाकुशील क्षया वाच्यो यथा वकुञ्ज इत्यर्थः कया पकुञ्जीतो वि वकुञ्जवृत्त्याः खेसस पुलाका वकुञ्जो स्वपिब एवोक्तः सकपायस्तु पदस्थानपतितो वाच्यो हीमादि रित्यर्थः तत्परिबामस्य पुला

वसव्या नाणियद्या । कसायकुसीलस्स सखिगासेण एसचेव वउसथस्रस्रया जयर पुलाएणवि सम ठठाणव
 क्रिए । णियठेण जते ! पुलगस्स परठाणसखिगासेण चरिस्रपजवेहि पुच्छा, गीयमा । णो हीणे णो तुहे
 स्रस्रहिए स्रणतगुणमस्रहिए एवं जाव कसायकुसीलस्स । णियठेण जते ! णियठस्स सखिगासेण पुच्छा,
 ? गीयमा ! णो हीणे तुहे णो स्रस्रहिए । एवं सिणायस्सवि । सिणारुण जते ! पुलगस्स परठाणसखि

कथ्यता प्रचित्तया । कपापकुशीलस्य सखिकर्षवेया चैव वकुञ्ज वसव्यता मवर पुलाचेमापि सम पदस्थानपतितः । निपन्यो जदन्त । पुला
 बस्य परस्थानसखिकर्षव चरित्रपयसैः पुष्पा गीतम । णो हीनो नैव सुस्यो ऽस्यपिबः समस्तनुषाम्यपिबः एव यावत्कपायकुशीलस्य । नि
 पन्यो जदन्त । निपन्यस्य सखिकर्षव पुष्पा गीतम । नैवहीमस्तुस्यो नैवाऽस्यपिब । एव खातकस्यापि । खातको जदन्त । पुलाकस्य पर

मोदने पवि सवागे इदोव वकुञ्ज वसव्यता कइवो एतव कपायकुयोव पवि वकुञ्जमोपरे कइवा । कवरं पुकारवविसम कइवाववदि । एतवोविगेप
 पुलाकववो ववय पधिका इवे एने कपायकयोव ता पट्खान पतित इवे । विवठेव मते पुखानस्य परडावसखिमासेवं चरितपव्ववेदि पववा । निपेव
 हेममवन् पुलाकने परखान विजातोववाग पावरोने चरित्रपयसैवरो लूं डोन इवे ए म उत्तर । मावमा चो डोवे चो तुहे पव्वदिण पववतमुव
 मवधिय । हेमोतम डोन मवो एरोका मवो पधिका इवे एनक्तमुव पधिका इवे । एवं जाव कपायकुयोवस्य । एम जावत् कपायकुयोवस्ये कइवो ।
 विवठेवं मते विवठक सखिमासेवं पुष्पा । निर्गंध हेममवन् निर्गंधने कखान सयिकरो डोनइवे ए म उत्तर । मोयमा वा डोवे तुहे वा पवमदिय
 एवं सिवायकवि । हेमोतम मवो डोन एरोको इवे मवो पधिका इवे एम खातकने पवि कइवा । सिवायव मते पुखागव्य परडाव सखिगासेवं । खात

बापेष्टया हीमवमापिबलज्जाबत्वादिति, अथ पयवाचिबारासेयामैव अपन्यादिभेदात्ता पुसाकादिवस्वन्धिमामस्पस्वादिमरूपयत्नाह--एएचिपमि
 गासेण एव जहा णियठस्स वसस्यया तथा सिणायस्सवि ज्ञाणियह्मा जाव सिणाएण जते ! सिणायस्स सठा
 णत्तयिगासेण पुच्छा, गोयमा ! णो हीणे तुह्वे णो च्छन्नहिए । एएचिण जते ! पुलागस्स वउसपफ्फिसेवणा
 कुसीलकसायकुसीलणियठसिणाताण जहकुक्कोसगाण चरिसपज्जावाण कयरे कयरे जाय विसेसाहियाथा ?
 गोयमा ! पुलागस्स कसायकुसीलस्स एएचिण जहकुगा चरिसपज्जावा दीरुह्वियि तुह्वा सध्वयोवा पुलाग

स्वानसविकर्षयैव यथा भिपन्यस्य वल्लव्यता तथा स्नातकस्यापि प्रवित्तव्या याव स्नातको प्रवत्त । स्नातकस्य स्वस्थानसविकर्षयैव पुच्छा,
 गीतम । णो हीनकुत्सो णो अन्वपिक्क । एतेया प्रवत्त । पुसाकस्य वज्जुमप्रसिसेवमाकुष्ठीलकपायकुष्ठीलसिनिपंन्यस्नातकानां अपन्योत्त्वपफाला
 चारित्रपर्यवाची कतरे कतरेभ्यो यावद्विधेयाचिका वा ? भीतम । पुसाकस्य कपायकुष्ठीलस्यै तयो वंपन्यका चारित्रपर्येवा द्वयोरपि तुह्व्याः स
 व हेमनवन् पुसाकने परस्मान यान पायडोते डोम द्वे । एवं जहा विरठय्य वनन्वथा तथा विचावस्सवि माचिबवा । इम विम निपंनो वल्लव्यता
 कडो तिम स्नातकनो पवि कडडो । जाव विचाएव भते विचावय्य सडाव सविगसिच पुच्छा । यावत् स्नातक् हेमनवन् स्नातकने स्वस्मान सवागीकरो
 ल् डोम इ म उत्तर । जायमा वो डोचे तक्के वो परमदिए । हेगोवम डोम नडो सविक्क । एएचिच भते पुस्मानय्य मडस पडिसेव
 चाकुसील कपायकुसील । एडने हेमनवन् पसाकने वज्जुयने मतिसेवनकायोसने कपायकुयोसने । विवठसिचावाच जहकुसासयाचं चरित्तपज्जवाच क
 डरे २ जाव विसेसादियाथा । निरंन्व स्नातकने जवन्ववको जवन्व वत्तकडने चारित्र पर्यायने कव २ सवो यावत् विसेयाचिक्क द्वे इ म उत्तर । णो
 यमा पसाकय्य कसावकुसीलय्य । हेभीतम पुसाकने तथा कपायकुसीलने । एएचिच जहकुगा चरित्तपज्जवा हीपइवित्तता । ए इडना जवन्व चारित्रप
 याव हाकना सरीया । जवत्तावा पहागय्य डकायया चरित्तपज्जवा चरत्तगुवा । सवडो वाणा तेडडो पुसाकना वत्तकड चारित्रपर्येव चनन्वगुवा । व

स्स उक्कोसगा चरिसपज्जावा स्थणंतगुणा । वउसस्स पणिसिण जहणुणा चरिसपज्जावा
 दीरहवि तुष्ठा स्थणतगुणा । वउसस्स उक्कोसगा चरिसपज्जावा स्थणतगुणा । पणिसिणज्जाकुसीलस्स उक्को
 सगा चरिसपज्जावा स्थणतगुणा, कसायकुसीलस्स उक्कोसगा चरिसपज्जावा स्थणतगुणा, णियठस्स सिणा
 यस्सय एणिसिण स्थजहणमणुक्कोसगा चरिसपज्जावा दीरहवि तुष्ठा स्थणतगुणा १५ । पुलाएण चते ! कि
 सजोगी होज्जा स्थजोगी होज्जा ? गीयमा ! सजोगी होज्जा णो स्थजोगी होज्जा । जइ सजोगी होज्जा

वेळोकाः पुलावस्यो त्वपंका धारित्रपर्यंवा अनन्तगुणाः अक्षुण्डस्य प्रतिवेवमाकुशीलस्य चेतयो अपत्यका धारित्रपर्यंवा द्वयोरपि तुस्या अनन्त
 नुकाः । अक्षुण्डस्यो त्वपंकाधारित्रपर्यंवा अनन्तगुणाः । प्रतिवेवमाकुशीलस्योत्पका धारित्रपर्यंवा अनन्तगुणाः । अपत्यकुशीलस्योत्पका या
 रित्रपर्यंवा अनन्तगुणाः । निर्यन्तयत्तातकस्य चेतयो रसपत्यमनुत्पका धारित्रपर्यंवा द्वयोरपि तुस्या अनन्तगुणाः १५ । पुलाको जवत्स । कि
 सयोगी प्रवेदयोगी भवेत् ? गीतस । सयोगीभवे को सयोगी भवेत् । यदि सयोगी भवेत् कि मनोयोगी भवेद्वापयोगी भवेत् ?

उसस्य पचिदिववा कसोदकव । तेद्वो वसुयना प्रतिवेवना कयोदना । एणिसिण जहणुणा धारित्रपर्यंवा चरिसपज्जावा चरंतगुणा । एहना जवत्स वा
 रित्रपर्यंवा होज्जना एरोका एन एनन्तगुणा तेद्वो । वउसस्य उक्कोसगा चरिसपज्जावा चरंतगुणा । वसुयना उरकवा धारित्रपर्यंवा अनन्तगुणा । एणिसि
 नेरवा कसोदक उक्कोसगा धारित्रपर्यंवा चरंतगुणा । तेद्वो प्रतिवेवना कुगोदना उरकटा धारित्रपर्यंवा अनन्तगुणा । कसायकुशीलस्य उक्कोसगा च
 रित्रपर्यंवा चरंतगुणा । तेद्वो कसायकुशीलस्य उरकवा धारित्रपर्यंवा अनन्तगुणा । चियठस्य सिवायसस्य । तेद्वो निर्मुक्कना तथा रतातकना । ए
 विसिण एउरक मज्जकौसगा धारित्रपर्यंवा धारित्रपर्यंवा चरंतगुणा १५ । एहना एउरक्य अनुरकव धारित्रपर्यंवा कसना वरावर एन अनन्तगुणा हा
 र १६, विवे कोयवा १६ सो कवेवे—पुलाएच भते कि सजोगीवाज्जा अनानोहाज्जा । पुलाव हेममवन् लं सयोगी इवे एवना वरागी इवे ६ प्र० ७

कि मणजोगी होजा वइजोगी होजा ? मणजोगी वा होजा वइजोगी वा होजा कायजोगी वा होजा । एव जाव णियठे सिणाएण पुच्छा, गीयमा ! सजोगी वा होजा अजोगी वा होजा । अइ सजोगी होजा कि मणजोगी होजा सेस जहा पुलागस्स १६ । पुलाएण नते ! कि सा गारोयउत्ते होजा अणुणागारोयउत्ते होजा ? गीयमा ! सागारीवउत्ते होजा अणुणागारीवउत्ते होजा एव जाव सिणाए १७ । पुलाएण नते ! कि सकसायी होजा ? गीयमा ! सकसायी होजा

गीतम । मनोयोपी वा जवत् वापोपी वा जवत् काययोपी वा जवत् । एवं याथकियन्यत्तातकपुच्छा, गीतम । सयोगी वा जवेदयोगी वा जवत् । पचि सयोगी जवेत् कि मनोयोपी जवत् येषं यथा पुलाकस्स १६ । पुलाको सवत्त । कि साकारोपयोगयुक्तो उभाकारोपयोगयुक्तो जवेत् ? गीतम । साकारोपयोगयुक्तो जवेदुभाकारोपयोगयुक्तो पिय जवेत् । किं सकपायी जवे

मर । भावमा सजोगीवाजा को सजोगीवाजा । जनीतम सयाभी इवे पयाभी न इवे । अइ सजोगी होजा कि सजोगी होजा वइजोगी होजा वा सजोगी होजा । वा सयागी इवे ज्जु मनोवागी इवे पववा वचनवागा इवे पववा वाववागी इवे ६० उत्तर । सोयमा सजोगीवा होजा वइजोगी वा होजा वाववागीवा होजा एव जाव विवठ विवाएव पच्छा । जनीतम मनायागी पचि इवे वचनयोपी पचि इवे वाववागी पचि इवे इम वा जवत् जिणेइवने कहरो रमातव हेमयवत्तु ६ म उत्तर । गायमा सजागावा होजा सजागीवा होजा । जनीतम सयागी इव पववा सयागी इवे इ ही सजागी त येकेयी करवने विवे पचि जाववा । अइ सजागी होजा अि मयवागी होजा सेस जहा पुलागस्स १६ । वा सयागी इवे ता अणु जनी यामी इवे येषं किम पुलाकने कज्जा तिम कहया इतर १६, इवे जपयागहार कहिंहे—पुलाएव जते कि साकारावउत्ते होजा सजागारावउत्ते होजा । पुलाव हेमयवत्तु ज्जु साकारापवनि इवे पववा सजागारावउत्ते होजा । भावमा साकारापवने होजा सजागारावउत्ते होजा । जनीतम

नेसु होजा, तिसु होज्जमाणे तिसु सजलणमाणमायालीनेसु होजा, दोसु होज्जमाणे दोसु सजलणमाया
 लोनेसु होजा । एगम्मि होज्जमाणे एगम्मि सजलणलीनेसु होजा । णियठेण पुच्छा, गीयमा ! णो सक
 सायी होजा श्चकसायी होजा । जइ श्चकसायी होजा कि उवसतकसायी होजा स्त्रीणकसायी होजा ?
 गीयमा ! उवसतकसायी होजा स्त्रीणकसायी वा होजा । सिगाए एवधेव णत्तर णो उवसतकसायी होजा

सगळोचमानमायासोत्रपु जवेत् त्रियु जवन्त्रियु सव्वत्तमानमायासोत्रपु जवत् हुयो भवरुपीः सव्वत्तमानमायासोत्रया जवत्, एकास्सिम्
 जवत्तकस्सि स्ववत्तनसोत्रे जवेत् । जियन्त्यपुञ्जा गीतम । णो सकपायी जवेत् सकपायी जवेत् । यवि सकपायी जवत् कि उपशान्तकपायी
 जवत् स्त्रीचकसायी जवेत् ? गीतम । उपशान्तकपायी जवत् स्त्रीचकपायी जवेत् । खातव एव चैव भवर णो उपशान्तकपायी जवेत् स्त्रीचकपा

न सकपायी हुव पवि सकपायी न हुवे । जइ सकपायी होजा । जा सकपायी हुवे वा । येव भते कइसु यथाएस होजा । तेइ हेभगवन् केतवा यथा
 यने विपे हुवे इ प उत्तर । भायमा वत्तसुवा तिसुवा हासुवा एगमिवा होजा । हेगीतम चारिनविपे यववा तीजनविपे यववा दायनविपे यववा प
 कनेविपे हुवे । यत्तु होज्जनाचे पत्तसु सव्वत्तवाइ माच माया कामेसु होजा । चारनविपे वाताववा चार सव्वत्तन काथ मान मावा सोभनेविपे हुवे ।
 तिसु होज्जनाचे तिय सव्वत्त माच मावा कामेसु होजा । तीजनविपे वाताववा तीन सव्वत्तन मान माया कामेविपे हुवे ते उपयम श्चिन्ते विपे त
 वा यपयचेनिविपे सव्वत्तन तीव सान उपयमा यववा चोव ज्जवा यवा श्य तीजनविपे हुवे । दासु होज्जनाचे दोसु सव्वत्त माया खभिस होजा ।
 हावन्विपे वाता ववो ताव सव्वत्तन मावा कामेविपे उपयमे तथा यपव हुवे । एगमि होज्जनाच एगमि सव्वत्तन कामेसु होजा । एकाविपे होतो
 यवा एक सव्वत्तन कामेविपे हुवे । विमठेय पच्छा । निर्मिबना मयकीधा उत्तर । गावमा वा सकपायी होजा यववायी होजा । हेगीतम नको स
 कपायनेविपे हुवे सकपायनेविपे हुवे । जइ सकपायी होजा कि उवसतकसायी होजा योव सकपायी हुवे ता एव उपयतकपायी

मान विगते द्वयो र्मायायां नु विगतायां भूस्त्वस्यस्यारण्युत्स्थानके एकत्र शोभे प्रवेदिति । सेश्याहारे-तिष्ठुविसुलेखासुति ॥ मावसवमापेणया
प्रशालासु तिमृशु पुलाकारय कयो प्रवन्ति क्वापयकुञ्जीसन्तु पदस्यपि सकयायमेवाधित्य प्रुषपदिवकठे पुष बकपरीए लेषाए इत्येतदुक्तमित्तिव

स्त्रीणकसायी होजा १८ । पुछाएण जत । कि सलेस्से होजा थ्यलेस्से होजा ? गीयमा ! सलेस्से होजा
णो थ्यलेस्से होजा । जइ सलेस्से होजा सेण जते ! कइसु लेस्सासु होजा, गीयमा ! तिसु विसुछलेस्सासु
होजा । तजहा-तेउलेस्साए पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए एव धउसस्सधि । एव पन्निसेवणाकुसीलेधि । कसायफु

यी प्रवत् १८ । पुलाको प्रवत् । किं च त्वयो प्रववसेरयो मवत् ? गीतम् । त्वस्ययो प्रववेवा ज्ञेययो प्रवत् । यदि संसेवयो प्रवेत् च जय
त् । कलिसु सेवयासु मवत् पीतम् । तिसु विसुदुहवयासु प्रवत्-तद्व्या-ततो सश्यायां पट्टलेवयाया शुक्लत्वायाया मेव बहुभ्रमस्यापि । ए
वं प्रतिववमाकुञ्जीतोपि । क्वापयकुञ्जीसपुष्पा भीतम् । सलेइयीप्रवति नो ज्ञेययो प्रवति । यदि संसेवयोमेवेत् च प्रदत्तम् । कतिपु सेवया

इवे पववा सोवकमाओ इव इ म उत्तर । मायमा उत्तरवववाओ वाळा ओवकपराओीवा वाळा सिबाए पववेव । जगीतम उत्तरगतकपदि पुवे ए
ववा सोवकपदे इव खातकनेरिये इमओक कइवा । पवर वा उत्तरंतववाओी वाळा ओवकपराओी वाळा । एतवाविमेव नही उत्तरमात्तववाये इवे ए
तावता सोवकपदे पुवे इव १८, दिवे केव्वाइव १८ मा कइवे-पुवाएवं भंति किं सलेकेवाळा पसेकेवाळा । पुवाए वैभगवत् न्नु सलेयो पुवे एव
वा पसेयो पुवे इ म उत्तर । मायमा उत्तरवववाळा ओ पसेकेवाळा ओ पसेकेवाळा । जेभोतम केव्वासहितने इवे यदि पसेयोने म इवे । एव उत्तरकेओीळा । ओ
पसयोने इवे । एव भंति कापु सेव्याए वाळा । तेइ वैभगवत् केतवा केव्वानेविये पुवे इ म उत्तर । मायमा तिस विसुइलेखासु वाळा तं० । जेभोत
म तीतकप्या मावकेवाओी पपवाये प्रमच्छ तेवनेरिये पुवाकादि तीत पुवे ते कइवे-तेउकेव्वाए पम्हलेखाए पम्हलेखाए सलेकेवा पम्हकेवा सलेके
व्या १ । एवं उत्तरकदि एवं पदिवेववाकुयोवेदि । एम बहुयने यदि कइवी इम प्रतिसेवमाकुयोकेने यदि कइवी । क्वायकपरीसे पन्को । क्वायकपरी

आत्मते ० एकाए परमसुखायति ० शुद्धचान्तलीयनेबावधरे या सेवया सा परमशुद्धा उप्यदातु शुद्धिव सापीतरभीशुद्धसेवयापेक्षया आतकस्य

सीडे पुच्छा, गीयमा ! सलेस्से होजा नी स्थलेस्से होजा । जइ सलेस्से होजा सेण जते ! कहसु लेस्सा सु होजा, गीयमा ! त् एरसासु होजा, तजहा—कयहलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए । णियठेण पुच्छा, गीयमा ! सलेस्से होजा नी स्थलेस्से होजा । जइ सलेसे होजा सेण जते ! कहसु लेस्सासु होजा, गीयमा ! एगाए सुक्कलेस्साए होजा । सिणाए पुच्छा, गीयमा ! सलेस्से वा होजा स्थलेस्से वा होजा । जइ

पु मवत् गीतम । पट्टु सय्यासुजवे तथया—कप्पसेवयाया पावच्छुल्लसेवयाया । निर्यन्पुष्पा, गीतम । ससेवयो जवे नीवा सेवयो जवेद्यदि ससय्योमवत् स मरत्ता । कतिहु सययासु जवेत् ? गीतम । एकस्यां शुद्धसेवयाया जवेत् । आतक पुष्पा गीतम । ससेवयोवा मवइसइयो

खनेविये मत्रकीवा उत्तर । गीयमा सवसे होजा नी पवसे होजा । हेगीतम ससेयोनिये हुवे पचि पवयोनिये न इवे । जइ ससेरसे होजा । जो ससेयोनिये हुवे हुवे । सेव मते जइसु लेख्यासु होजा । तेइ हेमगवन् केतकी लेख्यानेविये हुवे इ म उत्तर । गीयमा ससेव्यास होजा त । हेगीतम सव पावमते होत्रपायकीने कर लेख्यानेविये हुवे ते कइइ—कयसेव्याइ जाव सुक्कलेस्साए । जण्यसेव्या पादिदेइ वावत् मुक्कलेव्या हुवे । चिउठेइ पवत्ता । नियेव हेमगवन् इ म उत्तर । गायमा ससेरसे होजा नी पवसे होजा नी पवसे होजा । हेगीतम ससेयोनिये हुवे पचि मही पसेयोनिये हुवे । जइ ससेसेव्याया । वा ससेयोनिये हुवे । सेव मते जइसु लेख्यासु होजा । तेइ हेमगवन् केतकीलेख्याने विये हुवे इ म उत्तर । गीयमा एगाए सुक्कलेस्साए होजा सिवाए पु पवत्ता । हेगीतम एक मुक्कलेव्यानेविये हुवे आतकना मत्रकीवा उत्तर । गायमा ससेरसे होजा पवसेवया होजा । हेगीतम ससेयोनिये हुवे सयवा प सयाने विये हुवे । जइ सवसे होजा । वा ससेयोनिये हुवे ता । सेव मते जइससेव्यासु होजा । तेइ हेमगवन् केतकीलेख्याने विये हुवे इ म उत्तर । गायमा एगाए परमसुक्कलेव्याए होजा । हेगीतम एक परममुक्कलेव्यानेविये हुवे मुक्कल्यान नीवासेव्यातिक्का परममुक्क वधि

परममुञ्जेति । परिबामहारे-बहुमात्रपरिबामेत्यादि ॥ तत्र सर्वमानः ब्रुव हृत्कथं गच्छन् शीयमानस्त्वपकर्षं गच्छन् अवस्थितस्तु स्थिर इति तत्र नियन्वोशीयमानपरिबामो भवति तस्य परिबामहानौ कपायकुशीलव्यपदद्यात् खातकस्तु इतिकारबालावा च शीयमानपरिबाम स्यादिति परिबामधिबारादय इमाश्च ॥ पुलायचमित्यादि ॥ तत्रयुक्ताको सर्वमानपरिबामनास कपायविद्येयव धाचित तस्मि कस्यैकारिकसमयमनुभवती

सुखेस्त्रे होज्जा सेण ज्ञते ! कडसु ऐस्सासु होज्जा, गोयमा ! एगाए परमसुक्खेस्साए होज्जा १९ । पुलाए ण ज्ञत ! कि बहुमाणपरिणामे होज्जा कि हायमाणपरिणामे होज्जा अथठियपरिणामे होज्जा, गोयमा ! बहुमाणपरिणामे वा होज्जा हायमाणपरिणामे वा होज्जा अथठियपरिणामे वा होज्जा, एव जाव कसा

वा जयेत् । यदि सुतवपोजयेत् च जवन्त । कतिपु सेइयासु जयेत् ? गौतम । एकस्मां परमसुक्खेइयाया जयेत् १९ । पुलाको मवन्त । कि बहुमाणपरिबामो जयेत् । कि शीयमानपरिबामो जयेत् । अथस्त्रितपरिबामो मवेत् ? गौतम । सर्वमानपरिबामो वा जयेत् । शीयमानपरिबामो वा जयेत् । अवस्थितपरिबामो वा जयेत् । एय याव त्वापायपुञ्जीसि । नियन्वपुञ्जा, गौतम । वदेमामपरिबामो जयेत् नैव शीयमानप

ये पण्ढरा तो गच्छन्तीति वा पि इतरलोकेने मुक्खकत्ता खातकने परमयुक्खेइये इति वार १२, इति २ मा परिबामहार कथंये--पुलाएच वि बहु माच परिबामे हाज्जा कि हायमाच परिबामेहाज्जा एवठिव परिबामे हाज्जा । पुलाए इभयवत् सु बहुमान यदियेकरो उल्लयते खातोबका तिवे परिबामे इवे एववा सुं हावमान घटते परिबामे इवे एववा अथस्थित क्षिरपरिबामे इवे इतिमन्त्र उतर । गायमा बहुटमाचपरिबामेवा होज्जा । शीयतस बहुमान परिबामे इव एववा । हायमाचपरिबामेवाहाज्जा । हावमान घटतेपरिबामे पिब इवे एववा । एवठिवपरिबामेवा होज्जा एवं का बहुमाचकुपेवे नियठेच पुण्जा । क्षिरपरिबामे पिब इवे इम वावत् कपायकौलवने कइवो निर्णयना प्रत्यकोवा उतर । गोयमा बहुटमाच परिबामे हाज्जा वा हावमाचपरिबामे हाज्जा । शीयतस बहुमानपरिबामे इवे पिब हावमानपरिबामे इवे तेइने परिबामने इति ववा कथायकुयीव च

त्यतः प्रथमे कल्पे नमि । उक्तीषे च संतोमुज्जति । एतस्त्वनावत्वा इहमानपरिणामस्यति एव यकुञ्जप्रतिषेवमाहुषीसकपायकुञ्जिले
 घपि नवर भुञ्ज्यादीना अपत्य त एकसमयताभरणा दपीठा न पुनः पुलाकस्य पुलाकस्य पुलाकस्ये मरवाभावा स्थ पि मरवाकाले कपायकुञ्जिलाल्या
 दिना परिणमति यत्र प्राब् पुलाकस्य कालगतन तद्भूतप्रावापेक्षये ति । नियन्त्रो अपत्यनो स्वर्पे च वां तर्मुद्रुत बहुमानपरिणाम स्या त्वेयस्यप्रा

यकुञ्जिले । णियठेण पुच्छा, गीयमा !, बहुमाणपरिणामे होज्जा णो हायमाणपरिणामे होज्जा । अथठिय
 परिणामे होज्जा । एव सिणाएवि । पुछापण जते । केवइय काल बहुमाणपरिणामे होज्जा ? गीयमा ! जह
 रोण एकु समय उक्तीसेण अतोमुज्जत । केवइय काल हायमाणपरिणामे होज्जा ? गीयमा ! जहरोणेण एकु

रिणामो जवेत् अवलितपरिणामो जवेत् । एवं खातको पि । पुनाको जवत् । कियत्कुल बहुमानपरिणामो जवत् । नीतम । अपत्य जे
 कसमय मुकपैकाऽन्तमुद्रुते । कियत्कुलकरीयमानपरिणामो जवत् ? नीतम ! जचमे नैकसमय मुकपैकाऽन्तमुद्रुते । कियत्कुलमवस्यि

दिवे पदवा ! पवठितपरिणामे होज्जा । पवठितपरिणामो पवि च्चरे । एव सिवाएवि । इम खातकनेचिवे पवि च्चइवा । पकाएचं मंते केवइयजाएवं च्च
 उमाच परिणामे होज्जा । पुञ्जच जेमवन् केवखीकाच यईमान परिणाम इवे इ म उत्तर । गायमा जइरोच एव समय उकासेच अतोमुद्रुत । सेनो
 तम अपत्यवको एवसमय तिर्हिपकाच बहुमान परिणामकाच कय बविशय वाग्वाचका तेइनाएवे तेइया एकादिसमय अरुमवे णतवामाटे कदि
 वे अपत्ये पुकसमय उरकवकको अन्तमुद्रुत एवनाच समाचको । केवाय कासं हायमाणपरिणामे होज्जा । केतखीकाच वटतेवके परिणामे इवे इ
 प उत्तर । गायमा जइरोच एवसमय उकासेच अतामुद्रुत । सेनोतम अपत्यवको एकसमय उरकवकको अन्तमुद्रुत । केवइयकाच पवठितपरिणामे या
 या । केतकाकाच पवठितपरिणामे इवे इ प उत्तर । गायमा जइरोच एवसमय उकासेच उरकवकको एकसमय उरकवकको अन्तमुद्रुत । सेनोतम अपत्य
 वको एवसमय उरकवकको सातसमय एववाच समाचको इम वापत् मन्डे बकुम प्रतिसेवमाकुयोचने पवि च्चइवा एतसोविशेष बकुयादिकने जवत् ।

भोत्वन्तौ परिचामांतरभावात् अथस्थितपरिचामः पूर्वनिर्घन्त्वस्य अपत्यत एवं धर्मयं मरुवा तस्या दिति ष विषयायं जंते इत्यादि । आतकीं च
 पत्यतराज्या मतमुद्रुने बहुमानपरिचामः छीसेहर्षां तस्या स्मरणमायत्वात् । अथस्थितपरिचामवासे वि अपत्यत कास्यांतमुद्रुत धर्मं ? उच्यते-यः

समय उक्त्वासेण अतीमुज्जस्र । केवह्य काल अथठियपरिणामे होजा , गीयमा । जह्येण एकं समय उक्त्वा
 सेण सप्तसमया , एव जाव कसायकुसीलेवि । णियठेण जते ! केवह्य काल बहुमाणपरिणामे होजा ? गो
 यमा । जह्येण अतीमुज्जस्र उक्त्वासेण अतीमुज्जस्र । केवह्य काल अथठियपरिणामे होजा ? गीयमा !
 जह्येण एकं समय उक्त्वासेण अतीमुज्जस्र । सिणाएणं जते ! केवह्य काल बहुपरिणामे होजा ? गीयमा !

तपरिचामो नवत् ? गीतस । अपत्ये नैकतमय मुत्कयैव सप्तसमया एवं पाबत्कथायजुशीलोपि । णियन्तो जवत् । कियत्तङ्कालं वधमानपरि
 चामो जवेत् ? गीतस । अपत्यमा ऽतमुद्रुते मुत्कयैका ऽतमुद्रुते । कियत्तङ्कालमस्वितपरिचामो जवेत् ? गीतस । अपत्ये नैकसमय मुज्ज
 यैकाऽतमुद्रुते । आतकीं जह्यत् । कियत्त कातं बहुमाणपरिचामो जवेत् ? गीतस । अपत्येतात्तमुद्रुते मुत्कयैवाप्यत्तमुद्रुतेम् । कियत्तं का

वको एकसमययथा मरुवको पवि राज्ञा पवि नशो वको पुत्रावने पत्रावपवनिविदे मरुवकावनेविदे वयाववमोवलादि च
 रो परिचामे जे पूरे पत्रावने काववमन वको तेव मूभावको पवेचारे । विपठेव भंते केवह्यकावं वठुमावं परिचामिवाप्या । निर्घेव जेमनवन् कैतसोवा
 य ववमान परिचामे दुवे इ म जतर । यीवमा जह्येव भंतीमुद्रुतं उकोसेव यतामुद्रुत । जेगीतस तियुं व जह्येवको यत्तमुद्रुत उक्त्वासेरो पवि
 यत्तमुद्रुत ववमान परिचामे दुवे केवकप्राग जपता परिचामात्तरजा माववको । जेवठ कास पवठियपरिचामे होप्या । केतवाकास पवठियपरिच
 मे दुवे इ म जतर । मावमा जह्येवं एकसमय उक्त्वासेव यमानुद्रुत । जेगीतस पवठियपरिचाम तियुं वने जह्येवको एकसमवते मरुवको दुवे उ
 त्कठवको यत्तमुद्रुत । विषाहरे भंते केवार्बकाव वठुमावपरिचामे होप्या । आतक जेमनवन् केतवाकास बहुमान परिचामि जवे इ म जतर । माय

नेवसद्यानोत्पादान्तर मत्तमुहूर्तं सवस्वितपरिचामो मूल्या ङ्गोस्यैव प्रपद्यते तद्वेद्ययेति । उक्तीसेव देवूया पुष्टकोलीति ० पूर्वकोत्यायुय पुरुषस्य
 ब्रह्मतो अपत्येन नवसु वर्षवृत्तिगतपु ङ्गलक्षण सुत्यद्यते ततो उच्यते तदूर्नां पूर्वकोटीमवस्थितपरिचामः ङ्गोस्यैव यावद्विररति ङ्गोस्ययं च कर्तुं
 मानपरिचामः स्यादित्येव देवोनामिति बभूव-आठयवज्जाठीति । पुलाकस्या युर्वेयोमासि तद्व्याप्यवसायस्थानाना तस्याप्रावा विति ० वसवे
 इत्यादि ० त्रिनागाद्यवसेपयुयोषिबीवाद्यायुर्वेप्रतीति विप्राणवृषावी तन्वप्रकीति क्त्वा यकुशावयः ससा नामप्राजावा ङ्गमर्षां वयका प्रवतीति

जहृष्येण श्यतीमुज्जस उक्तीसेणयि श्यतीमुज्जस । केवइय काल श्यवठियपरिणामे होजा ? गीयमा ! जह
 खेण श्यतीमुज्जसं उक्तीसेण देसूणाइ पुष्टकोली । पुलाएण नते । कइकम्मप्यगणीते यधइ ? गीयमा । श्या
 उयवज्जाते सप्त कम्मप्यगणीते यधइ । वउसे पुक्का , गीयमा ! सत्तयिहयधए या श्यठयिहयधए या ।

ततवस्थितपरिचामो प्रवति ? गीतम । अपत्यनात्तमुहूर्तमुरकपतो द्योना पुष्टकोटिः । पुलाको नदल । कतिकमप्रकृतयो यभाति ? गीतम ।
 चायुवर्जाः सप्त कर्मप्रकृतयो यभाति ब्रह्मपुष्का गीतम । सप्तविधवचको वासुविषयन्याया वा । सप्त धर्म्ययकायुवर्जाः सप्त कम्मप्रकृतयो व
 मा बइवच धंमसत्त उचोसचवि धंमामुहुरत । इगोतम जातक अवचवको पत्तमुहुरत उवृष्टवको पवि पत्तमुहुरत बभमान परिचाम येद्योतविये से
 इने तेतकाव प्रमाचइ तमाटे । केवइयवचस पवद्विरपरिचामेइयाया । जेतकाकाल पवस्थित परिचामनविये बुव इ म० उत्तर । गीयमा बइवचं यतो
 मुहुरत उचोसच देसूणाइ पुष्टकोली । इगोतम अवचवको पत्तमुहुरत तेविस जेइ ववउप्रान उपनायका पनकरे पत्तमुहुरत परिचाम सईन येद्योती
 पविवने वरखटवको इसूण पुष्टकोली ते पवकाओ पात्रुय पुचयने कम्मवकी अवच्ये नववय गसावका ववउप्रान उपनके पत्तमुहुरत परिचाम सईन येद्योती
 ओ पवस्थितपरिचामे येस्यो तां विचरे येद्योतविये बभम न परिचामे इवेइार २ , इविये बभइार २२ सा बइवचै—पुलाएव मते वइवचपमकाया
 वधइ । पुलाव देसवपन् वेगकी कर्मसकति बधि इ म उत्तर । गीयमा पाठयवज्जाया सप्त क्त्वायवर्जाया बभइ वउस पुष्का । इगोतम पाउखा टा

बयवमाचे इत्यादि ४ कषायकुशीलोचि शुभसपरायले आयुभवभ्रात्याप्रमत्तांतत्वात्तद्वयसोहनीय च बादरकषायोवयाजावा च उभातीति अथाः

सप्तयथमाणे श्याउयवज्जातं सप्तकम्मपगानीतं यथइ, अठयथमाणे पण्डिपुखात् अठकम्मपगानीतं यथइ एव
पण्डिमेवणाकुसीडेयि । कसायकुशीलेण पुच्छा, गोयमा ! सप्तविहवधएवा अठविहवधएवा अठिहवधएवा
सप्तवधमाणे श्याउयवज्जातं सप्तकम्मपगानीतं यथइ, अठयथमाणे पण्डिपुखात् अठकम्मपगानीतं यथइ अ

प्राति अष्टौ बन्धनप्रतिपूर्वा अष्टौ कर्मप्रकृतयो वप्राति एव प्रतिसेवनाकुशीसोपि । कषायकुशीसपुच्छा नीतम । सप्तविषयव्यको वाट्टि
बन्धको वा बन्धुतिपवत्यको वा । एत बन्धनप्रकृतयो वप्राति अष्टु बन्धनप्रकृतयो वप्राति अष्टु बन्धनप्रकृतयो वप्राति पण्डुबन्ध

को सात कर्मप्रकृति वधि पूजाको सातवना बन्धको तदना बन्ध पञ्चवसाय ज्ञानना तदने अभावको बहुयना प्रसकीधा उत्तर । भोगमा सत
विह वपरा अठविह वपरा अतववसाचे । हेतोतम कोजाभाय पाऊखा दुवे तिवारे लोवपाऊखा वधि विभाय हवादिबनेविके तेवने वाष रम क
रोन बहुयादिव सातकसना बन्ध दुवे पवरा पाठकसना बन्धक दुवे ते कइहे—सात वावतावका । पाठकवजापा अतकवजापणीपा बधर । पाऊ
या टाको सात कर्मप्रकृति वधि । अठवसाचे पण्डिपुखापा अठकवजापणीपा बधर । पाठ वीवतावका प्रतिपच पाठ कर्मप्रकृति वधि । एव पण्डिसेवया
जुनावेव कषायकुशीलेच पण्डा । रम प्रतिसेवनाकुशीले विये पवि कइवा अवाबकुयीकनविये प्रस कोवा उत्तर । मावमा सतविह वपरा अठवि
ह वपरा अठविहवपरा । हेतोतम कषायकुशीले विये पाऊखा न वधि तिवारे सातवने अमसपवनीवकीव तेवना वन्धने ति
यारे पाठवप तथा मावनेवप्रते बादरकषाय उदवना अभावको न वधि एवहे क वधि तेव कइहे—सतकवजापो अतकवजापणीपो
बधर । सातवीवतावका पाऊखा टाको सातकर्मप्रकृति वधि । अठवसाचे पण्डिपुखापा अठकवजापणीपा बधर । पाठ वीवतावका प्रतिपच पाठ कर्म
प्रकृति वधि । अठवसाचे पाऊयमाहविष्यवजापा अठकवजापणीपा बधर । अ वीवतावका पाऊखा मीहनीयवजीने अ अर्मप्रकृति वधि । विसंठेव

पठेवेति ० एगेवेचिञ्जति ० निर्यन्मोवेदनीयमेव वज्राति वषट्पु पुषोवातासेवस्र्जावात् ० वषट्पु एवति ० अयोगीवषट्पुनां सर्वेषा वज्रायादयंपुष्कर

बंधमाने श्राउपमोहणिञ्जवज्रात् त्व कम्मपगळीत् वधइ । णियठेण पुच्छा, गोयमा ! एगे येयणिञ्जा कम्म
यधइ । सिणाएण पुच्छा, गोयमा ! एगधिइयधएवा स्यधएवा । एगवत्तमाण एग येयणिञ्ज कम्म यध
इ २१ । पुलाएण जत्त ! कइकम्मपगळीत् वेवेइ, गोयमा ! णियम स्यठकम्मपगळीत् वेवेइ एव जाय
कसायकुसीले । णियठेण पुच्छा, गोयमा ! मोहणिञ्जवज्रात् सत्त कम्मपगळीत् । सिणाएण पुच्छा, गो

पकायुर्माइनीयकर्त्ता । पट्टमंस्कृतयो वज्राति । निर्यन्पुच्छा नीतम । एव वेदनीयं कम वज्राति ज्ञातकपुच्छा नीतम । एकविधपय्यको
वाऽवत्यको वा । एव बन्धय स्वइनीय कम वज्राति इत् । पुष्पाको प्रदत्त । कति कमेप्रकृती वेदपति ? नीतम । नियमावष्टौ कमप्रकृती वेदय
ति एव यावत्कपायकुसीला । निर्यन्पुच्छा, नीतम । मोइनीयवर्को सत्त कमप्रकृती (वेदपते) ज्ञातकपुच्छा, नीतम । वेदनीयायुनामगोत्रा
पुच्छा । निरवनी प्रत्तकोवा उत्तर । मायमा एने देवबिज्ज कथ वधइ विवाएव पुच्छा । देवोत्तम एव वेदनीयकम सांचे कथइतुनेविदे वाऽना कोज
वज्रावत्तको ज्ञातकना प्रत्त कोवा । उत्तर । मोरमा इमविज्जवत्तवा यवत्तवा । देवोत्तम एकविध कथइ हुवे यववा पर्यवत्त इवे । एगबंधमाचे एगं वे
वबिज्ज कथ वधइ । इव वधटावत्तवा लयोको एव वेदनीयकम वाच एने पदोमीने सव बन्धइतुना पमायत्तको यवत्तवत्तको जवे वार २१, इविदे
मावत्त २२ सा वधइ—एवाएव भने कइकपापगळीपा वेदेइ । पठाक इमगवत्त जेतत्ता कमपकृति वेदे इ म उत्तर । मोरमा बिज्जम पइकपापगळीपो
वेदेइ पर्य जाव वमावत्तकोने बिज्जवत्तवा पुच्छा । देवोत्तम निरवने पाठ कमपकृति वेदे पाळीन वदे इम वावत्त कपायकुगोबसगे कइको नियंबना प्रत्तको
वा उत्तर । मावमा मावबिज्जवत्तवापा सत्तकपापगळीपा विवाइत्त पुच्छा । देवोत्तम निरवनेइनीयकम प्रते न वेदे माइनीयना उपगमत्तको यवत्तवा
यवत्तको ज्ञातकना प्रत्त कोवा उत्तर । मावमा देवबिज्ज वावत्तवत्तमा पुत्तापा । देवोत्तम ज्ञातकम वा, तियावत्तमा सोवपवत्तको—वेदनीय १ पायु २

वेति । वेदनद्वारे-भोद्विष्णवज्जाठिति ० निग्र न्योदि मोदनीयं भवेवयति तस्योपस्थांतत्वा स्वीकृत्वा हा कावकस्यसु पातिकात्मना जीवत्वा हेद
 नीपादीनामव वेदम मततथ्यत वयिच्छेत्त्यादि ० उदीरकाद्वारे-प्राचयवर्षबिष्णवज्जाठिति ० अयमर्थः पुलाक प्रापूर्ववर्षनीयकतो मोदीरयति त

यमा ! वियणिज्जस्युत्तयणामगुत्तात् चत्वारिकम्मपगणीत्तं वेदेइ २२ । पुलाएण जंतं ! कइकम्मपगणीत्तं उदी
 रेइ ? गोयमा ! स्याउयवेयणिज्जवज्जात्तं त्त्त कम्मपगणीत्तं उदीरेइ । यउसेण पुष्का, गोयमा ! सप्तविहउ
 दीरेण वा स्युत्तविहउदीरेण वा त्त्तविहउदीरेण वा, सप्तविहउदीरे माणे स्याउयवज्जात्तं सप्तकम्मपगणीत्तं उदी
 रेइ, स्युत्तविहउदीरे माणे पणिपुखात्तं स्युत्तकम्मपगणीत्तं उदीरेइ, त्त्तविहउदीरे माणे स्याउयवेयणिज्जात्तं

वि चतुरः कर्मप्रकृती र्वदपते २२ । पुलाको जदत्त । कतिक्कमप्रकृती उदीरयति ? भौतम । प्रापूर्ववर्षनीयवर्णाः यदुमप्रकृती उदीरयति । वज्जुत्त
 प्पक्का भौतम । सप्तविष उदीरको वा, सप्तविष उदीरको वा पक्कि उदीरको वा सप्तविषमुदीरयत्तापुवेत्ताः सप्त कर्मप्रकृती उदीरयति

नाम २ गाथ ४ । चत्वारिकव्यपगणीया वेदेइ २२ । चार कम्मप्रकृति र्वेइ २२ द्विये उदीरकादार २२ मा वइवि-पुलाएव मते कइक्कपमहापो च
 दारेइ । पुलाक केममवत्तं केतलो कम्मप्रकृति उदीरे इतिप्रत्तं उत्तर । गायमा प्राचयवेयविष्णवज्जायाया कव्यपगणीया उदीरेइ यउसेवं पक्का । वेयोत्तम या
 त्त यदनीव २ इ ववम उदीरे मही इहा य भावना पुक्कावने तथाविष पच्छउत्तानना यभाववको ते र्वे तेइ उदीरोने पक्कावपयी मते जाय इम या
 मक्कि पक्कि जिवा सीइ मप्रकृतिप्रते उदीरे मही तिक्का तत्तमते पक्कि उदीरोने पक्कं वज्जुयादिपयी मते पामे वज्जुय कतलो कम्मप्रकृति उदीरे इतिप्रत्तं
 उत्तर । गावमा सत्तविइ उदीरेणवा सप्तविइ उदीरेयवा सप्तविइ उदीरेमावे । वेयोत्तम सात्तमकारना उदीरेक्क पक्का यात्तमकारना
 उदीरेक्क पक्का ज्जमकारना उदीरेक्क सात्त उदीरेता वक्का । प्राचयवज्जायाया सत्तवक्कपगणीया उदीरेइ सप्तविइ उदीरेमावे । सात्त कम्मप्रकृति उदीरे या
 त्तमकारे उदीरेतावक्का । पक्किपुखाया पक्कवक्कपगणीया उदीरेइ त्त्तविइ उदीरेमावे । प्रतिपुवं यात्तकम्मप्रकृति उदीरेक्क उदीरेतावक्का । यात्तवक्कपक्कि

जानै तकमपगानीउ उदीरेइ । पक्रिसेवणाकुसीले एवखेव । कसायकुसीलेपुच्छा, गोयमा ! सप्तविहउदी
 रएवा अठयिहउदीरए वा ठविहउदीरए वा पचविहउदीरे माणे अ्याउयवजात सप्त
 कमपगानीउ उदीरेइ, अठउदीरे माणे पक्रिपुछाउ अठकमपगानीउ उदीरेइ, उदीरेइ, उदीरेमाणे अ्याउयवेय
 णिअवजात तकमपगानीउ उदीरेइ । पक्रिसेवणाकुसीले एवखेव । कसायकुसीलेपुच्छा, गोयमा ! सप्तवि

अष्टविषमुदीरए अतिपूको अष्टौ कममकती उदीरयति, पङ्किसमुदीरएवायुर्वेदनीपवज्जोः पङ्कमकती उदीरयति । प्रतिसेवनाकुसीले एव वे
 व । अयायकुसीलेपुच्छा नीतम । सप्तविष उदीरको वा उष्टविष उदीरको वा पङ्किसादीरको वा पञ्चविषोदीरको वा । सप्तविषमुदीरएवा
 पुवज्जोः सप्त कममकती उदीरयति अष्टविषमुदीरएअतिपूको अष्टौ कममकती उदीरयति, पङ्किसमुदीरएवायुर्वेदनीपवज्जोः पङ्कमकती
 उदीरयति । प्रतिसेवनाकुसीले एव वेव । कसायकुसीलेपुच्छा, नीतम । सप्तविष उदीरको वा उष्टविष उदीरको वा पङ्किस उदीरको वा पञ्च

वजाया अष्टव्यगकोपी उदीरेइ । पाजया वेदमोठ बर्चीने इ कममकति उदीरे । पक्रिसेवणाकुसीले एवखेव कसायकुसीले पुच्छा । प्रतिसेवना कुसीले
 पचि इमोठक अष्टवा अष्टावकुसीलेगा मरुत कोथा कतर । नाथमा सप्तविष उदीरएवा पङ्किस उदीरएवा पञ्चविष उदीरएवा । दे
 गीतम अातमकारा उदीरेव पचवा पाठमकारा उदीरेव इवे पचवा पाठमकारा उदीरेव इवे । सप्तविष उदीरेमाणे
 पाठवज्ज्यापासतकअपकोपा उदीरेइ । सातमकारे उदीरतायका पाजयाटाको सात कममकति उदीरे । अष्टउदीरेमाणे पक्रिपुछाया अष्टवज्ज्यापा
 उदीरेइ । पाठ उदीरतायका प्रतिपू पाठ कममकति उदीरे । अष्टउदीरेमाणे पाठववेयविज्जवज्ज्याया अष्टवज्ज्यापाठको पाजया
 वेदनीय बर्चीने इ कममकति उदीरे । पचउदीरेमाणे पाठववेयविज्ज माङ्किविज्जवज्ज्याया । पचवज्ज्यापाठको पाजया पचने उदीरतायको
 पाजया वेदनीय माङ्कमोठ ३५ तोग बर्चीने येय पच कममकति उदीरे निथवना मरुत कोथा कतर । गायमा पचविष उदीरएवा अष्टविषउदीरए

याधिपाप्यवसापत्वानामावात् किन्तु पूर्व ते उदीय पुसाकर्ता नष्वात्स्येव मुत्तरवापि यो याः प्रकृतीर्नादीरयति स ता पूर्वसुदीय बहुव्यादिता प्रा

हउदीरए वा अथविहउदीरए वा त्विहउदीरए वा पचविहउदीरए वा, सत्तउदीरे माणे स्याउयत्र ज्ञात
सप्तकम्मपगानीत्त उदीरेइ, अथउदीरे माणे पन्निपुसात्त अथकम्मपगानीत्त उदीरेइ, तउदीरे माणे स्याउ
यवेयणिज्जायज्जात्त त्कम्मपगानीत्त उदीरेइ, पचउदीरे माणे स्याउयवेयणिज्जायज्जात्त पचकम्मप
गानीत्त उदीरेत्ति । णियंठेण पुच्छा, गीयमा ! पचविहउदीरए वा त्विहउदीरए वा, पंचउदीरे माणे स्या

विच उदीरको वा । सप्तोदीरयत्तायुर्वज्जाः, अस कम्मप्रकृती उदीरयति अष्टासुदीरयत्प्रतिपूर्वो असी कम्मप्रकृती उदीरयति, ससुदीरयत्तायुर्व
दनीयवज्जाः पदुमंप्रकृती उदीरयति पचोदीरयत्तायुर्वदनीयमोचनीयवज्जाः पच कम्मप्रकृती उदीरयति । मित्रज्यपुच्छा गीतम । पचविच
उदीरको वा द्विविच उदीरको वा पचोदीरयत्तायुर्वदनीयमोचनीयवज्जाः, पच कम्मप्रकृती उदीरयति अष्टासुदीरयत्तायुर्वदनीयमोचनीयवज्जाः ।

या । हेमोतम पचविच उदीरक पचवा द्विविच उदीरक । पच उदीरमावे पाठवत्तद्विच्य माहविच्यवत्ताया पचकम्मपगोषा उदीरेत्त । पच उदीरतो
ववा पाउको माउनीव वर्यीं ने पच कम्मप्रवृत्ति उदीरे । दाउदीरेत्तावे वामप माउप उदीरेत्त विचापच पच्छा । दाउ उदीरतोववा आम तक्षा गावप्रते
उदीरे ज्ञातवना प्रत्त उत्तर । माउमा द्विविच उदीरएवा पचउदीरएवा दा उदीरेमाच वामप माउप उदीरेत्त २३ । हेमोतम ज्ञातवत्तायुर्वदनीयमोचनीयवज्जावे
नाम गोपनीय उदीरक इवे पाउका वेदनीव तो पूर्वव उदीरपावे पने पचामी पचवत्तावे तो पचुदीरक श्रीकइवे दाउ २३, द्विवे उपसंजवत्त २४ दाउ
वद्वे— पुकाएव मते पुमावत्त वद्वमावे विं वद्वत्त उवसपज्जात्त । पुकाक हेममवन् पुकावपयो श्रीउतोवको व्त् व्त् व्त् पने स्या प्रते पगोकार वरेत्त
म उत्तर । नीवमा पुकावत्त वद्वत्त वपावत्तकोववा परवत्तमवा उवसपज्जात्त । हेमोतम पुकाक पुकावपयो वद्वोने वं वतो ववायकुमीव हीन इवे तेव
उदीरवा उवसज्जागवे तेव विचि माउप्रते पगोकार वरेत्त वरकवाय कुगोवादि व्त् वत्त ने कवायकुमीव तो विच्यमाउमवत्तवत्त संयमज्जावत्त पुकावादि

प्रोति स्नातकः श्रुयोग्यप्रस्थायां तु नामगोत्रयोरेवोदीरक आधुर्वदमीये तु पूर्वोदीरके एव श्रुयोग्यप्रस्थाया स्वमुदीरक एवेति ॥ उवसंपल्लवइयति ॥
 द्वार-तत्र उपसस्य रुपसस्यति मासिः ॥ गइइति ॥ इति त्वायः उपसप स इति च उपसपद्वान कि पुसाकत्वादि त्यक्त्वा कि कयापत्वादिक सु
 पसस्यत इत्यर्थः, तत्र च पुसाकत्वादि ॥ पुसाकः पुसाकत्वं त्यक्त्वा सपतः कयायकुशीसएव जयति तत्सदृशस्यमस्यान स्नाद्वायात् एव य
 म्य यरसदृशानि सयमस्थानानि इति स तद्भावमुपसस्यत, मुक्त्वाकयायकुशीसोऽपि यिद्यमानस्वसदृशस्यमस्यानका शुलाकादि
 प्राबा रुपसस्यते ऽविद्यामासमासस्यतान्त च नियम्यत्वाव नियम्यत्वाव वा याति स्नातकसु विचत्यवति निय

उपवेयिगिज्जमाहगिज्जयज्जाच पत्रकमपगहीनु उदीरेइ, दो उदीरिमाणे गाम च गोयं च उदीरेइ । सिणा
 ण पुच्छा, गोयमा ! दुविहउदीरेण वा श्रुणुदीरेण वा, दो उदीरे माणे गाम च गोयं च उदीरिति २३ ।
 पुलाएण जने । पुलायस जहमणे कि जहति उयसपज्जाह ? गोयमा ! पुलायस जहति कसायकुसील वा
 अस्सजम या उयसपज्जाह । यउसण जत । यउसस जहमाणे कि जहति किउउसपज्जाह ? गोयमा । वउ

स्नातकएव गौतम । द्विविध उदीरको वा ऽमुदीरको वा, द्वावुदीरयत्राम च गोत्र वोदीरयति २३ । पुलाको जदल । पुलावत्त्व जइण
 (त्यत्रन् सन) कि जइति उपसस्यत ? गौ० । पुसाकत्वं जइति कयायकुशीस वा ऽउयम वोपसस्यते । वकुशी मरुत । वकुशात्त्व जइणिक
 इति किमुपसस्यते ? गौतम । वकुशात्त्व जइति प्रतिवेवनाकुशील वा कयायकुशील वा ऽउयम वा सयमासयम वोपसस्यते । प्रतिसवना
 भावप्रते यथोकार करे एत विद्यमान सयम सदमस्नातक ते नियम भावप्रते पच्छिणे एत नियंयता कयायपथी प्रते पास यवता यातकपथीप्रते पाथे
 यातकता बोध शोत्र पवशा पवसमप्रते यथोकार करे । वउसजमत वउसत जइसावे किजइर किउउसपज्जाह । वउस जेभगसम्बकयपथी वाकतावका
 सू इवेत्यु य । कारइर १० प्र० उतर । भावमा वउसत जइर । वगौतम वकयपथी कोइ । पठिस आधुनोइतया कसायकुस सा परसजसया सत्रमा

न्यमय-कसायकुशील वा चिन्ताय वा इह नावमत्यपलोपा हकपायकुशीलमित्यादि दृश्यमेव प्रबभूवद्यपि तत्रोपक्रमनियन्त्यः सञ्चित प्रथमवामाः

सप्त जहति, पन्नित्रणाकुशील वा कसायकुशील वा अस्सजम वा सजमासजम वा उवसपज्जाह । पन्नि
सेत्रणाकुशीलेण नत ! पुच्छा, गोयमा ! पन्निसेत्रणाकुशीलसु जहति । वउसवा कसायकुशील वा अस्सजम
वा सजमासजम वा उवसपज्जाह । कसायकुशीले पुच्छा, गोयमा ! कसायकुशीलसु जहति पुलाय वा वउ
संत्रा पन्निसेत्रणाकुशीलत्रा णियठवा अस्सजमवा सजमासजमवा उवसपज्जाह । णियठेण पुच्छा, गोयमा !
णियठसु जहति कसायकुशीलत्रा सिणातत्रा अस्सजमत्रा उवसपज्जाह । सिणाएण पुच्छा, गोयमा ! सिणा

कुशीलो मरुत्त । पुच्छा गीतम । प्रतिघवनाकुशीलस्य जहति बभूव वा कपायकुशील वा उवपम वा सयमासयम वीपसस्यद्यते । कपाय
कुशीलपुच्छा गीतम । कपायकुशीलस्य जहति पुसास वा यकुश वा प्रतिघवनाकुशीलस वा नियन्त्य वा उवपम वा सयमासयम वीपसस्यद्य
ते । नियन्त्यपुच्छा गीतम । नियन्त्यस्य जहति कपायकुशीलस वा ज्ञातकत्व वा उवपम वीपसस्यद्यते । ज्ञातकत्वपुच्छा, गीतम । ज्ञातकत्वस्य जह

सत्रमंगा उपसपज्जाह कसायकुशीले पुच्छा । ऐगीतम प्रतिघवना कयावपचापते ज्ञाते सत्रमपचापते पबवा कपायकुशीलसत पबवा पससमप्रते पबवा
सजमासयम देगविरति प्रते पगीकारकरे कसायकुशीलस ऐभगवन् इ म उत्तर । गोयमा कसायकुशीलस जहति । ऐगीतम कपायकुशीलसपथा क हे ।
पम यथा बउसवा पन्निसेत्रणाकुशीलस वा बियठवा पसजमंगा सजमासजमवा उवसपज्जाह बियठस पुच्छा । पुप्पाकप्रते पबवा ववमप्रते पबवा प्रतिघ
नाकुशीलप्रते पबवा निषेधप्रते पबवा संयमप्रते पयवा सजमासयम प्रते द्यविरति प्रते पन्निसेत्रे पगीकार करे निषेध इभगवन् इ म उत्तर । गा
यमा बियठस जहति कसायकुशीलस निषाव वा पसजमवा उवसपज्जाह चिन्ताय वा अस्सजम निमूयपची ज्ञाताने कपायकुशीलस प्रते पबवा य
तकप्रते पबवा पससमप्रते पन्निसेत्रे तिहा उपमम निर्जुंब यन्निसेत्रो पबवाववा सत्रपाद इवे एत उपस इवे ते ज्ञातक इवे एते येवित्ते मरुत्तसु

सकपायो प्रवति महीसक्तोत्तु यतो ही देवत्वो त्वन्तो अंयतो प्रवति नो सपतासपत्नी देवत्व तदनावा यद्यपिच श्रेणीपतितो ऽसी स्यतास
 यतापि प्रवति तयापि भाषाविहोक्तो मन्तरतया तदनावावदिति । सञ्जाहारे-सखीवचननि ५ इइ सञ्जा आहाराविषया सथोपयुक्त कथयिदारा
 राद्यनिषङ्गान् सञ्जापयुक्तः मासञ्चोपयुक्तसु आहाराशुपयोगपि तत्रानिषङ्गः तत्र पुलाकनिर्पन्त्यजातका नो सञ्चोपयुक्ता प्रवत्याहारादि

यस जहति सिद्धगति उत्रसपञ्जह २४ । पुलाएण जने ! कि सखीयउत्ते होजा नी सखीवउत्ते होजा ?
 गीयमा । नी सखीवउत्ते होजा । वउसेण जने ! पुच्छा , गीयमा ! सखीयउत्ते होजा नी सखीयउत्ते
 होजा । एय पण्डिसेअणाकुसीलिवि । गियठे सिगाएय जहा पुलाए २५ । पुलाएण जने !

ति सिद्धगतिमुपसम्पदाते २४ । पुलाको प्रवत्त । कि सञ्चोपयुक्तो प्रवत्त ? गीतम् । नी सञ्चोपयुक्तो प्रवत्त । वञ्चुत्तान्
 मदत्त । पुच्छा गीतम् । सञ्चोपयुक्तो प्रवत्त नी सञ्चोपयुक्तो प्रवत्त एव प्रतिशवत्ताकुसीलोपि । एव कथायकुञ्जीलोपि । निम्न्य ज्ञातक

सञ्जा एइ देवपदे जपना पप्रवम इवे जातक हेमगन् ६ म० उत्तर । गायमा सिद्धायत्त कइइ सिद्धगतिं उत्रसपञ्जह २४ । हेमोतम रत्नातकपत्नी वी
 ढीन सिद्धगतिं प्रते अगोवाट करे दाइ २४ इति सञ्जापार २५ मा कइये-पुलाएव भत नि सञ्जावउत्ते ज्ञात्ता वा सञ्जावउत्ते ज्ञात्ता । पुलाक हेमम
 न् इच्छू सञ्जापयुक्त इव प्रवत्ता ना सञ्जापयुक्त इवे इही सञ्जा पाहारादिअत्रा तिही उपयुक्त कर्मविषयकारे आहारादि अभिजायवत्त ते सञ्जापयुक्त क
 इय अने ना सञ्जापयुक्त ते पाहारादि उपभागवत्ता पचि तिही अभिजाय वत्तो इ म उत्तर । गायमा नी सञ्जावउत्ते ज्ञात्ता कउसेव भत पुच्छा ।
 हेमोतम पुलाक निपुंय रत्नातक ण तोन ना सञ्जापयुक्त इवे कथय हेममनन् इच्छू सञ्जापयुक्त इवे प्रवत्ता ना सञ्जापयुक्त इवे इ म उत्तर । गायमा सञ्चो
 वउत्ते ज्ञात्ता वा सञ्जावउत्तज्ञात्ता । हेमोतम पाहारादि सञ्जापयुक्त इवे तेविम तेइवा ज्ञानमा पभाषवत्तो लेइन विगिय सवम मञ्जाभाइ इवे तेइने
 पाहारादि अत्रा नही । एव पण्डिसेअणाकुसीलोपि एव कथावकुषोव विद्यथ विद्याएय अहा पुलाए २५ । इम प्रतिशेवमा कुयोवनेविपे पचि कथवा इ

प्रधानसिद्धात् ननु निगन्त्यन्तातका येव पुच्छी वीतरागस्था अतु पुलाका सरागत्वा न्नेय नरि सरागत्वे निरसिद्धता सर्वथा मास्तीति यत्तु वा स्वयं यत्तुगदीना सरागत्वचि नि सद्गताया व्यमतिपादितत्वात् भूमिहारश्याइ-नासाशानाकसम्पत्ति ॥ तत्र च पुलाकनिघन्त्यन्तातका भौसुन्दोप यत्वा प्राजदधानोपयोगवक्तो मपुनराहारारदिसम्प्रीपयुक्ताः बहुशब्दय क्षुद्रप्रययापि तथाविचसुपमस्यानस्थानावावदिति । आहारकद्वारे-आहारक शोत्रति ॥ पुलाकादिनिगन्त्यालस्य विग्रहगत्यादीनाममाहारकस्यकारणाना मन्नावादाहारकत्वमव ॥ सिद्धाएइत्यादि ॥ स्नातकः केवलिसमुष्ण त तृतीयेषुपयस्यमममय प्रयोगवत्यापार् वा नाहारकः स्या तताऽन्यत्र पुन राहारक इति । प्रवहार-पुलाएकमित्यादि ॥ पुलाका जपस्यत एक

किं आहारणं होजा आणाहारणं होजा ? गोयमा ! आहारणं होजा गो आणाहारणं होजा , एवं जहा गियथे । मिणाएण पुच्छा , गोयमा ! आहारणं था होजा आणाहारणं था होजा २६ । पुलाएण जते !

य यथा पुलाकः २५ । पुलाको जदत्त । किमाहारको जवदमाहारको मवत् ? गीतम । आहारको जव क्षी ऽमाहारको जवत् यय यथा नि प्रत्य । स्नातकपुच्छा गीतम । आहारको वा जवदमाहारको वा मवत् २६ । पुलाको जदत्त । कति जवयद्वयामि (पावत्) जवत् ? गी म कथाकचोवनेविधे पवि कडवा निर्गुव तथा स्नातक किम पठाक कडवा तिम कडवा डार २५, विधे पाहारकडार २६ मा कडवे-पुलाएण भा किं पाहारए कडवा पवाहारए कडवा । पुलाक जेमगवन् क्षुं पाहारक इवे पववा पनाहारक इवे इ म उत्तर । गायमा पाहारए कडवा या पवाहारएकडवा एव काव बिबंठे सिवाएण पुच्छा । गीतम पाहारक इवे पनि पनाहारक न इवे पुलाकावि निर्गुव पवेतने विगुहगत्या दिव, पनाहारकपवनिा वारचना पभावको पाहारकपको होलइवे सिवाएण्वादि, स्नातक कवक समदातनसिय भोवे भोवे पंचमे ण तीज समय न विे गवा पवामो पश्यान्त्रविधे पनाहारक इवे तिडनिो पनर स्यात्के पाहारक पवि इवे तेहीज कडव पाहारक इवे नही पनाहारक इवे इम भागत् निर्गुवकव कडवा स्नातकने प्रत्रकीधा उत्तर । भावमा पाहारएवा होजा पवाहारएवा कडवा २६ । जेभीतम पाहारक परि इवे पनाहारक

स्मिन् प्रवपहरे शूला कपायकुशीलत्वादिर्न सयतत्त्वामत्तरमेकज्ञानेऽकशोवा तत्रैव प्रवे प्रवात्तरवा ऽवाप्य सिञ्चति उत्कृष्टवस्तु देवादिप्रवात्तरिता
 न् श्रीम प्रवाभ् पुसाकत्व महाप्रोति ॥ कठसेत्यादि ॥ इह कथि इकत्र त्रये सकुशलत्व महाप्य कपायकुशीलत्वादिष्य सिञ्चति कश्चित्कत्रैव यमुञ्जत्व
 महाप्य प्रवात्तरए तदन्याम्यव सिञ्चतीत्यत उच्यते-इहसुख एवम प्रवपहरेति ॥ उक्तोसुख प्रसृति ॥ क्लिष्टाहो नवपहरेत्यास्तुत्कर्षतया प्रवपमात्र
 महाप्यते तत्र कथि तान्महो ककुशातया पर्येतिमपत्तये सकपायत्वावियुक्तया कथिनु प्रतिसव म्प्रतिसेवनाकुशीलत्वावियुक्तया पूरयतीत्यत उच्यते

कउत्रयग्गडगाइ होज्जा ? गीयमा ! जहखेण एकं उक्कोसेण त्तिस्सि । वउसेण पुच्छा , गीयमा ! जहखेण
 एकं उक्कोसेण थ्ठ , एव पत्तिसेवणाकुसीलेत्ति । एत्र कसायकुसीलेत्ति । गियठे जहा पुछाए । सिणाएण
 तम । वपम्यमैकमुत्कर्षतत्तीपि । सकुखपुच्छा मीतम । जपप्येनैकमुत्कर्षतो ऽहो एव प्रतिसेवनाकुशीलोपि । एध कयायकुक्षीलोपि । नि

परि हरे भुति पूरे बिद्या तिमत्र कार २१, बिदे मवहार २० मा कइहे-पठ एव भते वति भवमइहाइ होज्जा । पछाक इभननम् कतस मवमइहे
 इवे इ म कतर । गावमा कइजेव एकउक्कासेय त्तिपि इवसुव पुक्ख । देगौतम जवस्यवको एवहोत्र मवगुइभनेविद्य वरने कपायकयोउत्खाटिज स
 यतल पत्तर एवकार पववा पनेकवार त्तिपिइहोव भवनेविद्ये एवमा मवात्तरनेविद्ये करो पामीन सोभे उरकटवको ता देवादि भवातरित दोन मवम
 ते पुसाकपयी पामे वज्जुयना मत्र कोडा उतर । मावमा कइजेव एव उक्कासेय पठएव पत्तिसेवना कम्मोसिदि । देगौतम जवस्यवको एकभव इहा काइ
 एव एकभवने विदे वज्जुयपरी पामीने कयोउत्खाटिजो परे सोभे तवा कारएव एकइज्जव मवमविदे वज्जुयपयी पामीने तइको प्रनेरा इवे इम सोभे ए
 तवामाठ कइजा जवस्यवको एव मवज्जुइव तथा उरकटवको पाठ मवज्जुइव इरपमात्र पामे तिहा कारिएव तेइ वज्जुयपये करो जेइके भवे सकपायत्वा
 दि बुत्तेकरी तथा काइएक प्रति भवे प्रतिसेना कयोउत्खाटि बुत्तेकरी पूरे एतकामाटेज कइजा उरकटवको पाठभव इम प्रतिसेवनाकुयोस पत्ति कइवा ।
 एव कसायकुशीलेत्ति । इम कपायकुयोउत्तगे परि कइयो । बिक्खे जहा पुछाए सिञ्चाएव पुक्ख । निर्जुव जिम पुसाकने कइजा तिम कइवा रत्तातकने

उक्तोर्ध्वं अस्ति । अपाकपदार्थं तत्राकपदार्थं आरिक्तस्य प्राप्तिरिति । एगजवग्गहोयति । एकजवग्गहोयं प जवन्ति । सयग्गसन्ति ।

पुच्छा, गीयमा ! एक्का २७ । पुल्लगस्सण ज्ञते ! एगजवग्गहणिथा केवड्डया आगरिसा पक्खत्ता ? गीयमा !
जह्खणेण एक्को उक्कोसेण तिस्सि, वउसस्सण पुच्छा, गीयमा ! जह्खणेण एक्को उक्कोसेण सयग्गसो एव पन्नि
सेयग्गाकुसीलेवि । कसायकुसीले एवधेय । णियठस्सण पुच्छा, गीयमा ! जह्खणेण एक्को उक्कोसेण दोस्सि
सिणातस्सण पुच्छा, गीयमा ! एक्को । पुल्लगस्सण ज्ञते ! णाणाजवग्गहणिथा आगरिसा पक्खत्ता ? गीय
मा । जह्खणेण दोस्सि उक्कोसेण सत्त । वउसस्सण पुच्छा, गीयमा ! जह्खणेण दोस्सि उक्कोसेण सहस्सग्गसो

यन्तो यथा पुलाका । ज्ञातकपुच्छा गीतम । एक्कम् २७ । पुलाकस्य जदत्त । एकजावग्गहणिका क्वियत्त आकपोंः प्रच्छसाः ? गीतम । अयस्ये
नेक उत्कर्षेण त्रयः वज्जुस्य पुच्छा गीतम । अयस्यनेक उत्कर्षेण छताप्रश्न । एव प्रतिसेवनाज्जुशीलोवि । कपायज्जुगीस एव वैव । नियन्वस्य
पुच्छा गीतम । अयस्यनेक उत्कर्षेण द्वी । ज्ञातकस्य पुच्छा गीतम । पुलाकस्य सर्वल्ल नामाजावग्गहणिका क्वियत्त आकपोंः प्रच्छसा ?
गीतम । अयस्यतो द्वी उत्कर्षेण सत्त । वज्जुस्यपुच्छा गीतम । अयस्यतो द्वौ उत्कर्षेण छताप्रश्नः । एव यावत्त्वपायज्जुशीसस्य । नियन्वस्य पुच्छा
विधे प्रश्नोपा उत्तर । गावमा एक्क २० । हेगीतम एवहीज सर्वत्रे द्वार २० विधे आकपद्वार २८ नो वड्ढे — तिर्था पाकपे वड्ढता चारिणो मा

ति । पुलागच्छत्त मत्त एमभवत्त्वड्डिसा कवसाया पायदिसा प । पुलाकाने हेमवत्तम् एव भवग्गहणनेविधे एव भवपायड्डोने जेतका पाकप मड्डया एव
भवनेविधे जेतकोवार चारिणो प्राप्ति इवे ए म उत्तर । गावमा जह्खणेण एवा उक्कोसेण तिस्सि वउसेण पुच्छा । हेगीतम अयस्यवक्को एव भवनेविधे
एव पाकप इव वउट्टवक्को-०क सर्वनेविधे तोन इवे वज्जुयतो प्रश्नोपा उत्तर । गावमा जह्खणं एवा उक्कोसेण सबन्ना । हेगीतम अयस्यवक्को एव
उक्कोसेणो यत्त एवज्ज इवे । एव पड्डिसेवनाज्जुशीलोवि कपायज्जुसीले एवधेय विरठस्य पुच्छा । एम प्रतिसेवनाज्जुशीलोने विधे पन्नि वड्ढतो कपायज्जुयो

अतपरिभाषे सेस्यैः, अतपुपकृमितिनाम्ना उत्कच्य-तिवदसदसुदुर्लभं सपुङ्गवतकीदृशति ॥ उत्क्रीवेण दोषिणिति ॥ एकत्र नवे वारद्वयं सुपक्षयमे
 क्षिरका सुपक्षमनियन्त्यस्य हावा कर्पोरिति ॥ पुसानस्येत्वादी नामानवगाहद्वियति च नानामकारपुत्रवग्रहकेषु ये जवलीत्यथः ॥ अत्रयोव
 याकिति ॥ एक आक्षर एकत्रय द्वितीयो अन्वय त्वव समकत्र प्रवे आक्षरौ स्यातां ॥ उत्क्रीवसंघतिति ॥ पुशाकत्वमुत्कच्यत क्तिपु जवेपु त्रवपु
 स्यात् एकत्र च तदुत्कपवो वारद्वयं जवति ततश्च प्रथमप्रवे एक आक्षरौ अन्वय च त्रवद्वयं अक्षरयइत्याद्विजिनियेकस्यैः चस ते प्रवलीति ॥ वठ
 सरवत्यादि उत्क्रीवसंघसकलसोति ॥ यकुक्षस्यादौ त्रवद्वयस्य उत्कच्यत उत्कच्येत आक्षरयोस्तपुपक्षा मुखे तत्र य

एष जात्र कसायकुशीलस्स । गियठस्सुण पुच्छा, गीयमा ! जहणेण दोयि उत्क्रीसेण पच । सिणातस्सुण

गीतम । अपत्येन हा तुरकर्वेण पच्छ । आतकस्य पुच्छा सेवेकोपि ष्ट । पुसाको प्रदत्त । आसव क्रियधिर जवति ? गीतम । अपत्यनाम्ना

खनेदिये पचि इसकीज कडवा निषेवना प्रत्यकीषा उत्तर । गीयमा अत्रयेण एका उत्क्रीवेण दाधि विचारयण्यत्र पुच्छा । जमीतम अत्रत्यवकी एष उत्क
 डवकी दात्र त एक भवनेदिये वार दात्र अपयमयविना करवावकी उपप्रम निषेदपचाना दात्र पाकप खातकना प्रत्यकीषा उत्तर । गीयमा
 एका । ई भीतम एक पाकवे दुरे । पुक्षामच्छत्र भते वावा भवन्नद्वियया केवथा चागरिषा च । पुक्षान्न जेभगवन् नाना भवद्वयव्यविवे की दुरे ते
 प खरोते केतवा पाकवे दुरे इ प्र उत्तर । गीयमा अत्रकच्य दाधि उत्क्रीवेण सत वठसकच पुच्छा । ईगीतम अत्रत्यवकी दोषादिये ते एक पाकवे ए
 क भवनेदिये कीषा पाकवे चनराभभविये इम चनेक भवनेदिये वाय पाकप दुरे उत्कटवकी साय दुरे ते यिम पुक्षान्नपरी उत्कटवकी तीज भवने
 विये दुरे त उत्कच्यकी तीजवार दुरे तिवारे पडिका भवनेदिये एक पाकप दुरे चनरा दास भवनेदिये तीज २ दुरे इत्यादिच विकस्येवरी सात पाकप
 इव वकुपना प्रत्यकीषा उत्तर । गीयमा अत्रकच्य दाधि उत्कच्येण सर्वे सत वठसकच पुच्छा । ईगीतम अत्रत्यवकी दास
 दुरे उत्कटवकी सडकगसी वकुपने पाठ भवद्वय उत्कटवकी वक्षा तिहा एक भवनेदिये उत्कटवकी यत प्रवक वक्ष तिहा जिवारे पाठ भवद्वय

यदा एवापि तत्रप्रवेशे प्रकृतौ नवमस्कमाकपण्यतामि प्रवन्ति तदा नवानां धृतानां भटाभि गुणना स्वससहस्राणि शतहयाधिकानि प्रयत्नीति
 ऽ नियतरस्यत्यादौ उक्तीसेव पचति ॥ नियन्त्यस्योत्कर्षत स्त्रीणि प्रवयद्वा ग्युक्तानि एकत्र च त्रये द्वा पाकपर्यायित्यय मेकत्र द्वा वाच्यत्र च द्वा वय
 रत्रचैव उपकनिषन्त्यत्वाक्य कत्वा सिच्यतीति लखोच्यत पच्येति कासहारे—पुलाएवमित्यादौ अत्रकष्य अतामुपुसति ० पुलाकत्व प्रसिपको
 ऽन्तमुद्रुतापरिपूतौ पुसाको न स्थित नापि प्रतिपततीति कत्वा अपस्यतोऽन्तमुद्रुसमित्युच्यते उरकपती व्यक्तमुद्रुसमतप्रमाकत्वा देतरस्वनाव
 स्येति ॥ उरसत्यादि ० अक्षरकमकसमपरति ॥ वक्रुणस्य परकप्रतिपत्त्यनारसमय एव सरपसंभवविति ॥ उक्तीसय देवूया पुषकोऽस्ति ॥ पूव

पुच्छा, णो एक्तीवि २८ । पुलाएण जते ! काले क्वचि ह्रीङ् ? गीयमा ! जहखेण अतीमुजस उक्ती

मुद्रुतमुत्कर्षेवाप्यन्तमुद्रुतम् । वक्रुण पुच्छा भीतम । अपस्यमेव समयमुत्कर्षेव इक्तीया पूवकोटि रेव प्रतिसेवनाकुशीसोपि । कपायकुशीसो

नविये इत्यपको प्रत्यक नवयय पाक्यपे द्वे तिहार मवनेने पाठगुणा करता घातसहय सीकसे ०२ पाक्यपे द्वे इम यावत् कपायकयोसकग कइवा
 निगुंभना प्रयकीया कतर । नायमा अत्रकषेव हादि कजायय पय सिबाएव पुच्छा । वैभौतम अवस्यबको दोय उरकहबको पय तेषिम निर्गुंभने उरकट
 बको तीम भयगुंभय कक्षा एक मवनेनिये दोय पाक्ये इम पनेरे पवि दाव बीजएव अपक निर्गुंभपवे पाकन करोने सीक्रे इम करोने अद्विवे पय रना
 तजना प्रयकीया कतर । गावमा या एक्तीवि २८ । इमौतम नको एवको पवि हार २८ द्विवे काकधार २८ मा कइवै—पुलाएव भते काकया क्वेववि
 रहार । पुलाक सेमयवन् काकबको केतयाकाकसने इवे र प्र कतर । गायमा कइवेव यतीमुद्रुत कजासकवि येनामुद्रुत उरकसय पुच्छा । वैभौतम
 कइवबको पन्तमुद्रुत ते किम पकाकपची पठिग्या पन्तमुद्रुत प रपूत कवा विना पकाक मरे नको एवे पवि नको इमकरी कइवबको पन्तमुद्रुत
 कक्षा उरकटबका पवि यतमुद्रुत इइवा अभावको सक्रयना प्रयकीया कतर । गीयमा अइवेव एक समय कजायेव देसुवार पुवकाको । वैभौतम क
 पयबको एकरसव तेषिम सक्रयन परव प्रतिपदि यतनरसमवनेनिये दोय सरचना सयवबको उरकहबको इमन् पुवकादि याअकावना पाठकप ने

कोट्यपुत्री ऽएवर्षात्ते वर्यप्रतिपत्ताविति ॥ निपटेऽभित्यादी अइस्येव एकं धनयति ॥ उपशास्त्रमोइस्य प्रथमसमयसमनस्तरमेव मरुवसम्भ्रात् ॥
 उक्तोसर्ध अतोमुद्रुतति ॥ निर्यन्याश्याया एतरप्रमाबास्वाविति ॥ विद्यायेत्यादी अइस्येव अतोमुद्रुतति ॥ प्रायुष्कालिभास्त्रमेद्रुते केबलोत्पत्तावन्ना

संणयि स्थतोमुद्रुत ॥ वउसेण पुच्छा, गीयमा । जहखेण एक्कं समय उक्कोसेण देसूणाइ पुइकोणी, एव
 पडिसेयणाकुसीलियि, कसायकुसीलियि एवचेत्र । णियंठेण पुच्छा, गीयमा ! जहखेण एक्कं समय उक्कोसेण
 स्थतोमुद्रुत ॥ सिणाएण पुच्छा, गीयमा । जहखेण स्थतोमुद्रुत उक्कोसेण देसूणाइ पुइकोणी । पुलगस्सण

प्यवं पैव । निपन्यपुच्छा । गीतम । अपम्येनेक समयमुहर्षेबात्समुद्रुतम् । आतकपुच्छा, गीतम । अपम्यमाभमुद्रुतमुहर्षेव वखीना पूव
 कोटि । पुलगस्यो मयत्त । कास्तः विपत्तिरं प्रथति ? गीतम । अपम्यमेक समय मुहर्षेवा ऽत्तमुद्रुते । वकुत्ताना प्रदत्त । पुच्छा गीत

पते वरव प्रतिपत्तिनेविय डुवे । एव पडिसववाकुमीमवि कवावकुसोववि एवचव विथठव पुच्छा । इम प्रतिसेवनाकुसोव पवि कइवा कपायकुसोव प
 वि इमत्र कइवा निपेठना प्रज्ञकोवा उत्तर । गावमा अइसेव पडसमय उक्कोसेव अतोमद्रुत सिवाएव पुच्छा । ऐगीतम अइस्येको एकसमय उपया
 ना माइने पडसमय पनत्तरे शीक मरुवना सव्वरवको उरुवुहवको अत्तमुद्रुत निमुंयकासना एतथाहीव प्रमावसाटे खातकना प्रज्ञकोवा उत्तर ।
 गावमा अइस्येव अतोमद्रुत उक्कोसेव देसूणाइ पुच्छा । ऐगीतम अइस्येको अत्तमुद्रुतं पाखणाना पत्तिम अत्तमुद्रुतंनविपे केवकज्जान कपनो च
 रकुटप्रको इत्त पुवकाडो त केवकज्जानो यथा विचरे इवे पुवके कइसे—पखानकक भते वासवो मेव विरंहाइ । धर्वा पखाव ऐममवग् कालएकी
 अतोमोकाव रइए प उत्तर । गावमा अइसेव एव समय उक्कोसेव अतोमद्रुत वउसेव पुच्छा । ऐगीतम अइस्येको एकसमय ते विम एक पखावना
 अइ अत्तमुद्रुतकाव तेइना अत्तसममनविपे अतरे पखावपवी पाव्या इम अइस्येव विवमानेविपे ईस पुखावना एकसमयनेविपे उक्कावयया दित्तनेवि
 ये अइस्येव एवक डुवे उरुवुहवको अत्तमुद्रुत यथापि पुखाव अरुवुहवको एवकार उइस्येव पुवकुल्य परिमाव पाओवे ते अत्तमुद्रुत पवावको तइना वास

मुद्रने अपत्यत ग्रातकालः स्वादिति । पुसाकादीनामकालेन कालमानमुक्त मय पृथक्नाह-पुसायाद्यमित्यादि ॥ अपत्येनैक समयमिति, कथं
 प्रबन्ध पनाकस्य यो ऽन्तमुद्रतकालस्यात्समये स्यपुसाकत्व प्रतिपत्त इत्यत्र अपत्यत्वविवक्षायां द्वयोः पुसाकयो रेकञ्च समये सञ्जातो द्वित्ये च ज
 पय्य पृथक् भयतीति ॥ एकामय अतामुद्रतति ॥ यद्यपि पुसाका उरुपयत एकदा सहस्रपृथक्परिभाषाः प्राप्यन्त तथाप्यन्तमुद्रतस्या तद्वद्भाया
 यदुत्पि तेवा मन्तमुद्रतत्व तत्कालः कवस यद्गं स्थितौ परन्तमुद्रने तत्कपुसाकत्वित्यन्तमुद्रतो म्भारमिस्त्वयसेय, यजुष्वावीना तु स्थिति
 क्षानः सर्वदुा प्रत्यज तथा यदुस्थितिकत्यादिति ॥ नियता अहा पुसायति ॥ तस्यैव-अपत्यत एक समयं तत्कपतो ऽन्तमुद्रतमिति, यन्तरद्वारे-
 पुसागरमवमित्यादि ॥ तत्र पुसाकः पुसाको ज्ञत्वा कियता कासेन पुसाकत्वमापद्यते ? तस्यैव-अपत्यता ऽन्तमुद्रत स्थित्वा पुनः पुसाकएव मय

नते ! कालश्च केयचिर होइ ? गोयमा । जहखेण एकं समय, उक्कोसंण स्यनीमुज्जत । वउसाण नते ! पुच्छा,
 ? गोयमा । ससद्ध एव जाय कसायकुसीळा । गियठा जहा पुळागा । सिणाता जहा वउसा २१ । पुळा
 गस्सण नत । केयडय काल स्यतर होइ ? गोयमा ! जहखेण स्यतीमुज्जत उक्कोसंण स्यणत काल । स्यण

म । सर्वदुा । मय यावत्कपायकुतीसाः । निग्रन्या मया पुसाकाः । स्नातका यथा यजुग्नाः । २२ । पुसाकस्य जवन्त । क्षियरकालमन्तर मय

ना वदन्त वा पचि तद्वान यन्तमुद्रत इति त काच करत यचानो स्थितिनैदिवे च यन्तमुद्रत तेइ एक एवावस्थिति यन्तमुद्रतवको मन्तर काचयो ।
 यदी यदुग्ना प्ररतकोपा मन्तर । गावमा मयसं गम काच कसायकयोका चिचठा अहा पहागा मिवाया अहा यउसा २८ । ईभौतम यजग्नाटिकना
 स्थितिकाल मयदा प्रत्येके तेदनेन यदुस्थितिकपयो वको इम यावत् कपायकुयोच पाच कइवा मिर्भुव अहा पुसाकयो परे अइवा एतसे अघययवनी ए
 कयमय जहदुदको यन्तमुद्रत स्नातक कियत यजुग्ना एतने मय काठहार २२ इव यन्तरद्वार ३ सो कइसे-पहागस्य मने जेइइ
 यहाच यरद्वार । पुसाकन ईमगवन् जेतकाकाच यन्तर इवे एतव पुसाक यदने जेतसेकाच वको पुसाकपयो याने तेइना यन्तर जेतका काचभा र

ति उच्यते पुत्ररत्नो न क्षालेन पुत्राक्षत्वमाप्नोति, काशानन्त्यमेव काशतो निपमयकाह-सर्वाताठ इत्यादि ॥ इदमेव क्षेत्रतोपि नियमयकाह-
क्षेत्रइति ॥ सचानन्तः काश क्षेत्रतो मीयमानः किंमान इत्याह-अथकृमिस्त्वादि ॥ तत्र पुद्गलपरावर्तं एव मूपते किल केनापि प्राणिना प्रतिप
द्वय धिपमायेन मरुके यौवता कासेन लोकाः समस्तोपि व्याप्यते तावता कृत्रतः पुद्गलपरावर्तौ भवति, सच परिपूर्णीपि स्या दत्त काह-अपादं
अपगतानुं अहमाद्य नित्यं अपादुर्णं प्यदतः पूर्णः स्यादत्त काह-देसूचति ॥ देशान मायेन ग्यून मिति ॥ सिखायस्स नतिय अतरति ॥ प्रतिपा

ताठ ठसप्यिणीउस्वप्यिणीठ कालठ, खेतठ अथह पोगलपरियह देसूण एव जात्र णियठस्स । सिणाय
स्सण पुच्छा, गीयमा ! णतिय अंतरं । पुलगाण जते । केवडय काल अंतर हीइ ? गीयमा ! जहखेण

ति ? गीतम । अपयमात्तमुद्गतमुत्कपतीनत्त कासम् । समता अथसप्यिस्सुत्सप्यिस्सः कासतः तेषतो अपादं पुद्गलपरावर्तं वेणीमम् । एव
यावत्तिपन्यस्स । आतकस्य पुच्छा, नीतम । मास्सत्तरम् । पुलाकाना नदत्त । कियत्तासत्तर मवति ? गीतम । अपयमेक समय मुत्कप

॥ उत्तर । भायमा अहखेच पतामुद्गत उकासेचं पचतकास । हेगीतम अथग्ववकी पत्तमुद्गत रशीने वसी पुवाक शोक इवे उत्तुष्टवकी वकी पन
त्तकासपची पामे ते कावनी पनत्तपची शोक काशसो नियम करताथवा कहखे—पचताथा पासविचो उक्खविचोकासपा । पनतो पवसप्यिचो
उक्खविचोकावकी पत्तर इव द्विवे इहोअथपची पवि नियम करतो कहखे, तेइ पनत्तोकास । अतथा पचच्छं पाय्खपरियह देसूच । पेषवकी गिय
तायवा लू मागदुवे ते कहखे पचच्छमिस्त्वादि, तिहा पुद्गलपरावत्त इम सीमखिचे कियसीएव प्रापये प्रतिपदय मरयेकर । जेतस कासेजरी खा-च स
यकोहो खापये तेतठे पेषवकी पुद्गलपरावत्त इवे तेइ परिपच पविइवे एतसामाटे कहखे—अपाह गवसाथ इत्थव तेइपवि देसूचति, मागेजरी ग्यून
इत्थव एतसे पच पुद्गलपरावत्त इयोम । एव जाव चियठअ सिणायअचं पुच्छा । इम सावत्तु णिय व पचि कहखा आतकना प्रत्तकीथा उत्तर । गाव
सा चत्तिपत्तर । हेगीतम नही पत्तर, द्विवे एवअल्लनी अपेसावे कहखे—पक्षागाव मते खेवइय कास पत्तर हीर । पुवाकने हेमगवम् अगखाकास पत्तर

तानावात्, एकत्वापेक्षया पुनरावस्थादीना मन्तरमुक्त मय पर्यन्तापेक्षया तदेवाह-पुसायावमित्यादि ॥ अथ, समुद्रातद्वारे-कसायसमुष्पापति ॥
 बाणियवती मन्तरमन्तरायोगोदयमन्तर कपायसमुद्रातो भवतीति ॥ मन्तरावतिपसमुष्पापति ॥ इह च पुलाकस्य मन्तरान्नावेपि मन्तरान्ति कसमुष्पा

एक समय उक्तीभिण सखेज्जइवासाह । यउसाण जते ! पुच्छा, गीयमा ! जल्यि छुतर एव जावकसायकु
 सीलाण । णियठाण पुच्छा, गीयमा ! जहणेण एक्का समय उक्तीसेण तम्मासा । सिणायाण जहा यउसा
 ण ३० । पुलागस्सुण जस ! कइसमुग्घाया पयासा १ गीयमा ! तिस्सि ससुग्घाया पयासा, तजहा-वेय
 णासमुग्घाए कसायसमुग्घाए मारणतियसमुग्घाए । यउसस्सण जते ! पुच्छा, गीयमा ! पच समुग्घाया प०

तः मन्त्रेयानि यथादि । यकुमानो प्रदत्त । पुच्छा गीतम । नास्त्यन्तरम् । एव यावत्कपायकुञ्जीलानाम् । नियन्त्यानां पुच्छा गीतम । ज
 पर्यनेहं समय मुक्कपत्त परमासा । आतकानां यया यकुञ्जानाम् । ३० । पुलाकस्य प्रदत्त । कति समुद्राताः प्रदत्ताः ? गीतम । ययः समु
 द्राताः प्रदत्ता साद्यथा-वेदनासमुद्रातः कपायसमुद्रातो मारयान्तिकसमुद्रातः । यकुञ्जस्य मदत्त । पुच्छा, गीतम । पच समुद्राताः प्रदत्ता

इहे इ म उत्तर । मायमा अइयच पचकुञ्जसव उक्तीसिच सखेज्जइवासाह यउसाप भते पुच्छा । हेगीतम अवदवकी एकसमय उक्कट्टवकी सख्या
 ता वरमनायची यकुयना हेमगवन् इत्यादि म उत्तर । मायमा अलिपतरं एवं काव कसायकुञ्जीकाच विद्युठाच पच्छा । हेगीतम नही मत्तर । इम वा
 न्नु कपायकमीकडगे अइवो नियजना मन्तरकीथा उत्तर । गीयमा अइयेच एकसमय उक्तीसिच कसाया सिन्धायच जहा यउसाच ३० । हेगीतम ज
 पर्ययथा एकसमय उक्कट्टवकी कसाय आतकान जिन यकुयने कच्छा तिम अइवो उत्तर , इति समहातकार ३१ मो अइहे-पुलागकड भंते कइ
 मन्तराया प । पुलाकने हेमगवन् केतसा समहात कच्छा इ म उत्तर । गीयमा तिस्सि समुग्घाया प त । हेगीतम तीज समहात प्रकच्छा ते क
 इहे-वेववाचमुग्घाए कसायसमुग्घाए मारणातिवसमुग्घाए यउसेच भंते पुच्छा । वेदनासमुद्रात कपायसमुद्रात बाणियवतीने सखेज्जम कपायाइव च

ती न विदुः समुद्रात्वा विवृणुतस्य कथापकुसीतस्वाविपरिणामे सति मरयासावात् ० निर्यटस्व तन्ति एकोविति ॥ तथासमाधत्वादिति, अथ हे

तजहा-वेयणासमुग्धाए जाय तेयासमुग्धाए, एव पठिनेत्रणाकुसीलेवि । कसायकुसीलस्स पुच्छा, गोयमा ।
ठ समुग्धाया पयासा, तजहा-वेयणासमुग्धाए जाय स्याहारगसमुग्धाए, णियठस्सण पुच्छा, गोयमा ।
णत्थि एकीोधि । सिणायस्सण पुच्छा, गोयमा । एगे केवलिसमुग्धाए पयासे ३१ । पुडाएण जते । लीगस्स
कि सखेज्जनागे होजा सखेजेसु नागेसु होजा सखेजेसु नागेसु होजा सखे

सद्यया-वदनासमुद्गतो पावसाव समुद्रुपातः । एव प्रतिषवनाकुसीलोपि । कथापकुसीतस्यपूष्वा, गीतम । पद समुद्रुपाताः प्रकसा सद्य
या वेदनासमुद्रुपातो पावसावकारकसमुद्रुपातः । निर्यन्वस्य पूष्वा गीतम । वास्त्यकोपि । क्सातकस्य पूष्वा, गीतम । एक कवलिसमुद्रुपा
त मच्छत्सु । ध । पुसाकी नवत्त । साकस्य त्ति सख्यसे नागे नवेवसङ्घेये भागे नवदसङ्घेयेपु नागेपु नवदसङ्घेयेपु नागेपु नवेत् सवलोक म

अपेवरी कथावसमहाव दुवे इहा पुढाकने मरय पभाये पवि मारवातिक समुहात बिबद नहा समहातयका निठत्तन कथापकयोसत्वादि परिचाम
यका मरकभा भावकनो कवयमा हेभयवन् इत्वादि प्ररतकोधा उत्तर । गावसा पय समुग्धाया प त । उगीतम पंय समहात प्रक्या त कइत्ते - व
यथासमुग्धाए जाय तथासमुग्धाए । वेदनासमुग्धाए पाविदेह खावत् तेकससमहात ए पय कइवा । पय पडिसववा कुसाकवि कसायकसाकस्य पयवा ।
इम प्रतिषवनाकयोसन्धिये पवि कइवा कथापकुसीलना मरतकोधा उत्तर । गावसा कसमग्धाया प त० । इगीतम कसमहात प्रक्याते कइत्ते - वेय
वासमग्धाए जाय पावारगसग्धाए विवठस्य पयवा । वदनासमहात इत्वादि यावत् पावारक समहात पय ६ कइवा निर्गुभमा मरतकोधा उत्त
र । गावसा वत्ति एकावि सिवायस्यक पुच्छा । इगीतम नहा एककी पवि खानकनो मउत्त था उत्तर । गावसा एगे कयसा समग्धाए प ३१ । इगी
तम एक कयसासमहात प्रक्या वार ३ ३ इति सपहात ३२ ना कइत्त, तिहा सपकडिय पनगाहनस्य । पुसाएव भते सागस्य विं सखत्त माये वा

बद्धरं तत्र तत्रयवगाहनाद्ये तत्र ॥ अस्य गेज्जनागे होज्जति ॥ पुलाकगरीरस्य लोफामङ्गुयभागमायावगाहियात् ॥ मिषाण्डमियादि ॥ अस्य ये
 ज्जनाग होज्जति ॥ अरीरस्यो दयतफपाटकरकामे च लोकासङ्गुयभागमायावगाहियात् ॥ तावन्मात्रत्यात् ॥ अस्य सङ्गुयसु ज्ञानेसुति ॥ स
 यिहरचकाम यदा मीकस्य व्यासत्येन लोकस्य चान्यासतयो लत्या लोकास्यसङ्गुयेषु ज्ञानेषु ज्ञातको वतत लोकापुरषे च सयलोफ यत्तत इति इष

छोए होज्जा १ गोयमा । गो सखेज्जडनागे होज्जा अ्सखेज्जडनागे होज्जा गो सखेज्जेसु ज्ञानेसु होज्जा
 अ्सगंजेसु ज्ञानेसु होज्जा गो सखेज्जाए होज्जा, एव जाथ णियठे । सिणाएण पुच्छा, गायमा । गो सखे
 ज्जडनागे होज्जा अ्सखेज्जड नागे होज्जा गो सखेज्जेसु ज्ञानेसु होज्जा अ्सखेज्जेसु ज्ञानेसु होज्जा सखेज्जेसु

वेत् ? गीतम । गो सस्यप ज्ञान प्रवदमङ्गुये ज्ञाने जवत् गो सस्येपु ज्ञानेषु प्रवत् असस्यपु ज्ञानेषु जवत् जैव सवलोक जवत् एव याय
 यियन्त्य । ग्यातव पञ्चा गीतम । गो सस्यप ज्ञाने जवेदसस्यप ज्ञाने जवत् गो सङ्गुयेषु ज्ञानेषु जवेदसस्येपु ज्ञानेषु जवत्सर्वलोके या मवे

न्ना । पलाक देभगवन् भावनेषु सख्यातम भागे इव पववा । असस्यज्जडनागे ज्ञाने इवे पववा । सखेज्जम भागिस ज्ञान्या । स
 न्याताभागने विपे इवे पववा । परंपज्जस मागेस ज्ञान्या । पसख्याताभागने विपे इवे पववा । सखेज्जडनागे विपे इवे इ म उत्तर ।
 गायमा वा मयेज्जभागि ज्ञान्या पसखेज्जडनागे ज्ञान्या । जेगीतम संख्यातमेभागे न इवे पुलाकगरीरने ज्ञाने असख्येव भागमाथ पवगाहियवर्षा यको
 पसख्यातमभाग इवे । वा सखेज्जेसु भागेस ज्ञान्या पसखेज्जेसु भागेस ज्ञान्या । नही सख्याताभागनेविपे इवे पसख्याताभागने विपे इवे । वा सखेज्जाए
 भागे । नही मयन्भावने विपे इवे । एवं जाव विवठे सिषाएव पच्छा । इम यावत् निर्गवजस चडवा ज्ञातवना मय्कोषा उत्तर । यासमा वा सखेज्ज
 भागे ज्ञान्या पसखेज्जभागि ज्ञान्या । जेभोतम नही सख्यातमेभाग इवे, यरीरपाथयोनि यरीरनेविपे एकीववा असख्यातमेभागे इवे । वा सखेज्जेसु
 भागेसु ज्ञान्या पसखेज्जेसु भागेसु ज्ञान्या सखेज्जाएवा ज्ञान्या इ२ । सखेज्जाएवा भागेसु विपे न इवे खखोसमुदाते मय्करव चाले खखोकाव च्छान्या इव यो

वा होजा ३२ । पुलाएण जते ! सव्वलीयस्स किं सखेअइजाग फुसइ एव जहा उगा
हणा नणिवा तथा फुसणावि न्नाणियव्हा जाय सिणाए ३३ । पुलाएण जते ! कयरम्मि जावे होजा ? गो
यमा । खनधसमिए जात्र होजा एव जाय कसायकुसीले । गियठे पुच्छा, गोयमा । उत्रसमिएया खइए
या जावे होजा । सिणाए पुच्छा, गोयमा ! खइए जावे होजा ३४ । पुलायाण जते ! एगसमएण केय

१ । ३२ । पुसाकी मदत्त । सर्वसौकस्य किं सबपय प्रागं स्पृह्यत्ससहयेय प्राग स्पृह्यति ? एव यथावगाइमा प्रबिता तथा स्पृह्यमापि प्रकृत
व्या पावत्क्यातकः ३३ । पुसाकी मदत्त । कतरस्सिम् जावे मवत् १ गीतम् । शयोपशमिके जावे प्रवेत्त एव यावत्कपायकुसीलः । नियम्य
पूच्छा गीतम् । उपशमिके वा वापिके वा प्राय मयेत् । क्रातकपूच्छा गीतम् । वापिके प्राव मवेत् ३४ । पुसाका मदत्त । एकसमयत् कि

हा पयावा रवे तेमाट पसवेवमायाने बिये खातक बुवे खाकने पूरे सवकाकने वने शार ३२ मा ॥ बिये शर्यागाहार ३३ भी कहेवे—पुलाएणं मते
पवनावय वि सखेअइजाग फुसइ एव जहा शोगाइया मबिया तथा पसबावि माबिसत्ता जाव सिबाए ३३ । एसाक हेमय
वत् मवकाकना एव मवकातमा भाम फरवे पबवा पसक्वातमा माग फरसे ३४ म उत्तर इम किम पवगाइया कइती तिम अयना पवि कइवी एत
ने शर्याना सेवनेपरे कइवी इतसाबियेव सेव ते पबसाइया तेतकाहीव पने अयना ता पवगाठनी तथा तेइजे पासे वने तेइनी पवि इवे इतिबियेय
इम यावत् खातक एतकाअग कइवी शार ३३ ॥ बिये भावहार कहेव—पुलाएणं मते कएरमि भावे होजा । पसाक हेमयवन् किसे भावे बुवे ३४ म
उत्तर । मात्रमा पउपावसमिएभावे हावा । हेगीतम् अयापममिक भावे बुवे । एव जाव असायकमोखे बियठे पुच्छा । इम यावत् अयावकयोस एतका
पगे कइवा निगेइना मयकोवा उत्तर । नाबमा उवसमिएशाखइएवा भावेइजाणा सिबाएव पच्छा । हेगीतम् उपगमिकभावे इवे पववा अयापममि
इभावे इवे खातकना मयकोवा उत्तर । नाबमा खएभावे हावा ३४ । हेगीतम् चादिकभावे बुवे शार ३४ ॥ बिये परिमावहार ३३ मा कहेवे—पु

श्रीनादारे-स्वराणां श्रेयस्य लक्षरं शेषमवगाढमात्रं स्वर्गनात्सवगाढस्य तत्पार्थिवमिति विवेक्येयः । प्राक्कुरं च व्यक्तमेव परिमाकद्वारेण-पुसाया
 पमित्यादि च मनु मयमपताना कोटीकवृत्तपदा मूपत इह तु केवलानामेय कपायकुशीलानां तदुक्त ततः पुसाकाविमामानि ततोऽतिरिच्यन्त इ

इया होजा ? गोयमा । पञ्चिज्जमागए पढुञ्च सिय स्यलिय सिय णलिय । हजस्येण एक्कोवा दीवा तियि
 या उक्कोमण नयपुहत्त पुम्पफियणए पढुञ्च सिय स्यलिय सिय णलिय । जइ स्यलिय जहस्येण एक्कोवा दीया
 तियिथा उक्कोसेण सहस्सपुहत्त । वउसाण जत्ते । एगसमएण पुच्छा, गोयमा । पञ्चिज्जमागए पढुञ्च सिय
 स्यलिय सिय णलिय । जइ स्यलिय जहस्येण एक्को वा दीवा तियिथा उक्कोसेण सयपुहत्त पुम्पफियणए पढुञ्च

यतो मवन्ति ? गीतम । प्रतिपद्यमानक प्रतीत्य स्वादस्ति स्या कास्ति । अपर्यमेको वा द्वीया त्रयो वोत्कथेतः शतपृथक्कम् । पूर्वप्रतिपद्य
 प्रतीत्य स्वादस्ति स्यात्कास्ति । यद्यस्ति अपर्यमेका वा द्वी वा त्रयो वोत्कथेतः शतपृथक्कम् । एकसमये पृष्ठा गीतम । प्र
 तिपद्यमानक प्रतीत्य स्वादस्ति स्यात्कास्ति । यद्यस्ति अपर्यमेकी वा द्वीया त्रयो वोत्कथेतः शतपृथक्कम् । पूर्वप्रतिपद्य प्रतीत्य अपर्यमेन को

भादक भत वपममवक काइया होजा । पक्षाक इमवन्तु एकसमये केतना इवे इ म उत्तर । गायमा पञ्चिज्जमागए पढय सिय पञ्चि सिय पत्ति ।
 द्वीतम प्रतिपद्यमान एतत्त पञ्चिज्जता कथा पायवोने कदाचित् न इवे । अइस्येण एकावा दीवा तियिथा । कथय्यवको एक पञ्चवा दा
 य पञ्चवा तोन इवे । उक्कोसेण सयपुहत्तं पञ्चपडिइयए पढय सिय पत्ति सिय पत्ति । उत्तरकवकी मत पुक्कल इवे पूवे पञ्चिज्जया पाययोने कदाचित्
 इवे कदाचित् न इवे । अइ पत्ति अइकए पञ्चवा दीवा तियिथा । का इव ता अपर्यमेकी एक पञ्चवा दीय पञ्चवा तान । उक्कोसेण सइस्य पढुत्त य
 नमार्चं भते एम ममएण पुष्ठा । उत्तरकवकी सइस्य एककल वकय उभगवन्तु एकसमये केतना इवे इ म उत्तर । गोयमा पञ्चिज्जमागए पढय सिय
 पत्ति सिय पत्ति । द्वीतम पञ्चिज्जतायवा पायवोने कदाचित् न इवे । अइ पत्ति अइस्येण एकावा दाया तियिथा । का इवे वा कथय्य

जहणेन कीकिसयपुहत्तं उक्तीसंगयि कीकिसयपुहत्तं । एव पकिसेनगाकुसीलेवि । कसायकुतीलाण पुच्छा,
 ? गीयमा ! पकियज्जामाणए पनुच्च सिय थ्यलिय जहणेण एक्कीवा दीया तिरिण
 या उक्तीसणकीकिसहस्सपुहत्तं । पुष्पपकिनरणए पनुच्च जहणेण कीकिसहस्सपुहत्तं उक्तीसंगयि कीकिसहस्स

टियतपुपयामुअप्येवपि कीटियतपुपयाम् । एव मतिवयनाकुशीलोपि । कपायकुतीलासा पुच्छा, गीतम । मतिपयमानक मतीत्य स्यादति
 स्यात्तालि । यद्यकि अपययेनेको वा ह्रीवा त्रयो धोरत्रयतः कोटिसहस्रपुपयाम् । पूर्वमतिपय मतीत्य अपययेन काटिसहस्रपुपयामुअप्येवपि

यको एक पयवा दाय पयवा तीन । उक्तीसंग सवपुरत पयपकिवचग पपुव । उरउटयको मग पयकल इवेपूरे पकिवल्या पात्रयोम । अउवच क्वाचि
 मयपुहत्तं उक्तीसंगयि क्वाकिसयपयकतः । अयवचको काटियत एवकुल उरउटयको पयि काटि मग एवकुल । एवं पकिवचवाकुमीसवि कसायकुमीसा
 थं पयका । इम मतिवचनकुमीस पयि क्वावा क्वावक्योडना मरनवावा । उतर गावमा पकिवचनोचए पउव सिय अति सिय अति । ते तीतम प
 टिवचतायवा पात्रयोने क्वाविण्णुने क्वाविण्णुने इवे । अर पति अउवच पयवावा वाया तिपियता । वा इव तो अयवचको एक पयवा दाय पय
 वा तीन इवे । उक्तीसंग क्वाकिसहस्र पुहत्त पयपकिवचगपपुव । उरउटयको क्वाकिसहस्र एवकुल एव मतिपयपात्रयोने । अउवच क्वाकिसहस्र पउ
 व उक्तीसंगयि क्वाकिसहस्र पयकतः । अयवचको क्वाकिसहस्र एवकुल उरउटयको पयि क्वाकिसहस्र एवकुल इवे । अउवच क्वाकिसहस्र पउ
 इय एवकुल वांमिचले पने इवा ता एककीक क्वावक्योडन त इमान क्वाकिया तिवार पुक्कावादिमान तेइको पयिक २ इवे इवा विराथ विम रकी
 इवा उतर क्वावक्योडने जेव क्वाकिसहस्र एवकुल क्वाकिया तेइ दाय तान यादि काटिमइय रूप इम क्वायोने पलाव क्वायादि सयया तियो प्रवेय को
 ते तिवारे मसत्त मयममान जे क्वाकिया ते इवे नही तेमाटे विराथ नही । विरठाथं पक्का । निर्गुचिना मरन उतर । मायमा पकिवचनोचए पपुव
 विव पति सिय अति । तेतीतम पकिवचता यकाने पात्रयोने क्वाविण्णुने क्वाविण्णुने इवे । अर पति अउवच एकवावा वाया तिपियता उक्तीसंग

ति कथं न विरोधः । उच्यते कपायकुशीसाभा मरकोटीसहस्रपुष्पक तद्विप्रादिकोटीसहस्रकथं कल्पयित्वा पुलाक्यबुयादिसङ्गा तत्र प्रवेद्ययते तदा

पुद्गल । गियठाण पुच्छा, गीयमा ! पक्रिवज्जमाणए पद्दुञ्च सिय झ्यलिय सिय णलिय । जइ झ्यलिय जहखेण
एक्का वा दीवा तिसिं वा उक्कोसेण वायठ सत झ्यठसय खयगाण चउपख उवसमगाण, पुञ्चपक्रियझए
पद्दुञ्च सिय झ्यलिय सिय णलिय । जइ झ्यलिय जहखेण एक्को वा दीवा तिसिं वा उक्कोसेण सतपुद्गल ।
सिणाताण पुच्छा, गीयमा ! पक्रिवज्जमाणए पद्दुञ्च सिय झ्यलिय सिय णलिय । जइ झ्यलिय जहखेण एक्की

यि कीटिसहस्रपुष्पकम् । निपन्यानां पुच्छा भीतम् । प्रतिपद्यमानक प्रतीत्य स्यादस्ति स्यात्कस्ति । यद्यस्ति अपत्यमैको वा द्वीया त्रया वो
रभ्यतो द्विपत्यधिकं यत् अष्टयत् उपकाना, यतुःपञ्चाशदुपशमकानाम् पूर्वप्रतिपद्य प्रतीत्य स्यादस्ति स्यात्कस्ति । यद्यस्ति अपत्यमैको
वा द्वीया त्रयो मोरभ्यतः अतपुष्पकम् । ज्ञातकानां पुच्छा भीतम् । प्रतिपद्यमानक प्रतीत्य स्यादस्ति स्यात्कस्ति । यद्यस्ति अपत्यमैको वा

कान्दसतं । आ जे ता अक्यबकी एक पबवा दाव पबवा ताग उरकटबकी एकवोवासठ इवे तेमाहे । पद्दसद खडगाव उउपख उवसमगाप । इक
सोपाठ अपकना उवयत् उपयमना एवं १११ । पुनपडिक्कए पडुव सिय पति सिवचलि । पूर्वप्रतिपद्य पायवोने कदाचित् इवे कदाचित् न इवे । ज
ए पति अक्येवं एकुवावा सावा तिसिंवा । जो इवे वा अक्यबकी एक पबवा दाव पबवा तोग । उक्कोसेण सतपुद्गल सिंवायाव पुच्छा । उरकट
यको यतपुद्गल इवे ज्ञातकना प्रत्यकोथो उतर । मावमा पडिक्कनाए पडुव सिव पति सिव चलि । जेगीतम् पडिक्कनायको प्रते पायवोने क
दाचित् इवे कदाचित् न इवे । अए पति अक्येवं एकुवावा सोवा तिसिंवा । आ इवे ता अक्यबकी एक पबवा दोय पबवा तोग । उक्कोसेण पद्दस
व पुनपडिक्कए पडव । उरकटबकी एकवी पाठ एवं प्रतिपद्यमान प्रते पायवोने । अक्येवं कीटिपुद्गल उक्कोसेचरि कीटिपुद्गल ११ । अक्यबकी
आडिपुद्गल उरकटबकी पति कीटि उरकटल जाववा, इवे पकडुलवार चडेहे—एएचिच मते पुनान उवस पडिक्कनाकुसोव कसायकसोव विचठ

ममल घपतमान पदुक्त तत्रातिरिच्यत इति । अल्पयदुष्टद्वारे-मवृत्त्योवा नियतति ॥ तेषा मुस्कपतोपि अतपयत्तसुहृत्वात् ॥ पुलागा सखेज्ज
 गयति ॥ तया मुरकपतः सखेज्जपुपयानसुहृत्वात् ॥ सिखाया सखेज्जुचति ॥ तया मुरकपतः कोटीपुपयानसत्वात् ॥ यवसा सखेज्जगुचति ॥ तया
 मुरकपत कोटीशतपुपयानसत्वात् ॥ पक्रिसवबाकुशीला सखेज्जगुचत् ॥ कय मत तया मय्युक्तपत कोटीशतपुपयानसत्तयो सत्त्वा स्वत्यं किं
 तु यकगानं यरकोटीशतपुपयं तद्विवाकिकोटीशतमान प्रतिघयिनां तु कोटीशतपुपयं चतु पदकोटीशतमानमिति न विरोधः, कपायिणा तुस

या दोया तिथि या उक्तीसेण अथसय । पुष्टपक्रिययाए पदुच्च जहणेण कोटिपुहस उक्तीसेणयि कोटिपु
 हस ३५ । एएसिण नन । पुलागयउसपक्रिसेत्रणाकुशीलणियठसिगाताण कयरे कयरे जान
 यित्तसाहियाया ? गोयसा । सख्योवा णियठा, पुलागा सखेज्जगुणा, सिगाया सखेज्जगुणा, यउसा

द्वीवा त्रयोपाररुपताप्रशातम् । पूषप्रतिपन्न मतास्य जपयमन काटिपचक्रमुरकपैर्गापि कोटिपुपयानम् । ३५ । यतोया मरुत्त । पुलाकयकुशमति
 सवमाकुशीलकपायकुशीलिनियन्वयरातकानां (मय्य) कतर कतरन्या मावद्विशापाचिका या ? गीतम । सवस्तोका निपन्याः पुलाकाः सखे
 निचपायं कयरे २ आब विसेवाहियाबा । एहने केभगवन् पुलाकन यकयने प्रतिसेवना कयोसत कपायकगोहने निपेवने रनातकने माहामाहि कुष
 कुषको पचद्वे इत्थादि यावत् विगायधिक दुरे २ म उतर । गायसा सख्योवा विद्यठा पन्नागा सखेज्जगुणा सिखाया सखेज्जगुणा यउसासखेज्ज
 गुणा पक्रिसवबाकुशीला सखेज्जगुणा । इगीतम सखो स्थाव निर्गुहन उरकटयको गतपुवण सख्यातपवायको तेइयो पुलाक सखयातगुणा तेइने उ
 रकटको मरुत्तपण सखेज्जगुणा २ तइयो खातक सयातगुणा तइम उरकटयको काटिपुवण मानपवाचको २ तेइयो मकुय सखयातगुणा उरक
 टयको काटियत पुवज्जमान पवाचको २ तइयो प्रतिसेवनाकयोम सपवातगुणा प्रतिसेवनाकयोम पचि काटियत पुवकल्ल तेकिम सखयातगुणा याय
 ते कइवे—इइयसा ने काटियत पुवकल्ल कइते इहा दाय धानकाओ कन्विय पने प्रतिसेवनाकयोस का टयत पुवकल्ल ले कइता ते इहां पार कइको

द्वातागच्छत्य व्यक्तमत्रोत्कर्षतः कोटीसहस्रपुष्पजाननतया तेषां मुक्तत्वादिति ॥ पञ्चविंशतितमच्छले पद्य ॥ २५ ॥ ६ ॥ पद्योद्देश्य
 क सयतानां स्वरूपमुक्त सप्तमपि तदबोध्यत इत्ययं सम्बन्धस्यास्येवमादिसूत्रम-कृतिश्च ज्ञेते । इत्यादि ॥ इहापि प्रष्टापमादीनि द्वारायि वाच्या
 नि तत्र प्रष्टापनाद्वार मधिकृत्योक्त-कृतिश्च मते । इत्यादि ॥ समाह्वयसञ्चयति ॥ समाह्वयसञ्चयति ॥ समाह्वयसञ्चयति ॥ समाह्वयसञ्चयति ॥ समाह्वयसञ्चयति ॥

सखेज्जागुणा, पञ्चिसेत्रणाकुसीला सखेज्जागुणा ३६ । सेव ज्ञेते ! ज्ञेते ! सि
 जाव त्रिहरद ॥ पणवीसहस्रस्य तठी लहेसो सम्मत्तो ॥ २५ ॥ ६ ॥ कद्वण ज्ञेते ! सजया
 पणत्ता ? गीयमा ! पञ्च सजया प०, तजहा-सामाह्वयसजए त्वेठयथायणियसजए परिहारविसुष्टियसजए

यगुणाः ज्ञातकाः संख्येयगुणा वक्रुणाः संख्येयगुणाः प्रतिषेधमाकुशीलाः संख्येयगुणाः संख्येयगुणाः ३६ । तदेव ज्ञेते ।
 ज्ञेते । इतिपावद्विहरति ॥ पञ्चविंशतितमच्छले पद्योद्देश्यः ॥ २५ ॥ ६ ॥ कति ज्ञेते । संयताः प्रष्टाः ? गीतम । पञ्च
 सयताः प्रष्टा साद्यया-सामायिकस्यत ऋद्धोपत्प्यामीपसयत परिहारविश्रुटिकसयतः । धूमसम्मरारायसयतो यथाख्यातसयतः । सामायिकस

ली गतमान करिष ता संख्यातगुणा वाच इहां विरहजही ४ तेषु ॥ कयावक्रुषोबा संख्यातगुणा ३६ । कयावक्रुषोबा संख्यातगुणा ३६ पगट उरकटा
 कादिमन्त्र्य पूबकलवार ३६ तेषु ॥ सेवमते २ ति जाव विहरद । तद्वति हेमगन् इत्यादि वापत् विचरे ॥ पञ्चवीसहस्रस्य कदाठईसा सम्मत्ता
 ए पञ्चवीसमा गतकना कदाठईया पूरा यतो ॥ २५ ॥ ६ ॥ कद्वण ज्ञेते ! सजया पणत्ता संख्येयगुणा ३६ । तदेव ज्ञेते ।
 प्रापमादिकवार कद्वण ज्ञेते ! कद्वण विहा प्रष्टापनाद्वार पायबीने कद्वणे-कद्वण मते सजया प । ज्ञेते ! हेमगन् संयत प्रकथ्या इ म उर
 र । गावमा पंच सजया प त । हेमोतम पच संयत कदा ते कद्वणे-सामारबसजए विहावहाविससजए परिहारविसुष्टियसजए सङ्गमसपरावसजए
 पञ्चव्यायसजए ३ । सामायिक नाम प्रष्टान् संयत ते सामायिक सजत इम विदापञ्जागीय सजत बीने परिहारविसुष्टिक सजत मूळसपराव सयत

मायिकसंयत एव मन्येपि ॥ इतरस्य साविकल्पदद्यात्तरत्वना स्वकासिकस्य सामायिकस्यास्तिस्वावित्त्वरिकः सुवारीपपिय्यमात्र
 मशात्रतः प्रथमपश्चिमतीक्ष्णस्युः ॥ भावकद्विएयति ॥ यावत्कथस्य भाविक्यपथ्यास्तदाभावात् द्यावज्जोविहस्य सामायिकस्यास्तिस्वा द्यावत्कथयिता।
 य च मध्यममिनसभाविदेहजिनसम्बन्धिसाधुः ॥ साङ्गयारयति ॥ सातिचारस्य यदा रोप्यते तदासातिचारस्य च्छेदोपस्थापनीय तद्यथा स्थापु
 पि सातिचार एव एव निरतिचारश्चेदोपस्थापनीयोना निरतिचार, स च धिषणः पाद्यनापतीर्यां म्मशावीरतीर्यं सज्जालो वा ल्बदीपस्था
 सुज्जमसपरायसजए अह्रकायसजए । सामाङ्गयसजएण जते ! कइविहे पणत्ते ? गीयमा ! दुविहे पणत्ते ,

त-इतरिएय अ्याधकहिण्य । वेदोवठावणियसजमे पुच्छा, गो० ! दुविहे प०, तजहा-साङ्गयारेय गिरुई
 यारेय । परिहारविमुद्धियसजए पुच्छा, गीयमा ! दुविहे पणत्ते, तजहा-गिद्धिसमाणपुय गिद्धिठकाङ्गुय
 यतो जदल । कतिविधः प्रसतो ? गीतम । द्विविधः प्रसस लक्षण-इत्तरिकस यावत्कथयितद्य । छेदोपस्थापनीयसयतो मयस्त । पुच्छा गी
 तम । द्विविधः प्रससलक्षण-सातिचारस्य निरतिचारस्य । परिहारविमुद्धियसयतपुच्छा, गीतम । द्विविधः प्रससलक्षण-नितिविद्यमानकथ

यथापयात सबत इ । सामाङ्गयसजएवं मते कइविहे प । सामाविह सयत इभयवन् केतसभदे प्रकथा इ म उत्तर । गायमा दुविहे प तं । केमी
 तस वेदभदे प्रकथा ते कथेहे-इत्तरिणव यावत्कथिएय । काळा काळना प्रथम परमतीवेकरने वारे, यावत्कथिक यावत्कोवना सामीस विषया तीवेकर
 मशाविहकथना साधु । कथावडावचिस सजमे पच्छा । छेदापकापनीय चारिचना मनुकोधा उत्तर । गायमा दुविहे प त । केमीतम हीयभदे प्रकथ्या
 त कथेहे-साङ्गयारेय चिरद्वारेव । पतीचार चरितने क पादापककोज तेइ सातिचार कदापकापनीय तेइना सागवकी साधु पचि सातिचार को
 क एतसे मुखमुन सातीने यतपारायोसे त सातिचार । पतीचार । पतीचारद्वित पाळनाकना सतानीयाने म्मशावीरने वारे कदापकापनीय आरोपीये तया
 प्रथम परम तीवेकरने वारे इव । परिहारविमुद्धियसजए पुच्छा । परिहारविमुद्धिय सबत इभयवन् केतसभदे प्रकथा इ० प्र० उत्तर । गायमा दुविहे

पनीपमपु य प्रथमपदिमतीपयो रेव प्रथतीति । द्विविधत्माव्ययति ॥ परिवहारेकतप स्तपस्यन् ॥ निद्विधकार्ययति ॥ निद्विधत्माव्ययत्तुपरक इत्यर्थे ॥ सखिनिसमाव्ययति ॥ उपग्राममीतः प्रव्यवमानः ॥ विसुक्कमाव्ययति ॥ उपग्रामकर्मणी स्तपकर्मणी वा समारोहन् ॥ अठमत्येय अवस्थायति ॥ व्युक्त चच सामायिकसप्ततीना स्वरूप गार्धामिराह-सामायिकमिड गाहा ॥ सामायिकएव प्रतिपक मनु स्ववापस्यापनीयावी चतुयाप्रपुतम इत्रतममुत्तर धर्म अमकएलमित्ययः त्रिविचन मम प्रवृत्तितः ॥ वास्यतोत ॥ इपुक्तल पासपन् पो चतत इति छप सामायिकसपतः स य

सुक्तमसपरागपुच्छा, गायमा । दुविहे पण्यसे, तजहा-सक्रिलिस्समाणएय विसुच्छिमाणएय । स्यहरकायस जए पुच्छा, गायमा ! दुविहे पण्यसे, तजहा-ठउमत्येय कैवलीय । सामाइयम्मिउकए चाउज्जासम्युगुप्तर धम्म तिथिहेणफासयतो सामाइयसंअतोसखलु ॥ १ ॥ ठेत्तणउपरियाग पीराणजोठवेतिथ्यप्याण । धम्ममि

निर्विष्टकायिकव । मूलसवम्परारयपुच्छा भीतम । द्विविच प्रचतस्यथा-सक्रियमानकए यिशुटुमानकव्य । यथास्यातसयतपुच्छा भीतम । द्विविच प्रचतस्यथा-सुटस्य य वेवसी च । सामायिकतुकत वातुर्यीममनुत्तरपम । त्रिविचनस्यशापरस्यान् सामायिकसयत-सखलु ॥ १ ॥ पं त । वैभीतम वेईभेदे प्रकृष्या ते कवहे-विभिन्नमाव्यय विच्छिदृवाइएव । परिवारविद्युद्वि तपसनीने जोबणा । मभमसपराय पुच्छा । सुकृतसपराय सयत जेभगवन् केतवेभेदे प्रकृष्या इ प्र उत्तर । गायसा दुविहे पं त उत्तर । जेगीतम अइभेदे प्रकृष्या ते कवे वे-सखि'बिच्छमाव्यय विसुद्धिमाव्यय । सक्रिमामन ते एयममयविबी पठतामनाने पूवे उपग्रामयेवि प्रसे तथा व्यकव्यवि चठताने पूवे । पण्यस्त्यास मभय पुच्छा । एवाक्यात सयत इत्यादि मयुकीधा उत्तर । दुविहे प त । वैभीतम वेईभेदे प्रकृष्या त कवहे-अठमग्रय चरनीय । कण्यस्य तथा के यकी रे, विर मामाविक सखतायिकता स्वरूप गावाये बरी कवहे-सामायिकण्यउवए चाउज्जासंमपुत्तरधम्म । तिथिहेणफासयत) सामाइयसंअपवासव सु ॥ १ ॥ सामाविक बीव पक्रियप्या एतसे सामायिक डीव कीव छते पविनइ) इदापल्यापनीयादिबने विप ॥ मज्जासतकए पमुत्तर पम पमवधम ल'इ

नु निश्चित नित्ययाः । धर्मयाच गायया यावत्कथिकसामाधिकसयत सख इत्वरसाभामिकसयत स्तु स्वय वाच्य ॥ खेपूवगाहा ॥ वठ्या बवर-
 ठवठावकीति ॥ खदेन पूवपर्यावच्छदनीपस्थापन त्रतेपु यच्च तच्छेदोपस्थापनो ज्ञया च गायया सातिवार इतरथ द्विती
 यमयत सखः ॥ परिहरति गाहा ॥ परिहरति निविष्टामाभकारिदेवतय भावेवते यः साधुः कि कुर्वन्वित्याए-विशुद्धमेव पच्ययाममनुतर पत्न
 त्रिविधेन रूपेण परिहारिकसयतः सुखरिति, पच्ययामनित्यनम च मयमपरमतीयेया रव तस्यतामाह-लोभापू गाहा ॥ लोभापू लोभलघ

पचजामे वेदोयठावणीसखलु ॥ २ ॥ परिहरतुविसुद्धतु पचजामच्छुणुत्तरधम्म त्रिविहेणफासयतो परिहारियस
 जतोसखलु ॥ ३ ॥ लोनापूवेदतो जोखलुउवसामउअखत्रदथा । सीसुजमसपराठ ख्हस्कायाऊणठकिचि ॥ ४ ॥

खित्वाखलुपयीयं पीरारखय स्थापयतिघासान । चर्मद्विपच्ययाम खदोपस्थापनीयक सखलु ॥ २ ॥ परिहरतुविसुद्धतु पच्ययाममनुतरधम ।
 त्रिविचनरपूदास्यान् परिहारिकसयत सखलु ॥ ३ ॥ लोनापूखदयन्यो खलुपसुमलेचसपकवा । सीसुसमस्यरायो यथास्यातापूजकः किञ्चित् ॥ ४

निश्चित मन पचन काबायेकरो अयता पाञ्चतन्त्रका मत इतिग्रय तेच सामाधिक सयत इवे निरये इवे गाबावे यावत्कथिक सयतकथा इत्वरसामाधिक
 सयत ता पातेहीन विचारी कडवा ॥ १ ॥ खेपू रचपरिभाग पाराचकोठवे एप्याच । धर्मानिपचजामे केडाशहावसोसखलु ॥ २ ॥ खेदोने पर्याव परिहजाने कावाये
 पापचपानेपचमकाप्रतधमनेविये पापचपाने स्थापे खेदापस्थापनीय निरये कडिव एवसे पूवपर्योदने खदोने उपस्थापनो मनेविये जिह्वाने खेदापस्थापनी
 य यागवको साधुर्वचि खेदापस्थापनीय इवे गाबावे सागिचार तथा निरतिचार नीजा चारिचकथा ॥ २ ॥ परिहरतुविसुद्धतु पचजामसयतसखलु । त्रिवि
 चकाकथापरिहारिवर्चत्रतोसखलु ॥ ३ ॥ निविग्रमानकादिभेए तय भासवे जिक्वा साधु ख बरता विग्रहकोज पचमकाप्रत मनुतरधम निविधेकरो अग्र
 तीकका परिहारिक सयत ते निरये कडिवे पचजाम इवे कडवे प्रचनरम तोर्वेकरने विये एदनी सता कडोइ । साभाचवेदता काखतुउवसामसासख
 पाया । साधुसपराथा पचस्थायाचरपाविधि । ४ ॥ साध पचुपते एतसे कामसयच सयाय मूखजिदोने वेदवाकथा । कडावने इतिग्रये जइ निरये उप

उपकामसूक्ष्मकिटिका वदयन् यो वर्तते इति श्रेयाः, श्रेय कर्तव्यं च उवसते गाहा च अयमर्थः—उपघ्यान्ते मोहनीय कर्मणि य श्रुत्यन्त्यः शीघ्र धा ; य श्रुत्यन्त्यो विभो वा ; वर्तते स यथास्यातः सयतः सुस्त्विति । वरुद्वारे—समायिकसयतो वदकोपि प्रवत् प्रवमगुहस्थामके चि वदस्योपघ्यामः सयो वा प्रवति नवमगुहस्थामक च यायत् सामायिकसयतो व्यपविदयते—जहा कसायकुसीलेति च सामायिकसयतः सवद खिवेदोपि स्या दवेदस्तु

उवसतेणस्त्रीण मियजोस्त्रुक्कम्मिमोहणिज्जाम्मि । उटमस्योवजिणीया श्रुहस्कात्तुसजत्तुसखत्तु च ५ ॥ १ ॥
 सामाह्यसजण जंते ! किं सवेदए होज्जा श्रुवेदए होज्जा ? गीयमा ! सवेदए वा होज्जा श्रुवेदए वा होज्जा । अइ सवेदए होज्जा एव जहा कसायकुसीले तहेय णिरथंसस, एव वेदोयथावणियसजणत्ति । परि

४ ॥ उपघ्यान्तशीबेवा य सुसुकमच्चिमोहनीयेस्यात् । अट्ठस्योवाविमोवा यथास्यात् संयतःससुत्तु च ५ ॥ सामायिकसयतो प्रवत्त । किं सवदको सवदवदको प्रवत्त ? गीतम । सवदको वा प्रवदवेदको वा प्रवत्त । यदि सवेदको प्रवदेव यथा कपायकुष्ठीसस्तथैव निरवघ्याय एव खेदोप

यमयवि हुवे यमवा यपकथयिहुवे तिका यूक्कसपराय कथिये तेहयवाक्कातवतो कथिएव खंवा वाकया च । उवसतेवस्योव मियवाउत्तुस्यधिमहाइवि व्यमि । अउमत्तावविवावा यउक्कापासजपासकत्तु च ५ ॥ उपयान्तनेविपे यमवा बोधनविपे जह मिये माइनीबकमत्विये वर्ती तिइति उपयान्तमाइनीवमि विपे तिका कपल यमवा बोधमाइ विवो कपल यमवा विन वर्ते तेउ ववाकवात सयत नियये जाववा इति तात्यसीचं च, ए प्रप्रापनाशार पविडो कत्तु च ५ ॥ चिवे वेदद्वार च कथ्ये । सामाह्यसजणत्तु मते चि सवेदएइत्तात्वाः सवेदएइत्तात्वाः सयत विमयवन्तू वेदके हुवे यमवा सवेदके हुव च ५ ॥ उतर । गावमा सवेदववाइत्तात्वा यवदएवा इत्तात्वा । हेमोतम सवेदके हुव सवेदके हुवे सामादिकवादिच नवमागु च ठावाकगे हुवे तिइति नवमे गु च ठावे वेदमा उपमम तथा सय हुवे तेमाटे । अर सवेदएइत्तात्वा एवं जहा कसायकुसीले तहेय विरवसेच । वा सवेदके हुवे वा इम विम सामादि कसयत सवेदवको तीनीइ यवे हुव यवदता सीच उपमातवेद इत्तात्वा इत्तात्वा विम कपायकुष्ठीक अद्या विमहोव निमियेव कथवा । एवं खेदराहावविच

धीशोपजाक्येदे इत्यथा ॥ परिवारविमुक्तिपत्रं जहा पुलागोति ॥ पुरुषवेदी वा पुरुषमपुष्ययेदीथा स्वावित्यर्थः ॥ सुहृत्सपररागेत्यादी ॥ ज
 हा विषयान्ति ॥ लोकापयाणवेदस्वेतायद इत्यथा, एवमस्याप्यप्यतिदस्युग्रास्थमन्तरोदुष्कासुसारख स्रपमवगतव्यामीति । कल्पद्वार-लोकाधिप
 कल्पति ॥ अस्तितकल्पोवि कल्पनात्रिनमहाविद्वद्विजिनतीर्थपु नवति तथ ब क्वरोपस्यापनीय नासीति चारित्र्यद्वारभाषित्येद मुक्क सामाक्ष्यस्रजएव

द्वारयिसुधिस्रजठ्र जहापुलाठ । सुजमसपरायसजठ्र स्यदृक्कायसजठ्र य जहा णियठो २ । सामाक्ष्यस्रज
 एण जत ! कि सरागे होजा वीतरागे होजा ? गोयमा । सरागे होजा णो वीतरागे होजा, एय जात्र
 सुजमसपराए । स्यदृक्कायस्रजए जहा णियठे ३ । सामाक्ष्यस्रजएण जत ! कि ठियकण्वे होजा स्युठियकण्वे

स्यापनीपसंयतोवि । परिवारविमुक्तिपत्रता यथा पुलाकः । सूक्ष्मसम्परायसयतो यथास्यातसयतथ यथा नियम्यः २ । सामायिकसयतो न
 दसा । कि सरागे प्रयदोतरागे जयेत् १ भीतम । सरागे जने को वीतरागे जयेत् एव यावत्सूक्ष्मसम्परायो यथास्यातसयतो यथा नियम्ये
 न्यः ३ । सामायिकसयतो नदृक्क । कि स्थितकल्पे जयत् १ भीतम । स्थितकल्पे वा जयदस्थितकल्प वा जयत् । क्षेत्रोपस्था

पंजयवि । इम वेदापव्यापनेत्र सयतनेत्रिये पवि कइथा । परिवारविमु द्वय स्रजथा कइथा पुलाथा । परिवारविमुदिक सयत क्षिम पुलाककइथा तिम
 कइथा इतने पुरुषय इदे पयथा पुरुष नपुसक इदे कुवे । सुहृत्सपरायस्रजथा पइक्काकसकथाय जहा विचठा २ । सुहृत्सपराय सयत तथा यथासयात
 सयत ए वे क्षिम नियमकइथा तिम कइथा चोबलपयाति वदकरो पवदक इत्यव दार २ द्विब रामद्वार भोजा कइथे—सामाक्ष्यसंक्षरव भंति किं सरागे
 हाज्या वीतराम हाज्या । सामायिक सयत जेगनवत् सू सराग कुवे पयथा वीतर ने कुवे इ म उतर । गायमा सरागहाज्या चाशोतरागेहाज्या एवं
 नाम सुहृत्सपराय पइक्कायस्रजण कइथा विचठे ३ । इथोतम सराम कुवे पवि वीतराग न कुवे इम यावत् सूक्ष्मसंपरायसने कइथा सहासयात सयत
 क्षिम नियमकइथा तिम कइथा दार २, विदे कइथार चोया कइथे—सामाक्ष्यसंक्षरव भंति कि ठियकण्वे हाज्या तद्विचयिषा हाज्या । सामायिकस्रजत

धा होजा ? गीयमा ! ठियकप्ये वा होजा स्थियकप्ये वा होजा । तेदीयठावणियसजा पुच्छा , गी यमा ! ठियकप्ये वा होजा जो स्थियकप्ये होजा , एवं परिहारविमुष्टिसजमेवि । सेसा जहा सामाह्य सजा । सामाह्यसजाण जत ! कि जिणकप्ये होजा घेरकप्ये होजा कप्यातीते होजा ? गीयमा ! जि णकप्ये वा होजा , जहा कसायकुसीले तहेय णिरवसेस । तेदीयठावणिय परिहारविमुष्टिउ यजहा थउसे

पनीयसयतपुच्छा गीतम । स्वितकश्ये नवे लो वस्वितकश्ये जवेत् एव परिहारविमुष्टिउयतोपि । जेया यथा सामायिकसयतः । यामा यिकसयतो जदन्त । कि विमकश्ये जवस्वविरेकश्ये जवत् कप्यातीते जवेत् ? गीतम । विमकश्ये वा जवेत् , यथा कयापकुयीस्वित्तपेव निरेव जेय । जेदीपस्वापनीयसयतः परिहारविमुष्टिसयतव यथा लकुसः जेय यथा नियन्मः ४ । सामायिकसयतो जदन्त । कि पुस्सावो जवेत् वकु

जेमयवन् खं क्खिति कक्यनेविज इवे पववा पक्खितकक्यनेविजे इवे इ म उत्तर । गीयमा ठियकप्येवा हाळा । जेगीतम क्खितिकक्य नेविजे इवे पववा पक्खितिकक्यनेविजे इवे । जेदायहावचिरेकसयए पुच्छा । जसापस्वापनीव सयतनो प्रत्तकीवो उत्तर । मायसा ठियकप्येवा हाळा बी पक्खिकप्ये होवा इव परिहारविमुष्टिसजमेवि । जेगीतय क्खितिकक्यने विजे इवे पवि पक्खितिकक्यनेविजे न इवे जेमाटे पक्खितिकक्य मज्जम २२ जि न तथा महाविदेव तीवेकरजा तीवने विजे इवे तिवा जेदापस्वापनीव नकोहे इम परिहारविमुष्ट पवि कइवा । सेसा जहा यामाहवसंजए । जेव जि म यामाविक सबतनीपरे कइवा । यामाहवसजएवं भंते कि क्खिकप्ये हाळा जेरकप्ये हाळा कप्यातीते होवा । यामाविकसयत जेमयवन् खं ज्खिज कप्ये इवे पववा अव्यातीते इवे इ म उत्तर । क्खिकप्येवा हाळा जहा कसावकुसोवे तइव विरेवसेसं । जेगीतम क्खिकक्य नेविजे इवे विम कयावकुमीव कया विमकीव निर्बिजेवपचे कइवा । जेदायहावचिय परिहारविमुष्टिपाय जहा कउवे जेत जहा विवठे । जेदापस्वाप नीव परिहारविमुष्टिउरे वे विम वकुयवज्जो विम कइवा जेव विम निर्बिजेकया विम कइवा उत्तर ४ । यामाहव संजएव मते कि पुस्सापहाळा कउसे

सेस जहा प्रियठे ४ । सामाह्यसजएण जते ! कि पुलाए होजा, वउसे जाय सिणाए होजा ? गोयमा !
 पुलाए वा होजा वउसे जाव कसाए वा होजा जो प्रियठे होजा जो सिणाए होजा एव वेदोवठाथणि
 यएधि । परिहारयिसुद्धिसजएण जत ! पुच्छा, गोयमा ! जो पुलाए जो वउसे जो पक्रिसेवणाकुसीले
 होजा । कसायकुसीले होजा जो प्रियठे होजा जो सिणाए होजा ५ । सामाह्यसजएण जते ! कि पक्रि
 सेवए होजा थपक्रिसेवए होजा ? गोयमा ! पक्रिसेवए वा होजा थपक्रिसेवए वा होजा । जह पक्रि

सो यावत्सातको जवेत् १ गीतम । पुलाको वा जवेत् वजुको वा जवेत् भावत्कपायकुसीलो वा जवेत् नैव सातको जवेत् व
 खदोपस्वापनीयसयतीपि । परिहारविमुद्धिसयती जदत्त । पुच्छा गीतम । नैव पुलाको नैव वजुको नैव प्रविसेवनाकुसीलो जवेत्कपायकुसी
 लो जवेत् नैव भिर्यन्तो जवेत्सैव सातको जदत्त ३ । सामायिकसयतो जदत्त । किं प्रविसेवको जवेत् ? गीतम । प्रविसेवको

जाय सिवाए होजा । सामाहिकसयत हेमसवन् खू पुलाकनेविये हुवे वायत् सातवनेविये हुवे ६ प्र० उत्तर । गोयमा पुलाएवाहोजा
 जउसे जाय कसाएवाहोजा । हेगोयम पुलाकनेविये हुवे इस कसायकुसीलनेविये हुवे पुलाआदिपरिचमि पारिकमबाबको । बोबिकठे
 हाजा वा सिवाए हाजा इव वेदावहावबिदएवि । निर्गवनेविये न हुवे सातकनेविये पबि न हुवे इस वेदोपसापनोवने विये हुवे । परिहारवियु
 दिवउजवच मते पुच्छा । परिहारविमुद्धि संबंध हेमसवन् ६ प्र० उत्तर । गोयमा सोपुआए वा कउसे वा प्रविसेवणाकुसीले हाजा कसायकुसीले
 हाजा । हेगोयम नहो पुलाकनेविये हुवे नहो वजुनेविये हुवे नहो प्रविसेवनाकुसीलनेविये हुवे कपायकुसीलनेविये हुवे । वा बियठे होजा को सिवा
 एहोजा ६ । नहो निर्गवनेविये हुवे नहो सातकनेविये हुव हार ३ । समाहसजएण जते किं प्रविसेवएहोजा अपविसेवएहोजा । सामायिक संबत
 हेमसवन् खू प्रविसेवकन विये हुवे जवना अपविसेवकने विये हुवे ६ प्र० उत्तर । गोयमा प्रविसेवएवा हाजा अपविसेवएवा हाजा । प्रविसेवक प

जते । किं पुनः इत्यादि ॥ पुसात्वाविपरिवासात् चारित्र्यात् । आगद्वारे-अद्वैतसाधनस्य पथ आकाशं जगत्कारणं अथवा आकाशस्यैव इति ॥ इति
 च आनन्देन्द्रोऽष्टमश्रुतद्वितीयोद्देशकस्य आनन्दस्यैव तावत्तात्पर्यमात्मरम्यत्वं यत्नमा पुनः केवलसिद्धिपास्यात्तद्विधिः केवलसाधनं केवलस्यैव तदराग्य
 पास्यात्तद्विधिः हे वा कीचि वा त्वत्कारि वा आत्मनि भवन्तीत्यवस्था, अतःपि कारे-यथास्यात्तस्यतो यदि नियमं तदा ७ अथवा अथवा

सेत्रं होजा किं मूलगुणपञ्चमेव होजा सेस जहा पुलागसस । जहा सामाह्यसजए एवं छेदोयथावपि
 एव । परिहारविमुक्तिःसजए पुच्छा, गीयमा । जो पञ्चमेव होजा अथपञ्चमेव होजा एव जाय अथ
 हस्कायसजए ६ । सामाह्यसजएण जते ! कइसु गाणेसु होजा ? गीयमा ! दोसुवा तिसुवा अउसुवा होजा ,

अवेदप्रतिषेधको वा जवत् । यदि प्रतिषेधको प्रकल्पि मूलगुणप्रतिषेधको प्रकल्पस्य पथा पुमाकस्य । यथा सामाग्यसस्यत एव केदोपस्थाप
 श्रीयसपतोपि । परिहारविमुक्तिःसस्यतएव गीयत । नैव प्रतिषेधको अवेदप्रतिषेधको अवेत् एव यावद्यथास्यात्तस्यतः ६ । सामाग्यसस
 यतो जवत् । कतिपु आनंनु जवत् । गीयत । इयो वां द्विपु वा अतुपे वा मतदव यथा अथाप्युच्छेत्स्य तथा त्वत्कारि आत्मानि प्रकल्पया ,

वि इने अथवा अथपतिषेधक पचि इने । अर पञ्चमेववा हात्वा किं मूलगुणप्रतिषेधकएवात्वा । वा प्रतिषेधक इवे तात् मूलगुण प्रतिषेधक इवे । सेस
 जहा पुलागस जहा सामाह्यसजए एव अवेदप्रतिषेधक एव परिहारविमुक्तिः पञ्चमेव पुच्छा । येन किम पुच्छाकनि कश्चो तिम अथवा किम सामाग्यिक
 सस्यते विवे कश्चो इम केटापकापनीकने विवे पचि अथवा परिहारविमुक्तिः सस्यतना प्रकल्पोवा उत्तर । आत्मना वा पञ्चमेववा हात्वा अथपतिषेधक इ
 ज्वा एवं आन अथवा अथ ६ । जेभोतम अथ प्रतिषेधके इवे अथपतिषेधके इवे इम अथवा अथास्यात्तस्यत अथ अथवा हाट ६ । सामाह्यसस्यत ७
 ते अथ अथिमु हात्वा । सामाह्यसस्यत जेमथअन् केतासाधनने विवे इवे इतिप्रक उत्तर । आत्मना हात्वा तिसुवा अथवा हात्वा । जेभोतम अथ
 नविने इवे अथवा तीमनेविने इवे अथवा अथनेविने इवे इम किम अथात्कामाकने अथा । तथा अथारि आत्मार मथवा एव जाय सुसुमस्यतएव ।

एवं जहा कसायकुशीलस्व तथा घञारि णाणाइ नयणाइ । एव जाव सुज्जमसपराइए य । अहस्कायसज
यस्स पव णाणाइ नयणाए जहा णाणवेसए । सामाइयसजाण नते ! केयइयं सुय अहिज्जेज्जा ? गोयमा !
जहणेणं अठ पवयणमायाठ जहा कसायकुशीले, एव वेदोवठावणिएवि । परिहारयिसुद्धियसजए पुच्छा,
? गोयमा ! जहणेण णयमस्स पुद्धस्स आयाववत्यु, उक्खीसेण अस्सपुक्खाइ दस पुद्धाइ अहिज्जेज्जा, सुज्ज

एव यावत्सूक्ष्मस्वरापकरण । यथाक्यातस्यतस्य पञ्च ज्ञानानि ज्ञानया यथा ज्ञानोद्देशके (अष्टमस्कृतद्वितीगोद्देशक इत्यर्थः) सामान्यिकसंय
तो जज्ञत् । किपत्तं सुतमप्यठ ? नीतम ! अपम्येनाष्टौ भववन्मासुक्का यथा कपायकुशीलाः, एव वेदोपस्थापनीयस्यतोपि । परिहारविभुद्विसंय
तपुच्छा नीतम ! अपम्येन भवमस्य पूर्वस्थाचारवस्तुं उत्कर्ष्यतो ऽधस्तूर्वाणि दस पूर्वोचि अभ्यत । सूक्ष्मस्वरापस्यतो यथा सामान्यिकस्यत ।

तिमकोज चारि ज्ञान मज्जावे कइवा इम वाक्त्तं सूक्ष्मस्वराव तर्हि कइयो । पइक्कायसेजयस्स पथ वाचाइ भववाए जवा वाकइसेए । यथाक्काव
मगतने पवज्ञान मज्जावे कइवो तिम पाठमा मतज्जा बोजा उट्टग्गानेतिपे ज्ञान वतज्जावथ यवात्तर प्रवरव भज्जा वको केवको यवाक्कात चारि
वने केवलज्ञान अग्रक बोतदाय यवाक्कात चारिकोने वीर यववा तीन यववा चार हुवे इम भज्जा, इतिं नुतयधिचार, कइके — सामाएव सज्जाव भते
अवइयं पुव अहिज्जेज्जा । सामान्यिकस्यत केमज्जन् जेतथा सुत भवे इतिपत्तं उतर । गोयमा अइयेव पइपवयवमायापा जहा कसायकुशीले एव ए
दावडावविपमि । इतीतम अथक्काको पट प्रवचन मातापा भवे तिम अथायक्योशने कइता तिम कइवा इम कइपक्कापनीयने विपे पचि कइवो । प
रिहारविभुद्विसजए पुच्छा । परिहारविभुद्विस्यतना प्रदलकोवा उतर । मायमा अइयेव भवमस्य पुनक्क थायारवत्तुं । इतीतम अथक्काको भवमा
पुवना चाचारवदुनामा अचिचारविपमि । उक्काव अस्सपुक्खाइ अस्सपुक्खाइ अहिज्जेज्जा । उक्काव अस्सपुक्खाइ एव पुव भवे ।
सूक्ष्मस्वरापस्यत जहा सामाएवअए पइक्कावअए पुच्छा । सूक्ष्मस्वरावस्यत तिम सामान्यिकस्यतने कइता तिम कइवा यवाक्कावस्यतनो प्रदल

विशुद्धैश्वर्योत्तमं भुत, यदितु स्वात्मक सदा भुतातीतो अत एवाह-अहोर्ध्वं अठ पवयवमायाठ इत्यादि । आलक्षारे-एवं वेदोवठावधिपरिवर्तिता

मसपरायसजए अहा सामाहयसजए पुच्छा, गीयमा ! अहोक्षेप स्थठ पत्रयणमायाठ,
उक्तीक्षेप अउहसपुष्पाह स्थिजेजा सुस्थवतिरिसे वा हीजा ७ । सामाहयसजएण जते ! किं विल्ये हीजा
स्थितिल्ये हीजा ? गीयमा ! विल्ये वा हीजा जहा कसायकुसीले । वेदोवठावधिणए परिहारविमुष्टिय सु
जामसंपराए य जहा पुलाए, सेसा जहा सामाहयसजए ८ । सामाहयसजएण जते ! किं सखिगे हीजा ।

यथास्यातसपतपुच्छा, भौतम ! अपन्येनाही मववतमापुका, अत्त्वपतवतुंअपूर्वास्वपेत् भुतव्यविरिखो वा भवेत् । ७ । सामायिकवयती
मवत्त । किं तीर्थं प्रवेदतीर्थं भवेत् ? भौतम ! तीर्थं वा भवेद्यथा अयायकुसीलः । वेदोपस्थापनीयः परिहारविमुष्टिः भूतसम्पराय अ
यथा पुलाकः शोया यथा सामायिकवयती प्रवत्त । किं अखिजे प्रवेदन्यलिङ्गे भवेत् ? यथा पुलाकः । एवं वेदोपस्थाप

नीया अतए । गावमा अहोर्ध्वं अउपवववमायाठा उवासेव अहय पुकार पश्चिमेव्या । देभौतम अहवववको अहप्रववत माता पादिइइ अउठअवको
अहइ पूर्वपवैत् भुत भवे यने आतवती । पुषवतिरिसेवा हाव्या ० । भुत यतीत शीज इवे तेशोव असेवे, यववा भुतव्यवतिरिख इवे हाउ ० । याम्मा
वर्धववर्धं भते वि तिरसे हाव्या अतिरसेवा हीजा । सामाहिकवयत देमभवन् अं तीर्थनेविये इवे यववा अतीवनेविये इवे इतिमन्न अतए । मोवमा
विरसेवा हीजा अवा अठावकुसीले । देभौतम तीर्थनेविये इवे इत्यादि किम अवावकुसील अहा तिम अइवो । वेदोवठावधिए १ परिहारविमुष्टिइ २
सुभुसर्धराएय अवा पुलाए सेसा अवा सामाहवर्धवए ८ । वेदोपस्थापनीय परिहारविमुष्टिइ अहवर्धपरव ए किम पुलाक अहो तिम अइवो येव
किम सामाहिकवयवत अहा तिम अइवो हाउ ८ । सामाहवर्धवएव भते वि अखिगे हीजा अखिजि हीजा अवा पुलाए । सामाहिकवयवत देभनवन्
अ अखिनेने विये इवे यववा अखिजिनेविये इवे इत्यादि किम पुलाकनेअहा तिम अइवो । एवं वेदोवठावधिपरिव । इम वेदोपस्थापनीयवधि । परि

स्थूलिगे होजा ? जहा पुलाए , एव ठेवोवठायणिएवि । परिहारविमुद्रिसजएण जते । कि पुच्छा ?
 गीयमा ! दसुलिगपिजायालिपि पदुसु सलिगे होजा , जो स्थूलिगे होजा जो गिहलिगे होजा , सेसा
 जहा सामात्रुयसजए ? । सामाइयसजएण जते ! कइसु सरीरसु होजा ? गीयमा ! तिसु या वउसु या
 पयसु या होजा , जहा कसायकुसीले एव ठेवधठावणिएवि । सेसा जहा पुलाए १० । सामाइसजएण जते !
 कि कम्मजूमिए होजा स्थकम्मजूमिए होजा ? गीयमा ! जम्मण सतिजाव पदुसु जहा वउसे एव ठेवोव

नीयोपि । परिहारविमुद्रिसयतो जवल । कि पुष्पा , गीतम । इव्वलिकुमपि जावसिक्कमपि प्रतीत्य स्वलिङ्गे जवे को य
 विसिङ्गे जवेत् अया तथा सामायिकसयतो ढ । सामायिकसयतो मदक । कतिपु धरीरपु जवेत् ? गीतम । त्रिपु वा वतुपु वा पण्यसु वा
 जयत् । यथा कपायकुशीस , एव ठेवोपस्थापनीयोपि । अया यथा पुलाक १० । सामायिकसयतो जवल । कि कम्मजूमि जयदकमजूमि जवेत् ?
 गीतम । कम्मजुजाव प्रतीत्य यथा वकुस । एवं ठेवोपस्थापनीयोपि । परिहारविमुद्रिकस यथा पुसाक । अया तथा सामायिकसयत ११ ।

धारविमुद्रि सजएण भते वि पुष्पा । परिहारविमुद्रिक सजत जमगवन् इव्वाटि मज्जबोधा उत्तर । गायमा दम्बलिकपि भावस्त्रियपि पठय स्वलिङ्ग
 हाया । हेभोतस द्रव्यस्त्रिय पवि भावस्त्रिय पवि जायवोने सखिगेनेविदे इवे । वो पण्यस्त्रियहाया वा गिहलिगे हाया सेसा जहा सामाइयसजए ८ ।
 मही पण्यस्त्रिये विदे इवे मही यइलिगेने विदे इवे मय विम सामायिक सयत कइया तिम कइया इर ८ । सामाइयसजएण भते कइसु सरीरस होया ।
 सामाविकसजत जेमपयन् केतवा शरीरने विदे इवे इ म उत्तर । गायमा तिसुया यउमुवा पयसुवा हाया अहा कसायकुसीले । इगीतम तोमनेविम
 पयवा चारनेविदे इव पयवा पायनेविदे इवे ए तिम कइया विम कपायकगीव कइया । एव कडीपडाववि / वि सेसा जहा पुलाए १ । इम कसायका
 पनीव पवि कइया व कर्ता विम पुजाव कइया तिम कइया इर १ । सामाइयसजएण भत वि जयमजूमिए हाया पयकमजूमिए हाया । याम वि

ठायणिपवि । परिहारयिसुदीण्य जहा पुलाए, मेसा जहा सामाडयसजण ऋते । किं
 नुमप्विणीहाले होजा उम्मप्विणीहाले होजा ? जो नुमप्विणी जो उस्सप्विणीहाले होजा, गीयमा । नु
 गप्विणी जहा यउमे । एयं ठेडोयठायणीपयि, ११ । णत्तर जम्मण सतिजाय पटुस्सु चउसुयि पलिजागेसु णत्थि ।
 मात्तरण पटुच्च थ्यायरे पलिजागेसु होजा । सेस तचेय । परिहारयिसुदीए पुच्छा ? गीयमा । नुमप्विणी

माजापिककयता त्तरण । जियवमप्विणीकाल नवदुरसप्विणीकाल मवयो उरसप्विणी नो अयसप्विणीकाले तवेत् ? गीतम । अयसप्विण्या
 पया पटुग । एव उदोपन्थापनापोवि ११ । मत्तर अस्ससुत्ताव मतीस्य चतुसुपि मतिजागपु मासि साधारण मतीत्याप्यत्तरे प्रतिजागे मवत्,
 मय तवेय । परिहारविशुद्धपुष्पा ? गीतम । अयसप्विणीकाले या मवेदुरसप्विणीकाल वा भवे यो अयसप्विणी ता अयसप्विणीकाले वा

मत्तरे भगवन् प्य कम्मभूमिं विष इवे पवथा पवममूमिने विवे इवे र म उत्तर । गाथमा अन्ववसतिमाथ पवच लहा यवसे । इगीतम उपलभा
 वा अतीमावकते पाचरोने जिय वकयवत्ता तिम कववा । एवं अदायडावविपवि । इम अदायपस्सापनोय पवि कववा । परिहारविमारादय लहा पु
 ल कववा अदा वामारादय अठ । परिहारविमदिक् लिय पुलाक् अत्ता तिम कववो गेय जिय सामाविक्कसयत अत्ता तिम कववा । मामादयमजए
 व भवे किं पालविणीकाले हात्ता अत्तविणीकाले हात्ता । मामाविक्कसयत इभगवन् प्व् पवयवि वीकाले इवे पववा अत्तविं वीकालने विवे इवे ।
 वा पीवविणी वा अत्तविणीकाले हात्ता । पववा नहो पवयवि वी नहो अत्तवि वीकाल पववाने विवे इवे र म उत्तर । गाथमा आसप्विणी लहा
 इवसे पव अदायडावविमदि । इगीतम पवयवि वीकालने विवे इवे इत्थादि अिम वक्कयम अत्ता तिम कववा इम अदायपस्सापनोय पवि कववो । अथ
 र अत्तविमदि माह पवव । एतथाविमय अगम तथा अतीमाथ मते पाययो । अउसुवि पक्तिभागेव अत्ति पावरक पटुच । अरिरे पवि मरोक्खेत्थानके न
 हो अवरक पायरोने । पववरे पक्तिभागेनु हात्ता अरं तचेय । पत्तेरे पक्तिमायने विवे इव येव तिमहोत्र कववो । परिहारविमुरोप पुष्पा । परिहा

धर्मन बहुसुखसमानः काकत श्वेदोपस्थपानीयसयतउक्त क्षत्र च बहुशस्यो त्सप्यिस्वसवप्यिंभीव्यतिरिक्तकाले ब्रह्मतः सद्भावतद्य सुपमसुपमादिभिर्मति

कालेवा होजा उस्सप्यिणीकाले वा होजा णो उस्सप्यिणीकाले वा होजा । जइ उ
सप्यिणीकाले होजा जहा पुलान् । उस्सप्यिणीकालेवि जहा पुलान् । सुज्जमसपराठे जहा णियठो । एव
स्यइस्काठेवि १२ । सामाहयसजएण जते ! कालगए समाणे कि गति गच्छति ? गोयमा ! देवगति गच्छइ ।
देवगति गच्छुमाणे कि जयणवासीसु उवज्जेजा याणमत्तरेसु उवयज्जेजा जोइसिएसु उवयज्जेजा वेमाणि

प्रवत् । एवि सवसप्यिणीकाले सवद्यया पुसाकः । उस्सप्यिणीकालेपि यथा पुसाकः । सुस्सस्यरारयो यथा भिर्यन्मः, एव यथास्यातोपि १२ ।
सामापिबसयतो प्रवत् । कासयतः सन्धा गतिं गच्छति ? गोतम ! देवगतिं गच्छन् कि प्रवत्तवासिपूस्यद्येत धानव्यत्तरे
पूस्यद्येत न्यातिक्कपूस्यद्येत वेमानिकेयूस्यद्येत ? गोतम ! भैवत्तवत्तवासिपूस्यद्येत यथा कयायकुञ्चील एव वेदोपस्थापनीयोपि । परिहारविच्छुद्धि

रविमुद्धिकना मत्तनीवा उत्तर । मायमा पासप्यिणीकालेवा जाल्जा उत्तप्यिणीकालेवा जाल्जा । हेगोतम यवसप्यिणीकालेने विपे बुवे उत्तप्यिणीकाले
ने विपे पवि इरे । सो पौसप्यिणीकाले वा उत्तप्यिणीकाले वा जाल्जा । नही यवसप्यिणीकालेने विपे बुवे । जइ पौसप्यिणीकाले हो
जा जहा पुसाया । जो पवसप्यिणीकालेने विपे बुवे इत्यादि किम पुसाकाले कद्या तिम कइवा । उत्तप्यिणीकालेने जहा पसायो । उत्तप्यिणीकालेने
विपे पवि किम पसाक कद्या तिम कइवो । सुज्जमसपराया जहा चियठा पव भइस्सापोवि १२ । सुज्जमसपराय किम निर्धेवकद्या तिम कइवा इम व
याक्यात संवत्त पवि कइवा हार १२, विपे मातहार कइवे—सामाहयसजएणं मत्ते काकगएयमाचे किं नति गच्छइ । सामाविबसयत हेमगजन् काल
कोयाकनी किंसी गतिनेविपे काव १ प्र उत्तर । गोयमा देवगति गच्छमाचे । हेगोतम देवगति गच्छमाचे । विपे जाव देवगति मत्ते जातो व
वा । कि मवत्तवासोव उवज्जेजा वावत्तरेसु उवज्जेजा । सु मवत्तरेसु उवज्जेजा । जोइसिएसु उवज्जेजा वेमाविपएव

प्रागत्रये त्रियेभोऽभिहितो बुधमसुपमाप्रतिप्राये च विधिः, श्लेदीपस्थापनीपस्यतस्य तु तथापि तन्निवेपामाह-अधरमित्यादि च सुधमस्थापनाद्वा

एसु उयवज्जेज्जा ? गोयमा । णो जवणवासीसु उववज्जेज्जा जहा कसायकुसीले एव वेत्थेयठावधिणिएवि । परिहारविमुत्थीए जहा पुत्ताए । सुअमसपराए जहा णियठे । अहस्काए पुच्छा ? गोयमा ! एव अहस्कायस जएवि जाय अजहस्यमणुक्कीसिण अणुत्तरविमाणेसु उयवज्जेज्जा । अत्यंगठए सिज्जड जाव अत करेइ । सामाडयसजमेण मंते ! देवलीगेसु उयवज्जामाणे कि इवत्ताए उववज्जइ पुच्छा ? गोयमा ! अयिराहण प

को पथा पुत्ताकः । मूलसम्परायो पथा निघ्न्य । यथावपातपुच्छा ? गौतम । एव यथावपातस्यतोपि यावद्वचनस्यत्कुरुतो अुत्तरयिमाने पूत्यद्यत । सत्येव क्वचन सिध्यन्ति यावद्वचन कुर्वन्ति । सामायिकपूत्यद्यमानः किमिन्द्रतयात्पद्योत पुच्छा ? गौतम ।

इववचन्या । आत्तियेन विदे अपत्ते वेसातिकने विदे अपत्ते इ प्र उत्तर । भावमा वा मववपासोमु उववचन्या कथा कसायकुसीले । हेभोतम मवण पतीने त्रिये न अपत्ते इत्यादि त्रिस कथावकुयोवन कथा तिम क्वथा । एव छेदावहाविविधे परिहारविमुत्थीए कथा पुत्ताए । इम छेदापक्कापनीयन विदे पवि क्वथा परिहारविमुत्थि त्रिस पक्का कथा तिम क्वथा । यदुमसपराए कथा त्रियठे पक्काए पुत्ता । मूलासपराव त्रिस त्रियेव कथा तिम क्वथा यथाव्यातमा मरुत्तयोवा उत्तर । भावमा एव पक्कायसवपवि । हेगौतम इम यथाव्यावर्तवतन पवि क्वथा । आर पक्कास मपुत्तासिचं पक्काविमानेसु इववचन्या । भावपु पक्काव पक्कावटवको पणुत्तरविमानने विदे अपत्ते । परवेगए सिक्का आर अत करेइ । छेतथाएव साम्ने य इव सर्वं पुक्कना अत करे । वामा इवसकमेव भंते देवकाणिमु उववचन्याचे । सामाविकसयत हेभमवन् देवकावने विदे अपक्कातीवका । कि इत्ताए एव वक्काए पुत्ता । अ इत्तपत्ते अपत्ते इ प्र उत्तर । भावमा परिहारकवं पणुत्त एव कथा कसायकुसीले । हेगौतम परिवराधन मते पात्रयीन इम त्रिस वपावकुयोव कथा तिम क्वथा । एव छेदावहाविविधे परिहारविमुत्थि कथा पुत्ताए सेसा कथा त्रियठे । इम छेदापक्कापनीय पवि क्वथा परिहा

२-सुभ्रुवपरयेत्यादी । अत्रलोकान्प्रतोमुद्रुतिवा सत्रमठावति ० अन्तमुद्रुते नवास्यान्तमुद्रुतिवति अन्तमुद्रुतप्रमाणादि तद्वत्ता तस्या स प्रति

रुच एव जहा कसायकुशीले एव वेदोवठावणिणुवि । परिहारविमुद्रीए जहा पुलाए, सेसा जहा गियथे ।
सामाहयसजाण नते ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवहय काल ठिई पखत्ता ? गीयमा ! जहखेण दी
पलिठयमाइ, उक्कोसेण तेहीस सागरोवमाइ एव वेदोवठावणिणुवि । परिहारविमुद्रीयस्स पुच्छा ?
गीयमा ! जहखेण दी पलिठयमाइ, उक्कोसेण स्यठारस सागरोवमाइ । सेसा जहा गियथाण १३ । सा

अविराचना प्रतीत्यैव यथा कथापुद्गुलीस । एव करोपस्यापनीयोपि । परिहारविमुद्रीको यथा पुलाक शीपा यथा नियन्म; । सामाधिक
संयतस्य प्रवक्त । देवलोकेपूपयमानस्य कियत्त कास स्थितिः प्रकृता । नीयम । अपम्यन इ प्रस्योपम उक्तपतप्रयलिद्यास्वाबरोपमादि,
एवं वेदोपस्यापनीयोपि । परिहारविमुद्रीकस्य पुच्छा ? नीयम । अपम्यन इ प्रस्योपमे उक्तपतो उदावद्य सागरोपमादि । शीपा यथा नि

रविप्रदिवना प्रश्नकीषी ते विम पुलाक कथा तिम कइवा श्रेय विम निपक कइती तिम कइवी । सामाहयसकएवं भते देवलोके उक्तपत्तमापुख के
इयवाक ठिर प । सामाहयसकएवं भते देवलोके उक्तपत्तमापुख के
पाहमाइ उक्तपत्तमापुख के । देवलोके उक्तपत्तमापुख के । सामाहयसकएवं भते देवलोके उक्तपत्तमापुख के
विद्वि परिहारविमुद्रीयस्य पुच्छा । इत उक्तपत्तमापुख के । सामाहयसकएवं भते देवलोके उक्तपत्तमापुख के
कासेच पट्टारसामरादनाइ केसा कइवा विवठाच १३ । देगीतम जवववकी दाय पन्नापमनी उक्तपत्तमापुख के
कइती तिम कइवी दार १३ । सामाहयसकएवं भते देवलोके उक्तपत्तमापुख के । सामाहयसकएवं भते देवलोके उक्तपत्तमापुख के
२ । गीयमा पसकज्जा सत्रमठावा प० । नीयतम प्रसज्जता सत्रमज्जान प्रकथ्या । एव जस्य परिहारविमुद्रीयस्य सुभ्रुवसपरगासजस्यस्य पुच्छा । इम

समयं चरन्निमुद्रिविक्रमजावा दसङ्केपानि तानि प्रवन्ति यथाक्यातेत्वेकमेव तद्व्याप्यं चरन्नुद्दे निचिद्योपस्वारिति समयमस्यामाहपथदुस्वचिन्ताः

माङ्गयसजयस्सण न्रते ! केवद्वया सजमठाणा पणत्ता ? गीयमा ! अ्यसस्वेजा सजमठाणा पयससा । एव जस्स परिहारविमुद्रियस्स । सुज्जमसपरागसजयस्स पुच्छा ? गीयमा ! अ्यसस्वेजा अ्यतीमुद्धसिया सजमठाणा पयससा । अ्यहस्कायसजयस्स पुच्छा ? गीयमा ! एगे अ्यजहसुमणक्खोसपु सजमठाणे पयससे । एए सिण न्रत । सामाहयत्तेदोवथायणियपरिहारविमुद्रियसुज्जमसपरागअ्यहस्कायसजमठाणाण कयरे २ जाव

पण्यानान् १३ । सामायिकसयतस्य न्रत्त । क्वियन्ति समयस्यानानि प्रच्छसन्ति ? गीतम् । असङ्केपानि समयस्यानानि प्रच्छसन्ति । एव यस्य परिहारविमुद्रिकस्य । सुस्ससम्परायसयतस्य पुच्छा ? गीतम् । असङ्केपा भ्यान्वमीभूतिकाणि समयस्यानानि प्रच्छसन्ति । यथाक्यातसयतस्य पुच्छा ? गीतम् । एकमणपस्यानुत्तुं सपमस्त्वाण प्रच्छसम् । यतथा न्रत्त । सामायिकत्वेदोपस्थापनीयपरिहारविमुद्रिकसूक्ष्मसर्वपराययथास्या तसयमस्यामामा (मध्ये) कतरं कतरंभ्यो यावद्विज्ञेयापिक्वावा ? गीतम् । सर्वस्वोक्तं यथास्यातसयमस्यैकमणपस्यानुत्तुं समयस्यानं प्रच्छसम्

अह परिहारविमुद्रिक जगे कइवा सुस्ससपरायसयतमा मरुत्तकीवा उत्तर । गाबमा पसखत्वा अतामुद्रित्तिवा सजमठ्ठाणा पं । इगीतम पसख्वात पन्नुत्तुत्त तत्तवा जेइत्ताक्वात् तेइने प्रतिसमये चरन् मुद्रि विययमाभवकी असख्वाता समयस्काण प्रकप्वा । पइक्काययववत्थ पुच्छा । यथाक्यातसयत मा मरुत्तकीवा उत्तर । गाबमा एगे पव्वइत्थ मरुत्तासव सजमठाणे पं । इगीतम एव पव्ववग्ग अतुत्तत्त संवमस्काण प्रकप्वा तेइत्ता क्वात्तेविवे चर विययत्तिना निविमिप पचचिकी, द्विने समयस्काणना अण्ण मूल कइत्ते—एएसिक् भंते सामाहय जेदोवत्तापयिक् । रइत्ता हेमयवन् सामादिव जेइत्ता पस्सापनीवना । परिहारविमुद्रिय सुस्समसपराग पइक्कायसजमठाणाच कइरे २ जाव विसिंसादियावा । परिहारविमुद्रियत्तिना सूक्ष्मसपरायना वत्ता ज्जातना समयस्काणने कुच २ वकी माहामादि पापम् विमिंसापिक्क पुने २ प्र उत्तर । गाबमा सचत्तोने पइक्कायसयतस्य । इगीतम सचत्तो जावा

पां तु किंसाद्यद्वाप्यपत्न्या समकानि समस्थामान्येकाविशतिः तत्रैकमुपरितप्त यथास्थातस्य ततोऽपलनानि बह्वारि सूक्ष्मस्यरायस्य तानि
 च तस्मादसङ्गुणानि वृष्यानि, तेषोऽप्यत्वारि परिहृत्यास्यास्यष्टौ परिहृत्यास्यत्वारि परिहृत्यास्यत्वारि परिहृत्यास्यत्वारि परिहृत्यास्यत्वारि
 तानि यानि बह्वापष्टौ च पूर्वीत्वारि तस्योऽन्यानि च बह्वार इत्यर्थं तानि षोडश सामायिकद्वयोपस्थापनीयस्यतयोः पूर्वस्य द्योतानि अथङ्गा

त्रिसेसाहिया या ? गीयमा । सप्तत्योवे अहस्कायसजमस्स एगे अजहयामणुक्कोसए सजमठाणे , सुकामस
 परायसजयस्स अंतोमुक्तिसिया सजमठाणा अस्सखेज्जगुणा , परिहारविमुच्चियस्स सजमठाणा अस्सखेज्ज
 गुणा , सामाह्यसजयस्स त्तेदीवठायाणियस्स एणसिण सजमठाणा दोणहथि तुत्ता अस्सखेज्जगुणा १४ ।

सूक्ष्मस्यरापसपतस्तान्मोक्षितक्रादि समस्थामान्यसङ्गुणानि परिहारविमुच्चियस्य समस्थामान्यसङ्गुणानि सामायिकस्यतस्य
 क्षेत्रापस्थापनीपस्यैतयोः समस्थानानि द्वयोरपि तुस्यान्वसङ्गुणानि १४ । सामायिकस्यतस्य जवत्त ! शिष्यस्त यारित्रययाः प्रश्नताः ?

यथास्य तस्यतना । एग सखइव सखसासग सजमठाण । एक सखस्यस्य सट्टकए सयतस्थानक तइयो । सट्टमसपराथ सखयस्य पगामुइ तथा सजम
 ठाणा असखज्जगुणा । सूक्ष्मस्यराथसयतना अतमुत्तित्त सखस्यतना असख्यातगुणा तइयो २ । परिहारविमुच्चियस्य सजमठाणा असखज्जगुणा । परि
 हारविमुच्चियस्य सयतस्थान असख्यातगुणा ३ तइयो । सामाह्य सखस्यस्य अडाववावियस्य । सामाहिकस्यतना अण्यस्यापनीयता ए अजना सयत
 स्थान माहामादि सरोवा पत्ते पठिवाको असख्यातगुणा इहा असडाव स्थापनाये समस्य सयतस्थानक इवकीस बन्धित तिहा अपरिका एव ते यथा
 प्यातना तइयो नीबवा थार त सूक्ष्मस्यराथना तिक् तइयो सख्यातगुणा वेणवा तइयो नीबवा थार परहा काडवा अगिळा थाठ पारिहारिक तेइ
 यो समस्येवगुणा इणवा तिवारपको परिहृत्ता ४ थाठ पूर्वोक्तकोक तेइयो चजना ४ एम साये सामाहिक अडापस्थापनीय सयतना इवे पठिवायको
 एइ असख्यातगुणां दार १४ । सामाह्यसखस्यस्य मत्ते वाडवा अरितपल्लया प । सामायिकस्यतना अमयान् कतवा वारिअपवीम प्रकथ्या १५ प्र

सामाह्वयसजयस्सण ज्ञेते ! केवइया चरिप्तपज्जावा पण्णा ।
 एव जाय अहस्कायसंजयस्स । सामाह्वयसजएण ज्ञेते ! सामाह्वयसजएण चरिप्तपज्जा
 वेहि किं हीण तुल्ले अण्णहिण ? गीयमा । सिय हीण ल्ठाणयक्किण । सामाह्वयस्सण ज्ञेते ! लेदीवठावाणि
 यसजयस्स परठाणसखिगासण चरिप्तपज्जावेहि पुच्छा, गीयमा । सिय हीणे ल्ठाणयक्किण । एवंपरि

गीतम । अन्तायादिबर्षेवाः प्रथमा एव यावद्यथास्मात्सयतस्य । सामायिकसयतो ज्ञदन्त । सामायिकसयतस्य स्थायानसखिकर्षेव चारि
 श्रयवेते; किं हीमस्तुस्योप्यचिद ? नीतम । स्वाहीनः पट्स्थानपतितः । सामायिकसयतस्य ज्ञदन्त । बदीपस्यापनीयसयतस्य परस्थानसखि
 कर्षेव चारिप्रपयसे पुच्छा गीतम । स्वाहीनः पट्स्थानपतितः । एव परिहारविद्वुक्कित्थापि । सामायिकसयतो ज्ञदन्त । सुहमसम्परायसय

उत्तर । गीयमा यवता चरितपण्यवा प । ज्ञेनीतम अन्तायादिबर्षेव प्रथमा । एव जाव पट्स्थायसजयस्य । इम यावत् यथास्मात् सवतस्यी च
 इवा द्विजे सखिकर्षे बर्षे—यामाह्वयसजयस्स मते सामाह्वयसजयस्य सहाय सखिगासेव चरितपण्यवेहि किं हीणे तुल्ले अण्णहिण । सामायिकसयत ज्ञे
 मगदन् सुहमसम्परायसयतम स्थायान सखिकर्षेव स्थायानसखिकर्षेव चरितपण्यवेहि किं हीणे तुल्ले अण्णहिण । सामायिकसयत ज्ञे
 व हीणे ल्ठाणयक्किण । ज्ञेनीतम यवताराता तेइता संकमस्मान् च तिहा चिबारे ए हीन युद्धिक पनेरा विमोप युद्धिकने विपे वत्ते तिबारे एक हीन यने
 रा पथिक चिबारे सरीके संकमस्मान् वत्ते तिहार तुल्ले इम हीन पथिकपने पट्स्थान पतित भवे एहीन बर्षेके यथा -- सामाह्वयस्य मते लेसावहा
 चरिप्तपण्यस्य परठाण सखिगासेव चरितपण्यवेहि पुच्छा । सामायिकम ज्ञेमगदन् लेठापण्यपनीय सवतने परस्थान सखिकर्षेव चरितपण्यवेहिबरो इ
 प्र उत्तर । यामाह्वयस्य हीने ल्ठाणयक्किण एवंपरिहारविद्वुक्कित्थापि । ज्ञेनीतम बर्षेव हीन इत्यादि पट्स्थान पतित भवे । इम परिहारविद्वुक्कि
 कने पथिक इवा । सामाह्वयसजयस्स मते सुहमसम्पराय संकमस्मान् च तिहा सखिकर्षेव पण्णा सखिगासेव चरितपण्यवा पुच्छा । सामायिकसयत ज्ञेमगदन् यथास्मात् स

हारयिसुद्धियस्सवि । सामाहयसजणुण नत्ते ! सुज्जमसपरागसजयस्स परठाणससिग्गसिण चरिसुपज्जात्रा पुच्छा, गीयमा ! हीणे णो तुल्ले णो सुअहिए सुणतगुणहीणे । एव सुहस्कायसजयस्सत्रि एव लेदोव ठायणिएवि । हेठिल्लेसु तिसुयि सम ल्ठाणवकिए । उअरिल्लेसु दोसुयि तहेव हीणे । जहा लेदोवठायाणि ए तहा परिहारयिसुद्धिएवि । सुज्जमसपरागसजणुण नत्ते ! सामाहयसजयस्स परठाण पुच्छा, गीयमा ।

तस्य परस्मानसवाचन चारिषपवीचि करो इ म उत्तर । गाथमा हीचे वा तुल्ले वा अश्रद्धिए पबंतगुणहीचे । हेगीतम हीनहुवे नही वरोया नको पदिक पनत्तगुव हीन हुवे । एवं अश्रद्धायसंजसयवि एवं लेदावद्वावविपवि । इम यथापयातसवतना पचि कइया इम लेदोपस्सापनोवने त्रिये पचि कइया । इद्विम तिसवि सम कइयाचवडिण उअरिल्लेस वासवि तहेवहीचे । हेठिवा तोनेइसघाते पचि यटस्मान पतित कइया परिखा सामासिक्कावि तो नसघाते लपरिखा ठाव सुक्कसपरागावादिक् तेइनेत्रिये तिमहीव हीच कइया । जहा अशोवद्वावविपए तहा परिहारविसुद्धिएवि । त्रिम लेदोपस्सापनीय तिम परिहारवियुद्धि पचि कइयो । मज्जसंघेपरागसंजएव मते सामाहयससवस्य परठाय पुच्छा । सुक्कसपरागसवस हेमववन् सामासिक्कसयतने प रस्मान इत्यादि मय उत्तर । गाथमा वा हीचे वा तुल्ले अश्रद्धिए पचतगुव अश्रद्धिए एव लेदावद्वावविपवि । हेगीतम नही हीन नही वरोयो एताव ता पचिक पनत्तगुव अचिक इये इम अश्रद्धायस्सापनोवने पचि कइया । परिहारविसुद्धिएसवि समसहाचे विद्य हीचे सिक्क तुल्ले विद्य पभडिण । परि हारविसुद्धिक्क सयते पचि लस्माने अदाविप् हीन अदाविप् तुल्ले कदाविप् पचिक । अइ हीचे पचतगुवहीच । लो हीनहुवे वा पनत्तगुव हीनहुवे ।

तस्य परस्मानसवाचन चारिषपवीचि करो इ म उत्तर । गाथमा हीचे वा तुल्ले वा अश्रद्धिए पबंतगुणहीचे । हेगीतम हीनहुवे नही वरोया नको पदिक पनत्तगुव हीन हुवे । एवं अश्रद्धायसंजसयवि एवं लेदावद्वावविपवि । इम यथापयातसवतना पचि कइया इम लेदोपस्सापनोवने त्रिये पचि कइया । इद्विम तिसवि सम कइयाचवडिण उअरिल्लेस वासवि तहेवहीचे । हेठिवा तोनेइसघाते पचि यटस्मान पतित कइया परिखा सामासिक्कावि तो नसघाते लपरिखा ठाव सुक्कसपरागावादिक् तेइनेत्रिये तिमहीव हीच कइया । जहा अशोवद्वावविपए तहा परिहारविसुद्धिएवि । त्रिम लेदोपस्सापनीय तिम परिहारवियुद्धि पचि कइयो । मज्जसंघेपरागसंजएव मते सामाहयससवस्य परठाय पुच्छा । सुक्कसपरागसवस हेमववन् सामासिक्कसयतने प रस्मान इत्यादि मय उत्तर । गाथमा वा हीचे वा तुल्ले अश्रद्धिए पचतगुव अश्रद्धिए एव लेदावद्वावविपवि । हेगीतम नही हीन नही वरोयो एताव ता पचिक पनत्तगुव अचिक इये इम अश्रद्धायस्सापनोवने पचि कइया । परिहारविसुद्धिएसवि समसहाचे विद्य हीचे सिक्क तुल्ले विद्य पभडिण । परि हारविसुद्धिक्क सयते पचि लस्माने अदाविप् हीन अदाविप् तुल्ले कदाविप् पचिक । अइ हीचे पचतगुवहीच । लो हीनहुवे वा पनत्तगुव हीनहुवे ।

णो हीणे णो तुझे अस्मिहिणं । परिहारयिसुद्धीएसुयि सम सठा
 ण सिय हीणे सिय तुझे सिय अस्मिहिणं । जइ हीणे अणतगुणहीणे । अइ अस्मिहिणं अणतगुणमस्मिहिणं ।
 सुज्जमसपरागसजयस्स अहस्कायसजयस्स परठाण पुच्छा, गोयमा ! हीणे णो तुझे णो अस्मिहिणं अणत
 गुणहीणे । अइस्काए हेठिहाण चउरहवि णो हीणे णो तुझे अस्मिहिणं अणतगुणमस्मिहिणं सठाणे णो हीणे
 तुझे णो अस्मिहिणं । एएसिणं जते ! सामाइयत्तेदीवठाअणियपरिहारयिसुद्धीएसुज्जमसपरायअहस्कायसजया

पस्यापनीयोपि । परिहारविशुद्धिजनं सम स्वस्थाने स्थायीनः स्वानुसुः स्यादस्यपिक्क । यदि हीमाऽजन्तुगुहरीनः । यथास्यपिक्कोऽमन्तगुणा
 स्यपिक्कः । सुखसम्परायसयतस्य यथास्वातसयतस्य परस्थानपुच्छा गौतम ! हीनो मोतुस्यो नोऽस्यपिक्कोऽमन्तगुहरीनः । यथास्याते चसा
 नपु चतुष्टयपि नो हीनो मोतुस्यो स्यपिक्को ऽजन्तुगुणास्यपिक्कः स्वस्थाने णो हीनो नून्यो नोस्यपिक्कः । एतेषां जवन्त ! सामायिकत्वे
 दापस्यापनीयपरिहारविशुद्धिजनसम्परायपथास्यातसयतानां अपन्योरऽन्यत्कानां चारिजपयवाका कतर कतरस्यो यावद्विशोपापिकावा !

पइ पमिहिणं पचतगुणं ममिहिणं । इति पचिक्कं इवे ता पनत्तगुणं पचिक्कं कइवा । मइमसपराग सजयस्य पइक्कायसजयस्य परठु च पुच्छा । सुख
 मपरागसयतने यथाऽवशातसयतने परस्मानसबाकना इ म उतर । गावमा हीचे वा तुक्क वा पमिहिणं पचतगुणं हीच । हीतम हीनइवे नही तुक्क
 नही पचिक्कं पनत्तगुणं हीनइवे । पइक्काए हेठिहाणं चउरहवि । यथाऽवशातसयत मोचका चारसघाले पचि । वा हीचे वा तुक्के पमिहिणं पचतममिहि
 णं । नही हीन नही तुक्क पचिक्कं इवे पनत्तगुणं पचिक्कं कइवा । उट्टाचे वा हीचे तुक्क वा पमिहिणं । अस्माने नही हीन सरोए नही पचिक्कं । एएसिच
 मते सामास्यत्तेदीवठाअणियपरिहारविशुद्धीएसुज्जमसपराग सजयस्य पइक्कायसजयस्य । एइने हेमगवन् सामायिकत्वेदापस्यापनीय परिहारविशुद्धिजनं सुख
 सपराय यथाऽवशात सयतनं । अइपुच्छासगाच चरितपत्तगुणं कतरं माव विसेसाइवा । अथय उरकट चारिजपनीयने माइमानां च उरकट यथो यावत्

तनुत्वातीति । धनिर्वाप्यद्वारे सामाहयसंबन्धं धत्ते । सामाहयसंबन्धस्ते त्वादी ४ खिय ङीबन्ति ॥ असङ्गुतानि तस्य समयस्यासामि तत्र च यदेको षीतः सुद्विसंयमस्थानकं स्परित्वातरत्र वसते तदे कोहीनीम्यस्त्वल्पधिकः यदा तु समाने समयस्थाने वर्तते तथा तुल्ये हीनाधिकत्वे च यद्व्यासार्पण

ण जहयुक्तीसगाण चरिस्तपज्जाण कयरे कयरे जाये विसंसाहिद्या ? गोयमा ! सामाहयसजमस्स हेदो यथायणियसजयस्स य एएसिण जहसुगा चरिस्तपज्जाया दोरहवि तुष्ठा सस्योवा २ । परिहारविमुत्ति यसजयस्स य जहयुगा चरिस्तपज्जाया चरणतगुणा ३ । तस्सचेव उक्तीसगा चरिस्तपज्जाया चरणतगुणा ४ , सामाहयसजयस्स वेदीयठावणियसजयस्स य एएसिण उक्तीसगा चरिस्तपज्जाया दोरहवि तुष्ठा चरणतगुणा , सुजमसपरायस्स जहसुगा चरिस्तपज्जाया चरणतगुणा , तस्सचेव उक्तीसगा चरिस्तपज्जाया चरणतगुणा , ब्यह

गीतम । सामायिकसयतस्य खदीपत्यापनीयसयतस्य चेतयो र्भपम्यकाद्यारियपर्येवा ह्योरपि तुल्याः सर्वस्वोक्ताः २ । परिहारविमुत्तिकसयतस्य च अपम्यका चारिस्तपज्जाया अमस्तगुणाः ३ । तस्य वैवोत्कयकाचारिस्तपज्जाया अमस्तगुणाः ४ । सामायिकसयतस्य वेदीपत्यापनीयसयतस्य

विमियाधिकं भूये इतिप्रयं उत्तर । गाथमा सामाहयं सचमस्य खदायुक्तावियं सचमस्य । इमोतम सामाहिकसयतना तथा खगपत्यापनीयं सचमना । ए ऽसिच खदस्यगा चरित्तपज्जाया दावइवि तुष्ठा सचमनावा २ । ऽइमा अथम्यबको चारिस्तपज्जाया वज्जना सरीखा एने सबयोबाळा । परिहारविमुत्तिव स अय्यय खदस्यमा चरित्तपज्जाया चचतगुणा ३ । परिहारविमुत्तिव सचतमा अथम्य चारिस्तपज्जाया चचतगुणा । तस्यचेव उक्तासगा चरित्तपज्जाया चचतगुणा ४ । तेइमाच उरकटा चारिस्तपज्जाया अमस्तमना । सामाहयसजयस्य खेदायुक्तावियं सजयस्य ५ । तइवो सामाहिकसयतना तथा खेनापत्यापनीयं सचतमा । एएसिच उक्तासगा चरित्तपज्जाया दावइवि तुष्ठा चचतगुणा । एइमा उत्कट चारिस्तपज्जाया दाज्जना सरीखा अमस्तमना ६ । सङ्गमसपरायस्य खदस्यमा चरित्तपज्जाया चचतगुणा । तेइवो सुज्जसपरायस्यमा अचरव चारिस्तपज्जाया चचतगुणा । तस्यचेव उक्तासगा चरित्तपज्जाया चचतगुणा । तेइवो वि

सर्वं स्या दत्तं चाह-ब्रह्माहवच्छिद्यति ॥ उपयोगद्वारे-सामायिकसंयतादीनां पुस्तकव्य बुपयोगहयं भवति सूक्ष्मसंपरायस्यतस्यतु विश्वेयोपदंशोना

रक्षायसजयस्स जहसुमणुक्कोसगा चरित्तपज्जावा अणतगुणा १५ । सामाहयसजणं ज्ञते ! किं सजोगी
होज्जा अजोगी होज्जा ? गोयमा ! सजोगी जहा पुलाए । एव जाव सुद्धमसंपरायसजणं अहस्काय जहा
सिणाए १६ । सामाहयसजणं जत । किं सागारोवउत्ते होज्जा अणगारोवउत्ते होज्जा पुच्छा, गोयमा ।
सागारोवउत्ते जहा पुलाए, एव जाव अहस्काए णवर सुद्धमसंपराए सागारोवउत्ते होज्जा णो अणगागा

चैतयोक्तव्यका धारित्रपर्येवा द्वयोरपि तुस्या अन्तगुणाः ६ । सूक्ष्मसंपरायस्य जप्यकाधारित्रपयवा अन्तगुणाः तस्य चैवोक्तव्येका धारि
त्रपर्येवा अन्तगुणाः यथाप्यातस्यतस्यान्तपन्यान्तकृष्टका धारित्रपर्येवा अन्तगुणाः १५ । सामायिकस्यतो जवन्त । किं सयोगी त्रवेवयोगी
जवन् ? गौतम ! सयोगी यथा पुस्तकः । एव यावत्सूक्ष्मसंपरायस्यतः । यथास्यातस्यतो यथा स्नातकः १६ । सामायिकस्यतो जटन्त । किं
सागारोपयुक्तो जवन्नाकारोपयुक्तो त्रवेत् ? गौतम । साकारोपयुक्तो यथा पुस्तकः एव यावद्यथास्यातो नवरं सूक्ष्मसंपरायः साकारोप

यनात्र उरुत्तं चारित्रपर्येव पन्तगुणा तेजसो । यथास्यासंभयस्य यथासंभयसासगा चरित्तपज्जावा चरित्तगुणा १५ । यथासंभयत सयतना पक्षस्यय च
उरुत्तं चारित्रपर्येव पन्तगुणा द्विवे यानहार चवेत् १५ । सामाहयसंजणं भते किं सवोमोहोक्का पत्रासो पुच्छा । सामायिकस्यत जेमगबन्
सथागी बुवे सयथा पयोगी चवे इतिमत्र उतर । गोयमा सजागी बुवे किम पुस्तकने कथा तिम कथवा । एवं काव बुद्धम
स्यपयव सवर । इम यावत् सूक्ष्मसंपरायने कथवा । पक्ष्माव जहा सिधाए १६ । यथास्यातस्यत तिम कातक कथा तिम कथवाहार १६, द्विवे उप
यागहार चवेत् । सामाहयस्यत भते किं सागारोवउत्ते जहा पत्रागारोवउत्ते जहा पुच्छा । सामायिकस्यत जेमगबन् साकारोपयोगी बुवे सववा
पत्रागारोपयोगी बुवे रक्षादि मत्र उतर । गोयमा सागारोवउत्ते कथा पुलाए एवं जाव पक्ष्माए चरित्तगुणासंभयत । जेमोतम जामाधिकारि

य माह-मवरं सुकुमसंपराये त्वादि ७ मूलसंपराय साकारोपयुक्त साधारणनाम्ना विति सेहयद्वारे-यथास्यात्तस्यतः स्नातकसमानतकः का
 तकय मलकयो वा स्या इत्ययोना यदि सत्यय सदा परमगुरुशयः स्या दित्येवमुच्यते यथास्यात्तस्यतस्यतु निपत्यथापठया निविशोपजापि सु

रोयउत्तै होजा १ ७। सामाह्यसजण्ण जन ! किं सकसायी होजा शुकसायी होजा ? गीयमा ! सकसायी
 होजा णो शुकसायी होजा, जहा कसायकुसल्लि । एव वेदोवठावणिण्णि । परिहारविमुत्थीए जहा पुलए
 सुज्जमसंपरायसजण्ण पुच्छा, गीयमा ! सकसायी होजा णो शुकसायी होजा । जइ सकसायी होजा सेंण

पुत्रा प्रवेत्, नो समाकारोपयुत्तो प्रवेत् १७। सामाधिकसुयतो नदत्त । किं सकपायी प्रवदकपायी प्रवेत् ? गीतम । सकपायी नवेत्तो क्व
 यायी नयत् यथा कपायकुसली । एव कदोपस्यापनीपोपि । परिहारविमुत्थीको यथा पुसाकः । मूलसम्परायस्यतपुच्छा गीतम । सकपा
 यी प्रवेत् ना सकपायी नवत् । यदि सकपायी प्रवस नदत्त । कतिसु कपायेयु मवत् ? गीतम । एकस्मिन्सुयसतसन्ने प्रवेत्, यथास्यात्तस

सकतादिकने पकाबनीपर उपशान शय कुवे इम वावत् मवाववाठ सबतार्दि कइवा पतन्नाविद्यय सूजसंपरायः सागारावउत्ते हात्ता वा सवागाराव
 तेहात्ता १०। मकारापयोमे इवे तवाविध सभापकको पवि यताकारापुत्ते कुवे नको धार १०। स माहसकएव भते कि सकसायीहात्ता सकसायी
 हात्ता । सामाधिक सयत इभगवन् सू सकपायो कुवे सकवा सकपायो हात्ता वा सकसायी हात्ता । हेतो
 तम सकपायो कुवे पवि सकपायो कुवे नको इत्थादि । जहा कसायकुसली एव कदावहुनाविविदि । किम कपावकुसली कवा तिम कइवो इम कवाप
 व्यापनीक पवि कइवा । परिहारविमुत्थि कइवा पुसाए सुकुमसंपरायसजण्ण पुच्छा । परिहारविमुत्थि किम पुसाक कइवा तिम कइवा सकसंपराय
 सजत ना प्रवोती उत्तर । मायमा सकसायीहात्ता वा सकसायी हात्ता । इगीतम सकपायो इव पवि सकपायो न इवे । जइ सकसायी हात्ता ।
 का सकपायी कुवे ता । सदभते कसु कसाएसु हात्ता । तए हेभगवन् केतवा कपायनीपे कुवे इ प उत्तर । गायमा एगमि ७ इवकसमहात्ता ।

इससे इया स्या इतो स्य विशेषेपस्या मिथानार्थमाह ॥ अथरत्नैर्त्वादि ॥ परिग्रामद्वारे सुधुमसपरायेत्याह ॥ अह्ममाथपरिग्रामे वा होज्या प्रीयमाथ

नते । कइसु कसाएसु होज्या ? गीयमा ! एगमि सजलणलीन होज्या । अहस्कायसजए जहा गियठे १८ ।
सामाहयसजएण नत । कि सलेस्से होज्या अलेस्से होज्या ? गीयमा ! सलेस्से होज्या, जहा कसायकु
सीले, एव वेदीयथायणिपुवि । परिहारयिसुधीए जहा पुलाए । सुकमसपराए जहा गियठे । अहस्काए जहा
सिणाए णवर जह सलेस्से होज्या एगाए सुकलेस्साए होज्या १९ । सामाहयसजएण नते ! कि बहुमाण

पतो यथा नियन्त्य १८ । सामायिकसयतो नदत्त । कि ससइयो नववसइयो नवेत् १ गीतम । सलेइयो नवेइया कपायकुशीसा । एव इदो
पलापधीपोपि । परिहारविमुदिको यथा पुलाव । सुकमसपरायो यथा नियन्त्य । यथाक्यातो यथा कातकः नवर यदि सलइयो जये
रेकस्यां सुकमसइयाया भवत् १९ । सामायिकसयतो नदत्त । कि बहुमाणपरिग्रामो नवेदवस्थितपरिग्रामो भवत् ? गी

नेतोतम एव सज्जकन कामने वेपे इवे । पइक्काय सइए जहा बिबठे १८ । बवाक्यावसयत निम निपेव कइया तिम कइवा डार १८ । सामाहयसजएण नते
कि सलेस्से हाव्या सइस्से हाव्या । सामाविकसयत नेममन्यं सवयोने विपे इवे पववा पवयोनेविपे इवे इ प उतर । गायमा सलरस होज्या अ
हा कपायकुशीले इव कवावडावविपि । नेतोतम सवयोनेविपे इव इखादि निम कपायकुशीलेने विपे कइया तिम कइवा इम वेदापक्कापनीय पवि
कइवा । परिहारविपिइए जहा पलाए सुधुमसपराए जहा बिबठ पइक्काण जहा सिवाण । परिहारविमुदिक विम पलाव कइया तिम कइवा मूक
सपरावईवत निम निपेव कइया तिम कइवा बवाक्यातसयत निम कातक कइया तिम कइवा । नवरं अइ सलेस्से हाव्या एगाए सलेस्साए हाव्या ।
एतहाविपेय कातक पकमी पवि इवे पवयो पवि इवे वा सलेस्से इवे इयो कइया पने यथाक्यातसयतने निपेवपवयो
पपेवावे निविपे करो पवि मुकलेइया इवे एतहाभाटे एइना विपेय पव वे सलेस्से इवे डार १८, विम परिग्रामडार कइवे—वा

परिणामे होजा हायमाणपरिणामे होजा अथठियपरिणामे होजा ? गीयमा ! बहुमाणपरिणामे होजा जहा पुलाए एथं जाव परिहारथिसुठीए । सुजामसपरायपुच्छा , गीयमा ! बहुमाणपरिणामे वा होजा हायमाणपरिणामे वा होजा गो अथठियपरिणामे होजा, अहस्काए जहा णियठ । सामाइयसजएण जते ! केवइय काठ बहुमाणपरिणामे होजा ? गीयमा ! जहखेण एक्कं समय जहा पुलाए । एव जाव परिहा

तम । बहुमाणपरिणामो प्रवद्यथा पुलाक एव यावत्परिहारविमुद्धिक । सूत्ससम्परायपुच्छा गीतम । बहुमाणपरिणामो वा जवेत् हीय माणपरिणामोवा प्रवक्तोभवत्स्थितपरिणामो प्रवत् यथाख्यातो यथा नियम्यः । सामायिकसयतो प्रवत् । कियत्त कात् बहुमाणपरिणामो प्रवत् ? गीतम । अपस्यमैक समय यथा पुलाकः । एव यावत्परिहारविमुद्धिक । सूत्ससम्परायसयतो प्रवत् । कियत्त काल बहुमाणपरिणामा

माइयसजएथ भंत वि बहुमाणपरिणामे होजा । सामाविकसंबत हेमयदन् अ बहुमाणपरिणामे होजा । हायमाणपरिणामे होजा अपवृत्तियपरिणामे होजा । घटतेपरिणामि इव पववा पवत्तितपरिणामि इवे इ० प्र उत्तर । मावमा बहुमाणपरिणामे होजा जहा पुसाए । हेगौतम वर मानपरिणामि इवे इत्वादि विम पुसाक कथा तिम कहवा । एव जाव परिहारविमुद्धिए सुत्ससपराय पुच्छा । इम हावत् परिहारविमुद्धिकमे क इवा सूत्ससपरायमा मयसोधा उत्तर । बहुमाणपरिणामेवा होजा इ यमावपरिणामेवा होजा । हेगौतम बहुमाणपरिणामे इवे सूत्ससपरायसयत यथि बहुतायवा पने तिहावको पवता घटते परिणामे इव । वा घट्टिवपरिणामे होजा पवत्ताए जहा बिवठे । नको पवत्तितपरिणामे इवे गुण प्यानकता सभाववको यथाख्यातसंबत विम निर्गैवकथा तिम कहवा । सामाइव संलएथ भते वेवइयंकाथ बहुमाणपरिणामे होजा । सामाविक सयत हेममवन् केतकाकाक रईमान परिणामे इवे इ प्र उत्तर । मावमा जहस्य पवत्तियं जहा पुलाए एव जाव परिहारविमुद्धिए । हेगौतम जव ग्यवको एवसमय विम पुसाकने कथा तिम कहवा इम हावत् परिहारविमुद्धिक तां कहवो । सुत्ससपरायसजएथं भते वेवइयंकाथ बहुमाणपरि

परिचामे वा होजा यो अत्रष्ठियपरिचामे होजति ॥ मूलसंपरारापयतः सेवीधमारोह न्वदुमानपरिचामस्ततो ह्यस्यन् हीयमानपरिचामो वस्त्यि तपरिचामस्य को जनवति ॥ गुहस्थानकथ्यमाया दिति तथासुप्तमसपरायसजण्य जते । अत्रह्यकासमित्यादौ-अहस्यकएकसमयति ॥ सुप्तसपरायस्य अपत्यता बहुमानपरिचाम एक समय प्रतिपत्तिमयाजलरमेव सरबात् ॥ उक्तासुप्त अतामुपुत्तति ० तद्गुहस्थानकस्यैतावत्प्रमाणाख्या इयं तस्य हीयमानपरिचामोपि प्रावनीय इति, तथा ॥ अहस्यस्यसंबन्ध एव जते । इत्यादौ ॥ अहस्य अतोमुपुत्त उक्तासेवपि अतोमुपुत्तति ॥ यो

रयिसुष्टीए । सुज्जमसपरायसजण्य जने ! केयइय काल बहुमाणपरिणामे हाजा ? गोयमा । जहणेण एकां समयं उक्कोनण अतोमुज्जसं । केयइय काल हायमाणपरिणामे होजा एयचेव । अहस्यकायसजण्य जने । केयइय काल बहुमाणपरिणामे होजा ? गोयमा । जहणेण अतोमुज्जस उक्कोसणेयि अतोमुज्जस केयइय

नो सवन् ? गीतम । अपत्यनेवं समयमुत्कृप्तोलसदूतंम् । कियत्त कास हीयमानपरिचामो जवेत् एव येव । यथास्यातसयतो जवत्त । किं पत्त कासं वदंमानपरिचामा जवत् ? गीतम । अपत्यनालमुपुत्तमुत्कर्षाप्यत्तमुदूतंम् । कियत्त कासमयस्थितपरिचामो जवेत् ? गीतम । चाम हाज्या । मूलसपरायसयत जनवन् कण्ठाकाव बहुमानपरिचामे पुवे इ म उत्तर । गायमा जहणेण एव समय उक्तासेव यतामुत्तत । हेगीतम अणववको एवसमय ते मूलसपरायसि अणववको अणमानपरिचाम एवसमय प्रतिपत्तिसमय यत्तारे हीज सरववको उरउटपको यत्तमुदूत तेव ग स्याज्जना एतत्तादौत्र प्रमाववको । केयइयंकास हायमाणपरिचामे हाजा एवयेव । केतहाकाव यटतेपरिचामे पुवे इमहीज खड्वा पृठिकोपरे व इव । पडल्यावमजण्य भने केयइयकानं बहुमानपरिचाम हाज्या । यथाप्याताययत हेमगवम् केगसाकाव वर मानपरिचामे पुवे इ म उत्तर । गा यमा अहस्येव यथामज्जल नकामवति यनामुत्त । हेगीतम अणववको यत्तमुदूत उरउटपको पत्तमुदूत किंको यथाप्यातासंयत केयइयान उयत्रावप्य तथा वही केइ येसयो पडित्तया तइ बहुमानपरिचाम अणववको तथा उरउटपको यत्तमुदूत पुव तेवही उत्तरवाचि तेइमा अणववदिव

पद्यात्मातर्षयत केयस्रस्रामुत्पाद्यिययति-यद्य दैवितेक्षीप्रतिपन्न सस्य मर्दमानपरिकामो जघन्यत उत्कल्पतया लार्मुद्भूते तदुत्तरफाल सव्ययच्छेदार्त्
 श्वस्वितपपरिबामस्तु अयन्तेनैवं समय सुपशमाङ्गाया प्रथमसमयानन्तरसव मरणात् ॥ उक्तासर्व दसूखा पुष्टकोकिति ३ एतच्च प्राग्य द्वायमीपमि
 ति । यत्पुद्गार-सुभसपरायस्वावी ॥ आठयमोइयिक्खवज्जाठीककामपयसीष्टे वपवसि ॥ सुस्तसम्परायसयतो इयायु नं वप्तास्यप्रमत्तामस्ता तसु

काल अत्रठियपरिणामे होजा ? गीयमा ! जहस्रेण एक्क समय उक्कोसेण देसूणाइ पुष्टकोकी २० । सा
 माइयसजणुण जते ! कइकम्मपगानीत्ते यधइ ? गीयमा ! सत्तयिहयधएवा एव जहा वउसे एव जाय परि
 हारविंसुत्थीए सुजमसपरागसजए पुच्छा ? गीयमा ! आउयमीहणिजावजात्ते लकम्मपगानीत्ते यधइ छुइ

अपत्यनैक समयमुत्कर्षेव दक्षीना पूर्वकोटि २० । सामायिकसयता नवत्त । कतिकर्मप्रकृतयो वप्ताति ? गीतम । समयिपधन्थकोवा एव यया
 यदुक्का । एवं पावत्परिहारविमुत्तिक । सुस्तसम्परायसयतपुच्छा गीतम । आयुमीइमीयवज्जाणी पट्ठमप्रकृतयो वप्ताति । यथात्यातसयतो

को । वेदार्थंकाच सवडिस्वपरिचामे जाणा । वेतहोकाच सवडिस्वपरिचामे दुवे इ प्र उत्तर । गायमा अइस्येव एअरमस लक्कुआसइ दसूवार् एअ
 काडी इ । हेगीतम अद्यगवको एअरमस लपयमकाचने मज्जमसय पमत्तरेडोच मरएवको लब्बुटववो देसुत्त पूवकाडो ते पठवय लज पूवकाडो वे
 यन् पासे वार इ । सामाइयसजणव भते अइकअपगहोषा वंवर । सामाविकसयत हेमगवन् वेतलो कसवजति प्रते वधि इ प्र उत्तर । गायमा
 वतविइ ववणवा एवं जहा वउसे एवं आव परिहारभिसविय सइमसंपरागसजए पुच्छा । हेगीतम साते प्रकारि वधि इत्याटि इम जिन सकुयने कइ
 तिम कइवा इम यावत् परिहारविमुत्तिकने कइवा सुअसपराव सवतना मज्जकोधा उत्तर । गायमा आठवमाइविज्जवज्जापी अइस्यपगणाया ववइ
 पवत्तायसजए जहा सिचाए २१ । हेगीतम मूअसपरावसंवत पाजथा तथा माइमीव न वधि पाज्जाया वन्थ पममत्तना पत्तकीज्जे पने मीइ
 मीवमते वाइरवपायना उइववको न वधि णवज ठाडो अइम वधि यवाइयात सवत जिन आतकवज्जा तिम कइवो वार २१ । सामाइयसजएव भते

अथ श्रीश्रीर्वे ७ चारुकरवायोदयाजवा ७ कर्मातीति तद्वन्मैः पदूर्ध्वप्रकृती यथातीति । वेदद्वारे-प्रहृष्टायेत्यादौ ॥ सतविद्येयपया चतुर्विध
 वपयति ॥ यथास्वातसंयतो निपुन्यावस्थायां मोहवर्जानां सप्तमा कर्मप्रकृतीनां वेदको मोहनीयस्योपशान्तत्वात्, श्रीबत्वाद्वा स्वातकावस्थायां

स्वायसजमे जहा सिणाए २१ । सामाडयसजएण जंते ! कइकम्मपगानीं वेदेड ? गोयमा ! णियम थ्यठ
 कम्मपगानीं वेदेड । एव जाय सुजमसपराए । थ्यहस्काए पुच्छा, गोयमा ! सत्तविहवेदएया चउत्तिह्वेदएया
 ससुवेदेमाणे मोहणिज्जाज्जां ससुक्कम्मपगानीं वेदेह, चत्तारिखेदेमाणे वेयणिज्जां अाउणामगोयानं चत्ता
 रि कम्मपगानीं वेदेह २२ । सामाहयसजएज जंते ! कइकम्मपगानीं उदीरेह ? गोयमा ! सत्तयिह जहा

यथा स्वातकः २१ । सामायिकसयतो प्रदत्त । कति कर्मप्रकृती वेदयति ? गौतम । नियमादशौ कर्मप्रकृती वेदयति । एव यावत्सूक्ष्मसम्परा
 यः । यथास्वातपुच्छा गौतम । ससविषयवद्वेदोवा चतुर्विषयवद्वेदोवा । ससवेदयस्योहनीयवज्जाः ससकर्मप्रकृती वेदयति । चतुर्वेदयस्येदनीया
 पुर्नोमगोत्राकि चत्तलः कर्मप्रकृती वेदयति २२ । सामायिकसयतो प्रदत्त । कति कर्मप्रकृती उदीरयति ? गौतम । ससविषो यथा वदुत्तु । एव

वदकथयपदोपा वेदद । सामाधिकमवत प्रेममन् चतको कर्मप्रकृति वेदे इतिप्रश्न उत्तर । मावमा विद्यमे पदुक्कथयपदोपा वेदद एवं जाव सुहम
 यपराए पदत्तान पुच्छा । हेगौतम निचे पाठकर्मप्रकृति प्रते वेदे इम यावत् पूज्यसंपराय तादे कइवा यथाजातना परत्तकोवा उत्तर । मावमा चत
 विह वेददवा चउत्तिह्वेदयवा । हेगौतम यथाययातसंयत समविह वेदक यववा चतुर्विह वेदक । सतवेदेमाचे माइविज्जावज्जाया चत्तकथापगणीया
 वेदद । तिथी काविध वेदगोत्रका निपेद पवत्तानेविधे माइगोत्रवर्षी यातकर्मप्रकृतिमा वेदक पुवे उपयमवद्वो तथा चपकवद्वो । चत्तारि वेदेमाचे
 रवविज्जाया पाजवाम यायाया चत्तारि कथयपदोपा वेदे । चार वेदगावको स्वातक पवत्तयि चारिहोत्र वातकमना तेइने चोचपवावद्वो गेप
 वेदनीय पाठ नाम याचना चत्तारि कइवे चार कर्मप्रकृति वेदे इार २२ । सामाहयसजएण भते पदुक्कथयपदोपा उदीरेद । सामायिकसंयत हेममव

पतस्यसिध पासिकमप्रकृतीनां तस्य हीवत्वात् । उपसम्पद्वापद्दारे-सामाद्वयसञ्जयसमित्यादि ष सामायिकसंयत सामायिकसंयतत्वं त्यजति छेदो

यउसे एव जाय परिहारविषुष्टीए । सुजमसपराए पुच्छा ? गोयमा ! त्विहउदीरएया पचविहउदीरएवा
त उदीरेमाण आउयवेयणिजायजातं तकम्मपगणीतं उदीरेइ, पचउदीरेमाणे आउयवेयणिजासोहीणिजाव
जातं पचकम्मपगणीतं उदीरेइ । अहस्कायसजए पुच्छा ? गो० ! पचविहउदीरएवा तुविहउदीरएया अणु
दीरएवा, पचउदीरेमाणे आउय सेस जहा णियठस्स । सामाद्वयसजएण जते ! सामाद्वयसजयसु जहमाणे कि
यावत्परिहारविमुत्तुका । सूक्ष्मस्यपरायपुच्छा, गीतम । पञ्चविष उदीरको वा पञ्चविष उदीरको वा पञ्चदीरयत्तायुर्वदनीयवर्का यत्कम
मरुती उदीरयति । पञ्चोदीरयत्तायुर्वदनीयवर्काः पञ्चकमप्रकृती उदीरयति । यथास्पातसयतपुच्छा गीतम । पञ्चविष उदीरकोया
द्विविष उदारको वा अनुदीरको वा पञ्चोदीरयत्तायुः शेष यथा नियन्त्यस्य । सामायिकसयतो जयन्त ! सामायिकसयतत्वं लक्ष्मि जहति

तु वातको कमपकृति उदीरे इतिप्रश्न उत्तर । मायमा सत्तविहउदीरवा वाक्का कसस एव काव परिहारविहउदीर सुससपराए पुच्छा । हेगोतम सति प्रबारे
उदीरे किम बहुय कथा तिम कथा इम वावत् परिहारविमुत्तुका तां कथा सूक्ष्मपरायना प्रश्नकाको उत्तर । गायमा क्वचिद उदीरएवा पंचविह
उदीरएवा इ उदीरेमाचे । हेगीतम क्वचिद उदीरएवा इवे कथा पचमकारना उदीरक इवे तिहा इ उदीरतायका । पाठयवेयविहउदीरएवा पंचविह
पगणीया उदीरए पच उदीरेमाचे । पाठयो वेदनाय क्वचिद इ कमपकृति उदीरे तथा पच उदारतायका । पाठयवेयविहउदीरएवा पच
कथपगणीया उदीरेट पचक्काय पुच्छा । पाठया वेदनाय माइनोव क्वचिद इ कमपकृति उदीरेयथाययात सयतना प्रश्नकोथा उत्तर । गायमा पच
विह उदीरएवा पुचिद उदीरएवा पच उदीरएवा पच उदीरेमाच पाठय सस कथा विहउदीर । हेगीतम पचमव उदीरक पचवा पुचिद उदीरक पुवे प
कथा पञ्चोदीरक इवे पच उदीरता कथा पाठया इत्य दि ग्रय क्विम निर्देयन कथा तिम कथा । सामाद्वयसञ्जयसु जते सामाद्वय सजयत जहमाच

उवसपज्जह । परिहारयिसुधीए पुच्छा, गोयमा ! परिहारयिसुधियसजयत्त जहति वेदीयथावणियसजम
 था श्यसजम वा उवसपज्जह । सुज्जमसपराए पुच्छा, गोयमा ! सुज्जमसपरायसजयत्त जहति सामाझयस
 जय था वेदीयथावणियसजम वा श्यसजम था उवसपज्जह । श्यहस्कायसजएण पुच्छा,
 ? गोयमा ! श्यहस्कायसजयत्त जहति सुज्जमसपरायसजय वा श्यसजम था सिद्धगति वा उवसपज्जह २४ ।

परिहारवियुद्धिकपुच्छा गीतम । परिहारवियुद्धिकसयतत्त्व जहति वेदीपस्थापनीयसयम वासयम वोपसस्यद्यते । मूलसम्म्यरापसयतपुच्छा
 गीतम । मूलसम्म्यरायसयतत्त्व जहति सामायिकसयम वा वेदीपस्थापनीयसयम वा यथास्यातसयम वाऽसयम वोपसस्यद्यते । यथाक्यातसय
 तपुच्छा गीतम । यथास्यातसयतत्त्व जहति मूलसम्म्यरायसयतत्त्व वाऽसयतत्त्व वा सिद्धगति वोपसस्यद्यते २४ । सामायिकसयतो जवन्त ।

तथायथा तीव्रते पङ्क्तिवज्रतावका यववा परिहारवियुद्धि सयमप्रते वेदापस्थापनीवबल बोध परिहारवियुद्धि संयमने सायपची वकी यववा सूक्ष्मस
 पराव सयतप्रते यववा पसवतप्रते पङ्क्तिवने यववा सयतासयत प्रते पङ्क्तिवने । परिहारवियुद्धि पुराणा । परिहारवियुद्धिकनो प्रज्ञबोधी उत्तर । बो
 धमा परिहारनिर्मुक्तिव सजयत जहत् । हेभीतम परिहारवियुद्धिक सवतप्रते जहत् । वेदीवहावशिय सवमवा पसंजमवा उवसपज्जह । वेदापस्थाप
 नीय सयतपची पङ्क्तिवने वही मन्त्रादिकना पावसपचीवकी यववा पसमपची पङ्क्तिवने ते देवपदे जयजवावकी । सवसंभपराए पुराणा । मूलसय
 रायता प्रज्ञबोधी उत्तर । गोयमा सवसपराय सववत जहत् । हेभीतम सूक्ष्मसपराव सववत जहत् । सामाहसवजसवा वेदावहा
 वशिय सजमवा पङ्क्त्वायसजमवा पसवमवा उवसपज्जह वेदापस्थापनीय सयमपची प्रते पङ्क्तिवने यववा यथाक्यात वारिकपची पङ्क्तिवने अचिने स
 मारावने यववा पसमपची पङ्क्तिवने त देवपदे जयजवावकी । पङ्क्त्वायसवपण पुराणा । यथाक्यात सयतनो प्रज्ञबोधी उत्तर । गोयमा पङ्क्त्वाय
 सववत जहत् । हेभीतम यथाक्यात सयतपची जहत् यच्च प्रतियतन वकी यववा । सुभुमसपराव सवववा पसवमवा सिद्धगतिवा उवसपज्जह २४

नामाडयसजण ऋते । कि सयोवउते होजााणी सयोवउते होजाा ? गोयमा ! सयोवउते होजाा जहा
 यउम । एय जाय परिहारयिसुदीए । सुजमसपराए अहरकाएय जहा पुलाए २५ । सामाडयसजण ऋत !
 कि श्याहारए होजाा श्यागाहारए होजाा जहा पुलाए । एव जाय सुजमसपराए अहस्काए जहा सिगाए
 २६ । सामाडयसजण ऋत ! कइ जथग्गहणाइ होजाा ? गोयमा । जहयणेण एक्कां उक्कीसण अठ । एव

कि मत्थापपुत्तो प्रवलोभन्तीपपुत्तो प्रवत् ? गीतम । सन्तोपपुत्तो प्रवत् यथा यकुशः । एव यावत्परिहारविशुद्धिकः । सूखसम्परायो य
 यास्यातो यथा पुमाकः २५ । सामायिकसपतो प्रदत्त । किमाहारको प्रवदनाहारको प्रवेद्यथा पुसाक । एव यावत्सूखसम्परायः । यथा
 स्याता यथा आतकः २६ । सामायिकसपतो मदत्त । कतिप्रवयइयामि यावद्भवत् ? गीतम । अपत्यनैकमुत्कर्षवाणी । एव वेदोपस्थापनी
 यापि । परिहारविशुद्धिकपुच्छा ? गीतम । अपत्यनैकमुत्कर्षेव त्रीपि । एव यावद्यथास्यातः २७ । सामायिकसपतस्य मदत्त । एकनवयाइ

पुत्रसपराए मरुमरत याइइउं उपयांत माइपवे मरुवको देवउत्पत्तिन विपे यइवा सिद्धगति मते पइव कातकपवे कते डार २४ । सामाडयसजण
 भे कि ययोवउते होजाा । सामायिकसपत हेमवन्त्त्वं सन्तोपपुत्त इवे यइवा । या मखावउते होजाा । नो उच्चापपुत्त इव इ म उतर । गोयमा
 मखावउतेहोजाा यइवा यइमे एवं जाव परिहारविसिपे । हेगीतम संप्रापपुत्त बुवे किम वकुयने कइता तिम कइवा इम यावत् परिहारवियुद्धिकसती
 कइवा । महुममपराए पइकाएय उवा पमाए २६ । सूखसपराय ककी उवाख्यातसयव किम पुसाक कइता तिम कइवा डार २५ । सामाडयसजण
 मत पाहारए होजाा । सामाडिक सपत हेमवन्त्त्वं पाहारकती बुवे । यवाडारणहोजाा उवापुछाए । यइवा यमाधारकती बुवे इच्छादि किम पुसा
 क कइता तिम कइवा । एव जाव मरुमसपराए पइकाण कइता सिपाए २६ । इम जावत् सूखसपरायकने कइवा उवाख्यातसयव किम खाभक कइता
 तिम कइवा डार २६ । नामाडय सजण ऋते कइ मरुवववां होजाा । सामाडिकसपत हेमवन्त्त्वं कते मरुवइव बुवे इ म उतर । गोयमा क

7
याययान् असंपन्नं वा प्रतिपद्यते देवत्वोत्पत्ताविति तथा सूक्तसम्परायस्यतः सूक्तसम्परायस्यतः श्रेणीप्रतिपातेन त्यजन् सामायिकस्यतः
त्यं प्रतिपद्यत यदि पूर्वैः सामायिकस्यतो ज्ञेयेत् वेदोपस्थापनीयस्यतः वा प्रतिपद्यते यदि पूर्व वेदोपस्थापनीयस्यतो ज्ञेयेत् यथास्यात्
धमत्तः वा प्रतिपद्यते शरीरमारोहकत इति तथा यथास्यात्स्यतः त्यजन् श्रेणिप्रतिपातमाह सूक्तसम्परायस्यतः प्रति
वेदोपस्थापनीयस्यतः । परिहारविमुक्तौ पुच्छा, गीयमा ! जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । एव जाय स्यह
रुए २७ । सामाज्यसजयस्वण ज्ञत । एगजयगहणिया केवइया स्यागरिसा पयस्रा ? गीयमा ! जह
शीण जहा जउसस्स । वेदोपस्थापनीयस्स पुच्छा, गीयमा ! जहस्येण एकै उक्तोस्येण वीसपुहस्र । परिहार

विद्याः कियन्त शक्योः मज्जसा ? गीतस । अपम्यन् यथा बहुज्ञस्य । वेदोपस्थापनीयस्य पुच्छा गीतस । अपम्यन्नेकमुत्कर्षेण चिह्नितपुष्य
म् । परिहारविमुक्तौ पुच्छा गीतस । अपम्यन्नेकमुत्कर्षेण श्रीचि । सूक्तसम्परायस्य पुच्छा, गीतस । अपम्यन्नेकमुत्कर्षेण पतद्यत्वारि । यथा

पुष्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि ।
परिहारविमुक्तौ पुच्छा । परिहारविमुक्तौ इतिमदन उत्तर । गायमा जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि एव जाय भवत्त्वाए २० । जेगीतस जहस्येण
एव जहस्येण वीस पुहस्र । सामाज्यसजयस्वण भजे एग जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । सामाजिकस्ये
वतनी जेमजन् एव भवत्त्वाए २० । गायमा जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । सामाज्यसजयस्वण भजे एग जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । सामाजिकस्ये
सजयको इत्यादि किम बहुमने कथा तिम कथा वेदापस्थापनीयता मरनकोषा उत्तर । गायमा जहस्येण एकै उक्तोस्येण तिथि । सामाजिकस्ये
पुच्छा । जेगीतस जहस्येण वीस पुहस्र पय ह्य प्राटिठरे वीस पावपुवे परिहारविमुक्तौ मरनकोषा उत्तर । गीयमा जह
वेचं एव उक्तोस्येण तिथि सङ्गसम्परायस्य पुच्छा । जेगीतस जहस्येण वीस पुहस्र पय ह्य प्राटिठरे वीस पावपुवे परिहारविमुक्तौ मरनकोषा उत्तर ।

पद्यते चम्रंयमं वा प्रतिपद्यते उपस्थासमोदस्वे मर्यादेवोत्पत्तौ चिद्विगति वा उपसम्पद्यते स्नातकत्वेवतीति । आकर्म्यद्वारे-क्षेत्रवहावविषयस्वेत्यादी ॥ वीसमुद्भवति ॥ क्षेत्रोपस्थापनीयस्योत्कथतो विद्यतिपुपद्मं पञ्चपादिविद्यतय आकर्म्योवा मवन्ति ॥ परिहारविमुद्दियसस्यादी ॥ उक्तीषेच तिष्ठति ॥ परिहारविमुद्दियस्यतत्त्व त्रीम् वारान् एकत्र ज्ञेये उत्कर्षतः प्रतिपद्यते ॥ सुकुमसपरायस्यत्यादी ॥ उक्तीषेच चत्वारिति ॥ एकत्र ज्ञेये उपस्थापनीयस्यतत्त्व प्रत्येक संक्षिप्यमानविमुद्दियस्यमात्रस्यः सुकुमसपरायपुद्गलावा वृत्तः प्रतिपद्यते सुकुमसपरायस्यतत्त्व ज्ञेयति ॥ अत्रत्यापत्यादी ॥ उक्तीषेचं दोषिति ॥ उपस्थापनीयस्यत्यादीति मानामवग्रहआकर्म्योपस्थापनीयस्यत्यादी ॥ उक्तीषेच उवदि उववद्व घया

त्रिसुच्छियस्स पुच्छा, गीयमा ! जह्येण एक्का उक्तीसेण तिष्ठि । सुकुमसपरायस्स पुच्छा, गीयमा ! जह्येण एक्को उक्तीसेण वप्पारि । अह्येण एक्को उक्तीसेण दोस्सि । सामा इयसजयस्सण जंत ! पाणाज्जव्रगहणिया केवइया अ्यारिसा पयप्पत्ता । जहा वउसे । तेदोयथावणियस्स

स्यातस्य पुच्छा गीतम । उपपन्नैकमुत्कर्षेण ही । सामाधिकस्यतस्य जदत्त । नामाप्रवयाइच्छिवाः कियत्त आकर्म्योः प्रकृता यथा उक्ताः । क्षेत्रोपस्थापनीयस्य पुच्छा गीतम । अपण्यम द्वावुत्कर्षेण जवथाताप्यधिकाम्यः सइत्तम् । परिहारविमुद्दियस्य अपण्यम द्वावुत्कर्षेण सस ।

मायमा अत्रत्य एवा उक्तीषेचं चत्वारि पञ्चस्थाप्य पच्छा । हेमोतम जयस्यको एकवार उत्कथको वार ते एक मवने विदे उपयमस्येचि दावने च अवेवरी प्रत्येचे यत्किममान विमुद्दियमान अचच सुकुमसपराव दावना मावको पारवार पञ्चिजे जवाप्पातनो प्रकृताको उत्तर । गीयमा जह्येचं ए वा उक्तीषेच दाधि । हेमोतम जयस्यको एक उपयमन एकमवने विदे दाववार समवको । सामा इयस्यस्यस्यं भते वावामव्यइच्छिया जेवइया या नरिसा पं जहा वउसे अदावहावच्छिच्य पच्छा । सामाधिकस्यतने हेमवग् पनेक मवपइचे वरी जेतसा आकथ प्रकृता इत्यादि विम जकुयने कप्पा तिम अइवा क्षेत्रोपस्थापनीयना प्रकृतीच उत्तर । गावमा अइच्छेच दाधि उत्कथवेच उत्तरि चवसं सयाच अतासइय । हेमोतम जयस्यको

चं चंतोमुहरममरुति ३ अथं किंसेकथ भवप्रदये परुविशतय आकर्षाका जवन्ति ताद्याष्टामिमवे गुञ्जिता नवस्रतानि पथ्यचिकानि जवन्ति, इव
 च मन्मत्रमात्रमाभित्य सङ्क्रान्तियोगप्रदोभमतो व्यथापि यथा नवश्रतास्यपिकानि प्रवन्ति तथा कायं परिहारविशुद्धिपरसत्यावी-उक्तीसक्य सत
 ति ० कथ मकत्र नय तपां जयाका मुक्तात्वा प्रवत्रयस्य च तस्याऽभिपाना दकत्र नव त्रय द्वितीय इय तृतीय इयमित्यादिविकल्पतः सप्तकावो।
 परिहारविशुद्धिकल्पति, सुभ्रमसपरायसत्यावी-उक्तीसक्यवति ० कथ सुभ्रमसपरायस्यैकत्र नव साकार्यवतुस्योक्तत्वा इवत्रयस्य च तस्य वि

पुञ्चा, गोयमा ! जहणेण दोण्णि उक्तीसेण उत्ररि णवय्या सयाण अत्तोसहस्स, परिहारयिसुद्धियस्स जह
 खेण दोण्णि उक्तीसेण सत्त। सुभ्रमसपरागस्स जहणेण दोण्णि उक्तीसेण णय। अहस्सकायस्स जहणेण दोण्णि
 उक्तीसेण पच २८। सामाइयसजणेण जते ! कालत्तं कयचिर होइ ? गोयमा ! जहणेण एकं समय उक्ती

मूलमस्यरापस्य जपयेन हावुत्कर्षेण नव । यथास्वातस्य जपयेन हावुत्कर्षेण पच २८ । सामापिकसयतो जदस । कालतः कियचिर नय

दाय पने जहत्तकको नरये खपरि पने सइस्सनाइ ते किम एक भवपइवत नविये पकढी बोस पाकय इव तिनारे तेइ पाठेभवे गुष्सा। नवसेसठ इवे
 ० इ मन्मत्र पावोन मव्याविशेप दवाधी एतत्तामाठ पत्तवा पवि नवयत पधिक इव तिम अइवा । परिहारविशुद्धियस्य अइसेव द कि उक्तासेप
 मत्त । परिहारविशुद्धिकने जघत्तकको दाय इत्तुत्तकको सात तेकिम एकमनेत्रिये तोन पाकय इवे पने भव तोन परिहारविगदिकनः कइया तेमदि
 एक भवे तोनवार दोअभवे दायवार जोजभव दायवार इत्यादि विकल्प सात पाकय परिहारविशुद्धिकना इवे । सुभ्रमसपरागस्य अइसेव दाण्णि सत्ता
 मच वव । मन्मसपरायना मन्त्रकोधा मन्त्रकोथा तिहां जघत्तकको दाय उक्तीसक्यको नव तकिम मूष्मसपर यम एक मन्त्रविये पाकय चार कइया धने मय तोन च
 या तिहां एक भनेत्रिये पाकय चार कइया भन भव तोन कइया तिहां एक भवनेत्रिये चार कोणा भवनेत्रिये चार कोणा भवनेत्रिये एक दस मन जा
 ववा । पइक्तायस्य अइसेव दाचि उक्तासक्य पच २८ । यथास्वातना मन्त्रकोधा जघत्तकको दय उक्तीसक्यको पच तकिम यथास्वातवारिण । एक भव

पाना देकर बागार द्वितीया स्वतीया वैश्व इत्येवं भवेति अथवा एतस्यादी-उक्तीसेन पंचमि ॥ अथं पथास्यातस्यपतस्यै अथ मये वा वाचोर्वा द्वितीये च द्वितीये च इत्यय पञ्चमि कालद्वारे-सामाहृत्यादि ॥ सामाधिक्यप्रतिपत्तिभूमिपसमनन्तरमेव मरणा देवाः समयः ॥ उक्ती

सेन देसूगएहि गथाहि यासेहि जगिया पुष्टकोठी । एव लेदोत्रठावणिण्ये । परिहारविसुष्टीए जहस्येण
 एकां उक्तीसेन देसूगाहि एगूगतीसाए यासेहि जगिया पुष्टकोठी । सुजमसपराए जहा णियठे । अहस्काए
 जहा सामाहृत्यसजए । सामाहृत्यसजयाग जत । कालउ केवचिर होड ? गोयमा ! सधुद्ध । लेदोत्रठावणिण्ये

ति । गीतम । अथमनेक समय मुरकपेक दशाने भवमि वर्षेकमिना पूर्वकोटि । एव लेदोपस्थापनीयापि । परिहारविसुष्टिको अथमनेक
 मुरकपेक दशाने रकोजत्रिदशपूर्वकमिना पूर्वकोटी । मूलसम्परायो यथा सामाधिक्यसयतः । सामाधिक्यसयता
 प्रदत्त । कामतः कियचिर प्रवलि । गीतम । सर्वोद्दाम् । लेदोपस्थापनीयपुष्का गीतम । अथमनेक सामाहृत्यसजए पञ्चाशत्साग

नदिय एहि हाव योजाभवन विदे हव इम पव डार २८, विदे काखडार २८ मा कसेहे-सामाहृत्यसजए भते कामया खरविर डार । सामाधिक्यसज
 त इमनेक कामको जेनकाबान डाय १ म डार । गजसा अथनेक एकसमसे । जेगीतम अथमनेक एवसमय ते सामाधिक्य प्रतिपत्तिसमय अ
 नन्तर होत्र मरुत को एकसमय । उक्तीसेन देसूगाहि कयचि वासेहि छनिया पञ्चकोठी । उक्तीसेन देसूगाहि जव परस छको पूर्वकोठी ॥ उक्ती
 या ते गभयमयको पारधीन जायवा पञ्चका अमदिनीनो पपेयाये पाठकरस लको पूर्वकोठी हुये । एव लेदोत्रठावणिण्ये परिहारविसुष्टिए । इम
 लेदोपस्थापनीय एहि कडवा परिहारविसुष्टिकने विदे । अथनेक एव उक्तीसेन देसूगाहि पपेयाये पाठकरस पञ्चकोठी । अथमनेकको एक
 वमय ते मरुतको पपेयाये उक्तीसेन देसूगाहि कयचि वासेहि छनिया पञ्चकोठी तकिम इही ए पञ्च काटिपात्रखावने भवमनेको पारधी देगान भवे
 इत्ये होयाकोभी विचारको शोधकरस प्रपञ्चा पपेहि उक्तीसेन देसूगाहि विचारको परिहारविसुष्टिकने पठ रेमास

सेव देसूचयदि अवधिं नासेचिं ऊचिया पुषकोहीति ॥ यदुक्तं तद्गुणसमयादारन्यावयवसमस्या जन्मदिनायेक्या एवयोनिर्देय सा जवतीति ॥ परि
 हारविद्युत्तिय जइसेव एक समयति ॥ नरबापेव सेतत् ॥ उक्तीसेव देसूचयितीत्यादि ॥ अस्यायमर्थो-देसोनयवयवजन्मपर्यायेव केनापि पूयेको
 त्यापुपा मन्त्र्या प्रतिपथा तस्य च विद्यतिवयमन्त्र्यापर्यायस्य दृष्टिवादी नुष्ठात एत यासी पारहारविद्युत्तियं प्रतिपत्तः तद्याद्यादगमासमाप्तम
 व्यवच्छिन्नतत्परिणामेन तेनाजन्मपासितमित्यव मकोनत्रिंशद्दोषा पूर्वकोटिं याव त स्यादिति ॥ अइस्व्याय अइहा सामाहयसजयति ॥ तत्र ऊच
 यत् एव समय उपपन्नभावस्यायां नरबात् उत्कथतो बहोना पूर्वकोटी स्नातकयथास्यातापस्यति, पुप्यदोन कालचिन्तायां ॥ केतुवधायवियड
 त्यादि ॥ तत्र उत्सार्प्यस्यामाद्वितीयकरस्य तीर्थे यावच्छरीरपस्थापनीयं जवति, तीर्थे च तस्य सार्द्धं इ वर्प्यते जवतीत्यत उक्त-अन्ताइज्जाय इ
 त्यादि ॥ तथा उक्तस्यिस्थामाद्वितीर्थेकरस्य तीर्थे याव च्छरीरपस्थापनीयं प्रयत्नते तव पन्थाइस्यारोपमकीटीसथा इत्यत-उक्तीसेव पक्षासमित्या

प्रमाचये ता पधि तचे अविच्छिन्नवरिचामे चरी परिहारविद्युत्तियजन्मकमे याव्या । अइमसपराग अइहा विवठे पइस्व्याय अइहा सामाहयसजय ॥ इ
 म सूक्ष्मपरव विम निर्देवकक्षा तिम अइहो बहोनातस्यत विम सामाहिकसवत कक्षा तिम कइहा । सामाहयस्ययाव भत काउपो कोनिरको
 इ । सामाहिकसवत इभयवन् काउकको अयवाकाव पुने इ म उत्तर । गावमा उक्तेव जेडापहुअधिव पुस्वा । जेगीतम सवकास पुने जेनापस्यापनी
 यना मन्त्रकोपी उत्तर । नाचना अइकेव पइटारव्याया नामसडाइ । जेगीतम अवरसको पटारसव वरस तन्निम अस्वपिरोकास पइहा तोर्ववरना
 तीवकगे इव तेहना तीव पटारसे वरसजगज रहे । उक्तेव पक्षां सागरवमकोक्षिमयसइस्वाइ । उरकइकको पवाससाउकाको सागरोपम ते पव
 सपिकोकास पइना तीर्ववरना तीव पवाससाउकाको सागरवम एव ततकावग जनीपकापनीव रहे विम प्रादिवेचना तीव रको । परिहारविद्युत्तिय
 ए पुस्वा । परिहारविद्युत्तियना मन्त्र तीव उत्तर । गावमा अइकेव देसूचयिं उक्तेव देसूचाया दा पुषकाकोया । जेगीतम अवरसवको
 दयान दावसे वरस ते विम अस्वपिरोकास मन्त्र तीववरने समाये कारे एवसी वरसना पाउकाना धको परिहारविद्युत्तिय पइपज्जा वको तेवनेस

दि उच्छ्रिति, परिहारविमुक्तिकामो अपत्येन ० देसूणाहं दो वासययाहंति ० कथं मुसुव्यिषया माद्यस्य जिनस्य समीचे कथिद्रुपञ्जतापु परि
 हारविमुक्तिं प्रतिपन्न सन्त्यान्त्रिके तन्त्रीवितान्ते उन्वो वयस्यतापुर्वेव तत्प्रतिपन्नः, तथा परतो न तस्य प्रतिपत्तिरस्तीत्यय इव वपञ्जत तयोद्य
 प्रत्यक्षमकान्त्रिकमिति वर्षेषु वतपु तत्प्रत्युत्तिरित्यय मष्टपञ्चाशता वर्षे न्यूनं त इति वगाने इत्युक्त एतस्य टीकाकारव्याख्यान २ पूरिकाकारव्याख्या

पुच्छा, गीयमा । जहय्येण शुद्धाङ्गाइ वामसयाइ उक्तीसेण पयास सागरोयमक्रोहिसयसहस्साइ । परि
 हारयिसुधीए पुच्छा, गीयमा । जहय्येण देसूणाइ दो वाससयाइ, उक्तीसेण देसूणाउ पुच्छक्रोहीउ । सुञ्ज
 मसुपरायसजए पुच्छा, गीयमा । जहय्येण एक्खे समयं उक्तीसेण छ्यतोमुञ्जस । शुहस्सायसजया जहा सा

रूपमकोटीशततल्ल्यावि । परिहारविमुक्तिकपुच्छा गीयमा । अपत्येन वक्षीम द्वे वपञ्जते उत्त्वयतो वक्षीमा पूयञ्जाटी । मूलमसुम्परायप
 प्या गीयमा । अपत्येनैव समयमुसुव्यपतान्तामुद्धृतंम् । यथाख्यातमयता यथा सामायिकसयताः स्त । सामायिकसयतस्य प्रदत्त । कियत्कास

मीय पल्लकाम कार वक्षो वरवने पाञ्जसु परिहारविमोदिवर्षी पञ्चिबन्वा एतन्न व सववरव यथा तद्वो पागेतेव वारिजना प्रतिपत्तिनथो विमवको उ
 वी ते जगुवचाम वरमना ते पञ्चिबने इम वावा पुत्र एतने व समयमार्दि पञ्चावन वरव अंभीकोषा टीकाकार पञ्चि व्याख्यान इमकोज करे एतस्मादि
 मव पञ्चमिषोना पन्तिम जिन पंचेवाये कथा जहववको द्यूतो वाय पूवकाहा त किम यवसुपिषोकास प्रथम तोषे ६८ समीपे पूवकाहीने पाञ्ज
 ने विवकोवये परिहारविमुक्ति वारिय पञ्चिबन्वा तेहन पल्लकाम पनेर २ पूवकाहीने पाञ्जये ते वारिय पञ्चिबन्वा इम व पव काहा पञ्चावनवपे
 त्रको परिहारविमोदिव सयतपची इव तेतका पाग तद्वो प्रसृति मवा । सङ्गमसुपरायसजए पुच्छा । सुञ्जसुपरायसयतना प्रथमकाहा उत्तर । ॥५
 मा उक्त्वय एवंमय नकासिं पतामइत । इतीतम अपत्येवकी एवसमस उरकटवको पल्लमुत्त । पञ्चल ससजया जहा धामाऽव सजया २८ ।
 ववाप्यातसवत किम यामाविशसयत कथा विम वदवा वार २८, दिने पन्वारवार वसव--धामाऽवसयस्य मंत केवदयकास अतर वार । सामा

नमस्यैव मेव क्लिप्तवसुप्तिमभिजापेचमिति विशेषः ॥ कथं च वसुप्तिव्यामादितीयकरस्याभिके पू
 र्देकोत्पापुः कथि त्परिहारविद्युद्विक प्रतिपत्त सास्यान्तिक तच्छावितान्त उभ्य स्त्रादृश्येव तत्प्रतिपत्त इत्यय पूयकोटादृश्य तस्यैव दग्नीम परिहा
 रविद्युद्विकस्यतत्त्व स्यादिति चत्तरद्वार-वेठेवघावकियत्पादी-कद्वयस्य तद्वहि वासुसहस्राइति ॥ कथ च वसुप्तिव्या दु पमा याव च्छेदोपस्थाप
 नीयं प्रवतत तत सास्या पूर्वैकविद्युद्वितिर्यसहस्रमानाया मन्वान्तु खमाया मुत्सुप्तिव्या देवान्तदु पमाया दु पमाया च तत्प्रमाणायामव तदज्ञातः

माडयसजया २१ । सामाडयसजयस्सण भन्ते ! केत्रइय काल अत्तर होइ ? गीयमा । जहखेण जहा पुला
 गरस्स । एव जाव अहस्कायसजयस्स । सामाडयसजयाण भन्ते ! पुच्छा, गीयमा । गत्थि अत्तर । वेदोवघा
 वणियपुच्छा, गीयमा ! जहखेण तेवठि वाससहस्साइ उक्कोसेण अत्तरससगरोवमकोठाकोठीइ । परि

मत्तर भवति ? गीतम । जपम्येन यथा पुलाकस्य । एव यावद्यथास्यातस्यतस्य । सामायिकस्यताना मत्तल ! पुच्छा गीतम । नास्त्यन्तरम्
 खदोपस्थापनीयपुच्छा गीतम । जपम्येन त्रियष्टियसहस्रादि उत्कर्षतोऽष्टादश सागरोपमकोठीकीत्यः । परिहारविद्युद्विकपुच्छा गीतम ।

विकर्षयन्ती इभनवन् कनकाकास चत्तर इव १० म उत्तर । मावमा अहस्येव अहा पुलागच्छ ०० जाव च्छेत्स यमस्यस्य । च पीतम अचरयस्य को इ
 त्वादि बिम पुलाकी कक्षा तिम अहमा इम वावत्त यत्काल्यात सयतकम अहमा, द्विपे पुद्वल अहह - सामादेवसजयाच भत पच्छा । चर्चा सामायिक
 मवतना इभनवन् अतकाकास चत्तर इवे १ म उत्तर । गायमा अत्यन्तर अदावकुाबिच पच्छा । गीतम नको पत्तर अ पस्य पौवना परम
 बोधा उत्तर । गायमा अहस्य तेवठि वाससहस्राइ । इगीतम अचरयस्यको जन्ठसहस्र करय तन्निम चत्रसपिचीकाम दुपमाकासना यत्काल्ये इव
 ज्ञापनीव चारिच दुवे तिवारपहो से अचरपिचाने द्विपे इकबोसहस्र जपममाच ० क्कति पुल्लमा अहापरा तिवारपच्छा भन अक्षापकीने द्विपे इकबोस
 सस्यसमाच एकीत दुपमा पच्छा परा इम इकबोच सहस्रममाच दुपमा बोधापरा इम गीम परे भिखी वेसठसहस्र यचना चत्तर वाय । अक्षासे

गीत । सुकामसंपरागणं जहा गिर्यठानं । श्वहस्कार्याणं जहा सामाहयसजयाण । सामाहयसजयस्सण जते ।
 कइसमुघाया पयता ? गोयमा ! त समुघाया पयता, जहा कसायकुसीलस्स । एव त्वेदीयठायणियस्स
 परिहारयिस्सिदियस्स जहा पुलगस्स । सुकामसपरायस्स जहा गियठस्स । श्वहस्कार्याणं जहा सिगायस्स ३१ ।
 सामाहयसजएण जत ! लागस्स कि सखेज्जइनागे होज्जा श्वसखेज्जइनागे पुच्छा, गोयमा ! जो सखेज्जइ

यिकसपताना । सामायिकसपतस्य तदत्त । कतिसमुहता प्रकप्ता ? गीतम । पटसमुहता प्रकप्ता यथा कपायकुशीलस्य । एव खेदोपस्या
 पनीयस्य । परिहारविशुद्धिकस्य यथा पुलाकस्य । सुस्ससपरायस्य यथा निपेय्यस्य । यथात्यातस्य यथा स्नातकस्य ३१ । सामायिकसयतो
 मदत्त । स्नाकस्य त्व शस्यय जागे तवत्पुच्छा गीतम । नैव सङ्केप यथा पुलाकः । एव यावत्सुस्ससम्परायः । यथास्यात

८३ सङ्केपतया एव सव पहारससामरावम काहाकाहापो । तत्पुष्टवदो पठारे काहाकाहा सागरापमना चत्तर त खटोपक, पनाम चत्तरलोपरे
 माववा । सुकामसपरायाच जहा विथठ च । सुकामसपरायना चत्तर किम निर्पेवना कप्ता तिम कइवा । पइत्तायाच जहा सामाहयसजयाण । इया
 प्यातना जिन सामाधिकसयतना कप्ता तिम कइवा चत्तर ३ । सामाहयसजयाण भते कति समसव वा प । सामायिकसयतन इमगइन् कौतवा
 समुहता प्रकप्ता इ म चत्तर । गावमा च समुघाया प जहा कसायकुशीलस्य एव जहापइत्ताचिक्क । गीतम च समुहता प्रकप्ता जिन कपायकु
 जहा विथायस्य ३१ । परिहारविशुद्धिके जिन पुलाकने कप्ता तिम कइवा सुकामसपरागण जहा विथठस्य पइत्तायाच
 स्नातकन कप्ता तिम कइवा चत्तर ३१ । सामाहयसजएण भते कागण कि सखेज्जइनागी इत्ता तिम कइवा यथायगातने जिन
 गइन् शाकनवू नत्थातेने मारी इवे पइवा पइत्तातमनागे इवे इ प्र चत्तर । गायमा वा सखेज्जइ जहा पुच्छाए एव जहा सुकामसपराए च

पद्मस्य मागरोवमडोभीसृति ॥ इदीपत्वापनीयोरुटान्तरय दस्य मायनाकार्यति । परिमाहद्वारे-हेदीवठावखियेत्यादी-कइणेष कोकिसपपुत्र
 तं नकासचवि कोकिसपपुत्रुत्ति ० इदोरुट हेदीपत्वापनीपसयतपरिमाहमावित्तीर्यरतीर्योस्वाधित्य सम्भवति अपस्य तु तरसम्परभावगम्प

जहा पुलाए । एथ जाय सुजामसपराए । अहस्कायसजए जहा सिगाए ३२ । सामाहयसजएण जेत । लो
 गस्स कि ससेज्जडत्ताग फुसइ जहेय होज्जा तहेव फुसड ३३ । सामाहयसजएण जेत । कयरसि जावे
 होज्जा १ गोयमा ! खन्थसमिए जाये होज्जा, एव जाय सुजामसपराए । अहस्कायसजए पुच्छा, गोयमा ।
 उत्रसमिएथा खइएवा जाये होज्जा ३४ । सामाहयसजयाण जेत । एगसमयाण केवइया होज्जा ? गोयमा,

सयतो यथा स्नातकः ३२ । सामायिकसयतो जदत्त । लोकस्य कि सङ्घं प्राग स्पृष्टति यथैव जपत्तथैव स्पृष्टति ३३ । सामायिकसयतो जद
 त् । कतरस्सिन् प्राव जवत् ? गीतम । उयोपयमिक्क प्रावे जवेत्त एव यावत्सूक्ष्मसम्पराय । यथास्नातसयत्तपुच्छा गीतम । उपयमि
 क्क वा सायिक्क वा प्राय जवत् ३४ । सामायिकसयता जदत्त । एकसमये कियत्तो सवत्ति ? गीतम । प्रतिपद्यमानक प्रतीत्य यथा कयाय
 इक्काइ सजए कइया पिचा० ३२ । इभीतम सबशातमभागे न इवे इत्थादि किम पुनाकने कइया तिम कइया इम वावत् सूक्ष्मसपरावन्तगे कइया यथा
 एवातमयत्त किम खातककइया तिम कइया इार ३२ । सामाहयसजएण जेत । सामायिकसयत भते प्रागसिद्धि सखेज्जइभाग फुसड । सामायिकसयत हेभयवन्त्त कावन्ता एव म
 यगतमभाय मते परत्तै इत्थादि । कइयेव इत्था तहेव पुनइ ३३ । जिमडोअ इवे तिमडोअ परत्तै इसा कइया इार ३३ । सामाहयसजएण जेत । कवर
 मि भावे इत्था । सामायिकसयत हेभयवन्त्त किमा मावनेविपे इवे इ म कतर । गोयमा खपावसमिएभावे इत्था एव जाव सङ्घमसपराए यइक्का
 ययंक्कए परत्ता । इभीतम खापायमिक्क भावे इव इम वावत् सूक्ष्मसपरावन्तगे कइयो वयावयावसयतजा प्रदत्तकीधो कतर । गावमा उक्कसमिएवा ए
 इएवा भावेइत्था ३४ । इगीतम योपयमिक्कभावे इवे पववा सायिक्कभावे इवे इार ३४ । सामाहयसजयाण जेत । एगसमयाण केवइया होज्जा । सामा

पक्रियज्ञानाणए पक्रुच्च जहा कसायकुसीले तहेव णिरयसेसं । छेदीयठाथणिथा पुच्छा, गीयमा ! पक्रिय
 ज्ञानाणए पक्रुच्च सिय स्थलिय सिय णलिय । जठ स्थलिय जहणेण एक्री वा दोवा तिणिया वा । उक्कीसेण
 सयपुहस । पुसुपक्रियणए पक्रुच्च सिय स्थलिय सिय णलिय । जइ स्थलिय जहणेण क्रीसियपुज्जत उक्कीसे
 णात्रि क्रीसियपुहस । परिहारविमुद्धिया जहा पुलागा । सुज्जमसपररागा जहा णियथा । अहकियसजयाग
 मुसीस सारैव निरवअप । खरीपस्थापनीपपुच्छा, गीतम । प्रतिपद्यमानस मतीत्य स्वावसि स्वावसि । यद्यसि अयप्यनेको वा द्वीवा
 ययोत्वकपतः अतपुपकाम् । पूर्वमतिपत्तं मतीत्य स्वावसि स्वावसि । यद्यसि अयप्यन कोटीशतपुपकाम्, उरकयैवपि काटाअतपुपकाम्
 परिहारविमुद्धिया यथा पुसाकाः । सुसमस्यराया यथा मियन्या । यथास्यातसयतपुच्छा, गीतम । प्रतिपद्यमानस मतीत्य स्वावसि स्वावसि स्या
 विवमवत हेममवन् एकसमयकगवा इवेर म उत्तर । भावमा पक्रियत्तमावए पक्रुच्च अहा कसायकुसीले तहेव विरवसेसं छेदावदुवाविवा पच्छा । हे।

तम पक्रियजताववा पावकीने किम अयावकुसीले कस्मा तिमशौच निरवयेप ससकपसे कइमा अदोपस्थापनीयना मइलकीधा उत्तर । गायमा पक्रियत्त
 मएव पक्रुच्च सिव पत्ति मिय न्ति । इधीतम पक्रियजताववा पायकीने कदाचित् इवे कदाचित् नही । अइ पत्ति अइल्लेच एक्कीवा दोवा तिणिया ।
 वा इवे ता अयगवकी ०७ चववा हास एअवा तोम । एकासेक सवपुपत्त पक्वपक्रियएव पक्रुच्च सिव पत्ति सिव न्ति । एतकूटवकी मत्तपुवत्त मइव
 कीमको जगतए एवक कइव पक्रिया पक्रियणा पायकीने कदाचित् इवे कदाचित् न इवे । जइ पत्ति अइल्लेच कोडिसयसुइत उक्कीसेपविवाकिसय
 पइत्त । को इव ता अयगवकी काकियत एवकुल इवे एतकूटवकी पचि काकियत एवकुल इवे इका एतकूट छेदायस्थापनीय सयतपरिणाम ते पचि
 ना तीरैडरता तीजोपते पायकीने संबव एते अयगवपरिमावता सम्बवरीते जाचिये नही जभाट इउत्तमा अतनेविये मरतादिक वय अयनविदे मत्त
 एतेइ सायगाव भाववकी वासकीच समिअवेहे ते परंभमा परानएते एक साधु एक साध्वी एक याविका एवकाज सव इवे तिहा छेदाप

ते, यतो दुःखमाले उत्तराद्रियु दमसु अत्रपु प्रत्येक तद्वयस्य प्रावादिप्रतिरेष, तेषा मूपते कोपित्पुनरापु रिदमप्यादितीषकाराणां य स्त्रीयैकाल
 न्नापठयेव समवमय कोटीगतपृथक् च उपत्यमन्वतरमुत्कृष्टं च यत्तरमिति अल्पवदुल्लङ्घारे-सहस्योवा सुदुमसपरापयप्रयति ॥ स्त्रीकाला ॥
 रत्नास्य नियन्तुस्ययन च ज्ञानपुष्पप्रमाणत्वात्तपां ॥ परिहारविमुद्विपसत्रया ससज्जगुबन्ति ॥ तत्कालस्य यदुत्वा त्पुलाकतुस्यरवन च सइत्य

पुच्छा, गीयमा ! पक्रियज्ञमाणए पक्रुच्च सिय अत्यि सिय गत्यि । अइ अत्यि जहस्येणं एक्कोवा दीवा
 तिणियाया, उक्कोनण याथठसय अथठसय स्वयगाण चउपय्य उवसमगाण । पुष्टुपक्रियस्यए पक्रुच्च जहस्येण
 कोक्रिपुञ्जस उक्कोसेगवि कोक्रिपुञ्जसं ३५ । एएसिण जने । सामाइयत्तेदोवठावणियपरिहारियसुद्धियसुद्धिम

त्वास्ति । मष्टस्ति उपग्यनेको वा श्री वा ज्यो वोत्कपतो द्विपन्वषिक श्रुतम् । श्रुतगत उपजाना यतु पञ्चाशतुपद्ममकानाम् । पूर्वप्रतिपत्त्र
 प्रतीत्य उपग्यम कोटीपृथक्क सुत्कपतापि कोटीपृथक्कम् ३३ । एतपां नदत्त । सामायिकरुद्धदोपस्थापनीयपरिहारविमुद्विपुससम्पराययया

प्यापोव मरुतसाधु मार्चने इवे तेमाठ ते यथोत्र इव इव दमयेच मिनो दोसइवे तत्रा काएक इम अइहे—०३५ पवि च दि तोयेकरना येइ तोव
 काः अइतो पप्याठे करोनेत्र ज्ञापवा काटियत पुत्रकुल जसग्यमान ते पकतर एतके काय तोनकाको यन उत्कृष्ट ते इवा एतले पाठ मत्कको ०
 तकाभिमप । परिहारविमदिया अइवा यन्ताना सइमसपरागा अइवा विवठा पइक्यायसत्रयाच पुत्रका । परिहारविमुद्विपुत्रिम यन्तान अइवा तिम क
 इवा मूत्यमपराप त्रिम नियेकक्यो तिम अइवा यथाप्यातसवतना प्रजनवाधो उत्तर । गायमा पइक्यन्तमाअए पइक्य सिय अत्यि मिय अत्यि । जेगीत
 म पइक्यतायवा मते प्रायदोण अटाचित्ते कइचित्ते नरोके । अइ अत्यि जइक्यव एकावा दावा तिणिया । आ जे ता उपग्यबको एक अयवा काय
 पववा तोन । इककामर्च वापइमय पइमय अजगाच अउपय्य उवसमगाण । उत्कृष्टक्यो एकसीवामठ तिवां एकसी पाठ अयवना अउपय्य अउपय्यमक
 ना । अपटिअअए पइक्य अइक्यं काः उपपुनं ठक्योसेववि काः उपपुन ३३ । पूर्व पक्रियया प्रायधोने जसग्यबको काः उपकृष्टक्यो

पृथक्मानत्वा तेषां ॥ अहस्त्रायसत्रयासखेज्जगुर्वति ॥ कोटीपृथक्मानत्वा तेषां ॥ कोटीश्रुतपृथक्मानत्वा
 मा तथा मुक्तत्वात् ॥ सामाहयसत्रयासखेज्जगुर्वति ॥ कृपायजुहासतुल्यतया कोटीसहस्रपुण्यानामत्वेनोक्तात्वा तपामिति अमन्तरं सयता उक्ता

सपरायश्चह्रस्त्रायसत्रयासखेज्जगुणा । सप्तत्योवा सुक्तमसपरायसजया
 परिहारविमुक्तिप्रियसजया सखेज्जगुणा । अहस्त्रायसत्रयासखेज्जगुणा । त्रिदोषठाघणियसजया सखेज्जगुणा ।
 सामाहयसत्रयासखेज्जगुणा ३६ । पञ्चिसेत्रदंसाहो यणायश्चालीयणारिहाचेव । तप्तोसामायारी पाय

रथातसयतागता कतरं कतरंभ्यो यावद्विद्वेषाचिन्नावा १ गीतम् । सुवस्तोका सूक्तमसपरायसयताः । परिहारविमुक्तिप्रियसयताः सङ्केपगुणाः ।
 पश्चात्पातसयताः सख्यगुणाः । कदीपस्यापनीयसयताः सख्यगुणाः । सामायिकसयताः सख्यगुणा ३६ । प्रतिशब्दामालाचनदीयात्वात्सो

पञ्चि काटिपृथक्कल ३३ द्वार १५ । एतद्विभक्तं भत सामाहयकथाहृदयिभ्यः परिहारविमुक्तिप्रियसुविद्यं मुक्तमसपरायम् । ० इत एभयवत् सामाविकससक्तम् कदी
 पस्यापनायसक्तम् परिहारविमुक्तिप्रियसक्तम् सूक्तमसपरायं सयतम् । अहस्त्रायसत्रयासखेज्जगुणा । यथाख्यातं सयतम् सामाहय
 विमुक्तं १ यको पल्लवः साधुश्चिन्नायिधिवे ३ प्र कतरं । गावमा सक्त्यावा मुक्तमसपरं असक्त्या । हेगीतम् सव्योबाहो सूक्तमसपरायसयत
 कावगा ख्यातपर्वो यको निपत्य तुल्यपदे करो यत प्रकल्लु प्रमारपर्वा यको तेजानं तेजो । परिहारविमविद्यं सत्रयासखेज्जगुणा पारदार
 विमुक्तिप्रियसयतं सख्यातगुणां तदना कासवर्षो तेसाटे यको पलाय तुल्यपदे करो तेजानं सत्रयमानपदे करो तेजो । अहस्त्रायसत्रया सखेज्जगुणा । व
 द्याप्यातमयतं सख्यातगुणां तेजाने काटियतं प्रकल्लु प्रमारपर्वा यको तेजो । अहस्त्रायसत्रया सखेज्जगुणा सामाहयसत्रया सखेज्जगुणा ३६ । अह
 स्यापनीयं सयतं सख्यातगुणां काटियतं प्रकल्लु मानपदे करो तेजाने कद्यामाट ४ तेजयो सामाविकसयतं सख्यातगुणां तेजाने कपायजुगोस तुल्य
 पदे करो काटिपृथक्कल मानपदे करो कद्यामाट ५ द्वार १६ अमन्तरं सयतं कद्यां तद्वर्गादि क्यारएक प्रतिशेवावत्तुं पुत्रे एतच्छामाटे प्रतिशेवा

भवति च कश्चिदप्रतिभेदान्मो न्यूनोति प्रतिभेदानेदा प्रतिभेवा च निर्दोषमानोचयित्ये त्यासोचनादीवान्, आसोचनासम्बन्धा दास्तायभु
 क्षान् नदन्तां च इत्येवञ्च दन्तिरेत्यादि च इत्यप्यमापवानोगति च इह मसमी प्रत्येक दृष्ट्या तन द्यैभिति प्रतिभेवा जयति इत्यय यशना
 दि तथा प्रकाशमिति प्रकाशव मण्डिकपादि क्षमाऽनामोग मति समानागया प्राण च आउरति च आतुरय सति आतुरय मुमुषा विपासादि
 प्राथित च चावहेत्यपि च चावदि नत्यां चापच द्रव्यादिदन्त चतुर्विधा तत्र द्रव्याय त्प्रामुखादिव्यव्यासात्तः चत्रापरकान्तादृश्यपतितत्य, कासा

च्छिन्नं न ग्रन्थे ॥ १ ॥ कहयिहाण जने । पक्रिमेवणा पयुता ? गोयमा ! दमत्रिहा पक्रिमेवणा प०, तं०—
 इत्यप्यमायणानेगे आउरेत्याउतीत्य । सकियेसहस्रकारे नयप्यदोसायत्रीससा ॥ २ ॥ दस आउरीयणा

चनाडाय । तदुक्तानामाचारी प्रापयित्तंपपेच ॥ १ ॥ इत्यप्यावतरकद्रपतिसुभाष्यते । कतिविधा प्रदत्त । प्रतिभयना प्रपत्ता ? गीतम । दययि
 या प्रतिगता प्रपत्ता तद्यथा-इत्यप्रमादकानेगे आतुरसापदीतिच । सद्दीर्घसहस्रकारे जयातचैवप्रदृष्या यिमर्पाज्जायत एतु ० १ ० दृग्

भवन्ता ह्येव—पदिहस्यदावाया यथायथाकारिहाचर । ततानमायारो पावच्छिन्नंतवेचेर ॥ १ ॥ प्रतिभेवाना दापभयो पाकारे एतकामाटे
 पाव चवना शःदन्ते तथा यानापवना यर्षययो पाकायचगुर्वा प्रते वली गुहगुर्वा प्रते दयाकता कश्चै—प्रतिसवनादाय क्वो पाशासवने साम्य
 य कश्च पावे पवना गुह निपगे तिभारपयो नामाचारी प्रायचित्त तय जिये । कारिहाच भते पक्रिमेवणा पं । कोऽन्तेभदे इभगवम् प्रविभेवना
 कश्चमिहायना प्रयो १ य कतर । माहया इयदिहा पदिसेवणा पं० त । जेभोतम द्यैप्रकारे प्रतिभेवना प्रकपो ते कश्चै—इत्यप्यमायचामेगी
 य योवापनी तथा । पक्रियमहस्रकारे भव्यदाप्रापयोयथा ॥ २ ॥ इत्य कश्चि विपयता उगमाद विप्रयता तेहस्रका प्रतिभेवना कुवे तथा प्रमाद ते म
 य कश्चदि तहस्रका प्रतिभेवना कुवे २ यप्रान तेहस्रका प्रतिभेवना कुवे ३ तथा पागुरपचे क्वो प्रतिभेवा कुवे पातुर ते मुमुषा विपासादिक्वाचित ४
 पातुर क्वो ते पातुरा दन्त येव चाक भवेत्तरो चरिपकारे १ इत्यप परपच व्याकुल येवकयो संकोच यर्षयको १ स्रहसाकारे इापकामे पाकविमच

प द्युर्निचकालमिति ज्ञावापत् सागत्यमिति ० संक्लियति ० घञ्जीवेँ स्वापचपरपणम्याकुले चञ्च सति ० संक्लिपति ० क्लृपि त्पाठः, तत्र च क्लृपित्क्ते
 प्रापाकर्मदिव्येन शङ्कितमन्त्रादिविषये निषीचपाठत्-तितिच इत्यनिषीयत तत्र च तितित्तत्वे सति तत्राकाराद्यस्त्रात्र संस्य वचन ० सञ्च
 करति ० सञ्चकार सति आकलिक्रियायां तत्राच-पुव्रपपाविक्रवं पाण्डुरन्मिज्जपुष्कोपास । मतरङ्गमियत्तठ पायसञ्चकारणमयति ० १ ॥
 प्रपव्युषायति ० जया त्स्विज्ञादिजनय प्रतिषेवा जलात तथा मद्रुपाच मद्रुपद्य कोपावि ॥ वीमसति ० विमशोत् विमशकादिपरीकषा दित्यव
 कारकजनदन इष्ट मतिस्वाप्तरा मखलीति ० आकपयिता गावा ० आकम्य आवात्त्रितः सत्रावाय स्ताक प्राययित मे दास्यतीति बुचा आलो
 जनाचार्य वैपाकुपकरबाविना छावज्य यदासोचन मसा वासोचमादीयः ॥ अकुमाक्षयितति ॥ अनुमान्यानुमान क्त्वत्वा लपुतरापरापनिवदनेन
 सुदुरक्षादित्यमाचार्यस्या कस्य्य यदा शासनस्यौ तद्दोयः यव ० न विहात ० पवाचार्योदिना द्रुमपरापण्मात तदेवालोचयति ॥ वायवसि ० या

दोसा पक्षसा, तजहा-स्थकपहस्ता श्युमाहता जदिठवावरचसुक्रमच । ळरहसद्दाउलय वज्जस्रसृत्तस्सेत्री ।

प्रासोचमारोपाः प्रशशास्रगपा-आकम्मानुनाम्य यदृष्ट वाधरन्वसूक्ष्मम् । क्लृप्तञ्ज्याकुलक क्लृप्तञ्ज्याकुलक
 विद्यमिविधे ० भयबको सिक्रादिभन भये प्रतिशवा रूप ऽ तभा मइय त साधार्थिक सको प्रतिसवा रूप ९ विमासवावको यिच्यादि प्रतिसिवा रूप दो
 पकाय इत्यत्र १८ कारव भदे करो प्रतिसवा रूप । वृष आकावथा ठासा प त । द्वायकागा कोको आकाइवा ते आकासबांजा र्ग्य द्वाय प्रकव्या ते
 वइव-प्राकपयितापख्मनाहता लविष्टवावरचसुक्रमच । वरहसद्दाउलय वज्जस्रसृत्तस्सेत्री । प्रवजितवका आचार्य मभने वाका प्राययित र्कमे १
 मा मुक्तिचरो आलायन यवे वेदाहत्यादि कर्त्तव्यरो आवाभनो आवलना करे ए आकावथना द्वाय १ काष्ठे उपराध क्लृप्तते आचार्य आकाइक्क देखे १
 ०डना पनुमान करो आकावे १ न उपराध रूपते प्राचार्थदिके दोठा तेकोन आलाय १ वाटरकविय साटाहाक यतावार रूपवा त प्र शाय पवि
 नभौ मूय तिहा पप्रघातत्पर यको ८, सुबुमवति, स्रक्कडवती न, काकोच प्रतोवार रूपवा त पाकः वळे त माटा बिमनरो आकावे र्कमे ५ पे भाव उपजना

द्रमेवातिचारजात मासोचयति न मूलं तत्रावशापरत्वात् ॥ सुपुनचति ॥ मूलमेयातिभारजातमासोचयति य किल मूलं तदा सोचयति स कृप
 वावर त मासोचयत्यव रूपमावसम्पादनया चायस्येति ॥ इत्यति ॥ इत्यत्र मतिवज्जानुतया अव्यक्तवचन यथात्रवरयेय मासोचयति यथा
 स्मनेत्र शब्दोति ॥ सहाउसमति ॥ शब्दाङ्गुल वृद्धञ्च यथात्रवरयेव मासोचयत्यगीताघोन आवयञ्चित्ययः ॥ वहुजुञ्जति ॥ यद्वहो जना आसोचना
 गुरवा यत्रासोचन तद्बहुजन यथात्रवरपवमासोचयति यस्याप्यपराधस्य बहुभ्यो निवर्तनामित्यय ॥ अद्यत्ति ॥ अद्यत्तो ऽगीतायः तस्मै या
 चार्थाय यदा साचन तदप्यध्यस्य मित्यच्यते ॥ तस्वेवति ॥ यमपराधमासोचयिष्यति तमवासेवत धो गुरुः स तस्वही तस्मै यदासोचन तदपि त
 रसचति यतः समानशीलाय भुरवे सुकृतेव विवक्षितापराधो निवर्तयितुं शक्यत इति तस्वेवित्ने निवर्तयितुं इत्यादि ॥ मत्स्यता
 वात् गुहसमुदाय आसोचस्य कस्मादन्वियत इत्युच्यत जातिसम्बन्धः प्रायो ऽकृत्य न करत्पव कृत ॥ सम्मगासोचयति कुलसम्पन्नोऽनीकृतप्र

दशहिं ठाणेहि सपञ्चे शृणुगारे श्रिहति श्रुतदीस श्यासीदए सजहा—जातिसपञ्चे १ कुलसपञ्चे २ त्रिण

राइति आसदीपमासोचायतुन् तद्यथा—जातिसम्बन्धः कुलसम्बन्धः आनसम्बन्धः इत्यानसम्बन्धः चारित्रसम्बन्धः शास्ता
 बधाने यवे पाचयते ॥ इति पतिव्रताभसवेकरी किम चापचयेन सवे तिम आकावे पचि गुरु न सुने पूरा ६ मोटायण्ड किम इवे तिम पाभावे ०
 यद्वहो पचि चापवे यपराध वनाभावे आकावे ८ यमोताव चागचि आकावे ८ यपराध आकावित्ने तेष इवना सेवचकार गुरु चागचि आकावे कि
 म पञ्चना घनीशाय न कवे इवा कचि दय खानवचरोने सपत्र पचगारुषायु याम्बुव । अरिइति पतदासं आकारण त । चापया चापयते आकार
 भाज ते कवे—जातिसपञ्च १ कुलसपञ्चे २ विषयसपञ्चे ३ वाचसपञ्चे ४ वृषसपञ्चे ५ अरिइति सपञ्चे ६ अत ७ इति ८ यमावो ९ यपञ्चकारतावो १ ।
 जातिसपञ्च इत्यादि प्रावे यद्वत्पते न करेक धने कीर्त्तिते सम्बन्ध आकावे यमीकार लोकां प्रायचितना यद्वचकार इवे इदनादिच पालोचना सम
 चारोना पयोजा पुवे १ आनसपञ्चकृत अमृतविमान जाचे ३ प्रावचितप्रते सरदवे ३ चारित्रसपञ्च प्रायचित्त यमीकार करे ४ गुरुवे पाचमे शोभासका

यद्यित्सव घोडा प्रवति विनयसस्यकी वल्गनादिकाया आसोबना सामाचार्यः प्रयोक्ता भवति इत्तमसस्यक कत्याकृत्यविभागं कामाति दर्शन
सस्यक प्राययिता च्छुदि प्रदुते चारित्रसस्यकः प्राययितमङ्गीकरोति छांतो गुरुनि सपान्तिस्तो न कुप्यति दान्तो दान्तेभ्ययतया सुवि स
म् गवति, अमायी अगोपय अपराध मासोचयति अपदाहायी आसोचिते उपराधे पदाहाप महुर्मुक्तिराज्ञागी भवति ॥ आचारयमित्या
दि ० तत्राचारवान् ज्ञानादिपञ्चमकाराचारपुत्र ० आहारवति ० आसोचितापराधाना मवधारवावान् ० ववधारवति ० आगमभुतादिपञ्च
प्रकारभावधारणा मन्तमपुत्रः ० उष्टीसपति ० अपत्रीठकः सज्जया तीचारान् गोपायन्त विचित्रवचने विसृज्मीकृत्य सम्मगालोचनारयिते

यसपखे ३ णाणसपखे ४ दसणसपखे ५ चरिससपखे ६ खते ७ दते ८ अमायी ९ अ्यपच्छाणुतायी १०
अ्यठहि ठाणहि सपखे अ्यणगारे अ्यरिहति अ्यालीयण पन्निच्छिसए तजहा—अ्यारव १ अ्यहारव २ वव
हारव ३ उष्टीसए ४ पकुसए ५ अ्यपरिस्सावी ६ णिज्जायए ७ अ्यवायदसी ८ । दसविहा सामायारी ९ ०

दान्तोऽमाय्यज्ञानुतायी १० । अष्टनिरत्यानेः सम्मबोमगारेऽहति आसोबनां प्रतीष्वितुम्, तद्यथा—आचारवानाहारवाक्यवधारवामपत्रीठकः
प्रकुर्वकोऽपरिस्सावी नियोपकोपापबद्धो ८ । दशविधा सामाचारी मद्यसा सद्यथा—इच्छामिथ्यातथाकार आवश्यकीधमेपचिबी । आपृच्छता य

आप नकरे ० शीत इन्द्रियपत्रे मुचिपते सम्मबपुकारे बरे ८ पमाको अपराधप्रते पकोबतो बका आमावे ८ अपराध आसावावकी पयाताप पचवर
ताका निजराजा मजबहार पुव १ । पड्डि ठाचेचि सपख पभगारे परिहति आसावच पड्डिचितण त । पाठे आनवेबरो सपख पभगारसासु
माय्यक पसावच सवने ते कइवे । आचारव १ आहारव २ ववधारव ३ उष्टीसए ४ पकुसए ५ अपरिस्सावी ६ अ्यवहारव ७ पवावटसी ८ । आचारव
ता ज्ञानादि ८ प्रकार आचारसहित १ आसावा हायता पवधारव एतावता वीसरे नही १ पागम मुतादि पचपकार अ्यवधारमचे पनेरा कारणक
अ्यवधारसहित १ पमत्रीठक अ सज्जने कामसकचने साकरहित करो सम्मग् आसावना करारवे ४ अपराध आसावावकी प्रायचित्त देवाको विमुक्तिप

म्रुपगमापेति ॥ ठमोपरिपत्ति ॥ अत्रमस्योक्तस्योदरस्य बरुव मवमोदरिका व्युत्पत्तिमात्रमेतदिति कृत्योपकरणेन सौष्यते ॥ इतरि
 पत्ति ॥ अल्पभ्रातृत्वं ॥ आवकद्विपत्ति ॥ यावत्प्रथममवति ॥ यावत्प्रथममवति ॥ यावत्प्रथममवति ॥ यावत्प्रथममवति ॥

म्नित्रि श्रुगसणे ? श्रुगसणे दुयिहे प०, तजहा—इत्तरिण्य श्रुगकहिण्य । संकित इत्तरिण्य ? इत्तरिण्य श्रुणे
 गयिहे पयिहे, तजहा—अउत्ये नसे वसे नसे दुय्यालसमे नसे अउदसमे नसे अउदसमे नसे अउद
 मासिण्य नसे मासिण्य नसे दीमासिण्य नसे जाय तमासिण्य नसे । सेहे इत्तरिण्य ॥ संकित श्रु

यावत्प्रथममवति ॥ १ ॥ अयत्किंतदनशूनं ? अनशून द्विविध प्रथमम् तद्यथा—इत्तरिकत्वं यावत्कथिकत्वं । अथ किं तद्विस्वरिक ? इत्तरिकत्वेन
 कविप प्रथमम् तद्यथा—अनुपमत्वं पद्यप्रत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं
 त्रिमासिकत्वं यावत्प्रथममवति ॥ अथ किं तद्विस्वरिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ?

वायविकत्वं यावत्प्रथममवति ॥ १ ॥ अयत्किंतदनशूनं ? अनशून द्विविध प्रथमम् तद्यथा—इत्तरिकत्वं यावत्कथिकत्वं । अथ किं तद्विस्वरिक ? इत्तरिकत्वेन
 कविप प्रथमम् तद्यथा—अनुपमत्वं पद्यप्रत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं अद्यमत्वं
 त्रिमासिकत्वं यावत्प्रथममवति ॥ अथ किं तद्विस्वरिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ? यावत्कथिकत्वं ?

कर्मो विद्यापते तत्र हि कर्मैव समाप्त्यतिहरणीयं स्वादिति कृत्वा निर्धारितं च पञ्चोद्धारितं यद्विरिक्तद्वारादौ प्रतिपद्यते च
 यकहितं व्याघ्रं २ दुयिहे प०, त०-पात्रवगमणे य ज्ञप्तपञ्चकागे य । सैकित पात्रवगमणे ? पात्रवगमणे
 दुयिहे प०, तजहा-णीहारिमे य, गियमा अयपक्रिमे । सप्त पात्रवगमणे । सक्ति ज्ञप्त
 पञ्चक्राण ज्ञप्तपञ्चकाण दुयिहे प०, त०-णीहारिमे य । गियमा सपक्रिमे । सप्त ज्ञप्त
 पञ्चक्राणे । चत स्यात्क्राण । सप्त स्यात्क्राण । सक्ति ज्ञप्तविरिया ? ज्ञप्तविरिया दुयिहा प०, त०-दक्षी

च प्रकप्रत्यास्यान च । अथ किं तत्पात्रवगमण ? पात्रवगमण ? त्रिविध प्रकप्रम तद्यथा-निर्धारितमन्वामिहारिसं च । नियमावप्रतिक्षण
 म् । समाप्त पात्रवगमणम् । अथ किं तद्वक्तव्यमस्यान ? प्रकप्रत्यास्यान ? त्रिविध प्रकप्रम् तद्यथा-निर्धारितमन्वामिहारिसं च । नियमा
 रसप्रतिक्षणम् । समाप्तं प्रकप्रत्यास्यानम् । समाप्तं च पात्रवगमणम् । अथ का साधनोद्धारिणा ? अथसाधनोद्धारिणा ? अथसाधनोद्धारिणा ?

मयेव भक्तपञ्चकाणे २ । पात्रव गमणोपरि निवृत्त राह्या भातयावो प्रत्याख्यात य इत् औच काठशा २ । सक्ति पात्रवगमणम् । द्विवे स्यू ते पात्र
 पात्रवगमण । अथा २ द्विविध प त । पात्रवगमणम् इदमे प्रक्या ते कइव । बोद्धारिसं योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं ।
 कनेविधे च तेहना योद्धारिसं । अथसाधनोद्धारिणा ? अथसाधनोद्धारिणा ? अथसाधनोद्धारिणा ? अथसाधनोद्धारिणा ? अथसाधनोद्धारिणा ?
 या । सक्ति त मत्पञ्चकाण । द्विवे स्यू ते मत्पञ्चकाणम् । मत्पञ्चकाणम् । मत्पञ्चकाणम् । मत्पञ्चकाणम् । मत्पञ्चकाणम् । मत्पञ्चकाणम् ।
 धारिसं विद्यमा सपक्रिमे । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं ।
 एतन्मत्पञ्चकाणम् । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं । योद्धारिसं ।
 इदमे प्रक्या ते कइव । बोद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं । जेहना योद्धारिसं ।

विपत्तोग्रवसाऽज्जयति ॥ विघ्नस्तस्मिन् ॥ अद्योयेतया भयतस्मिन् ॥ माहज्जयति ॥ अद्यमता परिजोगनमिति पूर्यांतुत्त-अयच्छास्त्रपरः

मौरिया य न्नायोमौरिया य । सेकित दश्रीमौरियाय ? दश्रीमौरिया दुत्रिहा पयासा , तजहा-उयग
रणदश्रीमौरियाय नक्षपाणदश्रीमौरिया य , सक्ति उयगरणदश्रीमौरिया २ एगे वत्ये एगे पादे यि
यस्यैवगरणसाहज्जयति । सेस उयगरणदश्रीमौरिया । से कित नक्षपाणदश्रीमौरिया ? अष्टमुक्त्तु क्रिञ्चन
गप्पमागमेस कयले आहार स्याहारमाण अय्यहार , दुयाडन जहा सत्तमसए पत्तमुद्देमए जाय णो पका

तपया-द्रव्यावभावरिका च प्रायावभावरिका च । अथ का मा द्रव्यावभावरिका ? द्रव्यावभावरिका द्विविधा मत्तसा तपया-उपकरकत्र
व्यावभावरिका च नक्षपाणद्रव्यावभावरिका च । अथ का या उपकरकद्रव्यावभावरिका ? अथ० यथा यत्तमं पाद विविक्षापकरकद्रव्यदमता ।
ममासा उपकरकद्रव्यावभावरिका । अथ का सा नक्षपाणद्रव्यावभावरिका ? अष्टमुक्त्तयवभावरिका नक्षपाणद्रव्यावभावरिका । इत्यादि
(प्रवृत्ति) यथा मत्तमज्ञान प्रथमादृशे पादमेव प्रकाशरसज्ञानि यत्तव्य स्यात् , ममासा नक्षपाणद्रव्यावभावरिका । ममासा द्रव्यावभावरि

व्यद्रव्यवभावरि च भवे मत्तवी त कश्चै-उयगरणदश्रीमौरियाय भतपावदश्रीमौरियाय । उपभारकद्रव्य भवभावरि नक्षपाणद्रव्य य-मोदरी
का । मेकिर्न उपगदव दश्रीमौरियाय । तदव्य उपगदव द्रव्यवभावरि । अथयस्यै एगवाव त्रियतामगरकमाऽज्जयति । एव यथ एव पाच यथा
अथवसहित उपगदव भावै एव अथ पादिदेर धारे नेकनति एव ममता न करे । मत्तं अथगरव दश्रीमौरिया । तेव उपगदव द्रव्य भवभावरि
ति । मेकिर्न भतपावदश्रीमौरिया । तेव व्य भतप्रत्याप्यान द्रव्य य-मोदरिका । अष्टमुक्त्तयवभावरि कश्चैपाहार पावरिमावे यथाहारि ।
पाठ सुकृतीपदपमाचमच अत्रकपाहार एते पाहारतावका यन्त्याकारी सापुत्रवे इम पागे एव अत्रका । दुभावन अथा मत्तममए पत्तमद्वेसए
काव या यथानरसभाकीतीति यत्तवधिया । धारे सुकृती अत्रकपाहारमते पाहारतावका करिपक वाटि याधी ललाहरिक कश्चि इम

तमिद्विगतकतिप्रहकोदसगहनसदेइति ॥ अय्यकोदेति ॥ अय्यकोपः पुरुषः अथमीदरिकाजन्मत्वमेवोपपारादिति ॥ अय्यसदेति ॥ अल्पज्ञात्री रा
 प्राणावसुपतत्रागरउजयात् ॥ अय्यभ्रमति ॥ इह भ्रमा विमलीवै कापविवायादुक्त्वापदुति चूख्योत्तुक्त-भ्रमा अथत्यययुष्पलायित्तप्रप्यससमु
 ति ॥ तुम तुमा इत्येत्यः कोपविशेष एव ॥ दृष्टान्तिगणद्वरएति ॥ निशाथयाया सततः द्यानेत्रवियवडकात द्रव्यानियद्वरको निपाथये स्युष्यतः

मरमजो जीतीति वसुसु सिया । सेत नत्तपाणद्वीमोयरिया । सेत दद्वीमोयरिया । सेकितं न्नायोमोयरिया
 न्नायोमोयरिया अणुगेगविहा पसता, तजहा-अय्यकोहे जात्र अय्यपीने अय्यसदे अय्यफके अय्यतुम तुमे
 सेत न्नायोमोयरिया । सेत ऊमोयरिया । सेकितं निस्कायरिया ? निस्कायरिया अणुगेगविहा प०, त०

का । अथ का सा न्नावावमोदरिका ? मावावमोदरिकाऽनकाविषा प्रप्रता तद्यथा-अल्पकोपी यावद्वयलोनीरुपसद्वीरुपसद्वीरुपतुमसुमा ।
 समासानावावमोदरिका । समासानावमोदरिका । अथ का सा निशाथयो ? निशाथयानेकविषा प्रप्रता, तद्यथा-द्रव्यानिपद्वरक सत्रामि
 निम सातमा यतत्रत्रविष पडिना उवेयानेविषे कथा तिम कडका यावत् नको प्रकामरसभालो वतखालग कडवा । सेत भलपावडवासावटिवा सेत
 दशमोदरिया । एतच्च मन्त्रपात्र द्रव्य पचमादरिका कडो एतसे द्रव्यपचमादरिका कडो । सञ्चित मावीमादरिया । द्विसे स्यू ते भार पचमादरिका ।
 भावाभासतिया पचमविहाय त भारजमादरिका एनेकप्रकार कडो ते कडवे-अय्यकाहे जात्र अथकामे अय्यसदे अय्यभ्रके अय्यतुमं तुमे सत मा
 गमादरिया सत जमादरिया । अय्यजाह पदय जगतारिका पूव पभेउउपपारवको इम अय्यकाभसगे कडवा तथा अय्यभ्रके अय्यतुमं तुमे सत मा
 त जागरवना भवजको अय्यभ्रका मन्काकडिये कापविगपयो वचमजोत्रदि, अय्यतुमं तुमे कडिव डीया इजमअथनी कात्र जेह तेह जेहने अय्य एह मा
 अजमीदरिका कडिये तेह जमादरिका कडो । सञ्चित मिष्ठासरिया २ पचमविहाय त । द्विसे स्यू मिष्ठावर्या, मिष्ठावर्या अनेकप्रकारे कडो ते
 कडवे-दृष्टान्तिगणद्वरएि स्रगाभिस्यद्वरएि जहा उववाइए जात्र सुवसद्विए सखादरिए सेत मिष्ठावरिया । द्रव्यपभिगड भिष्ठावर्या विहा द्रव्य

दृष्टान्तिगहचरिण सेप्तान्तिगहचरिण जहा उग्रयाद्विण जात्र सद्धेमणिण सखादक्षिण । सेप्त निरक्रायरिया ।
 सेप्ति रसपरिञ्चाने ? रसपरिञ्चाने श्रुगेगविहे प०, त०-गिञ्चिण्डण पणी रसत्रिञ्चिण्डण जहा उग्रयाद्विण
 जात्र सद्धाहरि । सेप्त रसपरिञ्चाने । स क्ति कायस्मिसे काय२ श्रुगेग विह प०, ठागाद्विण उद्धुण रामणिण
 जहा उग्रयाद्विण जात्र सद्धगायपन्निस्सम्यिप्पमुक्की । सेप्त कायस्मिसे । सेप्ति पन्निस्सलीनता २ पन्निस्सलीनता

गृहचरणा पयोपपातिसे यावच्चुद्धेवविहः सद्धादक्षिण । समासा निघाञ्चया । अथ कासी रसपरित्यागः । रसपरित्यागोऽनञ्चविप मप्रस
 लोपा-निविहतिञ्च मञ्जीतरसविधिमञ्जिता पयोपपातिक यावच्चुत्तापारः । समासो रसपरित्यागः । अथ कोऽसौ बापकज्ञः ? कायस्मिगो
 मकविपः मप्रस स्थानातिग उरकटिक्काद्याना यथापपातिक यावत्सद्यमानप्रतिकर्मायप्रमुक्ताः समास कायस्मि । अथ का सा मतिस्सलीनता ?

पामपक मर कतादि इवविगव आचवा इम च्वाभिग्नइचवा पचि अचभो बिम उवाउठपोभने विपे कञ्जा तिम अचभो वाचत् मुद्रुपपवा प म्रविता
 । उठावरहित विगुवववा तइवन् मुद्रुवविक अदिसे इतवाली अचवा मय्यापपान पच अ पाविदा उणिअदिये भिद्यानिगोप अइने ते मय्य इलिक
 नदिये वन्म भिद्याञ्चया अथे । मेकित रसपरिचाया२ पचपविचय त । इव लू ते रसपरित्याग रसपरित्याग अनेअप्रकारे मक्या त अ०दि ।
 विविगतप वविपरमविबन्दि अइा अचवाःउ आच मुद्राकारिमेत रसपरिचाया । निभोना तप छिग्वरमविबन्दिन त निम उवाउठपोभने विपे क
 ना तिम इही पचि अचवा त इम पागविल पापममित्तभाः परसाहार इस्वादि वाचत् कचपापार एतवासग अचवा एतव रसपरित्याग कञ्जा । म
 किं कायबिलम २ पचमविक प । इव लू त कागळग आरळग पचकचकार पक्या । ठावाः उ उद्रुगामविप अचवा उचवा ए अत्र मप्रगाय
 पडिअविगमहेपल कायबिलम । बापाअर्थादिच त प्रते पतिगमे करो दामे पचवा आय त स्थानाभिन् पचवा स्थानातिग अदिये उरकट्ट पापल
 स्मादि बिम उवाउठपोभने कञ्जा तिम अचवा वाचत् सचवाच गरीर तेइभो विभूया तिअेकरो रचित एतव कायळम कञ्जा । यचित पडिअोभ

इत्यादिगणेषु सेपकृतादिद्वयविषयाः ० अत्रा उच्यतेतिरिति ॥ अनेन च सूचित-येतादिगणेषु मावादिगणेषु इत्यादि ॥
 सुदशुचिपत्ति ० सुपुषा लङ्कृतादिदोषपरिहारतः चिद्वय एकादय इद्वयपि ० सुसाद्विपत्ति ० सुसाद्विपत्ति ० सुसाद्विपत्ति ० सुसाद्विपत्ति ०
 यस्य च तथा अत्रा उच्यतेतिरिति ० अनेन च सूचित-यायविति ० अनेन च सूचित-यायविति ० अनेन च सूचित-यायविति ० अनेन च सूचित-यायविति ०
 अत्रा उच्यतेतिरिति ० अनेन च सूचित-यायविति ० अनेन च सूचित-यायविति ० अनेन च सूचित-यायविति ० अनेन च सूचित-यायविति ०
 मासिस्वाद्याः, योरासन च सिद्धासुत्रनिवृत्तस्य मूल्यास्तपादस्य सिद्धासन उपनीत यादृशा नवस्थान, विषयाच पुताप्या नूमायुष्ययन ० साहद्विय
 विषयप्ययारनिराधीवति ० भोत्रन्त्रियस्य यो विषये विद्यानिवृत्तयदु प्रचारः अथलक्षणाप्रवृत्तिः तस्य यो निरोधो नियम स तथा अत्रा उच्यते

चउच्चिहा पञ्चम, तजहा-इद्वियपक्रिसलीनता जोगपक्रिसलीनता विविधसयणासंग
 सत्रणया । से क्ति इद्वियपक्रिसलीनता २ पचविहा पञ्चता, तजहा-सोहद्वियत्रिसयप्ययारनिराही या

प्रतिसलीनता चतविधा प्रकृता तद्यथा-इन्द्रियप्रतिसलीनता रूपयप्रतिसलीनता योगप्रतिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । का सा इन्द्रि
 यप्रतिसलीनता ० इन्द्रि० पञ्चविधा प्रकृता तद्यथा-यात्रान्द्रियविषयप्रचारनिराधीवा मात्रान्द्रियविषयप्रामसु वाऽर्पणु रागहृपविनियंङ् च

या २ चतविधवा प त । द्विच विसेत प्रतिसलीनता प्रतिसलीनता चारमद प्रकृपो त अत्रा उच्यते-इन्द्रियप्रतिसलीनता । अत्रा उच्यते
 तिसलीनता अथात्र प्रतिसलीनता । अत्रा उच्यते तिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । अत्रा उच्यते तिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । अत्रा उच्यते
 तिसलीनता २ पचविहा प त । द्विच एत इन्द्रिय प्रतिसलीनता इन्द्रियप्रतिसलीनता पचभङ् प्रकृपो ते अत्रा उच्यते-भाट द्विच विविधसयणार विरो
 हावा । यत्रेन्द्रियना अत्रिपस एव प्रतिसलीनता । अत्रा उच्यते तिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । अत्रा उच्यते तिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । अत्रा उच्यते
 अत्रा उच्यते तिसलीनता पचि । अत्रा उच्यते तिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । अत्रा उच्यते तिसलीनता विविधसयणासंगमसेधनता । अत्रा उच्यते

अत्र अत्रममित्यर्थः । शोद्धयविषयेत्यादि । शोद्धयविषयप्रमाणेषु चार्थेषु इष्टानिष्टशब्देषु रागद्वेषविभिन्नयोरी रागद्वेषनिरोधे च मङ्गलस्य
 धायमतीनायकरत्न मनसोवायगतिति । विच्छिद्यैवापत्तेन एकता तद्रूपस्य प्रायस्य करण एकताप्रायकरत्न व्याप्तना वा सर्वैकतानिरालम्बनत्व

सोद्धयविषयस्यैव वा अत्येसु रोगदीप्तयिणिग्गहो चरुकिदियविषय एव जाव फासिदियव्ययारणिरोहो
 वा फासिदियविषयस्यैव वा अत्येसु रागदीप्तयिणिग्गहो । सेप्त इदियपत्तिस्लीगया । से कित्त कसायपत्ति
 स्लीगया १ कसायपत्तिस्लीगया चउद्धिहा पक्षता, तजहा—कीहोदयणिरोहो वा उदयव्यस्यस्स वा को
 हस्स विफलीकरण एव जाव लोचोदयणिरोहो वा उदयव्यत्तस्स लोचस्स थिफलीकरण । सेप्त कसायपत्तिस्स

स्तिन्त्रियविषय (मत्तति) यावत्स्यद्यमन्त्रियप्रचारनिरोधोवा स्पशंमन्त्रियविषयप्रमाणेषु वाऽर्थेषु रागद्वेषविभिन्नयोरी । समाप्ता इन्त्रियप्रतिस्ली
 गता । अथ का सा कषायप्रतिस्लीगता ? कषायप्रतिस्लीगता चतुर्विधा प्रकृता तद्यथा—ओषोदयनिराधा ओदयप्रमासस्य वा कोषस्य विषय
 लीकरत्नमेव यावन्नोत्ताद्यमनिरोधोवाऽदयप्रमासस्य लोचस्स विफलीकरण । समाप्ता कषायप्रतिस्लीगता । अथ का सा योगप्रतिस्लीगता ? योग
 गदिवना नियत भिषय करवा । चक्किटिक्किटिक्क एव जाव फासिदियव्ययार चिराहावा । एम चत्तुरिद्विव विषयप्रचार नियत एम वागतु अयनेद्विव वि
 पयप्रचार निरोध, करवा यत्त । य् चिद्विवा विषयव्यत्ते सवा पत्तेसुरामदीप्तयिद्विहो सेप्त इदियव्यत्तिस्लीगता । अयनेद्विव विषय पाप्मा चक्केनेवि
 य रायद्वैयना विनिषय तेव इद्विव प्रतिस्लीगता कद्विये । सेक्कित्त कषायपत्तिस्लीगया २ चउद्धिहा यत्त । इद्विने च्चु कषाय प्रतिस्लीगता, कषाय
 प्र तस्लीगता चउद्धे मरुपी ते कद्विने—काहाद्विचिराहावा उदयव्यत्तस्सवा काइक्क निष्कयोकरण । काधना उदय तेइना निरोध करवो उदयप्रमा
 जाव तेइत्त निष्कयकरणो । एवं जाव चाभोदय चिराहावा उदयव्यत्तस्स चाभस्स विषयोकरणं येत्त कषायपत्तिस्लीगता । एम वागतु चाभउत्तव निरा
 व येत्ते उदयप्रमास चाभने निष्कय करवा एतत्ते कषायपत्तिस्लीगता चउहो । सेक्कित्त चाभ पत्तिस्लीगता । इद्विने च्चु याग प्रतिस्लीगता । लोचपत्तिस्लीग
 य

तदुपयोग्यं तस्य कार्यं यत् तया ॥ वदए वा एगतीभावकरदति ॥ वाचोवा विविष्टीकाप्रत्वेन एकताकूपजावकारमिति ॥ सुसमापियपसतसा इरियपाधिपायति ॥ सुदु सुमाधिगतसो वरिष्टीया सुवासो मञ्जान्मालादृष्या य स तथा सङ्गतमविधिमतया पुन पाकिपाठ यत्त च तथा सताः कामपारपः ॥ कुम्भाइवन्तिदियसि ॥ गुप्तिन्त्रियो गुप्त इत्यथ कइव कुम्भरव वास्याधिदवस्थाया मिति भतएवाइ-धलीवपहीयति ॥ आलीन

लीगया । स कित्त जोगपफिसलीगया, जोगपफिसलीगया ? तिविहा पयात्ता, तजहा-शुकुसलमगणि रोही वा कुपलमणउदीरण वा मणस्स एगहीजायकरण । से कित्त यडपफिसलीगया ? वडपफिसलीगया तिविहा पणणा, तजहा-शुकुमलवडहणिरोही वा कुसलवडहडरीरण वा वडए वा एगहीजायकरण । संकित्त कायपफिसलीगया ? कायपफिसलीगया जण सुसमाहियपसतसाहरियपाणिपादे कुम्भोइयगुप्तिविए श्वाही

प्रतिसलीगता त्रिविधा मज्झा तद्यथा-अकुसलमनानिरोधी वा कुञ्जलमनस उदीरए वा मनस एकताजावकरइम् । समासा योगप्रतिसलीगता । अय का सा वाक्प्रतिसलीगता ? वाक्प्रतिसलीगता त्रिविधा मज्झा तद्यथा-अकुञ्जलमननिरोधी वा कुञ्जलवागुदीरए वा वचनस्य वा वज्जताप्रायकरइम् । अय का सा कायप्रतिसलीगता ? कायप्रतिसलीगता या सुसमाचितप्रशालसएतपाविपादः कुम्भे इव गुप्तेन्त्रिय आलीनः

या तिविहाप त । कामप्रतिसलीगता तोनिमइ प्ररूपो तइइहे-अकुसलमच विराहावा कुमनमप उदीरएवा । अकुमल ले मन तेइता निराध क रवा कुगम ज मन तेइतो उदीरए । सबल्ल एनतीभाइइरए । मनने विगिटपणे एजाप्रभाव करवा । संकित्त वडपफिमखीपवा । द्विवे खू ते वचन म तिसलीगता । वड २ तिविहाप त । वचन प्रतिसलीगता तीनिमदे प्ररूपा ते वडइ-अकुमन वडविचारावा कुसलवड उदीरएवा । अकुमल वचन ना निराध कुमनमप उदीरएवा । वड एगतीभाइइरए । वचन विगिटपरी एजापभाव करए । संकित्त कायपफिसलीगता । द्विवे विही ते का वपफिमलीगता । काय २ अवेसुममाहियपसत साइरियपाविपादः । काव पफिसलीगता जेइ सुट भसोपरे समाधि पास्या वाङ्म हाति करी पने य

इत्यस्मीनः पूर्वं प्रसीतः पद्याप्रकर्षेण लीनः । ततः कल्पधारयः ॥ सोमिसुद्वेषरतिः ॥ अष्टावश्वसस्य इयमोद्वेशाच्च एतेन परसूचितं ततत एवाववा

णे पक्षीण चिठ्ठ । सेस कायपन्तिसलीणया । सेसजोगपन्तिसलीणया । से विथिससयणासणसेयणया
विथिससयणासणसेयणया जण थ्यारामेसु या उज्जाणेषु या जहा सोमिसुद्वेषरु जाय सेज्जासयारग उयस
पज्जसाण थिहरइ । सेस विथिससयणासणसेयणया । सेस पन्तिसलीणया । सेस थाहिररु तवे । संकित
थ्यसिन्तररु तवे ? थ्यसिन्तर ५०, तजहा-पायन्तिस थिणत्त वेयाथसु सज्जात्त ज्जाण विउरसग्गी । से

प्रसीतसिद्धति । समाप्ता कायप्रतिसलीनता । समाप्ता योगप्रतिसलीनता । अथ का सा विविच्छयमाशनसेवनता ? विविच्छयमाशनसेवनता
यदारामयु वीद्यामयु वा पथा सोमिलोद्वेषके यावत्तथासस्तारकमुपसम्पद्य विहरति । समाप्ता विविच्छयमाशनसेवनता । समाप्ता प्रतिश
लीनता । समाप्त काश्च तपः । अथ किं तदाभ्यन्तरिकं तपः ? आभ्यन्तरिक तपः यद्विषं प्रकृतम् सद्यथा-प्रायश्चित्त विमयो वेप्यावृष्य स्वा

स्ववृत्ति करो मयात्त निजका तथा उदरगा हाव पम विच । कुष्मादवगुत्तिरु पक्काच पक्कोच चिद्धर । बाष्पिकानी परे गुप्तभाग्य इत्यर्थं परिष्वा बाष्प
ना बीन पक्षे प्रकपे लीन इहवी रथ । सेत कावपन्तिसलीनता करो । सेत लीय पन्तिसलीनता । एतत्त कायप्रतिसलीनता करो । एतत्त लीय प्रतिसलीनता
करो । सेकित विवित्तसववाचय सेवववा । विवे स्यू ते विविच्छयमाशन सेवनता । विवि २ अर्थं पारामेयवा उज्जासेसवा अङ्का सोमिसुद्वेषरु जाय
सेव्यासवारय सवसपञ्चलात्तं विहरर । विवित्त सवनपण सेवनता अङ्क पारामेयविये उद्याननेविये निम पठारमा शतकना द्यमकथेयानेविये अ
द्या तिम इहा करवा बावत सेव्यासवार पक्षीकार करोम विपरै । सेतं विवित्तसववाचयसेवववा । एतत्त विवित्तसवनपण सेवनता । सेत पन्तिस
लीनता सेत वाहररु तवे । एतत्त प्रतिसलीनता करो इतत्त बाष्पतप कथा । सेकित अशितरु तवे । विव स्यू ते अम्यत्तर तप । अशितरु तप अ
विवेपं तं । अशितरु तप अशितरु प्रकथा ते अशिते-पावन्तिस विववा वेवववत्त उज्जापा क्काच विउरसग्गी । इहा मावन्तिस मन्वेकरो अपरारावना

ये ॥ पापच्छिन्तति ॥ इह प्रायश्चित्तशब्देनापराधमुद्धरुष्यते ॥ वेदायर्पति ॥ वेदायर्पति ॥ नाशविषयति ॥ प्रानयितयो

कित प्रायच्छिंसे ? पाप० २ दसविहे प०, तंजहा-श्यालीयगारिहे जाय पारचियारिहे । सेस प्रायच्छिंसे
ते । से कित यिणए ? यिणए सप्तत्रिहे प०, तंजहा णाणायिणए दसयिणए चरिसयिणए मगयिणए
यडयिणए काययिणए लीगीययारयिणए । से कित णाणयिणए ? णाणयिणए पंचयिहे प०, तंजहा-श्या

प्यापो ध्याने कुरममः । अथ किं तरमायसित ? मायसितं दयसिच प्रसम्' तद्यथा-सासोचनार्थं यावत्पारच्छिंकार्ये । समासे प्राययितान्
अथ को सौ वित्तयः ? वित्तयः सप्तविधः प्रसप्त सप्तधा-ज्ञानवित्तयः दशमवित्तयः त्रिदशमवित्तयः कायवित्तयो सोकोपवा
रवित्तयः । अथ को सौ ज्ञानवित्तयः ? ज्ञानवित्तयः पञ्चविधः प्रसप्तसप्तधा-आग्निमित्तयोपिक्कामवित्तयो यावत्कोवत्प्रज्ञानवित्तयः । समासोच्चा

यः कश्चिदे वित्तव २ वेदाहृत्य भक्तपानादिकरो पबहृत्थ ३ साध्याय ४ ध्याय ५ कायात्मन ६ । सेवितं पापच्छिन्त पाप २ इतविसे प० त० । द्विवे स्य
त प्रावदित्त, प्रावदित्त एतेपकारे कथा त एतेहे-पाशास्यारिहे जाव पारचियारिहे । पाशासना माण्ड इत्यादि पूर्व वयास्याः तिम यावत् पारचि
कायाय । अत पावदित्तै । एव प्रायसित कथा । सेवित विषय वि २ सप्तविसे प० तं । द्विवे स्यू ते वित्तव, वित्तय याते प्रकार प्रकृत्यो ते कश्चिहे-या
वदिवत् इंगवदिवत् चत्तवित्तव मववित्तव मवदिवत् । ज्ञानवित्तय ज्ञान ते मत्वादिक् तेजो वित्तय ते ज्ञानम मति
प्रदान त इरासभावनारिपे पद्व च यथासक्य दयम विजय ते मत्वाद्यन गुणाधिकलेविवे न्युपादिकप घने आग्रतताने टानवे मय्यत्त पाप २
नोपावे त इमवदित्तव ३ मामाधिकारिकता यवत्तज्ञान चत्तजोमदइवा प्रकपवा पाखिया ए चत्तवित्तव ३ तथा वित्तययाखने विपे मत्तजाकुय
यपको मववदिवता त मत्तवित्तय ४ इम चत्तवित्तय ५ इम कायवित्तव ६ साकना व्यदइवार पूजा ते रूप जे विजय ते आकापचारवित्तय ० । सेवित या
वदिवत् । द्विवे स्यू ते ज्ञानवित्तव । वाच २ पदविसे प० त० । ज्ञानवित्तव पांचिहे प्रकृत्या ते कश्चिहे-पाभिविवाडियवावविषय जाव कोवत्तवावनि

मत्यादिप्राप्तानां यद्युत्तमप्रक्रियदुमाननवृष्टायमायनाविधिप्रवृत्त्याख्याः ॥ दसविधव्यपि ॥ वृत्तनव्यपि ॥ वृत्तनव्यपि ॥ वृत्तनव्यपि ॥
भारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥
की पो व्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥ सामाधिकारिकादिभारतव्यपि ॥

त्रिणित्रोहियणागविणए जाय केवलणागविणए, सेत पाणयिणए ? से कित दंसगत्रिणए ? दसगत्रिणए
दुयिहे प०, तजहा-सुस्सुसणाविणए य श्यणञ्जासादणाविणए ? से कित सुस्सुसणाविणए ? सुस्सुसणा
विणए श्यणगयिहे प०, तजहा-सक्कारेति वा सम्माणेति वा जहा चउव्वसमसए तइयउदेसए जाय पकि

नवियपः । अथ की श्री दशमविनयः ? वृत्तनविनयः द्विविधः प्रवृत्तसंज्ञाया-सुभूपणाविनयपथ्याशातमाविनयपथ । अथ की श्री सुभूपणा
विनयः १ सुभूपणाविनयः प्रवृत्तसंज्ञाया-संस्कार इति वा सन्मान इति वा यथा चतुदशशते तृतीयोवृत्तके यावत्प्रतिषेधश्चरत्तत्ता ।
समासः सुभूपणाविनयः । अथ काशावन्त्याशातनाविनयः ? अनत्याशातनाविनयः पञ्चव्यथारिशाद्विष प्रवृत्तसंज्ञाया-परिहासकमगत्याशा

वप । मतिप्रदान रत्नादि यावत् विरक्त प्रानविनय । सत्त यावत्विनय । एतत्ते तेषु प्रानविनय कथा । संकित वसवविनय, दस २ दुर्विधे प तजहा ।
द्विरेष्णु तद्व्यपि, दमनविनय वृत्तके प्रकथा ते वृत्तके-सम्भूतवाविनयपथ पञ्चसासदवा विनयपथ । सेवा तिका कौलविनय ते सुभूपणाविनय
पति प्रायातना तद्वना निपचक्य विनय एतन्न पर्यायतामा ट कथा ३ । संकित सुरसुसणाविनयपथ २ पथेगविनय प त । द्विरेष्णु सुभूपणाविनय
पनेको व प्रवृत्ता त कथके-सम्भारितिवा सम्यावेदना कथा पञ्चदशममए तद्वत्तद्वमए काच पञ्चमसाङ्करण्या । सम्भारिदेना सम्भारिदेना किम वृत्तग

मा मतवना योत्रा वृत्तमात्रिये कथा िम कथना यावत् प्रतिस्मसाङ्करत्ता । सत्त मरसुसणाविनय । एतन्न सुभूपणाविनय कथा । संकित पञ्चसासाङ्
वाविनय । द्विरेष्णु ते पञ्चसासातनाविनय । प २ पञ्चसासाविनय प त । पञ्चसासातनाविनय पैतालोस भेदे कथा ते कथके परवृत्ताच पञ्चसा

तद्विपर्ययानि यिनो ज्ञानात्तन्नायिक्ये ॥ किरियाए अरुणासायक्यपति ॥ इह क्रिया क्लिपरलोकोऽस्त्यात्मा ऽस्ति च सवस्त्रेऽशान्तिरुत्त मुक्ति
 पद मित्यादिप्रकृत्यात्मिना गृह्यत ॥ सन्तोषस्य अरुणासायक्यपति ॥ सुभोगस्य समानयानि काका परस्परं मत्स्यादिदानमय इकरूपस्या नन्याया

समाहरणया । सेत सुस्सुसणायिणए । से कित्त अणञ्जासाहणायिणए ? अणञ्जासाहणायिणए पणयालीस
 त्रिंहे प०, तजहा-अरुहताण अणञ्जासादणया, अरुहंतपणुत्तस्स धम्मस्स अणञ्जासादणया, अ्यायरियाण
 अणञ्जासादणया, उयज्जायाण अणञ्जासादणया, येराण अणञ्जासादणया, कुलस्स अणञ्जासादणया,
 गणस्स अणञ्जासादणया, सचस्स अणञ्जासादणया, किरियाए अणञ्जासादणया, सन्तोगअणञ्जासादणया,

तमता अरिहन्तप्रवृत्तस्य पमस्यानत्यागातमता आचायाणामनत्यागातमता उपाध्यायाणामनत्यागातमता, स्यधिराणामनत्यागातमता कु
 लस्यानत्यागातमता, गच्छस्यानत्यागातमता सङ्घस्यानत्यागातमता क्रियाया अनत्यागातमता सुभोगानत्यागातमता यान्निमित्तयोचित्तया

मादृश्या । परिहन्तनो प्रति पायातमाना टान्तिवा । परइत पव्वत्तण धम्मस्स पव्वसा सादृश्या पायटिया च पव्वसा सादृश्या । परिहन्त प्रवोत धम
 नो प्रति पायातना आचायनो प्रति पायातमाना टान्तिवो । उवणाया च पव्वसासादृश्या वरा च पव्वसासादृश्या । उपाध्यायनो प्रति पायातमाना
 टान्तिवा अचिरनो प्रति पायातना टान्तिवा । कुलस्स पव्वसासादृश्या गच्छस्स पव्वसा सादृश्या । कुलनो प्रति पायातना टान्तिवा गच्छनो प्रति
 पायातमाना टान्तिवा । संपण पव्वसासादृश्या किरियाए पव्वसासादृश्या ट । सपनो प्रति पायातमाना टान्तिवा क्रिया ते परणाउत्ते पाप्माणे स
 मत्तस्स पव्वन्दिउत मत्तपव्वे इत्यादि प्रकृत्यारूप पइवो तइनाविनस ट । सभाय पव्वसासादृश्या । समाम धम्मिउने परस्सरे मत्तादि उान पव्व
 वपने विपर्यासो परिवरप परिवज्जत । पाभिन्विवाहिववाचस्स पव्वसासादृश्या काव ज्जग्गवाचस्स पव्वसास व्वया १५ । मरि ज्ञाननो प्रतिपाया
 तमाना टान्तिवा इम इत १२ पवधि १२ पयव १४ वेवसुयानो प्रतिपायातमाना टान्तिवा एवं १५ । एएसि चत्र भति वट्टुमाच १ । वकी १४ पनर

तथा विपर्यायकारणपरिवर्तनं च मन्त्रिबन्धुमावेवंति ॥ इह र्बन्धारी वात्पालद्वारे नालया सह यदुमानो ज्ञस्त्रिबन्धुमानः प्रकियेह वासा परि-
 नुष्टिः बन्धुमानवात्परः प्रीतियोगः च वक्षुसंज्ञसवपति ॥ सद्भूतगुणवस्त्रमेव यद्वीदीपनं ॥ पसत्यमन्त्रविद्वत्सि ॥ प्रहस्तमन एव प्रवत्तनद्वारेण विम-
 यः बभूवपनयोपायः प्रहस्तमनोविमयः अमहस्तमन एव निवर्तनद्वारेण विमयो अमहस्तमनोविमयः ॥ अपावयसि च सामान्येन पापवर्जिते वि-

ध्यानिनिधोद्विषणागस्तु अणञ्जासादगया, जाव केवलणानस्तु अणञ्जासादगया, एणसि चेत्र ज्ञस्त्रियञ्ज-
 माणेण, एणसिचेत्र यणसजलगतः। सेस अणञ्जासादगया यिमणु । सेस दसगवियणु । से कित चरिसवियण
 ए ? चरिसवियणु पचयिहे प०, तजहा-सामाहयचरिसवियणु जाव अहस्कायचरिसवियणु । सेस चरित्त
 यियणु । से कित मणवियणु ? मणवियणु बुविहे प०, तजहा-पसत्यमणवियणु य अण्पसत्यमणवियणु य ।

पसत्यमत्यागतमता यावत्कवस्तपानस्यानत्यागातमता एतयां चैव प्रस्त्रिबन्धुमानन एतेया चैव वक्षुसञ्जलतया । समानीजनत्यागातमाधि-
 मयः । समानीद्वानवित्तयः । अय को सी चरित्तवित्तयः पंचवित्तयः प्रहस्तसद्वया-सामायिकचारित्तवित्तयो यावद्ययास्याव
 चरित्तवित्तय । ममासद्वारित्तवित्तयः । अय को सी मनोवित्तयः ? मनोवित्तयो द्विवित्तयः प्रहस्तसद्वया-प्रहस्तमनोवित्तयथाप्रहस्तमनोविन

नेत्र निद्वे मन्त्रिबन्धुन बहुमान विज्ञा मन्त्रि ते स्या ते स्या बहुमान ते पत्तरङ्ग मोतियाम एव इ कथा । एणसि चैव अण सञ्जलतया । यद्वी एणनेत्र
 निद्वे सद्भूतगुण वक्षुने अरो ययनी दीपादिबो । सेस पचकासाद्वया विषय सेस ईसवविषय । इम ४३ यनत्यायातना विनयभेद जाववा एतदे प
 नत्यायातना विनयकथा एतसे ययनवित्तय कथा । सेकित चरित्तवित्तय । द्विवे सन् ते चरित्तवित्तय । चरि २ पचविहे य त० । चरित्तवित्तय पंचविहे
 प्रप्या ते कश्चै-यामासचरित्तवित्तय जाव पचकायचरित्तवित्तय सेस चरित्तवित्तय । सामाविक चरित्तवित्तय इत्यादि यावत् यथास्यात चरित्त
 वित्तय एतव चरित्तवित्तयकथा । से कित मन्त्रवित्तय । अय २ बुविहे प तं । सप्तवित्तय वेदभूमेदे प्रप्या ते कश्चै । पचत्त मन्त्र

से कित पसत्यमगविणए पसत्यमगविणए सत्तविहे प०, तजहा—अपावए असायजे अकिरिए णिरुवक्षमे
 अणरहयकरे अच्चत्रिकरे अन्नूयानिसकणे । सेस पसत्यमगविणए । से कित अण्यसत्यमगविणए ? अण्य
 सत्यमगविणए सप्तत्रिहे प०, तजहा—पायए सावजे सकिरिए सउथक्कोसे अण्यकरे ठविकरे नूतानिस
 कणे । सेस अण्यसत्यमगविणए । से कित वइयिणए ? वइयिणए दुविहे प०, तजहा

यए । अय को श्री प्रथसमनोविमयः ? प्रथसमनोविमयः सप्तविष प्रथससद्यथा—अपावकमसावद्यमक्रिय निरुपक्रममनाभवकरमउपिकरमनू
 तानिसुणुमम् । समासः प्रथसमनोविमयः । अय को सावप्रथसमनोविमयः ? अथसमनोविमयः सप्तविषः प्रथससद्यथा—पापक सावद्यं
 सत्रिपं सोपलोस्य आसवकर उपिकर नूतानिसुणुमम् । समासोऽप्रथसमनोविमयः । समासो सौ याभिनयः ? वा

विषवव पपसत्यमविषवव । समटाकवाना अपाय ते प्रथसमनावनव अथप्रथ मनवान निवर्तनहार विमव ते अथप्रथ मनोविमव । सक्ति पसत्य
 मविषव । दिव सु त प्रथस मनविमव । प २ सतविहे प त । प्रथस मनविमव सातभे प्रूवा ते कहणे—अपावए, असावजे अकिरिए विषव
 कस अवरइयकरे अन्नूयानिसकणे । सामाग्य पापवच्छित क्रियेय काथादि अवरइयकरे लिखारहित पाकमन गावादि लग
 रहित मावातिपातादि आयवकरहरहित आपव परम जइको पावास न वाव जइको भूत माकोने भव नथो ० । सेत पसत्य मविषव । एतसे प्रग
 ण मनना विमव कथा । सक्ति अण्यसत्यमविषव । तइ सु अथप्रथ मनोविमव । अण्यसत्यमविषव सतविहे प त । अथप्रथ मनोविमव सातेभे
 दे प्रूवा ते कहणे—पावए सावजे सकिरिए सउथक्कोसे अवरइयकरे अकिरिए मूताभिसउवे । सामाग्ये पापवरण विगेषयो काथादिसहित आयिकादि
 सहित पाकमन गावादिमहित मावातिपातादि आयवकारण आपव परने पावासना कारक जइको भूतमाको भवपामे ० । सत्त अण्यसत्यमविष
 ए सेत मविषव । एतस अथप्रथमन विमव कथा तइ मनविमव कथा । सक्त वइविषव । वइविषवदुविहे पं तं । वव

प्रायतः पुन रवावद्य श्रीवाद्यग्रन्थवर्षितं । अकिरिणो ॥ अयिष्वादिक्लिपानिषुङ्गवर्षित ॥ अगतोकाद्युप्लोकावियुक्त ॥ अयवव
 यवदति ॥ अनास्यवकर प्राकालिपानाद्याच्छवकरवर्षित मित्यर्थः ॥ अन्वविकरति ॥ अयि स्वपरपोरापासो य य रकरयशील न प्रवति तद्वदपि
 कर ॥ अनूयानिषवदति ॥ यतो मूताम्बनिषुङ्गव विव्यति तस्मा ए इत्य तद्वृत्तानियदुक्त मस्यस्तवाग्विनयवृत्ते-अपाधयति ॥ अयापवाक प्रयत्न

पसत्यथइत्रिणए य अ्यपसत्यथइत्रिणए ? पसत्यथइत्रिणए सप्तविहे ५० त०
 अ्यपावए जाय अ्यनूतानिसकण । येस पसत्यथइत्रिणए ? अ्यपसत्यथइत्रिणए
 सप्तविहे ५० , तजहा-पात्रए सात्रज्ञे जात्र नूतानिसकणे । सेस अ्यपसत्यथइत्रिणए । सेस वइत्रिणए से

न्विनयो द्विविध मस्यस्तद्यथा-मस्यस्तवाग्विनययथा-मस्यस्तवाग्विनययथा । अय को श्री मस्यस्तवाग्विनयय सप्तविध मस्यस्त
 द्यथा-अपयवक यावदनुतानिषुङ्गनम् । समासो वाग्विनयः । अय को रावमस्यस्तवाग्विनयय सप्तविधस्तद्यथा-यापक
 वावद्य यावदनुतानिषुङ्गनम् । समासोऽमस्यस्तवाग्विनयः । समासो वाग्विनयः । अय का श्री कायविनयः ? कायविनयो द्विविध मस्यस्तद्य
 था-मस्यस्तकायविनययाप्रस्यस्तकायविनयय । अय को श्री मस्यस्तकायविनयय मस्यस्तकायविनय-अनुसं गमन आधुस
 स्थान आनुसं निषीवकम् आनुसं त्वन्वर्तनम् आनुसं प्रसङ्गनम् आनुसं सर्वत्रियुपोपुञ्जनम् । समास मस्यस्त

न्विनय वभिद प्रपूका ते कइहे-पसत्यथइत्रिणए सप्तविध मस्यस्तवाग्विनयय । प ३ कप्तविहे य त । मस्यस्तवाग्विन
 यिनय सानभिदे कइते कइते-अपावक जाय अन्वुतामिसकणे । अयापक इत्यादि कावम् अन्वुतामिसकण । सेत पयत्यववविषय । तेइ प्रयस्य कवन
 विषय कइते । वृषितं पयस्यव वइत्रिणए । क्विसे लुं ते पमस्य ववनविनय । अयवस्तवइत्रिणए सप्तविहे य त । पमस्य ववनविनय सानभिदे
 कइते कइते-पात्रए सात्रज्ञे जाय अन्वुतामिसकणे । यापक जावय सावए सान्विषयकण ० पूववत् । केसं अयवस्तवइत्रिणए । पतस अमस्य

रूपो वाचिनः अथापि इत्येवमप्येति ॥ आठतति ॥ प्रागुसस्य संयसस्य सम्बन्धि य तदागुसमेव ॥ उद्धे सहनं द्वारार्गसावररुका
दे ॥ पक्षपक्षति ॥ प्रसङ्गन प्ररुप सहनं विस्तीकनूखातादे ॥ सविद्विपयोगुल्लयति ॥ सर्वैपान्निप्रियव्यापाराबा प्रयोग इत्यथे ॥ अत्रासव

कित कायधिणए कायधिणए दुयिहे प०, तजहा—पसत्यकायधिणए य अप्रपसत्यकायधिणए य । से कित
पसत्यकायधिणए पसत्यकायधिणए सत्तविहे प०, तजहा—अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण
उप्ततुयदृप अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण अउप्तगमण
अप्यसत्यकायधिणए ? अप्यसत्यकायधिणए सत्तविहे प०, तजहा—अउप्तगमण गमण जाव अउप्तगमण सत्ति

कायविनयः । अथ को साधमशासकायविनयः १ आप्रमशासकायविनयः सुसविधः प्रमशासकायविनयः-अनागुप्तं गमन यावदनागुप्तं सर्वैन्द्रिययोगु
वचनविनय कथा । सेतवदविषए । एतस वचनविनय कथा । सचित कावविषए कायविषए २ इविहे पं त । द्विवे एते कावविनय,
कावविनय इहूमेदे कथा त कश्चे । पसत्यकावविषए पसत्यकावविषए । प्रमश कावविनय प्रमश कायविनय २ । सेकितं पसत्य
कावविषए । द्विवे एते प्रमशकावविनय । प २ सत्तविहे प तं । प्रमशकावविनय सातेभेदे प्रमशा ते कश्चे—पाठतगमस पाठतगमस पाठत
विशेष । उपयानसहित गमन उपयाने कथा रदिया उपयाने वैसिवी । पाठततुवदृप पाठत उक्तवर्ष पाठतपक्षेव पाठत सन्निहित पाठत
या । उपयाने सूत्रा उपयाने बारबा पाठतितवा बरु पाठितना उक्तवर्षो उपयाने मुखावादिबना सविद्या उपयाने सन्निहित व्यापार तेरना प्रयाम
तइनी बाजना । सेत पसत्यकायविषए । एतस प्रमशकावविनय कथा । सेकितं प्रमशकावविषए । द्विवे एते प्रमशकावविनय । प २ सत्त
विहे प त । प्रमशकावविनय सातेभेदे प्रमशा ते कश्चे—पथाठत गमस काव पथाठत सन्निहित पाठतगमस । उपयानरहित गमन यावत् प
पथागरहित सवद्विबना प्रमाण तइनी बाजना । सेत पसत्य कायविषए सेत कावविषए । इतसे प्रमशकावविनय कथा एतसे कावविनय क

तिर्यंति ॥ अस्यासौ गौरवस्य समीपं तत्र वसितुं श्रीसमस्येत्यस्यासुवर्त्तो तद्भाषो ऽप्यासुवर्त्तित्व अस्यासे वा ; प्रीतिरु प्रेम ॥ परञ्चदाबुवर्त्तिय
 ति ॥ परस्या राष्यस्य च्छ्वोभिमप्राय कामनुवर्त्तयतीत्यव श्रीताः परञ्चत्वावर्त्तित्व ॥ अत्र इति ॥ कार्येहेतो शोनाद्वि
 निमित्त नञादिदान मितिगस्य ॥ अयपक्रियति ॥ क्वप्रतिकृततानाम विमया त्प्रसादिता गुरवः सुत दास्यन्तीत्यभिप्रायेचा सुनादिदानप्र

वियजोगजुजगया । सेप्त श्यप्सत्यकायविणए । सेप्त कायविणए । से कित लीगोत्रयारविणए ? लीगोत्र
 यारविणए सप्तविहे प०, तजहा—श्यप्सासवसिय परत्तदाणत्रसिय कञ्जहेज कयपक्रियया श्युतगवेसगया
 देसकालस्यया सवत्येसु श्यप्पन्निडीमता । सेप्त लीगोत्रयारविणए । सेप्त विणए । से कित वेयात्रचे ? वेया

ज्जनम् । समसो मत्रसकायविणय । समसः कायविणय । अय को शौ लोकोपचारविणय । अयकोपचारविणयः सप्तविणः प्रसप्तसद्यया-
 अस्यासुवर्त्तित्व परञ्चत्वावर्त्तित्व कायहेतोः सप्तप्रतिकृतताऽतगतपदकता वैश्वकालकृता सवार्थेषु अप्रतिसामता । समसो लोकोपचारवि
 नयः समसो विणय । अय चि लक्ष्मिप्यपृष्य ? वेयावृत्त्य दशविचं प्रसप्तम् तद्यथा—आचार्यवेयावृत्त्यमुपाख्यायैयावृत्त्य स्वविर्येयावृत्त्य

ज्ञा । सेकित आगावकारिविणए । द्विभे स्तु ते आगापचारविणय । आ२ सप्तविहे प त । आगापचारविणय सतिभेदे प्ररूपा ते कश्चि—पभासवर्त्तित्व
 परकटासुवर्त्तिय कञ्जहेज । गौरवना समीप तिर्त्ता वसनाशा मीन जेजना ते पम्बासवर्त्ती तदना भाव त पम्बासवर्त्तीपवी कश्चिचे आराधवासीस्य त
 दना कञ्जहेजतो अभिप्राय तेजप्रते पनुवत्तनयोव तेजको पतावता तदने पदुप्राये पावना आवहेतुव आनादि तिमिले मन्नादिद्वय देश । अयपक्रिय
 रवा पतगवेसववा देसकाकथया सवार्थेषु पम्पक्रियामता । विनसकको प्रसक्तया सुवदुत प्रते मन्नादिद्वय देश । अयपक्रिय
 ने निमित्ते भवन्नाद्विबनो यवेववा करे तदनाभाष ते पातनवेववता इयकाव मन्नावना आरवा आराव्य सवधिवा मन्नामने विचे पनुवृत्तपवी ० ।
 सेप आगावकारिविणय कय विणए । इतक काको पकार विणयकञ्जा इतवे विणयकञ्जा । अकित वेवावच । द्विभे स्तु ते ववावच । वे २ इकविणय मं ।

पञ्च ॥ अतर्गवेसुवयति ॥ धाने श्लामीसूतं गवेपयति ॥ प्रेपन्यादिना या सा वातगवेपयति ॥ अतर्गवेपयति ॥ प्रस्तायङ्गा
 चवसरोचिपायस्यपदनमित्ययः ॥ सद्यत्यसु अर्पश्लोमयति ॥ सवप्रयोत्रने धाराप्यसम्बन्धिवा मुद्ध्यमिति ॥ त्रैपातृत्पस्थाप्यायमेदाः प्रतीता एय
 मवर ॥ चयेपावयति ॥ इह स्वयिरो जन्मादित्ति ॥ तवस्त्रो वाप्यमादिशपकः ॥ ध्यानसूत्रे-अमगुक्कसपुठेगसपुठस तस्सधि
 व्युत्तगसइधुमनामपयावित्तवयति ॥ अमनोचो निधो यः शब्दादि कस्य यः सम्मयोगो योग सान सम्मपुत्तो यः स तथा सच तथाविधः सन् तस्या
 मनीचस्य शब्दादे विप्रसीगस्यतिसमस्यागतत्वापि प्रवति विप्रयोगचित्तनामुगतः स्या वापीत्युत्तरवाक्यापणया समुदपायः, अथा वातप्यान स्या

यञ्चे दस्यिहे प०, त०-शुथरिययेयावञ्चे उयज्जायत्रेयावञ्चे धेरवेयावञ्चे तवस्त्रियेयावञ्चे गिठाणवियेयावञ्चे
 सहयंयावञ्चे कुठवेयावञ्चे गणवेयावञ्चे सधत्रेयावञ्चे साहम्मियेयावञ्चे सेस येयावञ्चे । से कितं सज्जाए ?
 सज्जाए पचयिहे प०, तजहा-त्रायणा पक्रिपुच्छेणा परिपट्टणा धम्मकहा । सस सज्जाए । स

तपस्त्रियेयावञ्चे स्तानत्रेयावञ्चे शियवेयावञ्चे पुसवेयावञ्चे गवेवेयावञ्चे सहुवेयावञ्चे सार्थमिक्कयेयावञ्चे । समास वेमाएत्प । अय का सी
 स्थाप्याय ? स्थाप्याय पन्नाविपः प्रससकपया-वाचना प्रतिपन्नाय परावत्तनाऽनुमेधा धमकया । समासः स्थाप्याय । अय किं तस्यान ?

वेयावच इमेभे प्रप्या ते कहे । चावरिय वेयावचे उवन्नासकवाच धेरवयावच तवस्त्रिये वेयावच । पायाचना वेयावच भन्नादिकरो पनटस इया रुपा
 ध्यायना वेयावच सधिर ते सग्मादिकरो तेचना वेयावच तपस्त्रो पटमादि तपचारक तेचना वेयावच । मिक्कावेयावचे मेक्कवेयावचे कुलववावसे ।
 त्थान रानीपोचित्त सायु तेचना वेयावच मियना वेयावच कुलना वेयावच । मयवेवावच सय वेवावचे साहम्मियेयावचे सेत वेयावच । गणना वेया
 उत्प काटवादि सधना वेयावच साधमिक्कना वेयावच । एतत्ते वेयावच । किं त सज्जाए । त्विहे सन् ते स्थाप्याय । सज्जाए पचविहे प त । स्या
 ध्याय पचभे प्रप्या ते कहे-त्रायणा पक्रिपुच्छेणा परिपट्टणा पचयिहा धम्मकहा । वाचनपूठना यादुत्तरवा यत्ति २ पायापना धमकया ३ सेत स

दिति दाय पमर्षिभ्यो रनेशदिति ॥ १ ॥ मधुसुसपठगर्षपठते तस्स अविप्यठगसइरमखागएपाविन्नइति ॥ प्राथम्यवर मनोच्च वतादि ॥ त
 र्मुत्ति ॥ मनाप्रस्य पनादेः २ । आर्यकसपठगत्यादि ॥ इहातङ्को रोगः ३ । परिशुसिपखामनोयसपठगसपठते तस्स अविप्यठगसइरमखागए
 पायि नवइति ॥ व्यक्त नवरं ॥ परिशुसिपति ॥ जुयी प्रतिसेवनयोः रिति वचना स्ववितः प्रीती वा यः कामनोः गः शब्दादिनोः नवतसेवा
 वा ॥ तस्सति ॥ तस्य कामनोपप्यति ४ । नदंनपति ॥ महताशुश्वेन विरव्य ॥ सोयव्यति ॥ दीनता ॥ विप्यव्यति ॥ तेपनता तियः अरवाद्य

कित ज्जाणे ? ज्जाणे चउच्चिहे पखत्ते, तजहा-अहंज्जाणे रोद्रेज्जाणे घमज्जाणे सुर्वेज्जाणे । अहंज्जाणे
 चउच्चिहे प०, तजहा-अमणुसुसपठगसपउत्ते तस्स विप्यठगसतिसमखागएयावि नवति मणुसुसपठगस
 पउत्ते तस्स अत्रिप्यठगसतिसमखागएवि नवति, श्यायकसपठगसपउत्ते तस्स विप्यठगसतिसमखागएया

प्यामं नतुविप प्रकृत्तं तद्यथा-पातेप्याम रौद्र प्याम घमप्याम कुट्ट प्याम । पातप्याम नतुविप प्रकृत्तं तद्यथा-घमनोचसमप्रयोगसम्प्र
 युक्तस्य विप्रयोगससृतिसमत्वानतदापि नवति मनोचसमप्रयोगसम्प्रयुक्त सत्याविप्रयोगससृतिसमत्वानतदापि प्रवति पातकसमप्रयोगस
 भाव । एतने साध्याय नद्या । संकित न्याये । द्विरे सू ते प्याम । न्याये पठविभवे पं त । प्याम चारमदे मरूयो ते नइहे- पइन्नाके रोदे इत्यन्नाके
 सकेन्नाके ॥ पातप्याम रौद्रप्याम घमप्याम यत्तप्याम ४ । पइन्नाके पठन्निहे प तं । पात प्याम चारिभेदे मरूप्या ते नइहे- घमसुसुसपयोग
 सपठते । पाठूपा यव्यादिन तेइना नवीन ऊपनो तिवारे । तस्य विप्ययोगसइर समखागएयावि नवति । तेष विप्ययोगसइर विस्तरीये जांचे एइनी
 विद्याग बाव ते रूडा । मस्य सपथोम संपठते तस्य अविप्ययोगसइर समखागएयावि नवति । मनोच यव्यादि न तेइने सवीन ऊपना तेइनी अविबोन
 विस्तरीये एइना विबोनमवाली । आर्यकसपयोग सपठते । तस्य निप्यशाकसइर समखागएयावि नवति । पातइराग नवाम ऊपनो तेइनी विबोग वि
 त्तरे अचे एइनाशिवान इवे तो मवो । परिशुडिच कामनोच सपठते तस्य अविप्यशाकसइर समखागएयावि नवति । मौतिवादिवा नवा अविनाका ३४

त्या इत्युविमोर्चन ६ पारिरेबलयति ० परिदेवता पुनः २ श्लिष्टमापयतेति ० शिवाकुत्रचिन्ति ० शिवा सुत्यानां बभूवपेबन्धनादिमि प्रकाशे।
पीडा मनुप्रमाति सुततप्रवृत्ता करोती त्वेव स्वीय यन् प्रलियाण शिवमनुमन्त्रोवा यत्रास्ति तद्विसानुवन्धि ० मोसाकुत्रचिन्ति ० मृया अस्त्य तदनु
यत्राति विगुनाशन्त्यामदृतादिनि वचनप्रदे स्तम्भपानुवन्धि ० तयापुवन्धि ० स्तनस्य नीरस्य क्षम स्तय तीव्रकोचाद्याभुसतया तदनुवन्धयत्,

त्रि नम्रइ, परिज्जुनियकामचोगसपउत्ते तस्स श्रुत्थिप्पउगसत्तिसमणायुयावि नम्रइ, श्रुहज्जाण ज्जागस्स
घत्तारि लस्सका पणत्ता, तंजहा—कदगया सायगया तिप्पणया परिदेवणया । रोदे ज्जाण घउत्तिहे प०
तजहा—हिसाणुन्नी मासाणुवन्धी तयाणुवन्धी माग्गकाणुगन्धी । रोदम्मण ज्जागस्स घत्तारि लस्सका प०,

अपुन स्तस्याविप्रयीगस्वृत्तिसमन्वागतद्यपि शयति परिमुपितकाममोगसम्भ्रमुक्कस्त्याविप्रयोगस्वृत्तिसमन्वागतद्यपि जवति, पातध्यानस्य
बत्तारि लस्सकानि प्रप्रमानि तद्यथा—कम्पनता क्षावता तपनता परिदेवता । रोदृप्यान वतुविध प्रकृत तद्यथा—हिसानुवन्धि मृया

शामभागता संभाम उपना जाश तद्वना परिगण चिन्तय क्वावे पदना विभाग मयास्या । पदम्याव क्मापद्य वत्तारि लस्सका प त । पार्तध्यान
ना चारकचय पक्ष्या ते कदवे—कदवया सायवया तिपयवया परिदेवया ४ । माटे सादेवरा रयवा दीगपरी पाटुना भाखवा ववा र श्लिष्ट वयम
ना वानगा ४ । रादभावे पद्विचय प त । रोदृप्यान चारमदे क्वाते कदवे—शिवाकुवधी मासाकुवधी चारल्लवाकुवधी । सत्वाने बध
बन्धनादि प्रकाशेरी पाडा तद्वप्रते पनन्धये निरत्तर प्रवम नो प्रते कर एववा योठ अइ प्रविधान यववा हिसानुवन्ध जिर्वा त शिवाकुवन्ध मृया य
मत्या तइ पनुवन्ध विगण यमदूादि वचन भदकरो त यवानुवन्धो चारनाकस ताव क्मावादि पाकुवन्धे करो तवना यनुवन्धनो परे ते स्तयानुवन्ध्या
मव प्रयायेकरो विपयना चारना राविवा तद्वना यनुवन्ध त सरयवानुवन्ध्या ४ । रादकप क्मापद्य वत्तारि लस्सका प त । रोदृप्यानना चार क
यव क्वाते कदवे—उत्कपरावे वइदेवे यवानुदेवे पामरवातदेवे । वइकपवे तीव्रनाये श्चवा रमृया २ पद- १ चारवरा ४ मदिवा यनेरा

लयामयन्ति ॥ मारुकावाहुर्यपिति ॥ वरुणे सर्वापायै परित्राणे विषयसाधनस्य पनस्यानुवन्ति ॥ उरुसकदीसेति ॥ उरुस्य
 णति ॥ याहुम्यमा नुपरतत्यन दीयो विद्याभूतादतादामवरुणामां अत्यतम ॥ उरुसकदीसेति ॥ यदुग्रपि सर्वेषुपि विद्यादिषु ४ दीपः प्रवृत्ति
 मशया यदुदाय ॥ असाकदीसेति ॥ अन्नान्नादुष्णान्तरकारात् हिमातिषधर्मस्वरूपेषु धर्मेषुच्या या मयति अलक्षणा दीयो उष्णदीय ॥ आस
 रयतदामति ॥ मरुतमवाक्तो मरुबालः आमरुबालादाामरुबाल मरुत्त्राताभूतापस्य कालश्रीकरिकादे रिव या विद्यादिमयतिः सैव दीपः आम
 रुबालदीपः ॥ उरुस्यनाथारति ॥ वतुषु जदनधुबालस्यमामुप्रसासकषु पठार्येषु प्रत्ययतारः समवतारो विचारबीयत्यन यस्य स सत प्रत्ययतार
 चतविधगन्धैव पर्मापावा य ॥ आकाविक्रयति ॥ आशा क्रिमप्रवचन तस्याविक्रयो निष्कयो यत्र तदाश्चाविक्रयं प्राकृतत्वाद्याविक्रयति ॥ यय

तजहा-उरुस्यदीसे यजदीसे श्रुय्याणदीसे श्यामरणातदीसे । धम्मे ज्जाणे चउद्धिहे चउप्यन्दीयारे प० ,
 तजहा-श्याणाधिजए श्यायाधिजए त्रिधागधिजए सठाणधिजए । धम्मस्सण ज्जाणस्स चत्तारि लस्सकणा प०

भुवन्ति स्थेयानुवन्ति मरुतशानुयन्ति । रौरस्य ध्यानस्य रत्वारि लक्षणाणि प्रकृतानि तद्यथा-उरुसकदीयो बहुदीयोऽश्चानदीय आमरुबाल
 दीपः । धमध्यान वतुषिय वतु प्रत्ययतार मद्यत् तद्यथा-आशाधिषयो पापविषय विपाकविषयः सस्यानविषयः । धमस्य ध्यानस्य च

त य त आमस्यश्राय मभ विंसादिक चारुनवितै प्रकृतानुरूप रूप ते बहुदीय यश्चानदीय कुप्याण सञ्चार तेइयको विद्यादिक अथमस्वरूप तेइमवितै प्रवत्त
 गारूप शय त यश्चानदीय आमरुबालान्तो जे विद्यादिकन महतिरूप रूप आसयोऽरिवादिनो परे । वषेऽन्ताने चठवित्ठ यत्तवकाबार प त । ध
 मध्यान चारुभेदे तथा चारुनवितै मन्त्रचय चान्दन यन्निपाकस्य पठाननेवितै प्रत्ययतार कइती समवतारके विचारचीसपचे लरो अइना ते चतुमत्त
 नगार कइय ते कइए-पायाविजए पवाहविकए । जिन यथम तेइना विचरनियव त यान्नाविषय इम यपाय राम देवादिक् अपना यनके तेइ
 ना नियव ते पपायविषय । विनामविजए उठापविकए । विपाककमना कव विद्धी ते विपाकविषय कव्यान ते आसदीय समुद्गादिकना याकार तेइ

श्रेयपदास्यपि नवर मयाया रागद्वेषादित्रया अनर्थाः विपाकः कर्त्तव्यस्तवस्थानानि, लोकेन्द्रीपसमुद्राद्याहृतयः ॥ आयाकडिति ॥ आया सूत्र्या
 स्यात् नित्युत्पाद तत्र तथा वा; क्वचिः मृदान सा प्राकृतिः ॥ निस्सगकडिति ॥ कृत्तावत यव तत्त्वमृदान ॥ सुतकडिति ॥ प्रागसा तत्त्वमृदान ॥
 उगाकडिति ॥ अथनाहमवनाठ द्वादशाङ्कवगाङ्को विस्तारापिनम स्तेन क्वचिः अथवा ॥ उगाकडिति ॥ साधुप्रत्यासक्तोभूत क्तस्य साधुपदसा इदु
 चिः अथनाकडितिः ॥ आसवकडिति ॥ अमप्यातसौपशिकारोहबाधे यानि आसम्बन्धे तात्याप्तस्वनानि वाचसादीनि ॥ अशुप्येकडिति ॥ अमप्या

तंजहा—श्याणारुह णिसगगइ सुत्तरुठ उगाकडिह । धम्मस्सण ज्जाणस्स चत्तारि श्यालत्रणा पयत्ता, तजहा
 द्यायणा पन्निपुच्छुणा परियहणा धम्मकहा । धम्मस्सण ज्जाणस्स चत्तारि श्युप्येहाठे पयत्ताठे, तजहा

त्वारि लसकानि मज्जसानि तद्यथा-आच्छाकडितिः सूत्रकडितिः निस्सगकडितिः सूत्रकडितिः अथगाकडितिः । अमस्य अमस्य वत्साप्यांलवमानि मज्जसानि
 तद्यथा-वाचसा प्रतिपुच्छना परावसना वसकथा । अमस्य अमस्य अतस्सोऽनुप्रथाः मज्जसासाद्यथा-एकत्वामुमेहा अनित्यानुमेहाऽथरथानु

ना निर्भर श्रद्धा ते सखानविषय ४ । अथमृत्त्व उभापस्य वत्तारिहकृत्वा प त । अमप्यातना वारि कचव प्ररूया ते कडिहे—वाचाइइ विस्वयव
 यनकडि पागाठवर । आच्छाकडिये सूचनाम्बाम्बानि निर्युक्तादित्र तिडा पकवा विवेकरी क्वचिडिये यवान ते पाच्छाकडि समायवको कौज तल
 ना यवान ते निस्सगकडि आगमकडो तत्त्वता यवान ते सूत्रकडि योगाठ त हादर्यांग अथवाइविस्तर अविगम तिवेकरी क्वचि यवान आगाठकडिये
 माभु पत्थानववाय तेइने माधुना उपदयवको ते पकमाठकडि ४ । अथमृत्त्व उभापस्य वत्तारि पासववा प तं । अमप्यातना वार आसव कडिया वि
 कडिहे पामवनकडिता धमप्याकडप मन्दिर तेइना गिच्छने विधे वडयाने आसक्तोये ते पाकवन कडिये ते कडिहे । वायवा पन्निपुच्छना परियहवा
 धमप्यवा । वाचसा १ पुच्छना २ पाद करवो ३ धर्मकथा ४ । अथमृत्त्व उभापस्य वत्तारि अकप्यवापो पं त । अमप्यातनी वार अमुमेवा कडो ते
 कडिहे अमुमेवा कडिये अमप्यातने अनुपयात् प्रिचवा पर्याय लोचना विचारवा ते अमुमेवा । एगतापुकेहा अविद्यापुकेहा अवरवापुकेहा संसारापु

विपरिवागमनानुचितम् ॥ असुनाबुध्वेइति ॥ संसाररुद्रास्वानुचितम् ॥ अथायाता प्राकृतिपाताद्याः अद्वारमन्मात्रपर्य
 ना मनुप्रदा ऽनुचितमपायानुप्रदा इह ७ य तपोधिकारे प्रहस्ताप्रहस्ताप्याभवयान तवप्रहस्तास्य वर्षने प्रहस्तास्य ७ तस्यास्यवने तपोभवतीति
 इत्यति । व्युत्सगधृन्-संसारविश्वसंगेति ॥ नारकायुष्मादिद्वन्द्वाना मिथ्यात्वादीमात्यागः ॥ कस्मविश्वसंगेति ॥

सप्त ज्ञाणे । से कित विउत्सगगे ? विउत्सगगे दुयिहे प०, तजहा दृष्ट्विउत्सगगेय जात्रविउत्सगगे । से
 कित दृष्ट्विउत्सगगे ? दृष्ट्विउत्सगगे चउष्टिहे प०, तजहा-गणविउत्सगगे सरीरविउत्सगगे उवाढिविउ
 स्सगगे जज्ञपाणविउत्सगगे । सेस दृष्ट्विउत्सगगे ? जात्रविउत्सगगे तिविहे प०, त०

विपरिवागमनानुप्रदा मनुमानुप्रदाऽपायानुप्रदा । सप्तस प्यान । अथ को सौ व्युत्सगः ? व्युत्सगो द्विविधः प्रहस्ताद्याया-द्रव्यव्युत्सगग
 प्राकव्युत्सगग । अथ को सौ द्रव्यव्युत्सगग ? द्रव्यव्युत्सगगयतुर्वचः प्रहस्ताद्याया-गव्युत्सगगं सरीरव्युत्सगग उपविश्वुत्सगगी प्राकपाणव्यु
 त्सगग । ममासाद्रव्यव्युत्सगगः । अथ को सौ प्राकव्युत्सगगः ? प्राकव्युत्सगगद्विविधः प्रहस्ताद्याया-अपायव्युत्सगगः संसारव्युत्सगगः कमव्यु

दा य तंजहा । प्रहस्तागनी चार पगमेवा कसौ ते कहे । अथतन्निशुप्येहा असुभाशुप्येहा पदाद्याप्येहा सेतवभावे ।
 मन्मततिश पन्तपको पितृविदे ते पन्तवतितानुमेवा पदावने प्रतिश्वव विविधपरिचाम यमन एइवा ले वित्तन ते मन्विपरिचामानुमेवा स
 मारवदप यगुभ ए वित्तन ते यमुमानमेवा प्राकृतिपातादि पायत्रहार अथ भवने अनुचितन एतके राग इत्यवकी अपाठ उपले एइवो
 वित्तन ७ एतस भ्यान कसो । स कित विवश्वे । द्विदे व्युं ते व्युत्सग । वि २ इविश्वे प तजहा । ते व्युत्सग वेइमेहे कस्या ते कहे-इत्यवित्तपगगीस भा
 वित्तपगगीस । द्रव्यको त्याग मानवको त्याग । सेकित द्रव्यवित्तपगगी । द्विदे व्युं तेइ द्रव्यत्याग । इ २ एतद्विधे पचते तजहा । इ यत्याग चरिमेहे कथा
 ते कहे-यचवित्तपगगी सरीरवित्तपगगी अविद्वित्तपगगी मत्तपाचवित्तपगगी ४ । नचना त्याग सरीरको त्याग उपविना त्याग मन्निपानको त्याग ७ ।

कसायथिउसगगे संसारथिउसगगे कम्मथिउसगगे ? से कित कसायथिउसगगे ? कसायथिउसगगे चउत्थिहे प०, तजहा—क्रीहथिउसगगे माणथिउसगगे मायाथिउसगगे खीतथिउसगगे । सेत्त कसायथिउसगगे । से कित संसारथिउसगगे ? संसारथिउसगगे चउत्थिहे प०, तजहा—णेरइयससारथिउसगगे जाय देअससार थिउसगगे । सेत्त संसारथिउसगगे ? कम्मथिउसगगे ? कम्मथिउसगगे चउत्थिहे प०, तजहा

रथगग । अय को मी कपायपुटसगगे ? कपायपुटसगगे यतुविष । प्रअससाया—क्रीपपुटसगगे मायापुटसगगे लोअपुटसगगः समसः कपायपुटसगगे । अय का मी संसारपुटसगगे ? संसारपुटसगगे यतुविष । प्रअससाया—नैरपिकससारपुटसगगे यावहुवससारपुटसगगे ; समसः संसारपुटसगगे । अय को मी कम्मपुटसगगे ? कम्मपुटसगगे यतुविष । प्रअस साया—आनावरकीयकम्मपुटसगगे यावहुवात्तरायिकक

सत इवविउसगगे । पतत्त इवको त्वाअकक्या । सञ्चित भावविउसगगे । इवे प्यू त भावया त्याग । भा २ तिअइ प त । भावया त्याग तातभइ कक्या ते अइहे—कसायथिउसगगे संसारविउसगगे कक्याउउसगगे । कयाय १ त्याग संसारना त्याग नारकाटि पाअक्याना इतु के मियात्वाइइ तइआ आनाउरवात्ति अमअत्त इतु अ आनअत्तकोआइपकी तइना । सञ्चित कसायथिउसगगे । तेइ स्यू कपाय व्यउग । अ २ पठविइ प त । कपायअय अय चरिभेदे कक्या त कइइ—काइविउसगगे सायविउसगगे सायविउसगगे । कथना त्याग मानना त्य ग मानना त्याग सायना त्याग साभनात्याग । मत्त कसायथिउसगगे । यतत्त कपाय व्यउग कक्या । सञ्चित संसारविउसगगे । इव प्यू ते संसर व्यउग । अ २ पठविइ प त । संसारककुअम चारभेदे कक्या त कइइ—वेराअसमारविउसगगे आर देअससारविउसगगे । नारकी संसारना त्याग इत्वादि यावत् देअसमारना त्याग । सेत्त संसारविउसगगे । पतत्त मस र इउसग कक्यो । सञ्चित कक्याविउसगगे । इवे प्यू त अमअत्तगग । अ २ पठविइ प त । कसायथिउसगगे—आनावरविउसगगे अविउसगगे आर देअ पतरा अक्याविउसगगे । आनावरचाय कम्मना त्याग इत्वादि यावत् इअ पतरावकम्मना त्याग । सेत्त अक्याविउसगगे सत माव

नस्य पदारप्रवर्तानि पयासीवतानि अनुमेव ॥ पुष्टविविधविविधोति ॥ पुष्पज्ञान एवद्रव्यायिताना सुत्यादादिपर्यायाणा प्रदेन वितर्कौ धिक्
 न्याः पूगगतद्युत मन्त्रना नामानयानुसुरालक्षणा यत्र त त्पुष्पवितर्के तथा विचारी उर्पाश्रायनव्यञ्जनादर्थे मन प्रवृत्तियोगानो पात्यस्सा दस्य
 स्मिन् । त्वरस्य मन्त्रविचारस्य य त्स्वविचारि स्यपन्नादिस्वादिनसमासातः १ ॥ एवमन्त्रविधक अविचारति ॥ एवमन्त्रा मदेमो त्यादादिपर्याया
 वा मन्त्रमन्त्रवदपामन्त्रमन्त्रस्य स्वर्ण वितर्कं पूजतयुताश्रया व्यञ्जमरूपा उर्ध्वरूपो वा यस्य तद्व्यञ्जनावतन्त तथा मन्त्रिद्युत विचारी यद्यञ्ज
 नया रितरस्सा दितरस्य तथा मन प्रवृत्तीना मन्त्रसा दस्यत्र यस्य तदावचारीति २ ॥ सुप्तमन्त्रिरिय अविचारति ॥ सुप्तमन्त्रिया यत्र मित्तुवाहूमन्त्रा

एगमज्ञानुप्येना श्युणिश्रानुप्येहा श्यु रराणाणुप्येहा ससाराणुप्येहा । सुक्ती ज्जाणे चउच्चिहे चउप्यन्नायारे प० त०
 पुञ्जसत्रितर्कौ सवीयारे एतन्निराकौ सनीवार सुजनमकिरिए स्युप्यन्त्रियाती ।

प्रथा समारामप्रथा । मृत प्याल बहुविध बहुप्रत्यवतार प्रपत्त तद्यथा-पुष्पज्ञानवितर्के सवीचारमेवमन्त्रवितर्कमवीचार सूक्ष्मक्रियमनियुक्त
 एव ॥ एवमना यासा इमो विचारना १ स्वयं सु चमिन्त्रक मित्त्र एक धमके इमो विचारना २ एव जावन धम विनाशरथ क इतही इमो विचारना
 मसारना स्वल्प विचारना ४ । सञ्जम्नाश्च अउच्चिहे चउप्यन्नायारे प० त० । युक्तज्ञानना चारभेत्त चार प्रत्यवतार कक्षा त कश्चै-पुष्टवित
 म मनीशार कल्पवितर्के यथाचार मन्त्रनिरिए पनिपष्ट मम क्ययि १२७ । अडिशार । प्रयत्न एक द्रव्यान्त्रित यथादादि पथीधने भेदेकरो वितर्के
 कश्चिदे विकल्प पूजगत युतयार्जइतन विधे नामानय अनुसुरव्यप्यव । मन्त्रा त पुष्पज्ञानवतय प्रथमको स्वसुप्त व्यञ्जमन्त्रको यथे तेजनेविधे मनप्रवृत्ति या
 यथा यन्त्रवका यन्त्रनेविधे विवरक यथावता द्रव्यपर्वयना मन्त्रना विचारना इत्यत्र एकस्य कत्यादादि पर्याय मन्त्रिका एव तद्वना वितर्क त्रियस्य यना
 चारकवर्ता शिखी एव व्यञ्जना विचार यनेरावको यनेरा एववा शिखी मन्त्रो वाक्यायन मनावागने कथने पक्ष वाचयामने पनि कथनेकरो सूक्ष्मवि
 वा येनेनेविधे यथा यन्त्रवकी कश्चिदे मन्त्रमन्त्ररिचार्थ कवी निरपष्ट मन्त्रो ए च्याम कश्चाने निर्मा ए मन्त्रकाके पुत्रे येनेयीकर इने विधे निरकव बागय

योगत्वे सत्यनिष्ठदुःखायागत्या त त्वुत्सृज्य न निवर्तत इत्यतिवर्ति वर्तमानपरिणामत्वा देतश्च निर्धारणमनकासे कवलिग एव स्यादिति ०
 समुच्चिन्नस्वरिप्य अप्यादिवा इति ० समुच्चिन्ना क्रिया कायिक्यादिवा शैलशाकरणे निरुद्योगत्वम यस्मिं स तया अमतिपाति अनुपरतिम्वन्नाय
 अद्युक्ते ॥ दवाद्युपमगमनितं प्रयं चलनं वा व्यथा तदभावे ० अथ ० असम्भावेति ॥ दवादिफलमायाजनितस्य सूक्ष्मपदायदिवस्य च सुप्तो
 इत्य मूढताया निपयो ० समोहः ० विषगेति ० दहा दाल्भम धाम्नावा सबसयागना विवचन दुःखा पुपुकरव विवचः ॥ विषसमवेति ॥ व्युत्स
 र्गो निस्सङ्गतया दहोपचित्वाः ० अक्षतवर्तियाद्युप्येति ० अक्षतानस्यामलवृत्तितामुचितन ॥ विप्यरिणामापुप्येति ॥ वस्तूना प्रतिशब्दं वि

सुक्लस्सण ज्जाणस्स चत्तारि लस्सका पणहा , तजहा—सखी सुधी अज्जात्रे मद्दवे । सुक्लस्सण ज्जाणस्स
 चत्तारि अ्यालयणा पणसा , तंजहा—अद्यहे अ्समीहे विवेगे विउस्सग्गे । सुक्लस्सण ज्जाणस्स चत्तारि अ्युणु
 प्येहाउ पणसाउ , तजहा—अ्यणतवसिंशियाणुप्येहा अ्युणुणामाणुप्येहा अ्युणुणामाणुप्येहा ।

समुच्चिन्नक्रियममतिपाति । सुक्लस्य ध्यानस्य वत्तारि लक्षणाणि प्रवृत्तानि तद्यथा—शान्तिमुक्तिरार्थव मादवम् । सुक्लस्य ध्यानस्य वत्त्वा
 प्यमित्यन्तानि प्रवृत्तानि तद्यथा—अध्ययनसम्पत्तौ हो विवचोव्युत्सर्गः । सुक्लस्य ध्यानस्य यतस्रोत्सुप्रवाः प्रवृत्तानिस्तद्यथा—अनन्तवृत्तिसानुप्रवा
 वे कायिक्यादित्रिणा सन्निययो इवेकारण्य पल्पदिबा", अनुपरतिस्सभाव य ध्यान पदेनहीतया । सुवच्छव रक्तावच्छ चत्तारिस्सुच्छा प त । शान्त्या
 ना चारक्षयव कथा ते कथये—एतो सुतो एत्थवे मदेवे । यमा काथ औपवा निर्दोभपयो ग्ररक्षपयो मरनाइपयो । सवच्छव रक्ता इत्थ वत्तारि प्राव
 दवा पं त । यत्तध्यानना चार प सबम कथा ते कथये—एत्थवे एसमोहे विवेग विवच्छय्व । देवादिक् उपसगपको उपपना भव पत्तवा वसुगत व्छवा
 तज्जना पभाव ते पत्तव देवाठिज्जत साबावज्जित सूक्ष्मपदाय विवचना सम्भाक् कथिये मूढता तेज्जना नियेषवको पसम्भाक् देइवको पाज्जानो पत्तवा
 पात्तावको सबसयागना विवेदन कथिये इदिबरो पुत्तवच्छव ते पवक्क निस्सङ्गपवे करो इक्क उपधित्ता खाग ४ । सुवच्छव रक्ता १०० चत्तारि पपुप्येहा

विषपरिणाममत्मानुचितनं । असुनायुष्येइति ॥ संसारशुभ्रत्वामुचिक्त्वम् ॥ अथायावुष्येइति ॥ अथामाया प्राणानिपाताद्यास्त्रद्वाराजन्मानयो
 भा समुपस्था ऽनचित्तमपयायानुपस्था इह च य तपोचिकारे प्रथमाप्रवृत्त्यामववचम तवप्रवृत्तास्य वचने प्रवृत्तास्य च तस्यासुवने तपोजवतीति
 कथयति । स्युरमगमूत्र-संसारवितरणेति ॥ नारकायुष्कारिहनुना सिष्यात्वादीनांत्यागः ॥ कस्मचित्तसंगेति ॥ आत्मावरखादिकस्मवथप्रतुना आत्म

संज्ञे ज्ञाणे । से कित थित्तसंगे ? वित्तसंगे दुविहे प०, तजहा वद्विधित्तसंगेय ज्ञात्रधित्तसंगे । से
 भित्त दद्विधित्तसंगे ? दद्विधित्तसंगे घडद्विहे प०, तजहा-गणधित्तसंगे सरीरधित्तसंगे उवद्विधित्त
 स्संगे नसुपाणधित्तसंगे । सेध वद्विधित्तसंगे ? ज्ञात्रधित्तसंगे तिविहे प०, त०

विषपरिणामानुपस्था अज्ञानानुपस्थाऽपयायानुऽप्रस्था । समास ध्यानं । अथ को सो स्युरसंगः ? स्युरसंगो द्विविधः । प्रथमस्तद्विधया-द्रव्यस्युरसंगश्च
 प्रावस्युरसंगश्च । अथ को सी द्रव्यस्युरसंगो ? द्रव्यस्युरसंगश्चतुर्विधः । प्रथमस्तद्विधया-गणस्युरसंगः । सरीरस्युरसंगश्च अथचिद्युत्संगो । नसुपाणस्यु
 रसंगः । समाप्तोद्रव्यस्युरसंगः । अथ को सी प्रावस्युरसंगः ? प्रावस्युरसंगश्चद्विविधः । प्रथमस्तद्विधया-कथामस्युत्संगोः संसारस्युरसंगोः कथमस्यु

था य तजहा । गणध्यानतो चार प्रगप्रथा कडो ते कडिहे । अथतवत्तिवाच्येइहा विषपरिणामानुपस्था अथभाच्येइहा अथभाच्येइहा सेततभासे ।
 प्रथमवतिभा अथभाच्यको वित्तविहे ते अतत्तवत्तिवानुपेचा पयावतो मतिचय विविधपरिणाम समन इहवा से वित्तम ते मनविष्यपरिणामानुपेचा सु
 भावस्येय पयुभ य चित्तम ते पयुमानपेचा प्राणानिपातादि आद्यशरार अथ अथली पयुपेचा अनुचित्तम एतके राग द्वेषकडो अथाय अथय अथको
 चित्तम ॥ अतस ध्यान कथा । से कित वित्तसंगे । द्विहे च्छू ते अथय । वि २ दुविहे य तजहा । ते पयुभग वेदुमेवे कथा ते कडिहे-द्रव्यवित्तस्युरगीय सा
 वद्विधस्युरगीय । द्रव्यकडो म्वाग भावकडो म्वाग । सेकित दद्विधित्तसंगे । द्विहे च्छू तेद दद्विध्याम । व २ अथविहे एवते तंजहा । इत्यत्वाग चारिभेदे कथा
 ते अथहे-अथविधिस्युरगी कडोवित्तस्युरगी अथविधिस्युरगी ॥ अथतो ज्ञान यदोरत्ना ज्ञान अथविद्या ज्ञान भविष्याकडो ज्ञान ॥

कसायविउसगगे संसारविउससगगे कम्मविउससगगे । से कित कसायविउससगगे ? कसायविउससगगे चउत्तिहे प०, तजहा—कीहविउससगगे माणविउससगगे लीनविउससगगे । रोस कसायविउससगगे । से कित कसायविउससगगे चउत्तिहे प०, तजहा—णेरडयससारविउससगगे जात्र देवससार विउससगगे । सत्त ससारविउससगगे ? कम्मविउससगगे ? कम्मविउससगगे चउत्तिहे प०, तजहा

रसगगः । अथ को सी कपापयुत्सगगः ? कपापयुत्सगगधनुविंशः प्रथमसद्यथा-कीपयुत्सगगी मायाव्युत्सगगी सोनठ्युत्सगगः समप्तः कपापयुत्सगगः । अथ को सी ससारयुत्सगग ? ससारयुत्सगगधनुविंशः प्रथमसद्यथा-मैरियकससारयुत्सगगीपावट्टवससारयुत्सगगः समप्तः ससारयुत्सगगः । अथ को सी कम्मयुत्सगग ? कम्मयुत्सगगधनुविंशः प्रथम सद्यथा-आनावरणीयकम्मयुत्सगगी यावत्तैयान्तरायिकञ्च

सत्त टक्कविउसगगी । एतत्त द्रव्यतो स्वावकञ्जा । साकत्त भावविउसगगी । द्विवे स्यू त भावतो त्याग । भा २ वि बइ प त । भावतो त्याग तातभइ चञ्जा ते बइहे—कसायविउसगगी संसारविउसगगी कप्पविउसगगी । कथावना त्याग संसारता त्याग पाठयाना इतु वे सिष्यात्तादिक्क तइतो प्रानावरवादि कम्मञ्च इतु च प्राममत्तनोकाठियपी तइना । सक्कित कस सविउसगगी । तेइ स्यू कयाय व्यसग । अ २ चउत्तिहे प० त० । कपापयुत्सगग परिभडे कञ्जा त बइहे—आइविउसगगी मावविउसगगी । कथावना त्याग मानता ल्य ग मावता त्याय आभतात्याग । सेण कसायविउसगगी । एतत्त कपाप व्यसग कञ्जा । वेक्कित संसारविउसगगी । द्विवे स्यू ते संसार व्यसग । अ २ चउत्तिहे प त । संसारव्यसग परिभडे कञ्जा त बइहे—केरयसमारविउसगगी भाव संसारविउसगगी । नारकी संसारता त्याग इत्य दि यावत् देवसमारता त्याग । सेण संसारविउसगगी । एतत्त संसार व्यसग कञ्जा । सक्कितं कप्पविउसगगी । द्विवे स्यू त कम्मयुत्सगग । अ २ चउत्तिहे प त । कम्मयुत्सगग पाठभेदे कञ्जा ते बइहे—आनावरविउसगग परिउसगगी आइ इतु एताराव कप्पविउसगग । प्रानावरपाव कम्मता त्याग इत्तादि यावत्त द्रव्य पत्तरायकम्मता त्याग । सेण कप्पविउसगगी सेण माव

प्रत्यभोक्त्यादीनां त्याग इति ॥ पञ्चविंशतितमोऽंशः ॥ २५ ॥ ७ ॥ सुप्तमोक्षेणैव सुपतन्त्रैरत उक्त्वा कश्चिपञ्चतूताचार्यवता
 अत्रलि ते च भारद्वाजस्य स्वया च पयात्यादौ प्रवात तथाऽष्टमो ऽमिषीयत इत्येव सम्बद्धस्यास्यमाविषुय-रायगिणे इत्यादि ॥ पणपति ॥ प्रय
 कः नः प्रयत्नकारी ॥ पत्रमाचरति ॥ प्रवमान इत्युक्तं ॥ प्रकृतशक्तनिवृत्तिश्च इति ॥ उक्तोतय मयस्यवरूपाऽप्यवसायनिर्देति तत्र ॥ कार्त्तवी

णाणायरणिञ्जकम्भत्रिउसगो जाय देयश्चतराइकम्भयिउस्सगो । सेह कम्भत्रिउस्सगो । सेह नाथयिउसगो
 सेह श्रुत्तितरणु तये । सेव जत । जत । त्ति ॥ पणवीसहमसयस्स सत्तमी उदेसो सम्भसी २५ ॥ ७ ॥
 रायगिहे जाय एय थयासी-णेरुहयाण जते ! कह उत्रवज्जाति ? गोयमा ! से जहाणामए पवणु पययमाणे
 श्रुज्जयसाणणिञ्जिणुण करणेवाएण सयकाले त ठाण थिप्पजहिहा पुरिम ठाण उत्रसपज्जिहाण थिहरति ,

महत्पुत्रमर्गः । समाप्तः कर्मपुत्रमर्गः । समाप्तः प्रायश्चित्तमर्गः । समाप्तः प्रायश्चित्तमर्गः । इति ॥ पञ्चविंशतितमोऽंशस्य
 समाप्तोऽंशः ॥ २५ ॥ ७ ॥ राजपुत्रे पावश्वमवादीत्-मैरयिका प्रदत्त । कथमुत्पद्यन्ते ? गौतम । स यथा नाम प्रयत्नः प्रय

विषयगतं चेत् परिहरतये । एतत् कर्मपुत्रमर्गः कथा एतत्तु भावशुद्धिर्न कथा एतत्तु पञ्चकार तत्र कथा । अत्र मंत्र २ त्ति । तद्वति इमगवन् तुल्यकथा
 ते सर्वं यत्तये । पञ्चभोक्तृमन्त्रव्यपत्तमा ब्रह्मा यत्तया । ए पञ्चभोक्तृमा प्रतबन्ना यातमा ब्रह्मा पूरा यथा ॥ २५ ॥ ७ ॥ यातमे ब्रह्मे
 ब्रह्म मन्त्रको कथा तेवना विषयभूत पञ्चपत दुवे तत्र नारदादिकं तेवने निम चत्यादं दुव तिम पाठने कथेत्ते--रायगिणे जाय एव यथाको ।
 राजपुत्रमर्गने विषे वातए एम कथे । अत्रेवार्थं मते कथं कथयन्ति । नारको इमगवन् निम लयजे ए म उत्तर । भायमा सेलकाचामए पणप
 पञ्चमार्थे पञ्चवसायविज्जानिपथं अत्रेवाचार्यं सेवकात् । हेमोतम ते ब्रह्मानामे इहति कृत्ता २ अत्र ते पञ्चमार्थं अत्रति अत्रता मे श्रुयो पञ्चने
 ठान् नारदा ब्रह्मे पञ्चवसाय विषये भोपन्नाया अ इत्यमन्त्रव्यपत्तये विद्या विषय तेवोक्तं यथाच ते नानात्तर प्राप्ति हेतुभूत तेविकरो पागाधिकार

पायेति ॥ उद्वेगमससख य त्वरत् क्रियाविशेष सपदोपायः स्वानास्तराग्राही हेतुः करबोपाय स्तेन ॥ सेयकालेति ॥ एयति काले विशरतीति
 योः किरुखेस्वाङ्-त छावति ॥ यत्र स्थाने स्थित सारस्थान विमहाय स्वमत स्तुत्या ॥ पुरिमति ॥ पुरोवर्ति ॥ स्थानमुपसम्पद्य प्राप्य विशरतीति ॥
 एवामय तवि जीवति ॥ द्वाष्टान्ति कपोजनायः चिमुत्तं प्रवतीत्याङ्-पक्वविवपवमायति ॥ अज्जकसाबनिवृत्तिरिति ॥ तयाचिपाप्यवसायनि

एथमेय तेत्रि जीवा पथटविद्यपथमाणा अज्जकसागणिच्चित्तिण करणीवाणुण सेयकाले त अत्र यिप्यज
 णिहा परिमज्जय उद्यसपज्जिहाण विशरति तेसिण जते । जीयाण कह सीहागती कह सीहे गतिविसए प०
 ? गी० । से जहाणामए केइपुरिसे तरुण यखव एव जहा अउइसमसए पठमुवेसए जाय तिसमएण वा विग्ग

मानोऽप्यवसायनिवर्तिततम करबोपायमप्यति काले त स्वाम विमहाय पुरोवतिस्थानमुपसम्पद्य विशरति, एवमेव ते अपि जीवाः एकव इव
 स्वमाना अप्यवसायनिवर्तिततम करबोपायेने प्यति काले त एव विमहाय पूर्वे प्रवमुपसम्पद्य विशरति तथा प्रवृत्त । जीवाणा कथं श्रीप्रा
 नतिः कथं श्रीप्रोगतिविययः प्रवृत्तः ? नीतम । यथा नाम कथित्युक्तपस्तकबो वलवानव यथा अतुर्वृत्तमद्यते प्रथमीहेतुके यावच्चिसामप्यिबेन
 न विवे । त ठाचं विव्यज्जिता । अह स्वानकने विवे रक्षा तह स्वानकप्रते छाडीने । पुरिसं ठाप उद्वेगपज्जिताच विशरति । एतके पूव विव्रिततठाम प्र
 ते पडोबार करोन विचरे । एवामय तवि जीवा पवथाविपवमाणा अस्मदसाबनिवृत्तिरथं करबावाएव सेइकाले त भवं यिप्यज्जिता पुरिमभय
 उद्वेगपज्जिताच विशरति । एके इहति तह पवि जीव प्रवृत्तो परे उद्वृत्ति करतावथा तजाविष अज्जकसाय निवृत्तकरव यथा कम्मसुवन क्रियादि
 गय तह स्वानांतर प्राप्ति हेतुपथेकरो साबम्बकबो कर्महीक तेहीक उपाव तिकेकरो यानामिक्काखने विवे तेह मरुत्पादि भवप्रते छाडीने पामिवाया
 प्य मारक भवप्रते पडोबार करोने विचरे । तेसिच भते जीवाचं अह सोहामतो कह सीहे गतिविसए प । तेह हेमनरन् जोबने बिसी योप उताव
 नी मतिइव बिद्या उतावथा गतिपावर प्रकृप्पो र प्र० उतर । भावना सेवहाणामए कापुरिसे वरवे कथय एवं जहा अउइसमसए पठमुवेसए जाय

वति तेन ७ करबोपायवृत्ति ७ क्रियते विद्यिपावस्थालीवस्या नेम क्रियते वा तद्वित्तरश्च कामसवक्रियाविद्योवा सरलं करवमित्त करलं
 स्थानान्तरप्रसिद्धतुता साधर्म्यो स्वर्गैव तदबोपायः करबोपायः स्नेह ॥ तं प्रवति ७ मनुष्यादिप्रवं ७ पुरिम प्रवति ७ प्राप्त्यन्तारकृत्य मित्यर्थे ॥
 चक्रवसावजोगनिवृत्तिवृत्ति ७ अथ्यवसान जीवपरिणामो योग य मम प्रवृत्तिव्यापार स्थाप्या भिवत्तितो यः स तथा तम ॥ करबोवाएवति ॥

हेण उयवज्जाति । तेसिण जीवाण तहा सीहागइ तहा सीहे गतित्रिसए प० , तेण जते ! जीवा कहपरज
 थियाउय पकरेति ? गो० । अज्जथसाणणिइत्तिणुण करणोथाएण एव खलु त जीवा परज्जथियाउय पकरेति ।
 तेसिण नंत । जीवा कह गतो पयसइ ? गोथमा ! ध्याउस्सएण जयस्सएण णिइस्सएण एव खलु तेसिण

वा विपइबोपपद्यात्त तया जीवाना तथा जीवा गति साया जीवा गतिविषयः प्रपत्तः । त जदत्त । जीवाः कथ परप्रवायुक् प्रकुवन्ति ?
 नीतम । अथ्यवसाननिवातततन करणोपायनैव खलु तपि जीवाः परप्रवायुक् प्रकुवन्ति । तथा जदत्त । जीवाना कथ जीवागति प्रवसते ?
 गीतम । आयु सपम प्रवसपम स्थितिचयनैव खलु तया जीवाना गतिः प्रवसत । ते जदत्त । जीवाः किमात्सर्वात्पद्यन्ते परर्थात्पद्यन्ते ? गो

तिथमश्च वा विवइवं उववव्वति । इगीतम त यवानामे काएएव पुरय दुवान बलबल इम किम चउटमा गतवना पडिक्काउने यान विपे कथा ति
 म कइवा बावत् तोतममय विग्हेइरो खपले । तसिच जीवाव तथा सीहागई तथा सीहेगति विसण पं । तेइ जीवमो विम उतावजोगति तिम यो
 प्रगतिना विपव प्रक्या । तथ भते जीवा कइ परमविद्याउय पकरइ । तेइ इमगवन् जीव बिसेमकारे परमवना पाउक्खापते करे इ म उतर ।
 गापया अमइइसावबिन्निणव करणानाएव । इगीतम जीव परिवामकाग ते मन ववन कायाना व्यापार ते वेअइरो नीपज्जात्या केइ तथा तिचे
 करणोपाय च सिध्दासाठिक कामवम इतुपवी तिचेइरो इम । एव खलु ते जीवा परभवियाउय पकरेति । नियये त जीव परभन संबंधो पाउक्को
 बाधे । तेसिच मंत जीवा कइ गई पविचइ । तेइ इमगवन् जीव किसमकारे नति प्रवसे इ म उतर । भावमा पाउक्काएव मयक्काएव ठिईक्काएव ।

जीयाण गती पयसड, तेण ज्ञते । जीया कि आडहीए उयवज्जाति परिहीए उयवज्जाति ? गोयमा । आ
 इहीए उयवज्जाति णो परिहीए उयवज्जाति । तेण ज्ञत ! जीया किं आयकम्मुणा उववज्जाति परकम्मुणा
 उयवज्जाति ? गोयमा । आयकम्मुणा उयवज्जाति णो परकम्मुणा उयवज्जाति । तेण ज्ञते । जीवा किं आ
 यप्पनुंगेण उयवज्जाति परप्पनुंगेण उयवज्जाति ? गोयमा । आयप्पनुंगेण उयवज्जाति णो परप्पनुंगेण उव
 वज्जाति । असुरकुमाराण ज्ञते । कह उयवज्जाति जहा णेरइया । तहेय णिरवसेस जाय णोपरप्पनुंगेण

तम । आत्मर्चीत्यद्यन्ते नैव परर्चीत्यद्यन्त । ते प्रदत्त । जीवा किमात्मकमवात्पद्यन्ते परकमर्चोत्पद्यन्त ? गीतम । आत्मकमवात्पद्यन्ते नैव
 परकमवात्पद्यन्त । त प्रदत्त । जीवा किमात्मप्रयोगोत्पद्यन्त परप्रयोगोत्पद्यन्त ? गीतम । आत्मप्रयोगोत्पद्यन्त नैव परप्रयोगोत्प
 द्यन्ते । असुरकुमार प्रदत्त । कथमुत्पद्यन्त यथा नैरपिक्कालपैय निरवद्यप यावन्नैव परप्रयोगोत्पद्यन्ते एवमेकत्रियवजा यावद्धैमानिकाः

ईगीतम पाठयाम सवे करो भवन सवे करो स्मितिने सये करो । एव एतु तदिव जीवाच गं पवत्तइ । इम नित्ये तइ जीवनी गति प्रवत्ते ।
 तव भन जीवा कि पाठयत्ता उववज्जाति परवज्जाति । तइ ईमगवन् ओव ए पाकमहि करो एपवै पराएवहि करो उपवै ।
 तेक भंते जीवा कि पाठकन्नुवा उववज्जाति परकन्नुवा उववज्जाति । तइ ईमगवन्, ओव ए पाकममे करो एपवै ययवा परबमे करो एपवै इ म उ
 मर । मायमा वापकन्नुवा उववज्जाति वा परकन्नुवा उववज्जाति । ईगीतम पाकममे करो उपवै नही परकमेकरो उपवै । तेकभंते जीवा कि पायप
 पागेव उववज्जाति परपयोगेव उववज्जाति । तइ ईमगवन् सीय ए पाकाने प्रयोगेकरो उपवै ययवा परप्रयोगे करो उपवै इ म उत्तर । मायमा वा
 ययपागव उववज्जाति वा परपयामवं उववज्जाति । ईगीतम पाकाने प्रयोगेकरो उपवै पपि परप्रयोगेकरो उपवै नही । यमरकुमार ईमगवन् किम
 उपपत्ते। कइ केरइया तपेव विरवद्यस जाव वा परपपागव उववज्जाति । विम नारवोन कइया विमहीत्र निविद्यव पवेकरो कइवा बावत् परने प्रयोगे

परबोधायन विष्णुस्वादिना कामवत्परैरुनति ॥ पञ्चविंशतितमब्रूते उवमा ॥ २५ ॥

उययज्जति एय एगिद्विययजा जाव येमाणिया एगिविया एवचेव णवर चउसमइठविग्गहो सेस तखेय
नेय जते २ । ति जाव विहरड ॥ पणयीसइमसयस्स स्यठमो ॥ २५ ॥

याण जते । कह उययज्जति ? गीयमा ! से जहाणामए पवए पयमाणे स्ययसेस तचेव जाव येमाणिए सेव
जते । जते ! ति ॥ पणयीसइमसयस्स णयमो ॥ २५ ॥

एवन्निप्रा एव चैव नवरं बहु शापयिकोविपकः श्रेयं तच्छेव तदेवं मदत्त । इति यावद्विहरति ॥ पञ्चविंशतितमब्रूतस्याष्टमोऽध्याः ॥ २५ ॥

ॐ ॥ अत्रविट्टिकनैरयिका मदत्त । क्यमुत्पद्यत्त ? भौ० । स यथा नाम स्वकः स्वमानो लोकेयं तथैव यावद्वैमानिक स्वदेव प्रवत्त ।
इति ॥ पञ्चविंशतितमब्रूतस्य नवमोऽध्याः ॥ २५ ॥

कथो जवत्त । एव वमिद्विययजा जाव ब्रमाचिवा । इम वकेश्चिद्यवर्त्तीने यावत् वेमानिकब्रूते कइवा । इतिदिवा एवचव कवर चउसमइथा विमइा सेस
तचव । एकेद्रिक एव इमत्त कइवा एगणाविषय बोजापदने विप तोअसमय विग्रहे करो जपजवा कइया एनेएकेद्रिकत्त चारिउमय विपत्त कइवा यप
तिमहोत्र कइवा । मत्र भंते इ ति जाव विहरड । तइति वेममवन् तुत्त कइया ते सव सल्ले पसवा नहो इत्थादि कावत् विपरे । पवबोधेसमसयस्य

पथमा उदेया सज्जता । ए पंखबोधमा यतकमो पाठमा उदेया पूरा कया ॥ २२ ॥

विब नारको वेमगवन् विचे पकारे जपने इ प जत्तर । तावमा सेकइवाबामए पवए पयमाणे पवसेउ तचेव जाव येमाचिए । मत्रमि
इरति इरत्त प्रदताकका इत्थादि येव तिमहोत्र कइवो बावत् वेमानिक इति । सेव मते २ चि । तइति वेमगवन् तुत्ते कइया ते सव सल्ले । पवबोध

इमअउस्य पवमा उदेया सज्जता । ए पवबोधमा यतकमा मत्रमो उदेयेया पूरा कया ॥ २३ ॥

ॐ ॥ अत्रविट्टिकनैरयिका मदत्त । क्यमुत्पद्यत्त ? भौ० म ।

कहं उवयज्जति ? गोयसा ! से जहाणामए पवए पवसाणे ख्यसेसं तचेव एवं जाव वेमाणिया सेव जते !
 जते । सि ॥ पणयीसठमसयस्स वसमा ॥ २५ ॥ १० ॥ सम्महिठीणेरइयाण जते । कह उवयज्जा
 ति ? गो० ! से जहाणामए पवए पवसाणे ख्यसेस तचव, एवं एगिदियवजा जाव वेमाणिए सेव जते ।
 जते । सि ॥ पणवीसइमसयस्स एक्कादसमा ॥ २५ ॥ ११ ॥ मिच्छहिठीणेरइयाण जते ! कह उवय

यया नाम प्रवकः प्रवमानावस्य तपेवैव पावहुँमानिक सव्व जइल । इति ॥ पच्चविशतितमशतस्य वसमीदुसः ॥ २५ ॥ १० ॥
 सुम्मयुद्धिनैरयिका जइल । कयमुत्पयत्त ? गोतम ! स यया नाम प्रवकः प्रवमानोऽवस्य तपेव एव एकान्त्रियवणं यावहुँमानिक सव्व
 जइल । जइल । इति ॥ पच्चविशतितमशतस्यैकादस ॥ २५ ॥ ११ ॥ मिष्पायुद्धिनैरयिका जइल । कयमुत्पयत्ते ? गोतम ।
 स यया नाम प्रवकः प्रवमानोवस्य तपेवैव पावहुँमानिकसव्व जइल । इति पावहिइरति ॥ पच्चविशतितमशतस्य द्वादशोदुसः ॥

जति । पभवविदिह नारकी इमगवन् किम अपजे इ ० उत्तर । गायसा सेवहा नामए पवए पवसाणे पवसेसतवेव एवं जाव वेसाविया । से
 गोतम ते वसानाम सुवक सुदतावका जावता तिमहीव कइवा इम वावत् बेमानिक इति । सेव भंने र ति । तइति बेभनवत् । पवमीसरमसयस्य इ
 यमा उदुदेना सव्वता । ए पवमीसमा यतवना वयसा उइया पूरा ववा ॥ २५ ॥ १ ॥ सव्वदिहो चरइवाच भते कइ उववज्जति । सव्व
 गइयो नारकी इमगवन् किम अपज इ ० उत्तर । गोयसा सव्वहावामए पवए पवसाणे पवसेसं तचव । बेगोतम ते यसानामे सुवक सुदतावकी वा
 वता तिमहीज । एव एमिदियवज्ज जाव वेसाविए । इम ० केद्धियवज्जिन वावत् बेमानिककण कइवा । सव भते र ति । तइति बेभनवन् तुल कइवा ।
 पवमीसमसयस्य एकादसमा उदुदेया सव्वता । ० पवमीसमा यतवना इप्पारना उदुदेया पूरा ववा ॥ २५ ॥ ११ ॥ मिच्छहिठीणे
 इयाव भते कइ उववज्ज त । मिष्पाइठी नारकी इमगवन् किम अपजे इ ० उत्तर । गायसा सव्वहावामए पवए पवसाणे पवसेसतवेव एव जाव वेसा

पञ्चविंशतितमश्रुतं वृत्तितः परिश्रमाप्तं ॥

२५

॥

॥

॥

॥

हृषिकेशिकाकाराक्ष्यहृषिकेशिबभवीश्लेष्मलपं हृषिकेश्याव्यीकृति हृषिकेशिपिणमवाप्यविषय ।

हृषिकेशिहृष्टाहृषिकेशिपिमहाश्रावणपर समाश्रित्यव्याख्याश्रुतहृष्टताशुर्गमगिरा ॥ १ ॥

व्याख्यात पञ्चविंशतितमश्रुत मय पशुविश्रुतितममारम्यत-शस्स चाय मन्निवसन्त्वथो ऽनन्तरश्रुते नारकाविचीवामा मुत्यन्ति रजिहितता सा च क्लम

ज्जाति ? गो० ! से जहाणामए पत्रए पथमाणे श्रवसेस तथेअ, एव जाय वेमाणिए सेवं ज्ञते ! २ सि जाय
धिहरइ ॥ पणयीसठमसयस्स दुवालसमी ॥ २५ ॥ १२ ॥ पणयीसठम सयं सम्मत्तं ॥ २५ ॥
णमो सुश्रुवेवयाए जगयईए । जीवाय १ छेस्स २ पस्सिकय ३ विठी ४ प्याण ५ श्रुखाण ६ सखाच्छे ७ ।

२५ ॥

१२

॥

२५

॥

॥

॥

जमः श्रुतदेवताये जगवरये । जीवाणइयापाचिकवृष्णाणाश्रानसक्याह । वेवकवायीयोगो पपीनयकावशीदेयाः ॥ १ ॥ तस्मिन्काले तस्मिन्समये

श्रीपूज्याचार्यश्रीकानकचंद्रचतुवन्त्रानिर्वेस्कुरिबर्म्मै राक्षिहोरायवाहादुरपनपतिविहस्यसम्प्राचनन ।

वर्त्तीत पञ्चमाङ्कप्रकृतपपुष्यतइवलायाभुवाद्ः शीथोऽप्यश्रित्पिनेप्रप्रववतनुठकारामचद्रुषसिद्धिम् ० १ ०

वि० । इन्दीतम ते यजानामे सुवच श्रुताहवो पथप तिमशोच चक्षना इम बावत् वेमानिच इति । सेव भते २ ति । तवति वेभगवन् बावत् विषरे ।

पञ्चबीसइमसयस्य बुवाकममी कदुदेवा सख्या । ए पञ्चबीसमा यतकमा हाइयमा कदुदेया पूरा बया ॥ २५ ॥ १२ ॥ पञ्चबीसइमसय स

यात ॥ ० पञ्चबीसमी यतक पूरा बया ॥ २५ ॥ ० ० ० ० ० ०

वमाशुपदेववाए मभर्षेए । तमक २ बुवा श्रुतदेवतानि पनन्तरे पञ्चबीसमी यतक यखाशो, शिवे शानीसमी यतक यखाशियेके तिहा पूरे नारकादि शोप

वन्तुपूर्विकति पङ्क्तिगतमन्त्रे मोहकर्मयन्त्रो विषयश्च इत्येवं सम्बन्धुस्यास्यैकावधौदेश्यप्रमावस्य प्रत्युद्देशक द्वारनिरूपणाय तावद्वापामाह-जी
 वाय इत्यादि ॥ जीवायति ॥ जीवाः । प्रत्युद्देशक यन्त्रवत्कल्पितायाः स्थान ततो सप्रयाः पाणिनाः वृष्टयः अग्रमं ज्ञान सञ्जा वेदः कथाया पोग उप
 योमश्च यन्त्रवत्कल्पितास्याम तदेव सताम्यकावद्यापि स्वामानीति भाषायः । तत्रान्तरोत्पन्नादिविज्ञापविरहित जीवमाभित्येकावधौनि सप्तकूपे द्वौ
 रे यन्त्रवत्कल्पिता प्रथमोद्देशक उभितानुमाह-तन्त्रमित्यादि ॥ पाठ कश्चित् ॥ अमुम कर्म ॥ वधीति ॥ बहुवान् ॥ सपङ्क्ति ॥ यत्तंमाने ॥ वधिपिस्व

येय ८ कसाए १ जोगे १० उवर्तगे ११ एक्कारसविष्टाणे । तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाव एव
 ययासी-जीविण जत्ते ! पाव कम्म किं यधी यधइ णयधिस्सइ १, यधी यधइ णयधिस्सइ २, यधी णयधइ
 यधिस्सइ ३, यधी णयधइ णयधिस्सइ ? गीयमा ! स्यत्येगइए जीवे यधी यधइ यधिस्सइ १ । स्यत्येग

राणगइ पावदेवमवादीन्-जीवो प्रवन्त । पापकर्म किं बहुवान्प्रप्नोति प्रत्स्यति १ बहुवान्प्रप्नोति न नरत्स्यति २, यदवाव्ययप्रप्नोति प्रत्स्यति ३,
 यदुवाव्ययप्रप्नोति नरत्स्यति ? नीतम । अस्त्येक. कथिण्जीवो यदुवाक्य प्रप्नोति प्रत्स्यति ३ । अस्त्यकः कथिण्जीवो यदुवाव्ययप्रप्नोति नरत्स्यति
 नो जल्पति कथी तिक्ता कम्मवत्त पूरुव इवे तमाटे वा/कोसमे कम्मवत्त विचारिण्णै इसे सबवे इय्यार उव्वेयान्कए ए यतए तिक्ता प्रतिउव्वेयक चार
 निरुपवने एव पावा कइण्णै-कोवाक १ श्रेय २ पक्खि ३ दिशो ४ वाच ५ पपाव ६ सञ्जापा ७ । वेव ८ कसाए ९ जागे १ उवपगि ११ एकारए
 विष्टाणे ११ जीव प्रतिउव्वेयके वत्तव्यताया ज्ञानकत्तिया पापिण इट्टि ज्ञान यज्ञान सञ्जा वेव कथाय याग उपयोग ए इय्यारै यथ वत्तव्यता स्थान ।
 तर्हं भासवत्तं ममपव । तणे कासे तणे समये । राययिण्ण जाव एव यथासी । राजय्यइ नगरत्तैविपै यावत् इम कइे तिक्ता यनन्तरापवादि विमय
 विरहित जाव इतपाययोग इय्यारै उव्वकए चारकरो वत्त वत्तव्यता कइण्णै-जीविण मते पावकण्य कि कथी यंधर कथिण्णर । जीवे जेभगवन् यदुम
 कम्म एव्व कथी वडिणे पतीतकार वाचू यत्तमानकासे वधि पागामिकासे वधिषे पयवा । वंधो कपए कवधिण्णर । पतीतकासे वधिषे पत्तमान

इति च जनामत इत्येवं ज्यारो जद्गः, षडुणानित्यतत्पदस्य्या रित्वद् न जवत्यऽतीतकाले ऽयन्त्यस्य मीयस्या ऽसम्भवा तत्र च षडुवान् प्रप्रागत् प्रत्यय प्रथमो ऽनव्यमभित्य षडुवान् यप्रति न जरस्यतीति द्वितीय प्राप्त्यस्यपकस्य मव्यविज्ञापमाभित्य षडुगा न्य यप्रति जरस्यतीत्यप नृतीयो नाङ्गोपशुने वत्तमान प्रव्यविज्ञाप माभित्य ततः प्रतिपत्तितस्य तस्य पापकमसा ऽवश्य यन्नात् षडुवा न्य यप्रति नर्तरस्यतीति षडुयः सीकमोद्गमाभित्यति । सत्रयाद्गार-ससदपञ्चीवस्य जत्वारोऽपि स्युः यस्या ऋद्धुश्लेषस्य पापकमसोऽयन्त्यकत्वम व्यत्नाति कान्तमरणादिपञ्चक्युक्तस्य त्याद्यमेय मङ्गकद्वयं तस्य हि वत्तमानकालको मोद्गसससुपापकर्मैव उपश्रमः जयोया नाक्षी त्यवमन्त्यद्वया

डुग जीत्रे यथी यथद् गयधिससद् २ । अत्येगडुए जीधे यथी गयधडु यधिससद् ३ । अत्येगडुए जीधे यथी यथद् गयधिससद् । सलेस्मेण जते ! जीत्रे पाय कम्म कि यथी यथद् यधिससद्, यथी यथद् गयधिससद्

अनइया मदल । जीवा पाप कम कि षडुवान् यप्रति प्रत्यसति षडुवाभ्यप्रति ननरस्यति पुष्का गीतम । अस्सयक कथिद्गुवाग्धप्रति काल वाधे पागामिकां न वाधस्य यवथा । यथी यवधर वधिसर । यतोतकाल वाधा वत्तमानकाले न वाध पागामिकासे वाधस्य यवथा । यथी यवधर यवधिसर । यतातकाल वाधु वत्तमानकाले नवाधे पागामिकास नवाधिसरे ए चारुगा यतोतकाले वाधो ए पदवको वाधा यनेन यथी यतस यतोतकाल न वाध्या ए पदस्य पूर्वं चारुभवा साधविहता ते इहा न समवे यतोतकाले यवधक जीवना यवधवको इ म च तत् । भावमा यवधएव जीवे यथी यवध वधिसर । हेभोतम कतलाएव जीव पापकर्म वाध्या वाधसे वाधसे ए पदिकामांसा पमस्य पात्रयो ने । यवधएव जीवे यथा यवध यवधिसर । केतलाएव जीव पापकम वाधो वाधे पागामिकासे नवादस्य ए बीवाभांसा प्राप्त्य यवधयेव त मव्य विषय प्रतेवायथोने जीवथा । यवधएव जीवे यथी यवधर वधिसर । केतलाएव जीवे पापकम वाध्या न वाधे वाधिसर ए माह कपयमने दिव वत्तमान भवविषय प्रतेवायथोने जीवथा विहावी पय वधाने पापकमना यवध भावको । यवधएव जीवे यथी यवधर वधिसर । यवधर । यवधर ।

पत्नारोपि न हि बहुभाग्यप्राति नरस्यति न प्रससमयापेक्षयाऽनन्तरे नविष्यति समये, तथा वदयान् वभ्राति नररस्यति शयनत्वप्राप्ती तथा
 यदुवा ए वभ्राति न उपनाम नरस्यति न तरप्रतिपाते ३ तथा यदुवा न वभ्राति न न नरस्यति शयनकाले इति अतएवाह-वउन्नगो प्राविष्येति
 मनु यदि कृतपापिबन्ध न नरस्यतीत्यस्य सम्भवा द्वितीयो प्रकृत इष्ट तादा सुकृतपापिबन्धस्या ऽवश्य सम्भवा एकार्यं प्रथमप्रकृत इत्यत्रोच्यते-पृच्छानन्तरे
 त्रिविधाबाध ऽन्यकत्वस्य तावा युक्त्यै वदुं रिच शोच्येपरिहार-वपिसुपवीपन्नगो पुत्रजनकव्यपिक्रियाइव तोसुकृतपापिबन्धया एव पठमोन्नगोवहृदि
 त्रौ ३१० उच्यते-पुच्छाद्यतरकास पश्यपठमोसुकृतपापिबन्धैः । इपरविषयविविधिं आसपश्यवीयतुमनोति ३१॥ दृष्टिहार-सस्यदृष्ट दृष्टारोपि मङ्गाः

जीत्रे पायं कम्म किं त्रधी पुच्छा, गीयमा । यधी णवधड णवधिस्सुह । करहपस्किरण जते ! जीवे पाव
 कम्म पुच्छा, गीयमा । अत्येगइए यंधी पठमधितिया जगा । सुकृतपापिस्किरण जत ! जीवे पुच्छा, गीयमा !
 घउन्नगो ज्ञाणियसुी । सम्मद्विठीण चक्षारि जगा, मिच्छद्विठीण पठमधितिया सम्मामिच्छादिठीण एव

नदन । श्रीवः पाप कर्म किं यदुवागपुच्छा गीतम । यदुवाक्यप्राति नररस्यति । कृतपापिबन्धो नवल । श्रीवः पाप कर्म पुच्छा । गीतम ।
 चरस्यकः कथिद्वदुवागप्रथमद्वितीयो जङ्गी । सुकृतपापिबन्धो नवल । वतुजङ्गे (जङ्गवतुक्त) नखितव्यं । सस्यदृष्ट दृष्टारो जङ्गाः । मिष्यादृष्टः

वउन्नगः । तिमहोत्र चारस्येना कइका भावना तिङ्गी विषोबद्धे । पठरमेव भते जीवे पावकर्म किं यवी पुच्छा । पच्छयो वैभगवन् जीव पापकर्म स्रू यी
 च्छा इत्यादि प्रत्य उतर । गायमा यधी बर्बधड चक्षिच्छर । वैभोतम पच्छयो ते पचायो खेदवी कुवे तेइने वीवीर्भना होबन्नुवे खेयाने पभापे बंधकयवा
 मा पभाबधका चार ३ । कइइपस्किणच भते जीवे पावकर्म पुच्छा । कृतपापिबन्ध वैभगवन् जीव पापकर्म इत्यादि प्रत्य उतर । गायमा पठरमेव गइ ववी
 पठमधितियर्थः । वैभोतम कृतपापिबन्धे यद्विवा दोषभेगा इवे इतमलकाके पश्यकर्मो तेइना पभाबद्धे तेइमवो पक्षिणार्भगो चमस्यद्धे जीवा पा
 प्रत्य भयने । सुहपस्किणच भत जीवे पुच्छा । यकृतपापिबन्ध इत्यादि प्रत्य उतर । गीयमा वउन्नगो भाविष्यमी । वैगीतम सुकृतपापिबन्धने बाध्या बांधे वा

शुद्धपाण्डित्येव प्राप्तनीयाः, सिध्यावृष्टिमिसृष्टीना माद्यौ द्विवेव वर्तमानकाले मोहलक्षणवापकर्मबो वंशनावेनाश्वह्यामावाद्दतएवाह-मिच्छे
 त्पारि ज्ञानद्वारे-कवलकबाबीव चरमो जगोति ॥ वतमान एव्यकाले बन्धाप्रावात ॥ अस्मान मोहलक्षणवापकर्मबो। अप
 बोपद्यमानात्रावात सञ्जाद्वारे-पठमवीर्यति ॥ आहारदिसञ्जोपयोगकाल उपकल्पीपञ्चमकत्वाप्रावात् ॥ मो सखावसत्ताथ चत्तारिति ॥ मो सञ्जा

चेत्र । णाणीण चत्तारि जगा । श्यान्निवित्रोहियणीण जात्र मणपञ्जात्रणाणीण चत्तारि जगा । केत्रलणा
 णीण चरिमो जंगो जहा स्थलेस्सा । अस्त्राणीण पठमवितिया एव मतिश्चस्त्राणीण सुश्चस्त्राणीण त्रिजगणा
 णीणचि श्याहारसखीवउत्साण जाव परिगहसखीवउत्ताण पठमवितिया णोसखीवउत्ताण चत्तारि सधेदगा

प्रथमद्वितीयौ । सम्पद्विप्यादृरेव चैव । ज्ञानिनां चत्तारो जगाः । ज्ञानिनिवोचिकञ्चामिना यावन्मम पर्ययज्ञानिना चत्तारो जगाः । केव
 लज्ञानिनां चरमो जगो यथा प्रसेद्वयः । ज्ञानिना प्रथमद्वितीयाथव मत्यज्ञानिसुताज्ञानिना विजङ्गज्ञानिनामपि आहारसञ्जोपपुत्तामां

धिस्ये ए प्रत्र समयना अपचात्रे पनत्तर भविष्य तसमयन विपे तथा बाप्या वधि न बाधिस्ये उपकल्पनी मो प्राप्तिने विपे तथा बाप्यो नबाधे उपयमने
 विपे बाधिस्ये तदने प्रतिपात तया चोबाभागा उपकल्पे जावथा ४ द्वार । सखद्विज्ञोच चत्तारिभगा मिच्छद्विज्ञोच पठमवितिया सस्यामिच्छद्वि ज्ञाव
 पठम । सम्पद्विज्ञोचि चरिभगा शुक्लपाचिकनी परे कडवा मिच्छाद्विज्ञोचि पदिच्छा टायम्मा इव वतमानकालने विपे साइसञ्च वमवध भावेचरो पाल
 दात्र भगा न हुने मिच्छद्विज्ञोच कडवा । बायोच चत्तारिभगा । ज्ञानान चाररभगा कडवा । पाभिविवाडिय बायोच जाव मकपञ्चवपावीच य
 तारिभगा । मतिज्ञानीन तुतज्ञानीन इम बावत् मनपद च ने चाररभगा पृठिसीपरे कडवा । केवसखाचोच चरिमाभगा कडवा प्रसेया । केवसञ्च मोने
 वेदसाभगा इवे वतमानकाल वथा पागामिबाले वचना प्रभावबबो लिम चलयोने कडवा तिम कडवा । सखाचोच पठमवितिया एव मतिपखाचो
 च सुपपखाचोच विमगबाचोचनि । पञ्जानीने पदिच्छा वीका ए वेभगा हुने छञ्चपाचोचो परे इम मतिपञ्जानीने तुतपञ्जानीने विभगज्ञानीने पवि क

पयुष्ठा यादारात्रियु गृन्निगजिना स्तेर्षा च चत्वारोपि उपकोपश्चमस्मवादिनि वेदद्वारे-सवेयगात् पठमधीपति ॥ वेदीदये चि उपकोपकाभी
 न इवाता मित्याद्यइय ॥ अवेयगात् चत्वारिनि ॥ अवेयीये वदे उपघाते यप्रति प्ररस्यति च मोहलपठ पापकर्म याव त्मूलसम्परायो न प्रप
 ति प्रतिपतितोवा प्ररस्यतीत्यत्र प्रथमः तथा वदे हीच यप्रति मूलसम्परायाद्यवस्थाया च नमरस्यतीत्येवं द्वितीयः तयोपशान्नाब्दः मूलसम्प
 रायादौ न यप्रति प्रतिपतितस्य मरस्यतीति तृतायः तथा हीच वद मूलसम्परायादिय न यप्रति नचोत्तरकाल प्ररस्यतीत्यत्र चतुथः यदु
 धामिति च षष्ठ्य प्रतीतमयति कृत्वा न प्रदक्षतिमिति । कयायद्वार-सकसाइच चत्वारिनि ॥ तथाद्यो जवस्य द्वितीयो जवस्य प्राप्तव्यमोइत्य
 स्य तृतीय उपशमकमूलसम्परापस्य चतुर्थः उपकमूलसम्परापस्य एव साप्तकपायिणोपि वाच्य ॥ कोइकसाइच पठमवीयति ॥ इष्टानवव्यस्य प्रथ

ण पठमत्रितिया । एवं इत्यथेदगा पुरिसवेदगा णपुसगवेदगाणवि । स्यवेदगाण चत्वारि । सकसायीण

पायत्यारियइमन्त्रीपयन्ताना प्रथमद्वितीयो मोसष्टोपयुक्ताना चत्वारः । सबेद्वाना प्रथमद्वितीयौ । एव स्त्रीवयुषपवदमपुंसकवेदकानामपि
 अवदकानां चत्वारः । सकपायिकां चत्वारः । आपकपायिका प्रथमद्वितीयौ जङ्गी । एव मानकपायस्यापि । मायाकपायस्यापि । सोनकपाय

इवा । याद्वारसकाइकता च काव परिकइयथाइकता च पठमत्रितिया च सत्वारइकता च चत्वारि । याद्वारादि यावत् परिकइयथा उपवाग कान
 त्रितये पयउपयोना तथा उपगमकपयोना पभावकौ पडिका होवभगा होवहुवे ना सत्रापयुक्त याद्वाराइकने विवे यइवत्रित तेकने चरि मा
 इव पयव उपममकना समवकी) सवेन्मा च पठमत्रितिया । मवदकन पडिका कासभगा हुवे वेदना इत्यनेविवे अपयउ उपगमकना पभावकौ) एव
 त्रितिकना पुरिमववगा अर्पमगवेदमाचरि पवेदना च चत्वारि । इम ओवेदक पुसपवेदक अर्पसकवेदक पयि कइना तथा पवेदकने एकोइवेद उपया
 त इगा वीये वीथये माइकच पयकम यावत् मूलसम्पराइने हुवे तापये ता वकी वीथये यतकामाटे प पडिकामांना तथा वेच वीथइया वीथे मूक
 उपराय पादिक पवस्त्रानिवे वीथिस्य तथा उपयात्तवद मूलसम्परायादिकने विवे न वीथेये एने पञ्चाइको वीथिस्ये वीथवेद वकी युष्ठावेदरात्रिादि

नो द्वितीयो प्रव्यविशेषस्य प्रतीपवस्तुर्धो स्तिह नलो वर्तमाने अव्यक्तवस्था मावात् ॥ तत्र ० बंधी न अपह बधिस्सइति उपशान्तिभवाप्रित्य ॥ बंधी नवपह भवधिस्सइति ० उपवभवाप्रित्यति । योगद्वार-सृजोगिस्स चउजगोति ॥ अमव्यमध्यविशेषोपशमकषपकाया क्रमव चत्वारो प्यवसेयाः ॥ अजोगिस्स चरिमोति ॥ यथ्यमानप्रत्यमानत्वपोसस्या नावाविति ० नेरइएवमित्यादी ॥ पठमबीयति ० नारक

चत्वारि कोहकसाहण पठमवितिया जगा । एवं माणकसायस्सवि लोज्जकसायस्स चत्वारि जगा । अणकसाहण जते । जीवे पाव कम्म किं बंधी पुच्छा, गोयमा ! अत्यगइए बंधी णबधइ बधिस्सइ । अत्येगइए बंधी णयधइ णयधिस्सइ । सजोगिस्स चउजगो, एव मणजोगिस्सवि बइजोगिस्सवि काय

स्य चत्वारो नइगः । एकपायी नदत्त । जीव पाप कमे वि बहुवावपुच्छा, नीतम । चरत्येक कथिद्वदुवाकनप्रति नप्रतस्यति । सयागिन यतुनइ एव मनोयोगिनापि । बाणयोगिनोपि काययोगिनोपि, अयोगिनवरम । साक्षारीपयोगियुक्त्वपि चत्वारो बने विने न बाधे नइो उत्तरकाव बाबस्से ॥ एवं बांधा एता सगसेइो प्रविइओबधे द्वार ८ । बबसाबोध चत्वारि काइकधार्इ च पठमवितियाममा । मबयासाने चारेइमना इवे पहिना एभय्यन बीजा पामनावाप्य माइचयकचव मक्केने रोकाउपयम यूक्खसपरयने रोबो उपव सुक्खसंपराबने लोचक पायोने पहिना दासभगा इव । एव माइकसायस्सवि माइकसायस्सवि सामकसायस्सवि चत्वारिथवा । इम मानकपायोने पवि चइवा सावाकवायोने पवि चइवा साभवायोने चारभगा इवे सववायोने परे । चइसाइए मते जीवे पावकय वि बंधो पुच्छा । चवयाबो हेममवन् जीव पापकमे स्स बांधो इ ० उत्तर । पाठमा परवगइए बंधो चववर बधिच्छा । इगोतम केतकाणव बांधो न बाधे पावकय वि बंधो पुच्छा । चवयाबो हेममवन् जीव पापकमे स्स बांधो चववर बधिच्छा । केतसेएक बांधा न बाधे न बाधिस्ये उपववपावयोने द्वार ८ । सजोगिस्स चउजगो एव मबवागिस्सवि । सवागोने चारभगा चइवा पमव्य भव्य विषय उपयम उपव इ इम मनावायोने पवि । इइवागिस्सवि काइकागिस्सवि । वचनवायोने पवि चइवा चउजगोने पवि । पञ्चमिस्स चरिमो ।

जोगिस्सधि । स्यजोगिस्स धरिमो । सागारीयउत्से वत्तारि स्यणागारीयउत्से धि चत्तारि जंगा । णेरइयाण
 जते । पाव कम्मं कि यधी यधइ अधिस्सइ पुच्छा, गीयमा ! स्यत्येगइए यधी पठमवित्तिया । सलस्सेण
 जत । णरइए पाय कम्म एवधेध । एव करइलस्सवि णील्लेस्सवि काउलेस्सवि । एव करइहपस्किएधि सुक्क
 पस्किएधि । सम्मद्धिठी मिच्छाविठी सम्मामिच्छाद्धिठी णाणी स्यान्निणिवीहियणाणी सुस्यणाणी इहियाणी

प्रज्ञा । नैरप्यको प्रवृत्त । पापं कम कि बहुवान् यत्राति प्ररस्यति पुष्पा गीमत । अरयकः कथिव्रुवाम् प्रयमद्वितीयै । सलहयो प्रवृत्त ।
 नैरप्य पाप कर्मे एव चैव एव कणसइयोपि नीलसइयोपि कापातलेरयोपि । एव कणपात्तिकोपि । सुद्रुपात्तिकोपि । सम्पगृष्टिमिप्याद्रु
 दिसम्पक्रियम्याद्रुष्टिभ्याम्प्रिमिबोपिअत्रामिसुतत्राम्यवपिअत्राम्यवपिअत्रामिसुतत्रामिनिविजद्रुपात्तारसम्बोप्युक्त (प्रवृत्ति) यावत्परिय

परागोन अइनामना वाधे वाहिस्व ए इत्तना यमावबको । सागारावउत्से वत्तारि यणागारावउत्सि वत्तारिभया । सागारापयुक्त चार धातमाय
 चारापयुक्त पवि चारिभगा इव चार । चेरइवाच भत पावअव्य षि यथो यवर, वधिअइ पुष्पा । नारको ऐभगवन् पापकम क्क् बोधो बधि वधिस्से
 इ म ठगर । नायमा चरअइए वको पठमवित्तिया । ऐभीतम खतसाएके बोध्य इत्ताक्, प्रवम बीआभगो इवे एइरविदे यावि वयना यमावबको इ
 म केम्माटि विये पत नारअपठ अइवा । सलस्य भत चरए पावअव्य एवच । सकेयो ऐभगवन् नारको पापकर्म क्क् बोध्या इत्ताटि इमेइज अइ
 वा । पव अइइकेअरि थोरअरसवि काउसरसवि । इम अअकेयोनि विये पवि अइवा नोअकेयोनि जिये पवि अइवा वापातलगाम विये पवि अइवा ।
 णव अइपरिअडं वि यलपअडं वि । इम अअपायिक पवि अइवा मुक्कपायिक पवि अइवा । सम्मद्धिठी मिच्छाद्धिठी यणामिच्छाद्धिठी । सव्यगटो मि
 च इटो मिअटो । चाको पामिअविअवको ययवाको याविअयो । ज्ञा नो मतिअ नो मुतअनो यवधिअनो । यणाको मरएअको सुपपअको
 विमववाको । यज्ञानो मतिअअनो मुवपअनो विअअ नो । पाहारावउत्सि वत्तारि वत्तारिअवचन । पाहार सन्नापयुक्त वावत् परिणव सन्ना

त्यादी घेणीद्वयानावा त्प्रथमद्वितीयावेव एव ससेध्यादिविद्योपित नारकपदं धाप्यमेव मसुरकुमारविपद मपि ॥ मसुरसधेत्यादि ॥ या स्त्रीवस्य

श्रुत्याणी मइश्रुत्याणी सुश्रुश्रुत्याणी धिन्नगणाणी श्याहारसखीवउत्ते जाव परिग्गहसखीवउत्ते सवेदए णपुसग
धेदए सकसाइ जाय लीन्नकसायी सजोगी मणजोगी यडजोगी कायजोगी सागारोवउत्ते श्रुणागारोवउत्ते
एए सधेसु पदेसु पठमथितिया जगा ज्ञाणियह्या । एव श्रुसुरकुमारस्सधि वत्तह्या णवर तेउलेस्सा इत्यि
धेदगा पुरिसधेदगाय श्रुन्नहिया, णपुसगवेदगा णन्नखइ सस तचेव सधृत्य पठमथितिया जगा । एव जाव

इमत्तोपयत्तसवेदकमपुंसकवेदकसप्यापि (प्रवृत्ति) पाठकोन्नकपायिसपाणिमनोयोगिवाग्योगिकापयोगिसाकारोपयुक्तानाकारापयुक्तयेतेपु
पदेपु प्रथमद्वितीये प्रक्री नखित्त्यौ । एवमसुरकुमारस्यापि वल्लव्यता नवर तखीलश्या । स्त्रीवदकाः पुरुपवेदकाया प्र्यपिकाः । णपुसकवे
इका ननस्यत्ते श्यप तथैव सर्वत्र प्रथमद्वितीयो प्रगी एव यावत्तन्मितकुमारस्य । एव पृथिवीकार्यिकस्यापि । यावत्पन्वे

पजुत्त । सबदए णपुसगवेदए । सबदक नप मकबदक । सबसार जाव खोडकसायो । सबपायो यावत् कामवपायो । सजागी मरजानो वरजागी का
यजानो । सजागी मनायागो वरनयागो कावजागो । सागारावउत्त यवागारावउत्ते । साकारापवुत्त यनाकारापवुत्त । एए सळसु पदस पठमवितिया
भगा भावियका । एए सभनार पठानेविये पडिशा बोत्रा ए वमेगा खीचवा । एव असरकुमारस्यापि वत्तवया । इम असरकुमारना वत्तयता परि वड
शो । बरर तडसत्ता इत्थिवयया पुरिसववनाय यमडिशा णपुसगववगा व मखर सेसतवेर । एतत्ताविमप तेत्रासत्ता खीवटक पुण्यवेदक ए पडिशा व
इशा नपंसकबदक न कडवा येव तिमकोळ नारकोलो परे । सबत्तपठमवितियाभगा एव जाव वडियकुमारस्य । सगळपदे पडिशा कोळ ए वेभगा वड
वा इम यावत् स्तानितकुमारलग कडवा । एव पठवोकाइत्थवि पाडकाइत्थसवि । इम पृथिवीकार्यिकने पवि इमक कडवो ।
जाव पविदिय तिरिक्कत्रावियस्य समत्तपठमवितियाभगा । इम यावत् पचेत्तो तियेवसानिकन पवि कडवा समसेरं पडिशा बोला ए वेभगा कडवा ।

निविद्येयस्य (१८००) ससेवपादिपदविद्येयितस्य च शतुर्नैय्यादिवकल्पतोका सा मनुष्यस्य तथैव निरवद्योपा वाष्या श्रीवमनुष्ययो समानप
मत्वाविति तदेव सर्वेषु पञ्चविद्युतिरकलाः पापकर्मामिस्योका एव ज्ञानावरणीयमपि सामित्यपञ्चविद्युति दृक्कला वाष्या एतदेवाङ्गी-जीव

धणियकुमारस्स । एव पुढवीकाडयस्सवि । ध्याउकाडयस्सवि जाय पचिदियतिरिक्कजोगियस्स सधृत्य
पढमधितिया जगा णवर जस्स जा लेस्सा दिठी णाण ध्युखाण वेदो जोगो जस्स ज्ञ स्थित्य त तस्स ज्ञा
णियत्त, सेस तेहेव । मणुसस्स जञ्जेय जीवपदे वसत्तया सञ्जेव णिरयसेसा ज्ञाणियत्ता । वाणमतरस्स जहा
असुरकुमारस्स । जोहूसियस्स येमाणियस्स एवचेय णवर लेस्साठे ज्ञाणियत्ताठे, सेस तेहेय ज्ञाणियत्ता ।

त्रियतिययोगिकस्य सुवत्र प्रथमद्वितीयी मंथो नवर यस्य पा लेवया दृष्टिज्ञानमज्ञान वदो योषा यस्य यदस्ति तत्तस्य तद्वित्तव्यम् ज्ञापं
तथैव । मनुष्यस्य पाचैव जीवपदे वक्तव्यता साचैव निरवद्योका प्रथितव्या । ज्ञानव्यन्तरस्य पयादुरकुमारस्य । ज्योतिष्कस्य वैभानिकस्यैव तैव न
वर सेवया ज्ञातव्याः । ज्ञेयं तथैव प्रथितव्यम् । जीवो नवत्त । ज्ञानावरणीय कर्म किं बहुवाक्यत्राति भस्सति । एव यथैव पापकर्मको वत्त

वर वत्त वा लेखा दिष्टो वाच । इतथोविशेष जज्ञे निवा लेखा इटी ज्ञान । पचाचपेदा काथो ज्ञाप्य ज्ञ पठ्य तं तस्य साचिदव्य सेव तथैव । पद्दा
न पद वाग जेज्ञे जज्ञे, तेज्ज तेव जज्ञे यं तिमशोच जज्ञे । मणुसस्य ज्ञेय जीवपदे पत्तवत्ता सुवत्र विरकमेसा भाविदव्या । मनुष्यन जि
काशोव जीवपदो वक्तव्यता वदो तिकाशोच निर्विशेषपदे जज्ञे वदो वदो वदो । पाचमतरस्य जज्ञे । पाचमतरस्य जज्ञे । पाचमतरस्य
जुमारस्य । ज्ञानव्यन्तरे ज्ञिस पचरकमारने जज्ञा तिम जज्ञे । ज्ञादिसिदस वेसाचिदस एवसेव । ज्ञातिभोने वैमानिदने पचि रमशोच जज्ञे ।
वर सेवया ज्ञाचिदव्याथा सेव तेव साचिदव्य । एतथाविशेष लेखा काथो लेवो यं तिमशोच सुवत्तां पंचशोचदव्य पापकर्म पाचतीने जज्ञे
वा । जीवेषु मते वाचररिक्क ज्ञाप्य ज्ञि वयो रंवेद वचिदव्य । जीव वेभगवन् ज्ञानावरणीयकर्मने ज्ञु र्वाच्या वाचि वाचिजे । एव जज्ञेव पाचमतरस्य

चं नते । इत्यादि ॥ एतच्च समस्तमपि पूर्वग्रहेषु ज्ञातमीदं यः पुनरत्र विशेषेण स्तारप्रतिपादनार्थमाह-मन्तरमित्यादि ॥ पापकर्मदशकरो जीवपदे
 ममुष्यपदे च पापकर्मपापिपदं सोमकर्मपापिपदं च तत्र मूलसम्परायस्य मोक्षलक्षणापापकर्मोपस्थित्येव चत्वारो प्रकृतौ इव त्वाद्यावयवाभ्या
 यवातरागस्य चागापरीचीयपस्थित्यादिति एव दर्शनायरीषोपलक्षणा वदनीयपदसहकर्मप्रथमे जगत्स्य द्वितीये जन्मो यो निवोसति वृताया

जीयेण जत । गाणाथरणिज्जं कम्म किं यधी यधइ अधिस्सइ एव जहेय पायकम्मस्स वत्तइया जणिया
 तहेय गाणाथरणिज्जस्सथि यत्तइया जणियइया गजर जीवपदे मणुस्सपदेय सकसायी जाय लीजकसाय
 म्मिय पत्तमत्रितिया जगा श्रुथमसु तचेय जाय वेमाणिणं । एव वरिसणाथरणिज्जेणत्रि वरुणो जणियइयो
 णिरथसेस । जीयेण जत ! येवणिज्जं कम्मं किं यधी पुच्छा, गोयमा । छुत्थेभइणं वधी वधइ अधिस्सइ

व्यना प्रथिता तपेयज्ञानाथरणीवस्यापि यत्तथ्यता मन्तर जीवपदं मनुष्यपदं च सकृपायीपावसात्मकपापिनि प्रथमद्वितीयौ प्रकृतौ समसोपं समैव
 यागट्टेमानिकः । एव दर्शनाथरणीय विदकत्वा प्रथितव्यो निरयस्य । जीवो नदत्त । वदनीय कर्म किं यदुवागपुच्छा गौतम । परस्पका

बलवन्त मन्त्रिया । इमं जिनहोम पापकर्मनो वास्यता करो । तत्र च वाचावरविष्णुमपि वतन्त्या भावियन्ता । तिम इहो ज्ञानावरकोच कर्मनो पवि
 यन्त्या करो व इहो विमेषज ते कश्चि-मन्तर जीवपदं मन्तरपदं सकसायी ज्ञानं साहससायोनिय पठमवितियाभगा । एतच्छावित्रय जीव
 पदं तथा मनुष्यवदन विदे जिहा सकृपायीपदं तथा यावत् क्षामभवायपदं तिहा मूलसंपराजन साहस्यच यत्रयपके करो चारिमगा कथा इहा
 ना पविना होम शकभगा करो । पयोतरामन प्र नाथरोय यत्रयपका करो । यत्रसु तपेर जाय वमाविए । य व ॥ तिमहोम इम यावत् वेमा
 निव इति । एव चरिमवावरविष्णुमपि इदगा भाविना विरवसता । इमं दर्शनाथरणीय सपात पवि कश्चवा निविमपपये कश्चवा । जीवेच भते वेय
 निव अयं किं वधी पुच्छा । आ इभगवन् वेदनीयकर्मं ते स्वु वीया । प्र उत्तर । गावता परमपरं प्रथा नव व यच्छ । इ गौतम कतसेरक जो

न मनशात बन्नीपमन्त्रा पुन लान्त्वासा समावा सुतुर्षे लयोगी ॥ सलेसति ययनेय तदपविष्ट्या जंगति ॥ इह तृतीयस्या साव पूर्वोत्सुपुण
 रमप यतप पुन रिटान्युपनापि सव्याभावगमते यतो कपी नयपति नवपिस्वहरपतवयोगिन यव सुस्यति सुच सलक्षया मनवतीति के
 चि तुमराडु रतपय वचनादुयोगताप्रथमसमय पश्टालासाव्यायन परमशुक्लारया साति ससरयस्य पनुयमङ्कः सन्नवति, तस्यतु कुरुमुत

पुत्येगडग यधी यधड णयधिममह अत्येगडग यधी णयधड णयधिसेवि एयचेय ततियविहूगा
 जगा । करहलेसम जाय पम्हलेसे पठमयितिया जगा । सुकलेसम ततिययिहूगा जगा । सुलेसे चरिमो
 जगा । करहपस्किणु पठमवितिणु सुकपस्किया ततिययिहूगा एव सम्मद्विठिस्स मिच्छाद्विठिस्स सम्मामि

बधिरदुयाग्रमिति प्ररस्यति पररयकः बधिरदुवाग्रमिति ननरस्यति । अस्त्येकः बधिरदुवा अ वमति न सरस्यति । सलक्षयाप्ययब्धेन
 एतीयविहोना जगा । असहय पावत्यलक्षये प्रथमद्वितीयोमङ्गी । शुक्लसयप तृतीयविहोना जगा । वरमो जगा । कणपयस्किक प्रथमद्वितीयः
 व बाध्या बाधे बाधिव्य ए भाग पमन्य कडवा । परमराण बरो बरर बधिरस्य । कतसाणक बोध्या बाधे नबापस्य एभागा भव्य निर्बा व कास्य तेकने ।
 परमराण बोधी बधिरा पबधिरस्य । कतसाणक बोधे बाध्या नबाध नवविषय ए बोध्याभागा इहा न एनवे कटगोत्र पबधेने बोधी तडना बडकना य
 भावबको व भेना नडो यन बाध्या नबाधे नवविषये व बोध्याभागा पबागोन इवे ड । ससरमधि एवयन तदपद्विहूबाभागा । इम सखेयोग पचि नै खभी
 विना तोनभया कडवा । कडकरने काय पडलस्य पठमवितियाभागा । कण्यसेयोगे इम यावत् पडलयोगे पडिकी बावाभागा ए वभागा कडवा । सकसे
 इम तदबधिराभागा पमने चरिसामया । यलसखामे विदे बोत्राभया टाको तोनभया कडवा पबगो बोवने विदे बोवाभग कडवा । कडवयाल्लग प
 डमवितिइ कण्यपयिबने पडिका बोध मया कडवा । सुकपस्किगा तदबधिरा । यलपयिबने विदे बोत्राभागा टाकाने तोनभया कडवा । एव स
 य्वा हाणमिच्छाति इणमन्वामिच्छा द्विणपठमवितिया । इम सम्पगडोनेमिण्व इटीने मिचडोत्र पडिकी बोधी गभया इवे । वाविरसतदसधिरा ।

गम्यमिति ॥ इत्यनेन इपादिपञ्चमे ष्यो गित्वात्प्रावादात्प्राचव गुन्तैश्चैवे कीवे सनेय्यनावित्तामगा वाच्या यत्तदेयाङ्-सुक्लनेसेइत्यादि ॥ एतेसे
 इत्यादि ॥ एतदप्यः शैलश्रीगताः किमुप तस्य च एतथा च यप्रति ननरस्यतीर्यच एवस्यतद्वाङ्-अलस्य चरमोति ॥ अथप्यसिउए पठमधीय
 ति ॥ इत्यपाठकस्या षोमित्यात्प्रावात् ॥ सुक्लकित्तपतइयविद्वृत्ति ॥ मुक्तपाठिको यसा दयाग्यपि स्वादत स्वतीयविद्विनीनाः क्षेया स्वस्य सु
 रिति ॥ एव यथादिदिस्य विनि ॥ तस्याप्यपोमित्यसमयन इत्यासम्भवात् मिष्यादृष्टिमिमदृष्टयोथायोगित्वात्प्रावम वदनीपायन्यकस्य नास्तीत्या

च्छाद्विष्टिस्म पठमथितिया । नागिस्स ततियथिह्ना गा श्रान्तित्रयोहियगाणी जात्र मगपञ्जात्रणाणी पठम
 थितिया । केत्रलगाणी ततियथिह्ना गा । एव णोसखोत्रउहे श्रवेदए श्रकसायी सागारोत्रउहे श्रगागारोत्र
 उहे एएसु ततियथिह्ना गा श्रजोगमिमय चरिमो ससेसु पठमथितिया । णेरहएण जत । वेदणिज्ज कम्म कि

श्रान्तपात्तिरान्तनीयविद्विनीना एव सम्पदृष्टिमो मिष्यादृष्टिमः सम्पदृष्टिपुत्रम प्रथमद्वितीयौ । श्रान्तिरस्वतीयविद्विनीना । श्रान्तिमिवाधिक
 प्राभियावम्यन एववप्रामिनः प्रथमद्वितीयौ । कवलप्रान्तिरस्वतीयविद्विनीनाः । एव मो सुक्लीपपुक्को वदकोऽकपायी साकारोपपुक्कोऽमाकाराप
 पुक्क एतन् तृतीयविद्विनीनाः अयोनिनि चरसः इापु प्रथमद्वितीयौ । नेरपिको मदत्त । वदनीय कम्म कि वदथाव्यभ्रति प्रत्यसति ? एय ने

प्रातो न कान्ताप्रान्ते प्रात्रामगा टाको तोनभंगा इवे । पाभिनिकादिउवाची जाव मथपस्यववाचो पठमविविया केरखवा ोतरवविद्वाना । सतिप्रान्ती
 पादिद्वान्ता वाचन् प्रमपयवप्रान्ते एतमान पठिना वात्रा ए वेभंगा अइवा खवसप्रान्तेने षोकाभमे ठासी तोनभंगा इवे । एव चासथावउत्ते चवेदए । एम
 ना मयावपुजने चवइउत्ते । एवसायो मागारावउत्त एवागारावउत्ते । एवसायाने साकारापपुक्कने एतन्कारापपुक्कने । एवस मथविद्ववा अजागमि
 वप/रना नमस पठमवितिया । ए स-स-पठे षोकाभगा टाको तोनभगा इव पयागोने विपे अइसाभगे प्रेयनेविपे पठिना षोकाभगा ० केमगा इवे ।
 चरइ च भंते इयविस्स कर्म्म चिर्बधो चवइ व चरसा । नारको वेभमवन् वेदनेवकम्म प्रते स्रु वाच्या यधि वाधिस्ये इत्यादि । एव चेरइवाशोसा जाव वे

प्रायव स्यात् प्रत्ययाह-मिच्छदिहीत्यादि ४ आत्मिन केवलसिप्यायोगित्वेऽत्मिमी स्ति आनिनिवापिकादिष्वयोगित्वात्तावा ह्या लिस इत्यत्रमा
 ह-भाविस्त्वस्वादि ० एव सयत्र यत्रायोगित्य सम्भवति तत्र चरमो यत्र तु तन्नास्ति तत्राद्यौ हाववति प्रावनीयमिति आयु कस्मदयत्क-वउज
 गति ० तत्र प्रथमा ऽनन्वस्य द्वितीयो यधरमद्यरीरो प्रविष्यति तस्य वृताय पुन रूपश्रमकस्य सहायु बंधुवाग् पूर्वमुपस्रमन्नास न वभ्राति तरम
 तिपतिनस्तु प्ररस्यति चतुषस्तु उपकस्य सद्य्यायवहुवा मयभ्राति न च प्ररस्यतीति सससे इह यावत्करवा रकणसत्रयादियह सत्र को न नि

यधी यधइ अधिस्सह । एव णरहयादीया जात्र वेमाणियसि जस्स ज छाल्य सवृत्यथि पठमत्रितिया णयर
 मणुम्मंसु जहा जीव । जीवेण जते । मोहणिजा कम्म कि यधी यंधह अधिस्सह जहेव पाय कम्म तहेव
 मोहणिज्जापि णिरयमेस जात्र वमाणिए । जीवेण जत । स्याउयकम्म कि यधी यधइ अधिस्सह ? गीयमा ।
 श्रत्येगहए यधी चउजगी । सलस्स जाव सुक्खलेस्स चत्तारि जगा । श्रलेस्स चरिमो जगी । करहपस्किरण

रपिकादिवा यावहुमानिका यस्य पठसि सर्वत्रापि प्रथमाद्वितीयौ णवर मनुष्यपु यथा बीवः । बीवो णरहस । मोहनीय कम्म कि यधुवाग्य
 भ्राति मरस्यति यथैव पाप कम्म तथैव मोहनीयमपि निरवज्य यावहुमानिकाः । बीवो मवत्त । आयु कर्मे कि वधुवाग्यभ्राति प्ररस्यति ? नौ
 मापिवति । इम मारका यादिटो यावत् वेमानिकरणे । णरसज पत्ति मच्छ्ववि पठमवितिवा । अरुज केइके सुगज पचि पडिहा दीजा ए कर्मेगा क

इवा । णवर मल्लमु कडा कावे । पतकाविशय मरुप्पन विवे तिम त्रीरनेविदे कडा तिम कडवा । योधव भंते माहविज्ज कस्य कि कथो यधइ वचिज्ज
 इ । बीवमभेमगबन् माहलोयकम्म एव बीया वाधे वाचिज्ज इ म उत्तर । अरुप पावकस्य तइव माहविज्जपि विरवसस जाव वेमापिए । थिमहीज
 प प०म कथा तिम माहलोयकम्म पचि कडवा पतसे चरित्तमगा निविमयपके कडवा यावत् वेमानिक इति वाधे । बीवेव मत्त पाउउयकस्य कि कथो व
 थइ वचिज्जइ । बीव वममवन् चाउकम्मते एव बीया वाचि त्रिधिजे इ म उत्तर । गाबना भरवगएइ कथो चउजगा । केधोमस केधोमस

र्षस्वति तस्य प्रथमो यस्तु चरमश्चरीरतोत्पत्स्यते तस्य द्वितीय प्रथमशाले प्रतीय , चरमश्चरीरस्य च तृतीय । एव सम्यग्नापि ० अस्सेसचरि
 मोति ॥ असेइयः द्वीनेश्रीमतः विदुव तस्य च वर्तमानजवियत्कालयो रायुपोऽबन्वकत्वा चरमो ननु कथपाचिकस्य प्रथम स्वतीय च सम्भवति ।

पुच्छा , गोयमा ! अत्येगइए अधी यधइ अधिस्सइ । अत्येगइए अधी णवयउ अधिस्सइ । सुक्कापरिकए
 सम्महिठी मिच्छादिठी चक्षारि नंगा । सम्मामिच्छादिठी पुच्छा , गोयमा । अत्येगइए अधी णवयउ अधि
 स्सइ । अत्येगइए अधी णवयइ णवधिस्सइ । णाणी जाव उहिणाणी चक्षारि नंगा । मणपऊअणणी पुच्छा

तम । अरयेक उचिइइगान् यतुनइ । समेइये पावञ्जुल्लमइण चत्तारो नंगा । एणपाणिइपुच्छा गीतम । अस्सपक
 कथिइतुवाणवप्रति नरस्सति । अरयेक कथिइतुवाणवप्रति नरस्सात् । इल्लपाचिके सम्मवृष्टिमिथ्यावृष्ट चत्तारी नंगा । सम्मवृष्टिप्यादृष्टि
 पुच्छा गीतम । अस्सपक कथिइतुवाणवप्रति नरस्सति । अस्सपकः कथिइइवा न यप्रति नरस्सति । इण यवयवयपिणाम चत्तारा नङ्गा ।

दि चारमवा कइवा । सत्तये जाव सत्तयेसे चत्तारिभवा चत्तरस चारमामथा कइपक्खिण्ण पुच्छा । सत्तयामे विपे इम यावत्तु सुल्लसम्मान विपे चत्तवा
 ने चारमवा कइवा चत्तयीन चइवाममा कइवा कथपाचिकना प्रत्यबोधा चत्तर । मावमा चत्तयणए यथो रथए वधिण्णए । चत्तयणमे केतकाण्णे वधि
 यीधे वधिण्णे ए समव्यपायरोन जाववा ए पडिजामागि । चत्त ॥ ए यथो नवधए वधिण्ण । जणसण्णे वधिा नवाधे वधिण्णे ० बोअमगा पाअसा
 ने पवन्थवाक नवाधे एने चत्तरकास ता वधिण्णे योवा योवामागिना इकी पसभव । सुल्लपक्खिा सुल्लदिइा मिच्छादिठो चत्तारिभवा सम्मामिच्छादि
 ठोच पुच्छा । सुल्लपाचिक सम्मवृष्टो मिथ्याइठो ए तोमने विपे चारमगा जाय ते कइवा मिथ्यइठोना प्रत्यबोधा चत्तर । मावमा चत्तयणए यथो चत्तय
 वधिण्णए । द्वीनेतम कतकाण्णे वाधवा नवाधे वधिण्णे ते मिथ्यइठो पाअसा नव ये । चत्तयेणए यथो चत्तयणए यथो चत्तयणए यथो चत्तय
 वधिण्ण इ म । चरमयरोरपरे कतिपक नवाधिल्ल पचि इम चरोन चइवा इय होवमगा पुवे । चापो जाव पाडिवा ० चत्तारिभवा मवपक्खववा

तत्र च प्रथम प्रतीत एव तृतीय इत्यायुकाद्यन्वकाले न बभ्रात्येवोत्तरकालेन तद्भ्रस्वती त्वेवं स्या, द्वितीयवस्तुचीं त तस्य भाप्युपगम्यतीं कृष्ण
 पादिकले कति सवया तद्वत्प्रसमापताया उभाव इतिविवक्षयात् कृष्णपादिकस्य सम्पदृष्ट ए चत्वार एतत् बभ्रुवा भूवे यन्नाति च बंधकाले
 नरस्यतिषा बन्धकालस्यो परि इत्यन्तः बभ्रुवान् बभ्राति न नरस्यति चरमशरीरत्वे इति द्वितीयः तथा बभ्रुवा च यन्नात्यन्धकाले उपपद्यमान
 स्वार्थं वा नरस्यति च पुन बन्धकाले प्रतिपत्तिर्भवति तृतीयः चतुर्थसु उपकस्यति मिय्यादृष्टिसु द्वितीयजङ्गल न नरस्यति चरमशरीरमासी
 तृतीये न बभ्रात्यन्धकाले, चतुर्थे न बभ्रात्यन्धकाले न नरस्यति च चरमशरीरमाप्तविति ॥ सन्नामिच्छत्यादि ॥ सन्नामिच्छत्यादि ॥ सन्नामिच्छत्यादि ॥ सन्नामिच्छत्यादि ॥
 चरमशरीरत्वे च कश्चि च नरस्यत्यपीतकत्वात्पावर्तति क्वानिना चत्वारः प्राग्ब्रह्मवर्षितव्याः । मम पर्यायव्यानिनो द्वितीयवर्षा तत्रासी पूर्वमा

१ गीयमा । अत्येगदृष्टु यधी यधइ यधिससइ । अत्येगदृष्टु यधी गयधइ यधिससइ । अत्येगदृष्टु यधी ग
 यधइ गयधिससइ । केवल्लणाणी शरिमो जगो । एव एरण कमेण णोसयोधउत्ते यितियविहणो जहइव मण

मत्तपर्यवच्छानिष पुष्का गीतम । अस्यको बहुवाक्यभ्राति नरस्यति । अस्यको बहुवाक्यभ्राति नरस्यति । अस्यको बहुवाक्यभ्राति मज
 तस्यति । कबलज्जानिनि चरमो जगः । एवमेतत् कमेण नाशुओपयुक्त द्वितीयवर्षानो यथैव मन पर्यवच्छाने । अवेदक अकपायिके तृतीयवस्तुचीं

वो पुष्का । ज्ञानो वास्तु परधिविज्ञानो यतकानि चारभगा पूठिकोमेरे बभ्रुवा मनपर्यवच्छानोना बभ्रुवोभा चत्वार । गासमा परवेगदृष्टु यधी बभ्रुव बधिसस
 इ । गीतम चत्वारपके पाखवा यन्ना वाधि बधिससि ए परिस्वार्थाना बीजोमीमा इका मरुमेये पने । परवेगदृष्टु यधी बभ्रुव बधिससइ । जेतसा के
 वन्ना नवाधि बधिससि ए बीजोमीयो उपयमधी पद्याने । पावसदृष्टु यधी बभ्रुव यधिससइ । जेतसापके यन्ना नवाधि नवाधिससि ए उपकमे ४ मया ।
 केवल्लणाणी चरिमार्थवा । केवल्लणाणीने चत्वारमगो बभ्रुवो । एवं एरण कमेण चासक्कावत्ते यितियविहण । इम इवे एतुत्तमे ता चत्वारपयुक्तानि बीजोमे
 गो यन्निने मेय दीनभगा बभ्रुवा । अथैव मत्तपर्यवच्छाने पाके एवेदृष्टु यधिससइ । अथैव मत्तपर्यवच्छानोने चत्वार ति

दुःखद्वेषा निदानानीन्तु देवेषु घृणाति ततो मनुष्याय मेरुस्वीति प्रथमः बभूव न प्रस्वीतीति न समस्तत्ववश्यं देवत्वे मनुष्य युषो बन्धना वितिष्ठत्वा
 द्वितीयो ज्ञानि एतौ च पश्यन्मनस्य सच्चि न घृणाति प्रलपति तद्य नरस्यति अपकस्य चतुष एतद्वच दर्शयति न-सवपण्णवस्यादि ॥ कवराणां च
 चरमोति ॥ कवलीदि आयु न घृणाति न च ज्ञास्वीतिष्ठत्वा नो सख्योपयुक्तस्य ज्ञानकत्रयं द्वितीयवर्त्से मम पयवव ज्ञावनीय एतदेवाह-एव एव
 मित्यादि ॥ अथदय इत्यादि ॥ अथदक्षो ऽक्यायी च अथअथपञ्चमकोवा तपोय वतमानवयो नास्व्यापुप उपशमकव प्रतिपतितो नरस्यति, उपक

पञ्चत्राणे । अथेदं अकसाइय ततियधउत्यो जहेव सम्मामिच्छते । अजोगिमि चरिमो सेसेसु पदेसु
 चत्तारि जगा । जाव अणगागारोत्रउत्ते । गरुडणुण नत । अउयकम्म कि थो पुच्छा, गोयमा ! अत्येग
 इणु अत्तारि जगा एव सख्युथि णेरुडयाण चत्तारि जगा । गत्रर करुहलेस्सेसु करुहपरिकणुय पठमततिया

पथेव सम्पन्निप्यात्व । अयागिनि चरम । ओपु पवपु चत्तारो जगा पावदत्ताकारोपयोगयुत्त । नैरयिको ज० । आयु कर्मे कि यद्वशाग्गुच्छा
 गी० । अस्त्येकचत्तारो जगा । एव सयत्रापि नैरयिकाका चत्तारो मगा । नवर कण्ठलक्ष्यपु कान्मपाधिके च मथमवतीयी जगी । सम्पन्नि

म पठव च ५ इ बोवा बोनामगा कइवा जिनशाक मिन्दुटीने कइवा तिम कइवा । अजागि म चरिमा ससुपदम चत्तारिमग जाय चचाग, रावठ
 त चर०५ भी पाठवकव्य कि कथा पच्छा । अवागामिथि जेइवाभगा कइ । एइ कइवा तेइको अनेरापदने विपे चारमगा कइवा यावत् अनाकारोपयु
 त्त पतत्ताकरी न रको हेमवचन् पाअछाकमपते खू वावा इ प ठतर । जायमा परबगएए चत्तारिमगा एव सख्युथि चेररावाचं चत्तारिमगा । जे
 भोगम इवा चारईमगा इव तिवा बन्धवासननिष पाइनामगा पामवावाच्य भवनिहिजन बोका वग्गवाच अभाय अने भावि वग्गवाच मतेपपचीने नो
 वा पन परभइ पाअछागना कइकोधा पनकर पामसे चरमभइ तइन पोया ४ इम सगसेर नारकीन चारमगा कइवा । पवर कइइसेस अचप
 कि य पठमरायमगा उप मच्छा त, चउठत्वा । तकां अथ अस्यापदनिपे कख्युथयो नारइन तथा उख्युथि च नारइने परिइवा वाजा ए वभगा

खु ने १ प्रसस्तीतिरुत्या तयो स्तुतीपयस ४ सर्वे १ खीखेदादि व सङ्गपाय १ कोपादिक्कपाय ४ उयोगि १ मनीयोग्यादि ३ साकारीपयुक्तागा
 कारीपयुक्कसद्वेषेयु बत्वार पबति नारकदबलक ३ चत्वारि जगति ३ तत्र नारक आयु यदुवाम् यथाति यन्महास भस्स्यति जवान्तर इत्यस प्रा
 मथ्यसिद्धिस्तु द्वितीय बन्धकासाजाव माविष्यन्काल चापश्य दृग य यदुपरजत्रिकापयो ५त्तत्तर प्राप्त्यपरमनस्व सतयः एव सत्रत्र त्रि
 शयमाह-नगरमित्यादि ३ सङ्गपापह कृष्णसङ्घययु भारकपु मयमस्तुतीयी तथाहि-कृष्णसङ्घयो नारको यद्वान वचनाति नरस्यतिषीत प्रथम प्रती

जगा, सम्मामिच्छुंसे ततियचउत्यो । असुरकुमारे एवंचव पावर कण्हलेस्सेसुवि चत्वारि जगा ज्ञाणियञ्जा
 सेस जहा णेरुडयाण । एव ज्ञाथ थणियकुमारा । पुढथीकाडयाण सव्वत्थयि चत्वारि जगा गवर कण्हपस्कि
 यपठमत्ततिचजगा । तेउलेस्से पुच्छा, गीयमा ! यधी णयघड्ठ थधिस्सवड्ठ । सेसेसु सव्वत्थ चत्वारि जगा ,

प्रयात्से सुतीयचत्तुपी । असुरकुमार एवं चैव नवर कृष्णसङ्घययुपि बत्तारी जगा तच्छित्तव्याः इप यथा निरयिबाणा एव यावदस्तमित्तसु
 मारबाय् । पृथिवीकायिकाता सव्वत्थयि बत्तारा जगा नवर कृष्णपासिंसे प्रथमदुतीपी मणी । ततोत्तरपपुक्का गीतस । वदुवाक्कचत्तारि
 इवे मियट्टाने पाडुवचना पभारकवी बाका बीनामगा इव । एसरकनारे पबचन । असुरकुमारनविये पवि इमकोत्र कडवा । चवर वपइमरसेमवि
 चत्तारिभगा भावियथा सेस जहा केटरबाच एव काव कविचकुमारा । एतत्तात्रियेय अण्णुसेयीने विपे पवि चारभगा इवे ते वडवा येव किम न इतो
 ने कञ्जा तिम कडवा इम वाचत् प्पुजितकमारएवग कडवा । पुठकोबाणाच सव्वत्थवि चत्तारिभगा । पृथिवीकाविक्रमे नगसरा स्तानक पवि चारभगा
 कडवा । चवर कपइपत्तिस पठमवित्तिवाम १ तेठकवरे पुक्का । एतथाविमय अण्णुपाविक्रमे विपे पठिका एन बीजा ए इभगा कडवा तेकाठियाभी प्र
 यकीथा एत्तर । भावमा कवी चवंचर वपिच्छ । जेगीतस इवी चोत्रामगा इवे कार्पक टव तेजासेयी पृथिवीकाविक्रम विपे अण्णुमा तेइ चपर्यास एव
 खावे तथासेयी इवे ता तथासेव्या मित्था पण्णु पाअञ्जावाचे तेसाट वीञ्जा नवाचे वीपञ्जे ए बीजाभंगगा इवे । सचसु सपण्णु चत्तारिभगा । येव क्वेववि

इकाइयावर्षवर्षि ॥ छन्द्यायेन रुद्रपाण्डिकपु प्रथमवृत्तीयज्ञौ तेजोसहयायां च वृत्तीयज्ञसुसमय स्तोत्रित्यर्थी स्यत्रतु चत्वार ॥ तेजोसहयायादि ० तत्ररक्षापिडकायुकायिकामा सुवत्र एकादशस्त्रवि स्थानकवित्यथ प्रथमवृत्तीयज्ञौ प्रवत स्तत स्तत उक्त उक्तानाममन्तर मनुष्यमनुष्यत्वस्यासिद्धिगम नाप्राप्तम द्वितीयवृत्तार्थसम्भवात् मनुष्यवृत्तुत्पत्ति यैतयां-सप्तममन्त्रिनरइया तत्रवाजसुवतसुवहा । त्रयपाथमायुसुव तद्वसससारायसुव ॥ १ ॥ इति वषणवर्षि ॥ त्रयदिपत्यादि ० विक्लम्निप्रयाजा सुवत्र प्रथमवृत्तायज्ञौ यत स्ततउक्ताना मानन्तर्येव सत्यापि मानुष्यत्वे निर्वांवाप्राव सस्माव्व स्य पुन सया मायुया इत्य इति यतुव-दिकसेन्निप्रयाजा सुवत्र प्रथमवृत्तीयज्ञाविति तदपवावमाइ-नवर समते इत्यादि ० सम्मन्त्रे ज्ञान प्राप्ति

वेडावियतेइदियत्रउरिदियाणपि ससृत्यवि पठमततिया जगा, गवर सम्मन्त्रे श्यान्निग्योहियणाणे सुय गाणे ततितु जगौ । पचिदियतिरिक्कजोणियाण कयहपरिकए पठमततिया जगा । सम्मामिच्छहे ततियवउत्यो जगौ, सम्मन्त्रे गाण श्यान्निग्योहियणाणे सुश्रणाण उहिगाण एएसु पचसु वितियधिहगा जगा, सेसेसु यौ जगौ । हीन्निप्रयत्रीन्निप्रयवतुनिरिन्निप्रयावासापि सुवत्रापि प्रथमवृत्तायी जगौ नवर सम्मन्त्रे श्यान्नियोपिच्छाने सुतज्ञान वृत्तीयो जगः । पचन्निप्रयतिपयोनिज्ञाना रुद्रपाण्डिकच प्रथमवृत्तीयौ जगौ । सम्यक्मिध्यात्ये वृत्तीयवतुयो जगौ । सम्मन्त्रे ज्ञाने श्यान्निवापिच्छाने सुत ज्ञान यथापच्छाने एतपु पचसुपि द्वितीयविष्ठीना जगा शयेपु चत्वारोजगू । मनुष्याका यथा सीधाना नवर सम्मन्त्राऽवधिज्ञान सुतज्ञान

रिक्कनाऽवकाच कचपरिकए पठमततया मया । पचेन्निप्र तियवकागिकने छण्यपाचिकने विवे पठिका भोजाभंगा इवे छण्यपाचिक यालखा वधीनि यवरा चवतीन तत्रका चववच यनन्तरक न इवे । सद्य मिच्छत तत्र चरत्वा मया । सम्मन्त्रियादृष्टिन भोजा योवाभ । इवे । सद्यत वावे यामिपि वाचिकयाच सपकाच पाचिकावे एएसु पचस वितितविरिहूना मया सेसेसु यता मया । सम्मन्त्रे विप ज्ञाननेदिये सतिच नन उतज्ञानमन्त्रिवे चवधिजा नमविप इ ए पाच पदमन्त्रिये भोजामा पच्छाने तानभवा । इतं यमपदमन्त्रिये चरत्वा । मनुष्यावे जहा जायाच । मनुष्यन जिन कोवने जहा

त्रियोषिषे मृते च विबसन्निद्रियाकां वृतीय एव यत सम्यक्तावीमि तथा सासादमन्नायेनापयसकावस्थायामेव तेषुवापयते द्यापुयीभ्यश्च इत्यतः
 पूर्वजव द्युबन्तः सम्यक्ताद्यावस्थायौ न वन्निति तदनन्तर एव प्ररस्यतीति वृतीय इति ॥ पश्चिद्विपतिरिच्छत्यादि ॥ पञ्चेन्द्रियसिरया कृत्रयाणि
 कपदे प्रथमवृतीयौ इत्यप्यधिको हि द्यापुर्वसा अयस्यावा तदवत्यको अनन्तरमेव न जवति तस्य सिद्धुगमनापाप्यस्यादिति ॥ सम्यामिच्छते तद्वय
 चठत्यिति ॥ सम्यग्मिच्छ्यावृष्टे रापुयी द्यवज्जावात् वृतीयवृत्तुषौघव ज्ञावित चैतत् प्रागेवति ॥ संमतइत्यादि ॥ पञ्चन्द्रियतिरया सम्यक्तादिपु
 पञ्चसु द्वितीयवल्को प्रकृता जवति कथं यद्वरसम्यग्दृष्ट्यादिः पञ्चेन्द्रियतिर्यङ् द्यापु संभ्राति तदा देवघय स च पुनरपि प्ररस्यतीति न द्वितीय
 सुभवाः प्रथमवृतीयौ तु प्रतीतावध, अनुयः पुनरव यदा मनुष्यपु यद्व्यापु रसौ सम्यक्तादिप्रतिपद्यत अनन्तर एव प्रास्य्यवरमनव सार्ववति ॥ मयु

चक्षारि जगा । मणुस्साण जहा जीयाण जवर सम्मत्ते उहियणाणे सुयणाणे उहियणाणे एणसु वितियविच्छणा
 जगा, संसतथेय । याणमतरजाहिसियवेमाणिया जहा अ्सुरकुमारा । णाम गीय अ्यतराइय च एयाणि जहा
 णाणायरणिज्ज । सेव जत । जत । सि जाव विहरइ ॥ अधिसयस्स पढमो उव्वेसी सम्मत्तो ॥ २६ ॥

श्रीपिच्छान एतपु द्वितीयविहीमाजङ्गः । शेष तथैव बालव्यन्तरन्योतिप्रयैमानिकामां यथा असुरकुमाराणां नाम गीत्र मल्लरायणैतानि यथा
 प्राणावरणीये । तदव जदल । जदल । इति यावद्विहरति ॥ यण्यशतस्यप्रथमोदृष्ट स्वमासः ॥ २६ ॥

तिम कइवा । बबरं सुक्यत पाडिबबावे सयबावे पाडियबावे एएव वितियविपूबामं । एतस्साविशय सम्यक्त्तने विपे शोपिच्छानने विपे
 युतज्ञानन विपे चबधिज्ञानन विपे एएव न विपे मनुबने बोजाभामा बळ्ळीने तीमभगा कइवा शय तिमकोव कइवा । वाचमतरजाहिसिय समाचिया ।
 बालव्यन्तर ल्यातियो वैमानिक ए तीम । कइवा अमरकुमारा बाम गाई अतराइय एबाबि कइवा बाबावरचिच्छं । तिम अमुरकुमारने कइवा तिम
 कइवा नाम याव पन्तराय ए तीम तिम प्राणावरणीय कइवा तिमकोव तिमिमेप कइवा । सेव भते २ ति जाव विहरइ । तइति प्रेमगवन् इत्यादि

इमं त्वं जहा श्रीशान्ति ॥ इह विद्योपमाश्च नगरमित्यादि ॥ सम्यक्ज्ञानामात्म्याद्यानादिषु पश्यतु परेषु मनुष्याद्वितीयविहीनाः ज्ञानमात्रेण-पण्येन्द्रिय
 निपद्यन्तु न्यस्यति ॥ यद्विशालितमयात्त प्रथमः ॥ २६ ॥ १ ॥ अथभोवृषाण्य जीवादिद्वारैकादशकप्रतिबद्धे भवन्तिः पापकर्मो

अणतरोयत्रयाणं जन्ते ! गेरुइए पात्र कम्म किं यधी पच्छा तहेय , गोयमा । अत्येगइए यंधी पठमयि
 तिया जंगा । सलेस्मेण जन्ते । अणतरोयत्रयो गेरुइए पात्र कम्म किं यधी पुच्छा , गोयमा ! पठमयितिया
 जंगा , अथं सलु मसुत्य पठमयितिया जंगा गय्रर सम्मामिच्छुत्त मणजोगी वइजोगी य ण पुच्छिज्जइ एवं

पपल्लो जइत्त । नेरपिका पापं कम्म किं यदुवाग्गुच्छा तपेव गीत्तम । अस्यलोवदुवाग्गप्रमद्वितीयो जइत्त । सलस्यो जइत्त । अणतरोप
 यत्रा नेरपिक पाप कम्म किं यदुवाग्गुच्छा , गीत्तम । प्रथमद्वितीयो जइत्त एव खलु सुवत्र प्रथमद्वितीयो जइत्त नवर सम्पत्तिप्यात्त मनोयो

याश्च निचरे । अधिसकस्यपठमा इहेमा मज्झमा । ए वधियत्तकने विपे पडिसा उवया कज्जा ॥ २६ ॥ ६ ॥ पडिने उइये जोवादिहार ए
 वाइयव प्रतिवह पापकर्मोत्ति पकरवेवरो जोवादि पक्वोमस्तानव कज्जा , इय सोल उइय पवि तेडोव विमज्ज चोवीसपद् कइये-पचतए ववण्ण
 व भते केरए पापकस्य किं यधी पुच्छा तहेय । पत्तलरापपयव हेभगवज्जगारको पापकम प्रते षू वाञ्छो इ म उत्तर । गायमा अटवेगए यधी पठम
 विनिया भवा । इभीतम इहा पडिक्का हाकभवा इवे कतमेएके इत्यादि पत्तलरापपयव नारकने मीइसस्य पापकमला पयवकपयर्थाणा पसअयवको
 ते पापकमो पक्वकयथा पुत्तमपरावाटिकनेविपे इवे तेइ पत्तलरोत्पय नारकने महीवे । अलेस्सेव भते पचतरायवणे केरए पावकस्य किं यधी पु
 ष्ठा । मनोयो हेभगवन् पत्तलरापपय नारको पापकर्म प्रते षू वाञ्छो इ म उत्तर । गोयमा पठमवितियसंगे । इभीतम इहा पडिक्को जोवाभय
 इवे । एव पुत्तलरापपयव विनिया भवा । इम निपे मयलेइ निग्वादिक्क पकनेविपे पडिक्को बोका ० वेभगा कइया । अवर सम्मामिच्छत्त मज्झामो वइके
 याव वपुच्छिज्जइ एव चार वनियकमाए । एतस्सामिसेप मिचइटो मनोयागी पचनयाग इ तोज वयपि नारकनेवे तवा अणत्तरात्पयवने नइो इम वापत्त

दिप्रकारे जीवादीनि पञ्चविंशतितीर्थस्थामानि निरूपयित्वाभि द्वितीये पिय तथैव तानि बहुविधैरिति लिख्यन्ते इत्यर्थं सम्बद्धस्यास्यैवमादिसूत्र-
 प्रकतरोक्त्वैवमित्यादि ॥ इत्याद्यावत् प्रकृती समतरोत्पन्नारक्तस्य मोहसदृशव्यापकसंश्लेषकत्वाद्युक्तत्वात् तद्वि शूस्वसस्वरार्यादियु प्रवति तानि च
 तस्य न सम्भवतीति ॥ उक्तव्यति ॥ लवयादियदेषु एतसु च लवयादियदेषु सामान्यतो कारकादीना सम्भवत्यपि यानि पदान्यन्तरोत्पन्नारका
 दीना मयप्राप्तत्वन सति तानि तथा न प्रकृतीयानीति दृश्यन्ते ॥ नवरमित्यादि ॥ तत्र सम्पन्मित्यात्वाद्युक्तत्रय यद्यपि भारकावा मस्ति तथा

जात्र धाणियकुमारा । वेडदियतेइदियच्चउरिवियाण थडुजोगी ण जसुइ । पंचिवियतिरिक्जोगियाण पि
 सम्नामिच्छुत्त । ठहियाणयिन्नगणान मणजोगी थडुजोगी एयाणि पच ण जसुति । मणुस्साण थुलेस्सा
 सम्नामिच्छुत्तमणपञ्जत्रणाणकेत्रलणाणयिन्नगणाणगीससुोवउहे थुवंदगथुक्कसायीमणजोगीथडुजोगीथुजो

गो वाग्योवय न पुरस्त एव यावत्कानितकुमारा । द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियवतु रीन्द्रियाका वाग्योगो न प्रकृते पञ्चन्द्रियतियग्यानिशानामपि ।
 सम्पद्मिप्यात्वं अवपिच्छान विचङ्गुजान मनोयोगो वाग्योन यतानि पञ्च न प्रकृत । समुद्रावात्मलहासुस्यमिद्धिप्यात्वंमन पयपञ्चानकवस
 द्वाकविमङ्गुजाननीसञ्जीपुच्छावेदकाकपायिमनोयोगिवाग्योग्यताम्येकावसुपदानि न प्रकृत । वाग्यन्तरन्योतिरुवैमानिकाना यथा

स्नानिकुम रक्त कडवा । वेददिय तद्विच यत्ररिडिकाच वाखागा च भवत् । वेददिय तद्विच यत्ररिडिकने यत्ररिडिक न कडवा । पंचिंदिक् तिरिक्क
 त्रानिकवाकपि । पंचेद्विक् तिसकयानिकने प च । सद्यामिच्छन पादिकाच विमगाच मचजागा वरजागा एयादि पच चभवति । मिथु ॥ अवपिच्छान
 विमङ्गुजान मनाभाग वचयाय ए पच न कडवा । मचस्याच यलेस्था सुत्तमिच्छन । मणुक्ते पसेयौ मिथुदटी । मणपल्लववाच जत्रसत्याच विमगा
 च ना लसात्रत्त । मणपल्लवजान वैमङ्गु न विमङ्गुजान ना सञ्जापयुत्त । पंचेद्वग यकसाथी मचजीगी वाखागी पसेयौ ठवाचि ॥ वारसपयादि च
 भवति । पंचेद्वक यकसाद मनाबाी वचनबाी पसागी ए रव्यारिपद न कडवा ११ । वाचसठर वादिसिक्क ममापिया जत्रा वेरवाच तथैव तिच्छि च

गोहा नन्दरीस्यव्यसया तेषां सञ्जाहोति न मन्वन्तीयेमेव मुचरत्रापि आयु कर्मदशकके-मन्वस्वाह सवृत्य तदपकउत्यति ॥ यतो ऽनन्तरीस्यको

गी एयाणि एक्कारसपयाणि ण ज्ञयति । बाणमतरजोहसियेमाणिया जहा णेरइयाण तहेत्र तिखिण ण
ज्ञयति, सवेसि जाणि सेसाणि ठाणाणि सवृत्य पठमथितिया जहा । एगिविया सवृत्य पठमथितिया जहा
पात्रे । एय जाणात्ररिण्जोगात्रे दकुरु, एय आउयवज्जोसु जाय अतराहए वकुरु, अणतरीवयवएण जने ।
णेरहए आउय कम्म कि यधी पुच्छा, गीयमा । यधी णयधठ यधिस्सइ । सलेस्सेण ज्ञत । अणतरीवयवएण

नेरपिबाकां तपेव जपो (जङ्गाः) न तस्सन्ते सर्वेषां पाणि अपाणे स्वामानि सवप्र मयसद्धितीपी नङ्गी एकन्त्रिया सवत्र प्रपमद्धितीया
यया पाप । एव ज्ञाणावरपीमनापि ददत्तवः । एवयायुवज्जोसु पावदन्तरायिकवकळकः । अन्तरीवपकाको प्रवत्त । नेरपिक आयु कर्म कि
यदुवागपुष्पा गीतम । यदुवा अ ज्ञाति तस्सस्ति । ससश्यो प्रवत्त । अन्तरीवपकाको नेरपिक आयु कर्म कि जदुवानव वैव वृतापोजङ्गः

मयति । बाणअन्तर ज्वातिवो वेनागिक विम नारकोत तिम तोत न कइवा । सवेसि काकि सवाचि ठावाचि समत्त पठमविविधा भगा । सर्वेजने
इ येव ज्ञानक एतन्न न पूच्छा न तेइको अय तइ ज्ञानके समवेर पडिका कोपी ए वेभना कइवा । एमिदिया सवत्त पठमवितिहा कइवा पावे । एवेइ
न यतसेइ ज्ञानकमेदिये पडिका बीजा कइवा जित पापन कइवा तिम । एव वावावरपिज्जयवि इइया एवं पाठवज्जोस काय अतराहए वकुरा । इम
ज्ञानाहरीय यद्यति एपि दइइव कइवी इम पाठव्या पर्वीनि जायन् एत्तरापिक इइव कइवा । एवतराववएव भते अहए पाठववव विं व
पीपकः । अन्तरीवपयव इमगवन् नारक पाठवज्जोसते चू वाधा इ म उतर । काजमा यधी वयवइ वंविक्कइ । वेभोतम वाज्या नवावे वाधिय ए
वीकामोना इवे । एमसेव भते एवतरावववव कइए पाठववव विं यधी एववव तइयाभगा । सवेसी वेभमवन् एमन्तरापयकन्न नारक पाठवज्जोसने
पते चू वाधा इवादि इमकोव आकामगी इवे । एव ताव यवागारावकते सवत्तवि तइयोभेगा एव अनुकपवव जात्र वेसाचिवा । इम वावव यवावा

मनुष्यो नापु यन्नाति नतस्यति पुन परमहारीर शक्यसौ न यन्नाति न च अंतस्सतीति ० कश्चिपक्विसु तदर्थेति ० कृष्णपाणिशिवसि न प्रतुस्यती
 स्येतस्य परस्यासन्नवात वृत्तीयपव ० सद्युधि नाशताइं ताइ चवति ॥ सर्वेषां नारकादिनीवाना यानि पापकर्मदहनकमिहितानि नामात्वानि
 ताव्येवायुदहन चैति ० पशुश्रुतितमवाते द्वितीयः ॥ २ ॥ ० द्वितीयोदुष्टको उमन्नरापयका नारकादीनामित्याह इव

णेरइए अ्याउय कम्म किं थंधी एवचेय ततिठं जगो । एत्र जाय अ्यागागारोवउसे सद्युत्थि ततिठं जगो ।
 एयं मणुस्सवज्जा जाव थंमाणिया । मणुस्साण सद्युत्थततिठं चउत्थो जगो णवर करइहपस्किएसु ततिठं जगो
 सद्युत्थि णागझाइ चैव सेव जते । जतं ! ति ॥ थधिसयस्स थिततिठउद्देसी सम्मत्तो ॥ २६ ॥ २ ॥
 परपरोथयणुणं जते । णेरइए पाव कम्म किं थंधी पुच्छा, गोयमा ! अ्युत्थेगइए पठमविततिठं एव जहेअ

एव पावदनाकारोपपन्न सुवत्रापि वृत्तीयोत्तङ्ग । एव मनुष्यवर्ण्येयावहुंमामिकाः । मनुष्याणां सर्वत्र वृत्तियो वतुर्षो जङ्गः । नवरं कृष्णपाणिंकेपु
 वृत्तीयोत्तङ्गः सर्वेषां नामात्वानि तानि चैव तदेव प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ वत्थिद्यतस्य द्वितीयोदुष्टः ॥ २६ ॥ २ ॥ परम्परोपपत्तका
 प्रदत्त । नैरयिक पाप कर्म किं बहुवाणुच्छा, गीतस । अस्येकः प्रथमद्वितीयः । एव पर्येव प्रथमकोदुष्कृतस्यैव परास्परोपपत्तकै सममपि

रापवृत्तने विधे मगहेर पदि बोवाभ । कइवा इम मनुष्यवर्ण्येति यावत् नैमानिकने कइवा । मवस्याह सवत्स ताइपा वतलोभगा । मनुष्य सयसोर्षी बो
 वा बोवाभगा इवे । कइर कश्चिपक्विसु तइपाभगा । एतकावियेय कश्यपाचिक्वने विधे बोवाभगा । सव्वेसि नाकताइं चव । सर्वं नागाखमेह तेहोच व
 च्चनविधे कइवा सेवं मतेर ति । तइति हेममग्न ॥ कश्चिदस्य वितिपा उइसा सव्वता ॥ कश्चिमतकगो बोवाउहेगपूरा ववा ॥ २६ ॥ २ ॥
 परपरावववव भते केरइए पावं कश्चि कइ बो पच्छा । परपरात्ययक हेममग्न नारक पापकम स्युं वाधे इ प्र उत्तर । गायमा पत्थिगरए पठमविति
 पा । इयोतन वेतकाएक इत्यादि पविशा बोवाभगा कइवा । एव कइव पठमपा उइसथो तइइ परपरावववववइवि चइसपा भावियव्वा । इम वि

पच्छा, गोयमा । एय जहेव शृणतरोयवखण्णि उदेसो तहेव निरवनेसो सेव जते । जते । त्ति ॥ वधिंस
यम्न वठो उदेसो सम्मत्तो ॥ २६ ॥ ६ ॥ परपराहारण जते । णेरइए पाव कम्म कि यधी
पच्छा, गोयमा । एय जहेव परपरोयवखण्णि उदेसो तहेव निरवनेसो ज्ञाणियसो सेव जते । जते । त्ति
अधिसयम्म सनत्तो उदेसो सम्मत्तो ॥ २६ ॥ ७ ॥ शृणतरपजासण जते ! णेरइए पाव कम्म

अथ पञ्चमाह ॥ २६ ॥ ५ ॥ एतत्पराहारका प्रदत्त । नैरयिक पापं कर्म कि बहुवाग्पुष्पाः गौतम । एव यथे
निरवनेससपेव निरवण्यसद्व प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ वधिंयत यथादेशः ॥ २६ ॥ ६ ॥ परस्परपराहारको जग ।
अथ पयैव परस्परपपयकेरुहुदासापेव निरवण्यो ज्ञापितव्यस्तद्वं प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥
अथ ऋणमाह ॥ २६ ॥ ३ ॥ एतत्परपयासको प्रदत्त । नैरयिकः पाप कर्म कि बहुवाग्पुष्पा गौतम । एव यथैवान्तरो

रुवा २६ ॥ ३ ॥ परपराहारएवं मत करइए पावक्य कि बधो पुष्पा । एतत्पर पाहारपया ते प्रथमसमय बर्त्ती ते
एव नारको पापकम च्च बधिा ६ ५ उत्तर । गोयमा एव जहेव एतत्पराहारएवं उदेसा तत्र वियसया । इतीतम इम
एव बधयते उदेसा ज्ञा तिमहीव इती पवि समस्तपचे बधया । वेवमते २ ति । तद्वति हेमगन् इत्यादि । वधिसयण क्का
। वधियगको इहाउदेसा पूरा बवा ॥ २६ ॥ ६ ॥ परंपराहारएवं मते केरइए पावक्य कि बधो पुष्पा । परपराहा
एव बर्त्ती हेमगन् नारको पापकम मते च्च बधिा ६ ५ उत्तर । गोयमा एव जहेव परंपरोयवखण्णि उदेसा तत्रेव वियसयेव
महीव परिपाल्यबधयते उदेसा ज्ञो तिमहीव समस्तपचे बरो इती पवि बधयी । एवं मते २ ति । तद्वति हेमगन्
तमा उदेसायजता । इ वधिंयतजना ज्ञातमा उदेय पूरो बधो ॥ २६ ॥ ७ ॥ एतत्परपयसएवं मते केरइए पा

वाङ्मयस्यैव मन्वया ऽमन्तरोत्पत्त्यामन्तराज्याहयो निविशेपता न स्यादुक्ता वासो-जह्वेववाचमन्तरोववण्णशीत्यादिना, एवं परस्परवावगाहोपि ऽ
 अन्तराहारएति ॥ आहारकालप्रथमसमयवर्ती परस्परआहारक हत्याहारकालस्य द्वितीयाविसमयवर्ती ॥ अन्तरपञ्चतएति ॥ पर्याप्तकालप्रथमसमय

किं यधी पुच्छा, गीयमा ! एव जहेव अणतरोवययुएहि उव्वेसो तहेव गिरवससं सव जते । जते ! सि
 यधिसयस्स अणमो उव्वेसो सम्मघो ॥ २६ ॥ ८ ॥ परपरोपजासएण जते ! णेरुएण पाव कि
 अधी पुच्छा, गीयमा ! एव जहेव परपरोवययुएहि उव्वेसो तहेव गिरवससो जाणियधो सेव जते ! जते !
 सि ॥ यधिसयस्स णवमो ॥ २६ ॥ ९ ॥ चरिमेण जते ! णेरुएण पाव कम्म किं यधी पुच्छा ,

पपञ्जेहेससस्यैव गिरवसोपसदव जवत्त । जवत्त । इति ॥ अण्णियत्तऽपुमोएण ॥ २६ ॥ ८ ॥ परस्परपर्याप्तका जवत्त । नैरयिकः
 पायं कम किं यदुवागपुच्छा, गीतम । एव यथैव परस्परोपपयव्वेहेससस्यैव गिरवसयो अणितव्यसद्वेव मवत्त । जवत्त । इति ॥ अण्णियत्त
 जवत्त ॥ २६ ॥ ९ ॥ चरमो जवत्त । नैरयिकः पाप कम किं यदुवागपुच्छा गीतम । एव यथैव परस्परोपपयव्वेहेसस्यैव

ववत्त किं यधी पुच्छा । पर्याप्तपये पणिका समजनेविये धत्ते ते अन्तरपर्याप्तव हेममवन् नारको पायकम खू वाध्या वधि वाधियो ९ म उत्तर ।
 नावमा एव जहेव परपराववण्णएहि उव्वेसो तहेव चिरवसेव । हेगीतम इम किमहीज अणगणरात्ययव सवत्ते उव्वेसो कथा तिमहीज निनिंयवपये
 कव्वमा । सेव भते २ ति । तव्वति हेममवन् इत्यादि । वधिसवस्य यइमा उव्वेसा सवत्ता । एवधियतव्वमा याठमा उव्वेसो प्रीयसा ॥ २६ ॥ ८ ॥
 परपरापञ्चतएवं भत वेरएण पावकस्य किं यधी पुच्छा । परपरपर्याप्तव द्वितोवाठिक समसववर्ती ते हेममवन् नारक पापकम खू वाध्या ९ म उत्तर
 र । नावमा णव जहेव परपराववण्णएहि उव्वेसो तहेव चिरवसेसा भाणियवथा । हेगीतम इम किमहीज परपरात्ययव सवत्ते उव्वेसो कथा तिमहीज
 निनिंयवपये कव्वमा । जवत्त २ ति । तव्वति हेममवन् इत्यादि । वधिसवस्य यइमा उव्वेसा सवत्ता । ए वधियतव्वमा जवत्ता उव्वेसा प्रीयवो ॥ २६ ॥

बन्तो य ए पर्याप्तिसिद्धिदायि तत उत्तरजालमेव पापकर्तादिवन्व्यसलकारो प्रवर्तीत्यसा वनन्तरोपपन्नकड व्यपविहपते अतएवाह-एव ज्ञेय मयं
 तरोववकषीस्मादि ॥ तथा ॥ अरमस्य प्रत । नेरइयति ॥ इह अरमो यः पुन सा जलं न प्राप्स्यति ॥ एवमेषेवत्यादि ॥ इह च यद्यपि अविद्योये
 चातिदुष्ट इव सभायि विद्योयोगलव्य सायादि-अरमोदुष्टका परमरोपपन्नकोदुष्टकाश्च इत्युक्त परपरोदुष्टका य प्रथमोदुष्टकात् तत्र य मनु

गीयमा । एव जहेत्र परपरोययसुगृहि उद्देशो तहेत्र अरिमोहि गिरयसेस सेत्र जते । जते । सि ॥ जाय विह
 रइ ॥ अधिमयसस दसमो ॥ २६ ॥ १० ॥ अथरिमंण जते । णेरइए पाव कम्म कि धधी पुच्छा
 गीयमा ! स्युत्येगहए अहेव पठमुद्देशए तहेव पठमवित्तं ज्ञाणियधी सव्वस्य जात्र पच्चिदियतिरिक्कजोणि

सापेव अरमोनेरवमेयो (मखितव्याः) तरेव मरुत । जदत्त । इति यावद्विहरति ॥ अन्विषयात दसुमोदुष्ट ॥ २६ ॥ १० ॥

अरमो मरुत । नैरयिका पाप कस चि बहुवाएपुच्छा गीतम । अरस्येकोयपेव प्रमथीदुष्टक सापेव प्रथमद्वितीयो मखितव्य सवत्र पायत्य

चि मर्षं भते अरएव पावकव्य चि यथो पुच्छा । इहा अरम अइ वधो तइ भव नओपामस्ये तेइ अरम इभमवन् पापवमस्य् बोधा इ म अतर । गा
 रमा एव अइइ परपरावकषुदि अहेसा । हेगोतम इम अिमओव परपरात्यवकषयात उद्देश्या कक्षा । तइव अरिमोहि विरमसस । तिमओव अरमस
 याने पचि निरवयोपके कइवो । सवर्भते इ ति जाय विहरइ । तइति हेभगवन् इत्यादि वावत् विचरे ॥ अचिसवस्य टवमाउद्देश्या सव्वसा ॥ ए वधि
 यतकना उयसाकपुद्दया पूरावया ॥ २६ ॥ १ ॥ अथरिमिच भत अेरए पावकव्यं चि यथो पुच्छा । अथरिम ते अइ मभते वधो पामस्ये
 तेइ इभगवन् नारको पापवम मते स्य् बोधा इ म अतर । गावना अरमसए अहेव पठमउद्देशए तहेव पठमवित्तयो भाविदव्या । हेमोतम अेतका
 एव इत्यादि तिम पचिका उद्देश्या नविये कक्षा तिमओव इहा पचि पचिका बोधा ए वेउद्दया कइया । सव्वत् जाव पचिठिठि तिरिक्कजाविवाच ।
 अनेर वावत् पचेओ तिवकवाजिकमे कइया । अथरिमिचमते मसुखे पावकव्य चि यथो पुच्छा । अथरिम हेभमवन् मनुच पापवम मते स्य् बोधा इत्या

व्यपदे धातुकापेक्षया सामान्यतः वक्तव्यो मङ्गा उक्ता सन्तेषु च चरममनुष्यस्यायुः कर्मबन्धः माश्रित्य बहुषु येषु पठते यतो य चरमोसा वायु यद
 वा च व्रजति न च नरस्यतीति शब्दयो चरमत्वमेव न स्यादित्येवमस्यथापि विश्वेपीवगन्तव्य इति चरमो य क्षरं मव पुनः प्राप्स्यति तथाचर
 मोद्दृशक पञ्चमिप्रतिर्यग्लेषु परेषु पाप कर्मोचित्यादीं नमकौ मनुष्याणां तु चरममङ्गुलवर्षां रूपं यत यतुषु चरमस्यति एतदेववदथायति-अचर

याण । अचरिमेण जते ! मणुस्से पाथ कम्म किं यधी पुच्छा, गोयमा । अत्येगइए यधी यधह यधिस्सठ ,
 अत्येगइए यधी यधह णयधिस्सठ, अत्येगइए यधी णयधइ णयधिस्सठ । सलेस्सेण जते ! अचरिमे मणुस्से
 पाथ कम्म किं यधी एवथेअ त्तिअ जगा अरिमथिअणा ज्ञाणियअा एव जहेव पठमुहेसे णअर जेसु तत्य

अत्रिप्रतिर्यग्लेषाम् । अचरमो मवन्त । मनुष्यः पाप कर्म किं बहुवाण्युष्या गौतम । अस्येको बहुवान् व्रजति नरस्यति, अस्यस्यको
 यदुवाण्युभ्रजति नरस्यति अरस्यको बहुवाण्युभ्रजति नमत्स्यति । सलेइपो मवन्त । अचरमोमनुष्यः पाप कर्म किं बहुवाण्युषु येषु अयो
 जगा अरमविहीना नरिवथ्या एव यथैव प्रथमाद्दृशो मवर ययु तत्र विद्यतिः पदेषु वत्वारी मङ्गा ज्ञातव्याचर
 वि पठ उतर । मायमा पाठयएए बीं ववर वधिअए । हेगौतम इहां बीजाभगा वळ्ळीं बीवीभमा चरमने इवे ते वडुहे, केतथा
 ए ४ बीधा बीध वधिअ । परयेगइए बीधो ववर वधिअए । केतथाएव बीधा वधि न वधिअ । परयेगइए यधी ववर वधिअएव । केतथाएव बी
 धा नबीधे नबीधिअ । ससरमेव भत पचरिम मवरस पापकथा किं बीधो एवथेव त्तिअभगा अरिमविअथा माचियअा । सलेयो हेमगवन् पचरिम मनु
 ष्य पापकमस्यु बीधा १ प उतर इमहीअ तोगभगा केइका पीथा वळ्ळीं न वडुवा । एव जहेव पठमुहेसे । इम ज्जिमहीअ पडिअा वडुयानेविदे
 २ अा तिम । ववर वनु तल बीमस परेव चत्तारिभगा तेम इव पादिअा त्तिअभगा भाचियअा । एतकोविधिये जेइ त्तिहां बीमपठ ते एव जीव १ सले
 यो २ उल्लसगो १ मुल्लपाचिअ ४ सय्यगटो १ अागो १ सतिअागो ० उतअागो ८ पवधिअागो २ ममपर्यवअागो १ ना.सअापयुअ ११ वेद १२ सअ

मर्षं जत । मयूमे इत्यादि ॥ श्रीकृत पयसुति ॥ तानि चैतानि-धीव १ सत्तेइय २ शुक्रलेइय ३ इन्द्रपासिह ४ सम्पदवृष्टिहानि ६ मतिश्चाव्याविचतुष्ट
 य १० शोभसापयत्ता ११ बर् १२ सकयाय १३ सोमकपायि १४ सयोगि १५ मनोयाग्यादित्रय १८ साकारोपयुक्ता १८ साकारोपयुक्तकलत्राणि २०
 पतपु च सामाम्यन प्रह्वचतुष्फलम्भव्यचरत्वा म्मुप्यपद चतुर्षो भासि चरमस्यैव तद्गावाविति ॥ अलस्सइत्यादि ॥ अलवयादय एय धरमा

श्रीमसु पदेसु चक्षारि जगा तेसु इहं स्याविक्षा तिरिणि जगा ज्ञाणियज्ञा चरिम जगयज्ञा । अलस्सा केवल
 गाणी अजोगीय एपु तिरिणि यि ण पुच्छिज्जति सेसतहेय । याणमतरजोइसियत्रेमाणिए जहा णेरइए । अ
 चरिमेण जत ! णेरइए णाणात्ररिणज्ज कम्म कि यधी पुच्छा, गीयसा ! एव जहेव पाव णवर मणुस्सेसु

मनपुवज्जोः । अलस्याः अलस्यामी चायोमी चेत त्रयोपि मपुस्सल ज्ञेय तथैव । वागव्यन्तरस्यातिष्ठैमाभिका यया नैरयिका । अवरमो
 प्रदत्त । नैरयिको प्रामावरणीय इत्येव कि वदुवागपुष्वा गीतम । एव यथैव पाप नवर मनुष्यपु सकयायिपु सोमकपायिपु च प्रथमद्वितीयी
 मङ्गी शया अष्टादश चरमविहीनाः ज्ञायं तथैव यावद्देमानिका । इक्षभावरणीयमप्यत्र चैव निरवक्षेयं । वदमीये सर्वत्रापि प्रथमद्वितीयी प्रकी

शको १२ कामकवायी १४ चवायो १५ मनावाप्यादि तीन १८ साकारापयान १८ पनाकागपयान २ ए अक्षच इहनेविये ४ मगा अज्ञा तेइने इइ
 याम अइरो भगव चतुष्क कथा अइवा पदि चरमपदा अइवा मनुष्यपन्ने विपे योवामना मङ्गी ए भागा चरमनेविये इव तेमाट अइवै, पइइवा तीन
 मना इव । चरिमभना अइवा । अइइवाभागा अर्क्षिनि । अइइवा अइवकवायीय अजोगीव । अइइयो केवकमानो अयामी । एइ तिरिणि च पुच्छिज्जति सेस
 तइए । ए तीन मपुष्वा एतीन चरमज्ज इहे यप तिमज अइवा । वाचमतर आइसिय वेमाए अइवा अइइए । वागव्यन्तर स्याविकी वेमानिक जिम
 नारको अइती तिम अइवा । अचरिमच भत अइइए वाचावरणिक अइव अइवको पुष्वा । अचरिम इममवन् नारको आभावरण अइम अइवाइवा इ म च
 तए । गाअना एवं अइइए पायं चर मपुस्समु अइसाईसु आइअसारसुय पडननितिका मगा । जेगोतम इम जिमकोव पापकम अज्ञा तिम अइवा एत

एव ज्वलतीति तच्छ न द्रष्टव्या ज्ञानावरणीयवृक्षकोप्येव नवर विद्येयीयं-पापकर्मवृक्षके सकृदायसीनकपायिषु प्राद्या खयो जङ्गका लक्ष्णा इ

सकृसाहंसु लोचकसाएसुय पठमथितिया जगा । सेसा श्यठारस चरिमथिङ्गणा सेस तहेव जाय वेमाणिया ।
दरिसणाथरणिङ्गपि एवचेव गिरवसेस । वेयणिङ्गे सद्यवि पठमथितिया जगा जाव वेमाणिया णवर
मणुस्सेसु श्यलेस्स केयली श्यजोगी य णल्यि । श्यथरिमेण जत ! णरइए मोहणिङ्ग कम्म कि थधी पुष्ठा
गोयमा ! जहेव पाव तहेव गिरवसेस जाव वेमाणिए । श्यचरिमेण जते ! णरइए श्याउय कम्म कि थधी

पावहुमानिका नवर मनुष्येससपकेवस्वयोनी च सास्ति । अथरसो जवल । नैरयिको मोहनीय कर्म कि बहुवाणुष्ठा नीतम । यथेव पाप
तथेव निरवद्येयं यावहुमानिकः । अथरसो जवल । नैरयिक णायु कस कि बहुवाणुष्ठा, नीतम । प्रथमवृत्तीयी जगी एव सवपदेसपि
नैरयिकाका प्रथमवृत्तीयी जगी नवरं सम्यक्प्रियाखे वृत्तीयो जगः, एव यावत्सकित्तुमारः, पुण्यितीकायिकायिकवत्तरपतिकायिकाला
कावियम मनुष्यन सकसावने विपे कामकसावने विपे पडिवा तथा काभमगा ए वभया कहवा । सेसा चठारस चरिमथिङ्गणा सेसतथव जाव वेमाणिया ।
यप पठार पदनेविपे चरिमर्सगा रहित मगा काविका गीच तिमज्ज इम यावत् वेमानकजगे कहवा । दरिसणाथरणिङ्गपि एवचव चिरवसेसं । दर्यागाव
रथीय पचि इमशोक निविद्यय कहवा वयचिख्व सज्जवि पठम विवितामगा जाव वेमाणिया । बदनीयकमने विपे मनखर पचि पडिवा बोधा ए वेम
गा इवे बोधा न इव पडना समभवको इम यावत् वेमानिकन कहवा । चर मचरसस पखत्थ केवको पकागोव चत्ति । पठकावियेय मनुष्यने
विपे पठयो कवलो पवानी इ तोन नवी । चचरिमच मते चेरइए माइचिख्व कथ कि थधी पुष्ठा । चचरिम हेमगवन् नारकी माइनीयकम ख्व् वा
धा इ म उत्तर । गावसा कहेव पाव तहेव चिरवसस जाव वेमाणिया । इगीतम जिमसोख पापकम कथा तिमसोख निविद्यय कहवा जावत् वेमानि
कने कहवा । चचरिमेव भव चरइए पाठव कथ कि थधी पुष्ठा । चचरिम हेमगवन् नारक प हुकम ख्व् वाधा इ म उत्तर । गोवसा पठम विवि

इत्यादीं द्वावय यत गते प्राणात्तरीयमवस्था पुन र्बन्धना न सर्वाणि कृपायिका सर्वेव ज्ञानावरणव्यत्यक्त्वा हतुर्घे इत्यवरमत्वा देव न भवतीति

पुच्छा, गीयमा ! पठमततिया जगा । एव सप्तपर्वेषु धि णेरइयाण पठमततिया जगा णवर सम्मामिच्छ
त ततिन जगी । एत्र जाय यणियकुमारा । पुढवीकाइया स्याउकाइया वणस्सइकाइयाण तेजालेस्साए
ततिन जगी । सेसेसु पर्वेषु सस्य पठमततिया जगा । तेउकाइयथाउकाइयाण सस्य पठमततिया ज
गा । वेइदियतेइदियवउरियाण एवचेत्र णवर सम्मस्रतेहियणाणे स्यान्निणियोहियणाणे सुस्यणाणे एएसु

तेवोमइयायां च वृतीयो जङ्ग हापेपु पदपु सर्वत्र प्रथमवृतीयो जङ्गी तेजस्कायिकवायुकायिकाणा खवइ प्रथमवृतीयो जङ्गी वृन्त्रियथीन्त्रि
यहतुरिन्त्रियावामर्षं चैव नवर सम्यक्तीपिकज्ञानानिभियोपिकज्ञानमूलज्ञानैतपु वतुवपि स्थानेषु वृतीयो मग पञ्चात्रियतियग्याजिकामा
वस्यङ्गिप्यात्स वृतीयो जगः इपपठपु खवत्र प्रथमवृतीयो जङ्गी । ममुयावा सम्यङ्गिप्यात्स खवइकः ऽकृपायिनि च वृतीयो जग । अलखी

यार्थेया एव सप्तपटवदि चरइकाच पठमतइवाभना । हेमोतस पडिवा बीजा ए दायभगा बुवे इम सप्तपटने विवै मारकाने पडिवा भावा ए बेभगा च
इया । चवर सव्यामिच्छते तइयाभा एव जाव कडिबकुमारा पुठवोकाइया चरकाइया चरकाइयायय निरुपटोने बीजामना चइ
या इम यावत् फलितकुमारने कइवा पडितोकासिच परापायिच वनफलोकासिच ए तीमने । तेजावसाए तइयोमना सेसेस पदसु सस्य पठमतइवा
मगा । तेकस्य्याने विवै बीजामगा कइवो ययपटनेविवै समसेते पडिवा बीजामगा ए वेभसा कइवा । तेउकाइव वाउकाइयाच सस्य पठमतइया भ
या । तेउवा इव वाउकासिच ए वेने मससेते पडिवा बीजो ए बेभगा कइवा । वेइदिय तेइदिय चवरदिवाच एवचेन । वेइदिय तेरिद्रिय चउरि
द्रिय चउरिद्रियने पनि इमत्र कइवा । चवर समत पाडिबयाने पामिनिबोडिबयाणे सुपयाणे इएसु कइसुवि ठावेस तइयाभना । एतकाविमेष सस्य
जने विवै योषिबजानने विवै मतिजानने विवै इ चार क्काननेविवै बीजाम ॥ बुवे । पमिदिय तिरिक्कत्राविवाचे वपामिबइते तइ

वेदविष्णोः सृष्ट्वति पठमधीपति ० तृतीयपञ्चतुर्थयो रसमग्ना देतयो षि प्रथमः प्राणुत्सपुत्सो नं सम्प्रगति द्वितीयस्त्वदीगित्त्व एय जगतीति वा
 पुद्बलक-अवरमव मते । भेरुदए इत्यादि ० पठमततिया जगति ० तत्र प्रथम प्रतीत मथ द्वितीय रत्नपरमथा स्वात्त्यवरमस्य स्मायुर्धो ० व
 श्य मविष्यत्वमथा ० अवरमत्समव न स्यादव चतुर्थोपि तृतीय तु न यन्नात्यायु क्त्वाद्यत्राले पुन नैरत्यवरमत्त्वाविति, सोपपदागा तु माधना

अथसुयि ठाणेसु ततित्तं जंगो । पचिद्वियतिरिस्कजोगियाण सम्प्रामिच्छते ततित्तं जंगो, सेसपदेसु सस्रृत्य
 पठमततिया जगा, मणुस्साणं सम्प्रामिच्छते अर्थेदए अकसाइमिय ततियजंगो । अहस्सकेवलुगाणअजुजो
 गी य ण पुच्छिज्जाति सेसपदेसु सस्रृत्य पठमततिया जंगा, वाणमतजोडिसियाधेमागिया जहा णेरुडया ।
 णाम गीय अंतराद्वयं च जह्दय णाणरय रणिजा तह्येय णिरयसेस सेव जत ! त्ति जाय विहरुड

केवलसामो अयोगी च न पुच्छते सोपपदपु सवय प्रथमपृतीयो जंगी । वानव्यवरस्यातिफैमानिका यथा नैरयिका, नामगोयमत्तरायं च
 यथैव ज्ञानावरधीय तथैव निरवयय तदव प्रदत्त । प्रदत्त । इति यावद्विहरात् ॥ मन्थिस्तते सक्तावसुदुल्लः ॥ २६ ॥

प्राभना । पचेद्विणु तिर्यक्वाजिबन मियद्वीशन बोआम ॥ । ससपदेपु सभाल पठनतदया भा । मयपत्तने निय सगस्रुत् पचिर्ली बीजा ए वेभगा अड
 वा । मयत्ताव सस्य मिरत्तते पचेदए पचसाईमिय तदयममा । मरुप्यत सस्यगुलीनु विधे पववकने शिवे चकपायन विधे बोआभना । पसेपववसुपाय
 पजानोव च पच्छित्रीन सप पठम सभाल पठम तदयाभया । पसयो अवनज्जान अगो ० तोन न पूवथा मय पदमविधे सगस्रुत् पचिस्ता वाजा ए दो
 कभना अडवा । वाचमतर आइसिया वेसाविया जहा अेरुडया । वानव्यवर ज्जातियो वेसानिक ज्जिस मारको अज्ञा तिस अडवा । याम गाय अररा
 रडव अडेव वावावरविष्य तडव विरययेम । नाम गाय अत्तर य ज्जिम ज्ञानावरकीव अज्ञा तिसकीव निधियपपके अडवा । सव भते र ति
 वाय विहरुड । तडति हेमगपनु वावतु विधरे ॥ अंधिसुवनमत्तं ॥ प्रतिउदमअ वन्धि मय्येकरो उपसचित मग ते वन्धिमयतक अद्विय ते पूव

इत्याद्यो द्वावय एत यते कामावरलोचयमबद्धा पुन र्दन्वका न सवन्ति कपायिका सर्वेव कामावरणवस्यकत्वा वतुषं इत्यवरमत्का देय न मयतीति

पुच्छा, गीयसा ! पठमततिया जगा । एव सङ्घपदेसु वि णेरुहयाण पठमततिया जगा णवर सम्मामिच्छू
स ततिनु जगो । एव जाव यणियकुमारा । पुढधीकाइया श्याउकाइया वणस्सइकाइयाण तेजालेस्साए
ततिनु जगो । सेसेसु पदेसु सङ्घत्य पठमततिया जगा । तेउकाइयाउकाइयाण सङ्घत्य पठमततिया ज
गा । वेइद्वियतेइद्वियथउरियाण एवथेत्त णधर सम्मत्तत्तहियणाणे श्यान्निणियोहियणाणे सुस्थणाणे एएसु

तेकोमहापार्वा च तृतीयो जङ्ग साप्ये पदपु सर्वत्र प्रथमतृतीयो जङ्गी तेजस्कापिकवापुकायिकाणा सर्वत्र प्रथमतृतीयो जङ्गी हृन्निप्रयथीन्नि
पञ्चतुरिन्दिप्राकामय सेव नवर सम्पत्तीरिक्कत्तान्निजिवोपिकत्तान्मुत्तान्तपु वतुषयि स्यामेषु तृतीयो जगः पञ्चान्निप्रयतिर्यग्यानिक्काना
हस्याङ्गिष्मत्त्व तृतीया जगः आपपवपु सर्वत्र प्रथमतृतीयो जङ्गी । मनुष्याणां सम्पत्तिष्मत्त्वात्वे षवदवञ्ज ऽकपायिनि च तृतीयो जगः । षल्लङ्गी

यार्था एव सजपठमवि वेइइसाच पठमततत्राभया । वेगोत्तम पठिवा बीळा ए सासभया जुवे इम सवपदने विवे नारकाजे पठिवा नात्ता ए वेभया च
दवा । चहर सम्मामिच्छते तपःप्राभया एव चार चविचकुमारा पुढबीळाइया चक्कएकाइयाच । एतत्तावयय नियद्वटोने बीळामगा चइ
वा इम यावत् स्थानितकुमारे चइवा वुत्तियोकायिच पञ्चायिच वनफत्तोकायिच ए तीजने । तेखोत्तसाए ए सापोभगा सेसेस पइस चक्कत्त्व पठमततइवा म
मया । तेजावयाने विवे बीळामगा चइवो ज्ञानपदनेविवे सयत्तो पठिवा बीळामगो ए वेभया चइवा । तेउकाइय वाउत्ताइयाच सम्मत्त्व पठमततइवा म
या । तेउत्ता एव वाउत्तायिच ए वेने सगत्तेर पठिवा बीळो ए वेभया चइवा । वेइद्विय तेउद्विय चउरिद्विवाच एवचेच । वेइद्विय तेरिद्विय चउरि
द्विय चउरि द्वाइने वनि इमत्त चइवा । चहर चक्कत्त पाठिवावावे यानिपिवाडियवावे सुपवावे एएस चउपुवि ठावेस तइवाभा ॥ । एतत्ताविशेष सव्य
अन विवे चोचिचत्ताने विवे मतिप्रानने विवे इ चार ज्ञानकनेविवे बीळाम । जुवे । पविद्विय तिरिक्कत्तायिवाच सव्यानिष्कत्ते तइ

तु जीवस्य तथाविधेन कमकराजिपोष्यत इत्यत्र सुख्यस्यास्यशमादिभूष-जीवेकमित्यादि ॥ ननु बन्धस्य करकस्य च क प्रसिद्धिपोष उच्यते-न
 क्वि नहि किमिति जन्मोपन्यासः ? उच्यते-यप जीवस्य कालव्यवहिकाया सा जीवकर्तुमानत्वोद्यारादिकृतत्यस्या यस्योपदसमार्थं मथवा यत्वा
 सामान्यः करव त्वयद्वय विपाकटापित्वन निष्याद्वन निष्यादिविस्वरूपमिति ॥ करिसुयस्यति ॥ करिसु इत्यनेन शब्दसोपलक्षित शत प्राकृतना
 पया करिसुयस्यति ॥ समखिद्य शत वृत्तितः समाप्त ॥ २७ ॥ ॥ ॥ ॥

करिसु कात्रिति णकरिस्सति । अत्येगडणु करिसु णकरिति करिस्सति । अत्येगडणु करिसु णकरिति णक
 रिस्सति । सलेस्सेण न्त ! जीधे पाथ कम्म एव एणुण अन्निखायेण । जञ्जेत्त यधिसणु वप्तवुया सञ्जेत्त णि
 रत्तनेसा ज्ञाणियह्णा तहेव णयत्तठ्ठगसगहि्या एक्कारस उद्वेसगा ज्ञाणियह्णा ॥ करिसुगसय सम्मत्त ॥ २७ ॥

नकुवन्ति नकरिप्यन्ति ? गौतम । अस्यपच केचन कृतवन्तः कुवन्ति करिप्यन्ति । अस्तयेके कचम कृतवन्तः कुवन्ति नकरिप्यन्ति । अस्तयेके के
 चन कृतवन्तो नकुवन्ति करिप्यन्ति । अस्तयेक कचन कृतवन्ता नकुवन्ति नकरिप्यन्ति । अस्तयेको जदन्त । जीवः पापं कर्म एवमेतेमाजिसायेन
 या वैव वधिप्यत वक्तव्यता सा वैव निरवस्थाया प्रबिहत्या तथैव मयदवक्तव्यकृतीता एकावस्था प्रबिहत्याः ॥ करिसुगद्यत सप्तविधं
 समाप्तम् ॥ २७ ॥ ॥ ॥

पञ्चा बोधा करे न करण पञ्चा । करिस चकरिति चकरिप्यति ३ । बोधा नकरे करिप्ये पञ्चा । करिस चकरिति चकरिस्सति । बोधी नकरे नकर
 प्ये ४ म नकर । गायमा परवणए करेस चरेति चकरिस्सति । हेमौतम केतकाण्ण बोधा करे करिप्ये । परवेणएए करिसु चरिति चकरिस्सति । केत
 सगक बोधा करे नकरण्य । परवणएए करिस चकरिति चकरिस्सति । केतकेके बोधा नकरे करिप्ये ३ । परवेणएए करिसु चकरिति चकरिस्सति । केत
 मएच बोधा नकरण नकरण ४ । अस्तसक मते आवे पावकण्य एव एएवं अभिखादच । सुलेयो वमनवन् बोध पापकम च्छू रत्वादि मञ्च वत्तर इम रश्चि

पूर्वाकाशसारेण कथयति ॥ अचिन्मयति ॥ मस्तुदृक्क कथीति शब्देभ्योपलक्षिते कथिभ्यश्च ॥ यद्विज्ञा यत् कृन्ति त सम्रास ॥ २६

यथांगीरिवगौ स्वयंपयसावाचीपविशालिका सालकारसुविद्यहासुनपद्मपासुवर्षान्विता ।

मिगत्वास्पृशङ्गङ्गाद्रुपसप्रायाभाकरराज्य इवास्याबिद्वृतीभमितमनवकल्पुतसूरयः ॥ १ ०

व्याप्यत पङ्क्तिं ज्ञात मद्य समविज्ञा मारज्यते अस्य चाप मजिचम्बन्धः-अतनद्यत कीवस्य कमकल्पमक्रियाद्रुताविकालविशेषीत्वा समविद्यगद्यते

॥ २६ ॥ ११ ॥ अधिसय सम्मत्सु ॥ ॥ ॥

जीयाण जन्ते ! पाव कर्म किं करिं सु करेति करिस्सति १, करि सु करेति णकरिस्सति २, करिं सु णकारि रति
करिस्सति ३, करि सुय करि रति णकरिस्सति ? गीयमा ! स्यत्यगङ्गणु करे सु करेति करिस्सति । स्यत्येगङ्गणु

समासं च यद्विद्यति तम कथिद्यतम् ॥ २६ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥

श्रीपूर्याचाय्यसौकागणपदभृतबभ्राजिभेस्सूरिभ्यै राविटोरायवाङ्गादुरपमपतिविद्वस्यसम्भाषणेन ।

सञ्ज्ञित पञ्चमाङ्गमक्षतपुण्ड्रतदेवनायानुवाकः सीधोऽप्यसिस्पनयमवबन्गुकारामबन्नेवसिद्धिम् ॥ १ ॥

जीवा जदत्त । पाप कर्म किं कृतकत्वाः कुर्वन्ति करिप्यन्ति १ कृतकत्वाः कुर्वन्ति णकरिप्यन्ति २ कृतकत्वो मकुर्वन्ति करिप्यन्ति ३ कृतकत्वो

यथा २६ ॥ ११ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥

१ अधिसयत क/श्रीवनी पूरा कथा यमत्पर्यतकने विपे श्रीवने कर्मवचननिवा यतीतादि भाकविशेषे करो कथी सताकीसमे ता श्रीवने तथा वि
विशेषे कर्म करेण विवा कश्चिदे-पाद्विने यतव यम इचि यतवे एतकादियेव का प के सामान्यतो यत्र कथा इहा यत्रयत्र विप कथासक निधनी
दि लक्ष्य जीयवा । श्रीवाच मतेपावकथ वि करिपु करेति करिप्यति । श्रीव देवगमन् पापकर्म क्त्वा श्रीवा करे करणे । करिपु करेति कथरिप्यति २ ।

कमार्दिदृशयकोपेता त्रयन्ति तत्र चाद्योर्द्वैकस्वैदमादिदृश-जीवाचं जते । इत्यादि ॥ कश्चिं समस्त्रियेसुति ॥ कस्या मती वर्त्तमाना सम
 जिंतवन्तौ यदौतवत ॥ कश्चि समापरिसुति ॥ कस्या समापरितवतः पापकमश्नुसमाचर्येण तद्विपामानुभवजनतियद्वा अथवा पर्यायत्ररा
 वता विति ॥ सुवृपि ताव तिरिक्खजोणिसु होज्जति ॥ इह तियेग्योनिः सुवजावता मावत्त्यानीया यदुत्वा ततय सर्वेपि तियण्णया अन्यारका

ज्जा ३ । अहवा तिरिक्खजाणिएसु य देवेसु य होज्जा ४ । अहवा तिरिक्खजाणिएसु य णेरहएसु मणुस्से
 सु य होज्जा ५ । अहवा तिरिक्खजाणिएसु य णेरहएसु य देवेसु य होज्जा ६ । अहवा तिरिक्खजाणिएसु
 य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ७ । अहवा तिरिक्खजाणिएसु य णेरहएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ८ ।

यिकपु व मनुष्यपु चासूयन् ५ । अथवा तिमयोनिकपु व मरियकेपु व इवपु चासूयन् ६ । अथवा तियग्योनिकपु व मनुष्येप व इवपु वा
 नूयन् ७ । अथवा तियग्योनिकपु व मरियकेपु व देवपु चासूयन् ८ । अथवा पाप कर्म वा समस्त्रियतवत क स
 स्वात्मने विवे नारकोनेविपे नारकादिपके करोत्तपना तिवार तिवज्जतिनेविने नारकनत्वादि हेतुभूत पापकम उपायाएणकभागा इम चायस्सि पवि
 भावना करो पडवा । पडवा तिरिक्खजाणिसु चेरएसय हाज्जा २ । तियेपयानिकने विपे नारकोनेविपे हुवे २ पडवा । पडवा तिरिक्खजाणिसु
 मन्नीयस हाज्जा ३ । तियेपयानिकन विपे हुवे मनुष्यागानिकने विप हुवे पडवा । पडवा तिरिक्खजाणिसु चेरएसय देवसय हाज्जा ४ । तियेपयानिकने देवने
 विपे हुवे व विक्खजाणी भया पडवा । पडवा तिरिक्खजाणिसु चेरएसय मणुस्सेसु हाज्जा ५ । तियेपयानिकन विपे नारकोनावये मनुष्यनविपे व
 दे पडवा । पडवा तिरिक्खजाणिसु चेरएसय देवेसय होज्जा । पडवा तियेपयानिकने विपे नारकोने विपे सुवनेविपे हुवे ६ पडवा । पडवा तिरि
 क्खजाणिसु मणुस्सेसु देवेसय हाज्जा ७ । तियेपयानिकने विपे मनुष्यागानिकने विपे हुवे ए तोनसंगा विक्खसयागे जाडवा पडवा । पडवा तिरि
 क्खजाणिसु चेरएसय मणुस्सेसु देवेसय हाज्जा ८ । पडवा तियेपयानिकने विपे नारकोनेविपे हुवे ए एकभगा एतुक्खसयागे

व्याख्यातशतसामं शतमिदमित्यस्यतीरुताविकृतिः । दृष्टमसामेसामं चिकुरुतगदुडाकसाम्य ० १ ॥

व्याख्यातं चमत्रशतशतानुगत मस्यिदं शत मय कमायात तपाविषमेयाष्टविंश व्याख्यात तत्रैकादशोदश्या जीयाद्यत्रावशाद्वारातुगतः पाप

जीयाण जन । पाप कर्म कति समज्जिणिसु कति समायरिसु ? गोयमा ! सद्येय ताथ तिरिस्कजोणिणसु
होज्जा १ । अहया तिरिस्कजोणिणसु णरडणसु य होज्जा २ । अहया तिरिस्कजोणिणसु मणुस्ससु य हो

जीया नन्त । पाप कम क्क समज्जिणवन्ता । मसमाचरितवन्ता ? गीतस । सर्वेचि ताधत्तिपयाणिकसुनूवन् १ । अथवा तियेय्याणिकेपु मेरयि
कपु णानुयन् २ । अथवा तियेय्याणिकेपु मनुष्यपु णानुवम ३ । अथवा तियेय्योणिकेपु च दवपु वा नूवन् ४ । अथवा तियेय्याणिकेपु च मेर
पन्निवावववा । अथर अधिप्यए वताववा मनेव विरवसमा भावियथा । अत्राकोण अधिगतमने निवे वल्लयता कइो तिक्का अगसोहो तिक्किये कइ
थो । तदव चकइवम समज्जिया एकारए चइसगा भावियथा । तिमकोण नयइवउक अरुत इव रे चइया कइवा । करिसुगसय अथपत । करिसु इस
मणु इवकपित मण ते पुवववा करिसमयतक मतावासमा पुवववा । २० । ० ॥ ०

कमात्तपता उपगत मताहीमसा मतक वणाय्या इवे कमायात पइ कोमसा मतक वणाय्योयेहो तिक्का इवारेवदुदेमा औवाक्कि इव्यारेवार पजगत
पापकमादिपणुव मववमज्जिन इवे तिक्का पहिनामू । औवाक्क भत पावकक्य कइि ममज्जिक्किस कइि समायरिसु । औव इेममणु पापकमपते किमो
अतित वल्लमान इणिण्ठा किमो गतिनरिपे भागवत्ता इ प्र कतर । गावसा सर्वेव ताव तिरिस्कजाचिएस डाव्या । इगोतम मगसाइ पहिसा तियेव
इअिक्कने तिये इव अइमथो कव औवना मावव्यान कर तियेववथानि कानथो तइ मथो तियेवकानिकन तिये सवइवे इहो पमिमाव जेइ विवाया म
मवम इवे तारवादि इण तेइ पण्यपने करो मगवा पचि मिहिगमने तक्का तियेवति मवगिकरो निमणपनेकरो नोक्कवा एतने कइएव सिक्कया विा
एव तियेववतिमाइ मवा पनत्तापति औवरेचित इवे विवाएवका तियेववतिने पनत्तपने करो पन्निपेक्कोव पक्किको ते तियेव तिक्कावो नोक्कवा निव

कर्मादिदृक्कर्मण्युपता त्रयन्ति तत्र चाद्योद्देशकस्यैवमादिवृत्त-कीवाच जने । इत्यादि ० कस्यां गतीं वर्त्तमाना सम
 जिन्तवन्तो एहीतवन्त ० कश्चि समापरिस्तुति ० कस्यां समाभरितवन्त पापकर्महतुसमाचरणेन तद्विषयाभानुभवमनतिदृष्टा अथवा पर्यायशब्दा
 यता विति ० सर्वेषु ताव तिरिक्त्वाविषयसु शोचन्ति ॥ इति तिसंयोगिः । स्वभावात्ता मायुस्थानीया यदुक्ता तत्र च सर्वेषु तिसंयोग्याऽन्यगारका

ज्या ३ । अथवा तिरिस्कजोगिणिसु य देवेषु य होज्या ४ । अथवा तिरिस्कजोगिणिसु य णरइणिसु मणुस्से
 सु य होज्या ५ । अथवा तिरिस्कजोगिणिसु य णरइणिसु य देवेषु य होज्या ६ । अथवा तिरिस्कजोगिणिसु
 य मणुस्सेसु य देवेषु य होज्या ७ । अथवा तिरिस्कजोगिणिसु य णरइणिसु य मणुस्सेसु य देवेषु य होज्या ८ ।

विक्रुपु च मनुष्यपु बामुवन् ५ । अथवा तिसंयोगिकपु च नैरयिकपु च देवेषु बामुवन् ६ । अथवा तिसंयोगिकपु च मनुष्येषु च देवेषु वा
 प्रुवन् ७ । अथवा तिसंयोगिकपु च नैरयिकपु च मनुष्यपु च देवेषु बामुवन् ८ । अथवा पाप कर्म क्व समंजितवन्त क्व च

व्याजकने विधे नारकनविधे नारकाविषये कुरोऽपना तिवार तिसंजितनविधे नारकगत्यादि चेतुमूत पापकर्म उपायाएऽन्वर्तना इम चागच्छि पश्चि
 भावना करती पश्चात् । पश्चात् तिरिक्त्वाविषय कुरेऽपसह ज्ञात्वा २ । तिरिक्त्वाविषये विधे नारकीनविधे पुत्रे २ पश्चात् । पश्चात् तिरिक्त्वाविषय
 मन्वेष्येव ज्ञात्वा ३ । तिरिक्त्वाविषये विधे मनुष्यगानिकने विधे पुत्रे पश्चात् । पश्चात् तिरिक्त्वाविषय देवेसह ज्ञात्वा ४ । तिसंजितनविधे देवने
 विधे कुरे च द्विकसहागो भवा पश्चात् । पश्चात् तिरिक्त्वाविषय कुरेऽपसह ज्ञात्वा ५ । तिरिक्त्वाविषये विधे नारकीनविधे ननुष्यनविधे च
 दे पश्चात् । पश्चात् तिरिक्त्वाविषय कुरेऽपसह देवेसह ज्ञात्वा । पश्चात् तिरिक्त्वाविषये विधे नारकीने विधे देवनेविधे कुरे ६ पश्चात् । पश्चात् तिरि
 क्त्वाविषय कुरेऽपसह देवेसह ज्ञात्वा ७ । तिसंजितनविधे विधे मनुष्यगानिकने विधे कुरे च तौनर्भगा विषयकने ज्ञात्वा पश्चात् । पश्चात् तिरि
 क्त्वाविषय कुरेऽपसह देवेसह ज्ञात्वा ८ । पश्चात् तिरिक्त्वाविषये विधे नारकीनविधे मनुष्यनविधे देवनेविधे कुरे ९ एवमभा चतुष्कसंयोगी

दृष्टं चिन्मयं प्रागस्यो त्वन्ना कदाचिद्भूयसु कृतं हो सर्व्वेपि तियस्योनिर्दिष्टमूत्रं चिन्तित्व्यपदप्रत्यये अयमभिप्रायो ये विवक्षितसमये मारकादयो
 ऽनूत्रं न चक्ष्यन्तेन समस्ता अपि सिद्धिगमनं तियमभतिप्रवक्ष्यन् च निर्लेपतयोद्भूता सततय तियगतं रत्नसत्वेना निर्लेपनीयत्वा तत उद्भूत्य त्ति
 पञ्च म्नात्यामप मारकादित्त्वेनोत्पन्ना कृतं न तियगती परकस्यादिदृष्टतून पापं कम समस्मितवत्त इत्यकः ॥ अथवा त्तिरिक्खजोच्चिपसु मे
 रदयसु प होम्भन्ति च विवक्षितसमये प समुद्यद्वा अनुच सत् निर्लेपतया तयोवाद्भूता सारस्यानपु च तियम्मारकस्य प्रागत्योत्पन्ना सत्त्वेव व्यपदि
 शयन् तियनेरविक्रयऽनूत्रं य त य च यक्काऽनूत्रं त तच्चैव कर्मोपाधितवत्त इत्यर्थां ह्यन्यत इति द्वितीयः ॥ अथवा त्तिरिक्खजोच्चिपसु य मसु

सखेम्माणं जन । जीया पाय कम्मं कहि समज्झिणिसु कहि समायरिसु एवधेव , एव करहहेस्स जात्र सु
 हेम्मं करहपेरिकया सुक्कपरिकया एयं जात्र सुग्गागारीयउत्ता णेरइयाणं भत ! पाय कम्मं कहि समज्झिणि
 सु कहि समायरिसु ? गोयमा ! सखेयि ताव सिरिक्खजोणिएसु होज्जा एवधेव सुठं भगा । ज्ञाणियद्धा ,

माचरितवत्त एव धेव एव कप्पलेइय (प्रवृत्ति) यावद्वैश्वर्यकप्पप्राप्तिसिद्धिमात्रपायिका एव यावदनाकारोपयोगमुक्ताः । नैरयिका इत्यन्त । पाप
 कर्मं च समस्मितवत्तः च समारचितवत्त ! गीतम । सर्वोप तावत्तियंयानिकस्यनूत्रं एव चैयाष्टौ जङ्गा । जचितव्याः । एव सुवप्राष्टौ भगा

इह । मज्झिमां भते श्रीया पारंभन्तं कश्चि समज्झिणिसु समायरिसु एवधेव । सुखेयो वैभगवन् कोच पापकर्म विधेोगतिने विधे मज्झा चिन्तोगतिते विधे
 ममापरा भाग्या इ म इतर इमहीज पृष्ठिबीपर भगा च अथवा । एव कश्चिदस्य जात्र पक्षेसु कश्चिदस्य जात्र कश्चिदस्य जात्र अथवा मयागारावत्
 ता । इम कप्पनयो पावन् पमसो कश्चिपायिक इम बावत् यनाकारापयुक्त । चैरइयाच मते पावकस्य कश्चि समज्झिणिसु कश्चि समायरि
 य । मारक इममवन् पापकर्म चिन्तोगतिते विधे यत्तमानं च गी मज्झा चिन्तोगतिते विधे भामव्या इ म इतर । मायंमा सुवदेवि ताव त्तिरिक्खजाच्चिप
 च शय्या इववप पप्रमया मानियाया । वैभौतम उपकारं पदिक्का निर्वेयवानिक्कने विधे सुवे रत्नादि इमहीज चाठभगा कश्चि । एवं मज्झिमा चप्रभमना

एषु य इोज्ज्वलि ० विवक्षितसमये य नैरयिकदेवा को तथैव निरूपयित्वा साहस्यनेषु ० तिर्यग्मनुष्येषु सागस्योत्पत्त्या को सर्वं व्यपदिष्टयान्ते-
 तिर्यग्मनुष्येषु प्रवृत्ते य ० यत्रानुर्व को तत्रैव कर्मायाज्जितवत् इति सामान्यगम्य इति तृतीयः सादवमनया प्रावणया द्या वत जङ्गाः तत्रिक स्ति
 यंगम्यैय चान्तु तिर्यग्मैरयिकाप्यां तिर्यग्मनुष्याप्या तिर्यग्देवाप्या मिति प्रयोदिकसयोगाः तथा तिर्यग्मैरयिकमन्यैः तिर्यग्मैरयिकदेवै तिर्य
 मनुष्यदेवै रिति त्रय खिकसयोगाः एक यनुष्ययोग इति ० एवं सङ्ख्याति ० सलेष्यादिपदेषु ० तत्र इज्जग प्रवृत्ति ० पापकर्मोद्वेदन पू
 र्वाकनति ० अष्टाविंशति प्रथमः ० २८ ० १ ॥ अक्षतरोववशुगाभिस्यावि ० द्वितीया, सात्र ॥ अक्षतरैसु के परिहारियथा

एव सप्तस्य अष्टतगा जाय स्युणागारोत्रउत्साधि । एव जाय वेमाणिषा । एव पाणात्ररणिज्जैण्यि दठउ ।
 एव जात्र अष्टतराइरण । एव एए जीवादीया वेमाणियपज्जात्रसाणा णववठगा जवति संव जत ! जत ! क्षि
 जाय त्रिहरइ ॥ २८ ॥ ३ ॥ अक्षतरोववशुगाण जत ! णेरदया पाव कम्म कहि समज्जिणिंसु

पाववमाकारोपपुत्ता धवि एव यावदुमैमािकाः । एव ज्ञानावरबीयमापि दफ्फका । एव यावत्तरायिकन । एवमेते जीवादिषा वेमानिकव
 यत्रसाणा नवदरुका जवन्ति । तदव प्रदल । इति यावद्विहरति ० अष्टाविंशतिप्रते प्रथमः ० २८ ० १ ॥ अक्षतरैपप
 कका प्रदल । नैरयिका पाप कम्म सु समस्वितयन्तः सु समाहरितवन्तः ? गौतम । सर्वेपि तावत्तिययोभिकेयजुयन् एवसत्राप्यष्टी संया
 जात्र यथागारावठतावि एव जाय वेमानिषा । इम सुगसा ससुखाठि पवन्तिये पाठभगा वडवा वापत् यनाकारापकुळ पतकाली वडवा इम याव
 ए वेमानिकम कडगा । एव याचावरबिल्लेनवि इडया एव जाय अतराइएव । इम ज्ञानावरबीयसाते पवि दफ्फक कडवा इम यावत् अक्षरावडकी
 कडवा । एव इए जीवादीया वेमाविसयज्जवसावा यवडुडगा भवति । इम एड जीवाठिक वेमानिकपमल नपठणुळ इवे ते कडवा । सर्वं भते र ति
 जाय विहरइ । तद्वति इभगवन् इवादि यानत् विररे ० ० अष्टावीसमा यतकमा पडिवाउदुदया पूरावना ० २८ ॥ १ ॥ अक्षतरायवस

काहे समायर्सिं सु ? गोयमा । सधेयि ताव तिरिक्कजोणिएसु होज्जा, एव एत्ययि अठजगा । एव अणत
 रोथयसागाण णरइयादीण जस्स ज अय्यि छेस्वादीय अणगारोथज्जेगपज्जससाण त सध् एयाए जयणाए
 ज्ञाणियञ्ज जाय वेमाणियाण गथर अणतरिं सु परिहरियञ्जा ते जहा थधिसए तहा इहपि । एव णाणावर
 णिज्जेणयि दकंठे । एव आथ अंतराहुएण गिरवसस एसोयि णवदकगसगहिंठे उद्वेसव ज्ञाणियञ्जो संथ जते ।

एवमन्तरापपञ्चकाना नेरियिकादीनां पस्य पदसि सशपादि शानाकारोपयोगपर्यवसान तत्सर्वे एतया मलनया प्रकृतव्य यावद्वैसामिच्छामा
 मन्तर अन्तारोपपञ्चकपु परिहृतव्यापि त यथा यन्विद्यत तथा त्रापि । एवं शानावरखीयेनापि इच्छक । एव यावदन्तरायिकेन भिरवद्यप
 मपोपि मयदगकसमुद्धीत उद्वेकको प्रकृतव्यसद्व प्रवृत्त । इति ॥ अष्टाविंशतिश्चात द्वितीयोपुष्टा ॥ २८ ॥ २ ॥

भाष भते वेरइया पावकथ कश्चि समञ्चिदिमु काइ ममादारप । पन्तरात्यक्य केमसकन् मारको पापकमपते विधीगतिने विधे गच्छा विधीगतिने
 विधे भागव्या १ प्र कन्तर । गावसा समवचि ताव तिरिक्कत्राचिणमु काव्या पवं एत्तवि पञ्चमगा । केभोतम समकारं पडिक्का तिवेयवाचिक्कने त्रिवे सुवे
 एम इर्वा पठि प ठमगा इने । इय पञ्चनरावकव्याचं चरइयाटीय कस्यच यत्ति । इम पन्तरात्यक्य मारको याटिइइन कइनेकइके । सेक्काटीय पचा
 नारावपाल पञ्चमगाचं त सर्वं एवाय भववाए भाविककं काथ वेमाचिमाच । सम्भादिक्क पानाकारापहुत्तपर्यत्त तेसव इवे मज्जनाये कइवा यावत्
 यमानिकसगे कइवा । चरर पचतरिं सु परिहृरिक्कमा । एतकोविमय त पन्तरात्ययाडिक्कने विधे जेक्क अय्वम्मिप्याव मनायाय बाप्यागाडिक्क पठांपते प
 यथासमाटे न पूज्जा । ते कइवा कथिसए तइया इइयि इवं कावावरकिञ्जे पचि इइया । तेअिम कथियतकने विधे तिम इर्वा पचि कइवा इम ज्ञानावर
 रोयसपते पचि इइक्क कइवा । एव काव पनराहुएण चिरवससं एसोयि कवइइग समञ्चिपा उवेयथा भाचिक्कवा । इम यावत् पन्तरावसवाते पचि नि
 विधेयनवे कइवा एव पचि नवदक्यक सयुद्धीत उवेया कइवा । केवभते २ ति । तइति केमसकन् ए पञ्चकोसमा अतकमो सुसराइइया पूराइवा । २८ ।

ते जहा वचि मते तहा इह पिति । अनशरोपपञ्ज्यादिपु यानि सम्यगि मध्यात्त्वमनोयोगवाग्योगादीनि पदानि ॥ परिहरियवृत्ति ॥ असम्भया व
 प्रच्छनीयानि तानि यथा यत्थिद्यते तथार्थाविति ननु प्रथममङ्कक सर्वे तिर्यग्य उत्पन्नाः अथ सम्भवत्यानतादिदेवाणां तीर्थंकरादिमनुष्यविशेषाणा
 य तस्य आगताना मनुष्यत्त रवद्वितीयाविज्रुक्त्यापि प्रावर्णीय, सत्यं किंतु बाहुल्यमाश्रित्यैत प्रज्ञा यास्याः इहं च सृष्टवचनन द्वाययिप्यामः ॥
 कम्मसमाज्जिक्कसयपति ॥ कम्मसमज्जलससखापप्रतिपादक इत कम्मसमज्जणसत् ॥ अष्टाविहा इत वृत्तितः समाप्तम् ॥ २८

इति चूर्खिवचनरचना कुञ्चिकयोद्घाटितमयाप्यतद् । अष्टाविह्वत्तितमस्यत मविरमनपममहायस्य ॥ १ ॥

भते । सि ॥ २८ ॥ २ ॥ एव एरण कमेण जहेय अधिसए उद्वेसगाण परिवाही तहेव इहपि
 स्थसु णेयहा, णथर जाणियसु ज जस्स स्थित्ये त तस्स जाणियसु जाव चरिसुद्वेसो, सख्वियि एक्कारस उद्वे
 सगा सेव भते ! भते । सि जाय विहरइ ॥ कम्मसमज्जाणसय सम्मसु ॥ २८ ॥

एवमेतेन कमेण यत्थिद्यते उद्वेसकानां परिपाटी तथैवहापि अष्टसु मङ्कपु अतव्या मवर अतव्य पद्मसास्ति ततस्य प्रचितव्य यावप
 रमाइहा। सर्वेपि एकादशोद्घाटकात्तदव प्रदत्त । इति यावद्विहरति ॥ कम्मसमज्जितगतं अष्टाविहस समाप्तं ॥ २८

मीपूज्याचाय्य सीहाणउद्वेसुतअन्नामिषान् सूरिवर्ष्यान् मीमद्रापयाइवपुरोपमपतिरसप्राथयामासताम् ।
 इत्यमीपञ्चमङ्कप्रकृतपुत्र्यतोदवप्रायाऽनुयाद पुत्तोऽन्वाधीद्विपुत्रं प्रथणनगुरुपदुरामचन्द्रबकार्यां ॥ १ ॥

२ ॥ एव एवर्षं जयवं जयेव इधिसए उद्वेसमाव पच्छिशाहो तजेव इहपि चतुसमगेस यस्या चर आचितव्य । एम इवे चतुसमे विम
 डोच वंचिमतकमे उद्वेगानी परिपाटो अहो तिम इहां पचि पाठमया चइहा पतकाविमेव आचवा । ज जस्य अद्वि त तस्य भाणिसव आव चरिसुद्वे
 सा सवदि एकारस उद्वेसगा । अह करणजे तह तेहमे आचवा वावत् परिमउद्वेया सगहाई पचि एव इश्वारे उद्वेया कइवा । सेवभते र ति

व्याख्यातं पापकृमादियस्यपानुगत मष्टाविधं ज्ञात मय प्रमायातं तथाविचमर्षीकीनत्रिधं व्याख्यायते तत्र च तथैवैकादशोद्देशका प्रवृत्तिः, ते

जीवाण ज्ञेते । पापं कर्म किं समाय पठयिसु समाय णिठयिसु १ । समाय पठयिसु विसमाय णिठयिसु २ ।
त्रिसमाय पठयिसु समाय णिठयिसु ३ । विसमाय पठयिसु विसमाय णिठयिसु ४ ? गीयमा ! श्रुत्येगया
समाय पठयिसु समाय णिठयिसु जात्र श्रुत्येगइया विसमाय पठयिसु विसमाय णिठयिसु ४ । सेकेणठे

जीवो प्रवृत्त । पापं कर्म किं सुगकाले प्रस्थापितवत्तथा भवकालेनिष्ठापितवत्त स्तथा सुमकाले प्रस्थापितवत्तो त्रिपनकालेनिष्ठापितवत्त
स्तथा विपमकाले प्रस्थापितवत्त स्वमकाले निष्ठापितवत्तो विपमकाले प्रस्थापितवत्तो विपमकाले निष्ठापितवत्तः ? भीतम । अस्यैकस्वम
काल प्रस्थापितवत्तस्वमकाले निष्ठापितवत्तः यावदस्वकाले निष्ठापितवत्तस्वमकालेनिष्ठापितवत्तः । अय कोनार्थेन प्रवृत्त ।

आत्र विवृत्त । तत्रति उभयवत् इत्यादि वाच्यं विवृत्त । अथसमन्वितवत्तस्य सपत्त । असमन्वित अथवाव प्रतिपादक पडावासमा प्रत्येक ते सपू
बया ३ २८ १ * * * * *
पत्रते पठु जीयमा यतत्र वपाळा द्विज उगुवजीयमा यतत्र वपाविषये इहा पवि तिमहीज इत्यारैरुद्देया कश्चे—जीवाच मते पार्थक्य कि स
माय पठुविसु समाय विवृत्त । १ जीव उभयवत्तु पापकर्म म् प्रवेकोवे समकाले प्रथमपदे वेद्यमाने पारम्यता इवा तथा समकाले नीठावता युया प
बवा । ममात्रपठुविसु विममार्थं विवृत्त । २ । समकाल पारम्य विपमपदे नीठावता इवा पठवा । विममार्थं पठुविसु समाय विवृत्तिसु ३ । विपमपदे
पारम्यता इवा समकाल नीठावता इवा पठवा । विममार्थं पठुविसु विममार्थं पठुविसु ४ । विपमकाले पारम्यता इवा विपमकाले निठारता इया ४
१ म उक्त । गीयमा पठ्यगइया ममात्र पठुविसु समाय विवृत्तियु । अतएवाप्य समकाले पारम्यता युया समकाले नीठावता इवा । आत्र पारम्यग
वावि समाय पठुविसु विममार्थं विवृत्तिसु ३ । २ म वाच्यं अतएवावत् विममकाले पारम्यता युवा विममकाले नीठावता युवा । ऐवेऽप्युक्तमत्त एवं बुद्धा ।

पुत्राद्यैश्चकस्वेद् मादिसूत्रं-जीवाह जते । पावमिस्त्यादि ॥ समापति ॥ समक सङ्को जीवा युगपदित्यय ॥ पठविसुति ॥ प्रस्थापितवस्त प्रथ
 मतया वदयितु मारुभक्तः तथा समकमेव ॥ निष्ठविसुति ॥ निष्ठापितवस्तो निष्ठा भीतवस्त इत्येक तथा समक प्रस्थापितवस्तो ॥ विसमति ॥
 विषमं यथा-भवति विषमतपीत्यर्थी निष्ठापितवस्त इति द्वितीयः यव मत्सी ह्री ॥ अत्येगइया समाठया ॥ इत्यादि यतुव्रीही तथा ॥ समाठति
 समापुप वरयायेयया समकालापुत्रीरया इत्ययः ॥ समोववव्यनति ॥ विवचितायुषः जये समकभव मकालरे उपपन्नाः समोपपन्नका। यत्तैव विषया
 ह्ये समकभव प्रस्थापितवस्तः समकभव च निष्ठापितवस्तः गन्वायु कर्म्मवाचित्यैव सुपपन्न भवति ननु पापं क्कम् तद्वि मायुक्रोदपापवं प्रस्थाप्य

ण नत ! एव युञ्जड-अत्येगइया समाय पठविसु समाय तचेव ? गीयमा ! जीवा चउच्चिहा पयाज्ञा ,
 तजहा-अत्येगइया समाठया समीयवयुगा । अत्येगइया समाठयाभि समीयवयुगा । अत्येगइया चिसमा

एवमवारीत् अत्येक समकालेप्रस्थापितवस्त सार्यैव समकाले निष्ठापितवस्तः ? गीतम । जीवायतुर्विचाः प्रपसा सान्याया-अस्त्येके समा
 युक्तासमीत्यन्तकाः अस्त्येके समायुक्ता विषमोत्पन्नका अस्त्येक विषमायुक्ता समात्यन्तकाः अस्त्येक विषमायुक्ता विषमोत्पन्नका सन्त न
 तजे एवै इमभवन् इम कइया । परवगइया समार्यं पठविसु समाय तचेव । केतवाएक समकाल परवता इवा समकाले मोठाहता इवा इत्यादि तिम
 न पूङ्ग । नीयमा जीवा चउच्चिहा य त । हेगीतम जीव चउच्चिहा ते कइये-परवैगइया समाठया समाठवयुगा परवैगइया समाठका वि
 समाठवयुगा । केतवाएक जीव यरीये पाजका ठठयनीपयेयाये समकाले पाजखाना ठठयवस्त इत्यव विवचित पाजखाने जये समकालेच भवता
 रनेविये जपना ॥ केतवाएक जीव यरीया पाजखाना पूवपाजखाने जये विषमपरे यामवि पाजखि जपना । परवैगइया विषमाठया समाठवयु
 गा परवैगइया विषमाठया विषमोत्पन्नका । केतवाएक जीव विषम पाजखाना एतके जाहा यवी पाजखाना पूव पाजखाना ययवको समक
 जे जपना ॥ केतवाएक विषम पाजखानागत विषमपरे जपना पाजखि पाजखि जपना ॥ एतव जेत समाठया समाठवयुगा । तिहा जेइ सम थाज

ते निष्ठाप्यतवेति नैव पतो नवापेत् कर्मणामुदयः स्य वेप्यते इत्याह-इदपपपस्वच्छत्रसमेत्यादि ॥ अथएवाह-तत्यह जे ते समाउया समीवव
लगा त ए पाव कम्म समाय पठविहसु समाय भिठविहसुति ० प्रथमः तया ३ तत्यर्थं जे ते समाउया वि समीवववसुगति ॥ समकालायुजोदया।

उया थिसमीययणगा । तत्यण जे ते समाउया समीययणगा तेण पाव कम्म समाय पठविहसु समाय णि
ठविहसु । तत्यण जे ते समाउया थिसमीययणगा तेण पाव कम्म समाय पठविहसु थिसमायं णिठविहसु ।
तत्यण जे ते थिसमाउया समीययणगा तेण पाव कम्म थिसमाय पठविहसु समाय णिठविहसु तत्यण जे
ते थिसमाउया थिसमीययणगा तेण पाव कम्म थिसमाय पठविहसु थिसमाय णिठविहसु से तंगठेण गो

एकसमायुक्तासमात्यकाले पापं कर्म समकाले प्रस्थापितवन्तो विपमकाल निष्ठापितवन्त एतन्न ए जे समायका विपमीत्यकाले पाप कर्म
समकाले प्रस्थापितवन्तो विपमकालेनिष्ठापितवन्त एतन्न ए एके विपमायुक्तास्समात्यकाले पाप कर्म विपमकाले प्रस्थापितवन्तस्समकाले
निष्ठापितवन्त एतन्न ए एके विपमायुक्ता विपमीत्यकाले पाप कम्म विपमकाल प्रस्थापितवन्तो विपमकाल निष्ठापितवन्त । सात्कोणाऽर्थे
पारम्य समकाल अत्रमा भवात्तरने विपे । तेव पारंभक्य समाय पठ्विस समाय चिह्नविसु । तेचे पापकर्म समकाल भागविवा माद्या समकाल नोठाद्या ।
तत्रार्थं जेते समाकथा विपमावयवया । तिहा जेह ते समयाकथावन्त विपमपचे जपना तेचे मरणाकाला विपमपचको । तेच पावकम्म समाय पठ्वि
ह विपमाय चिह्नावय । तेचे पापकम्म समकाले पारम्या विपमपचे भागव्या नोठया । तत्र्यच जेते विपमाकथा समावयवया । तिहा जेह ते विपम पा
जपावन्त समकाले जपना । तेवं पारंभक्य विपमयं पठ्विसु समायं चिह्नविसु । तेचे पापकम्मपते विपमकाले पारम्या समकाले नोठाद्या । तत्रार्थं जेते
विपमाकथावि यथावयवया । तिहा जेह विपम पाछयावन्त विपमपचे भवात्तरने विपे जपना । तेचपावकम्म थिसमाय पठ्विस विपमार्थं चिह्नविसु ।
तेचे पापकम्म विपमपचे पारम्या विपमपचे नोठाद्या । जेतेपठ्वे गोब्रमा तचेव । तेचेपठ्वे जोगीतम इत्यादि तिमहोक् । एकप्याच भंते जोषा पावकम्म

विपन्नता परजयोत्यत्र मरुत्कालेपस्यात् ॥ ते समायं पठविमुक्ति ॥ आयुष्कविद्यपीदयसस्यात्वा त्यापन्नवेव न विशेषस्य ॥ विषमायं नि
 हविमुत्त ॥ मरुत्कालेपस्यात् पापकमवहमविद्यपस्य त्रिपन्नता मिष्टासन्नावा इति द्वितीय तथा ॥ विषमाठया समोवहकगति ॥ विपन्नकालायुक्तो

यमा । तत्रेय । सलस्साण जत ! जीवा पाव कम्म एयच्चव । एव सल्लुठणसुवि जात्र सुणागारावउत्ताए
 ते मल्लुवि पया एयाए वसल्लुयाए ज्ञाणियल्ला । णेरुहयाण जते ! पाय कम्म किं समाय पठविसु समाय
 णिठ्ठात्रिसु पुच्छा, गोयमा । सुत्थेगइया समाय पठविसु एत्र जहेव जीवाण तहेत्र ज्ञाणियल्लु जात्र सुणा
 गारोयउत्ता । एव जात्र येमाणिया जस्स ज सुत्थिय त एणेण कमेण ज्ञाणियल्लु जहा पात्रण कम्मेण वरुठे

म ॥ गीतम । तत्रेय मलोइया जदत्त । नीव पाप कर्म एवचेव । एव सुवस्याल्लुपाप यावदनाकारापयुत्ता स्त सर्वेपिपथा अनया वल्लव्यतया
 मलितया णेरविका प्रदत्त । पाप कम्म किं समकाल प्रस्थापयति समकाल मिष्टापयति पुच्छा गीतम । अस्त्यके समकाल प्रस्थापयति
 एत्र पर्येवजीवानां तत्रेयजलितव्य यावदनाकारोपयुत्ता एव पायहुंमामिका यस्य यदस्ति तत्तस्य क्रमव प्रखितव्य यथा पाप कम्मवा दल्लको

एवचेव । समया इत्ययवन् कोत्र पापकमगत इत्य आह समकाल कइवा । एव साइड वसति । एम समकार पवि स्त्रामकने विपे । आत्र पचागारावउ
 ताप ते मरुत्तिका एवाए वल्लुयवता मलियवता । यावत् अनाकारापयुत्त एतल्लासग कइवा त सगल्लाए पवि पठ इतिहीन वल्लव्यतये कइवा । ये
 राय च भत पावकस्य किं समाय पठ्ठामस समाय विद्विसि पुच्छा । मरुत्तो इभगवन् पापकर्मसू समकाल चारस्या समकाल लीठाउता बुया इ म
 उतर । भावना परेवेपया समाव पठ्ठ एव जहेव कोत्राव तहेव भावितव्य । इगीतम एतल्लाएव समकाल चारुअना बुया इम किमहीन जेवने
 कया तिमथाव इवा पवि कइवा । आत्र पचागारा वरुत्ताए एव जाव वनाविया । यावत् अनाकारापयुत्त एतल्लासग कइवा इम यावत् वेमानिकवने
 कइवा । एव ज इति त एव अमेव भावियव्य । जइते जइजे ते इव अयुत्तनेवरो कइवा । जइवा पावप कम्मव दइवा । निम पापकर्म करो दण्डव

२० ममबालमयात्परात्यन्तयः ॥ तर्कं पाव कल्प विमयायं पठविषु समाय निठविस्तुति ॥ वृतीयः अतुष सु शास मयेति इह वेतास जट्टुकांम्
 मात्तनानमदृक्षांयात्स एदे रुत्त पठुवकमपकिद्विदु सुमाउतुवुणमुचउगो । किद्वमममन्विषषसुप गमखिज्जाअत्युजगा ॥ १ ॥ पठववसुप
 मया पृथानाणनामपुत्रया । वया पृथानदुगः समकप्रस्थापनादयो न थाप्यस्त तयइ समापुकादया अन्यथाप्या व्यास्याता अपि व्याख्या
 इत्यप ० कालममाज्जउदमप यादुवापुसमउज्जा इति ० पळोमत्रिगशात प्रथमः ॥ २८ ० १ ० पळत्तरोषवसुगगाअमित्यादि ॥

एय एण कमेण अठमुवि कम्मपगणीते अठ ठरुगा ज्ञागियक्षा जीयादिया वमाणिया पज्जवसाणा एसो
 णअठरुगसगहिने पठमोउदेसुते ज्ञाणियञ्चो । सेय ज्ञते । ज्ञते ॥ २९ ॥ १ ॥ अणतरो
 ययणुगाण ज्ञने । णरइयाण पाय कम्म कि समाय पठविषु समाय णिठविषु पुच्छा, गीयमा । अत्येग

पकमदम अमवाऽष्टास्त्राप कम प्रकृतिपु अष्टो वरुकाः जगित्तव्याः बोवादिवा वैमानिकाः पर्यवसावा इदृशानवटवठउचङ्गुहीतो मयमापुषो
 अविनप्य लदय प्रदुगत । जयगत । इत ० पळोमत्रिदितिमे प्रथमोदेसाः ॥ २८ ० १ ॥ पळत्तरोषवसुका जदस्त मैरपिका
 पाव कम कि ममकाल प्रस्थापितवस्तः पुच्छा गीतम । अरएक समकाले प्रस्थापितवस्त स्समकाल निष्ठापितवण्त अस्सय

०५ । ०६ प०७ कमव पइमदि क्कपवदोषा उदुदुहता भा वरुहता । इम एदे यजुमेवरो पाठर कमाकतिना पाठटपुक्क कइवा । औवाओवा व
 माविवा पञ्चानावा एसा अरएकग र्गनदिवा पठमावहेमपा भाविउग्ग । कोव पादिउग्गे वैमानिक पयत्त एइ जददुक्क सयहीत पदिवा उइ या
 उइया । मव भग इति । तइति हेमववन् । उणुवोमसा यतएवा पदिवा इदुग्गया कइवा २८ । १ ॥ पयतराववसुगाव भते अर
 एवाव प ०७ अदि उमाव पइविम मसाय विदुविम पुच्छा । पज्जतरात्यपवक हेमववन् मारक पापकम अू समकाले पारअथा इया समकाले नोठाव
 ना उवा इ प उतर । गावमा अरयेगाया समव पडुविउ उमाय विहावमु । हेगोतम अतथाएक समकाल पारअथाइवा समकाले नोठावता इवा ।

द्वितीय तत्र चामलरोपवल्का द्विविधाः ॥ समासपा समोवल्कलिति ॥ चामलरोपवल्कासो सम एव व्यापुद्धरयो जवति तद्विषयेऽमलरोपवल्का
त्वमेव न स्यादपु प्रथममवधत्तित्वा तयो ॥ समोवल्कलिति ॥ मरुवामलर परत्रधात्यन्तिमाश्रित्य त च मरुवकाल प्रुतपूवगत्या धलरोपवल्काका

इया समाय पठविसु समाय गिठविसु । अत्येगइया समाय पठविसु थिसमाय गिठविसु । सेकेगठेग
भते । एय युञ्जइ-श्रुत्येगइया समाय पठविसु तचेत्र गायमा ! श्रुगतरोवययणगा णरइया दुत्रिहा पण्यता
तजहा-श्रुत्येगइया समाउया समोवययणगा, श्रुत्येगइया समाउया थिसमोत्रययणगा, तत्यण जे ते समा

क ममकाल मस्यातितश्रुती विपमकाले निष्ठापितवस्त । अय कमार्येन मदन । यवमवादीत्-अस्त्येके समकालेप्रस्थापितवस्त सप्येव गीत
म । अमलराल्यल्का नैरयिका द्विविधाः प्रकृता, कृष्टया-अस्त्येक समायुक्ता स्वसोत्यल्का अस्त्येके समायुक्ताविपमोत्यल्का सान्द्रये
क ममपुकारसमात्यल्का स पाप कम स्वमकाल मस्यापितवस्त स्वमकाले निष्ठापितवस्त सान्द्रये के समायुक्ताविपमोत्यल्का स पाप
परवगइया ममाय ण्डुर्बिसुवि समार्ये विठुविस । कृतसाणक समकाल पारक्यता कुर्या विपमकाले नोठाकृता कुर्या । सेकवइव भते एव ववृत् । त स्वे य
वे कभगवत् इम कृष्णा । परवववावा समाय पठुविस तचेत्र । कृतसाणक समकाल पारक्यता कुर्या समकाल नोठाकृता कुर्या तिमकोम । गावना अचरत
राववल्का वरावा दुविहा पे त । इमोतम यनगतराल्यल्का मारक बइमइ मरुष्वा तेकवल्के - परयेगइया समाकृया समाववल्का । केतसाणक सरो
या पात्रपाभग्न यन चरीया अपना यनगतराल्यल्के समकोक पात्रलोना एटय इवे पात्रस्थाने विपमपचे यनगतराल्यल्काकोक सरो
वममय वतिपवाकको तेकने मरुच यनगतर परमकाल्यन्ति मतेपायकोने तइ मरुवकाल मृत पूवगति करो यनगतराल्यल्का कइये । अटवेगइया समा
इया थियमात्रवल्का ततच अत समाकृया समाववल्का । कृतसाणक सरोका पात्रलोकावगत विपमपचे अपना विपमाल्यल्काकपा इही पति मरुच वे
वम्यको कविवा बोधा ए कभया यनगतराल्यल्काके विपे न सुचये यनगतराल्यल्काकोको होच तिहा केइ समपात्रलोकावगत समपचे अपना ।

उप्यन्ते । समाप्तया विद्यमौवप्युक्तानि ॥ विद्यमौवप्युक्तस्य मित्राणि सर्ववैपस्याविति दलीपकनुषी प्रगा समस्तरोपपन्नेषु न समस्तवती मालरोप
 पकत्वा इवति द्वितीयः उद्देशः । एव मया अपि ॥ मत्वर चत्तरोद्वेषगा च उवइविति ॥ समस्तरोपप्यानन्तरावगाहानन्तराह्वारकालान्तरपर्यो

उया समीयत्रयगा तण पाथ कम्म समाय पठविसु समाय णिठविसु । तत्यण जे ते समाउया थिसमी
 यत्रयगा तण पाय कम्म समाय पठविसुथि समाय णिठविसु स तणठेण तचैत्र । सलेस्साण जते । थ्यण
 तरोयत्रयगा णरइया पाव कम्म एथचैय जात्र थ्यणागारोवउत्ताए । एव थ्यसुरकुमारवि । एव जाव विमा
 णिया णत्तर ज अस्स थ्यत्थि ते तस्स ज्ञाणियत्तु, एव णाणात्तरणिज्जेणथि दळ्ळु । एवं णिरवसेस जात्र

कम्म समक्कागप्रस्थापितवन्तो विपमक्कासनिष्ठापितवन्त कात्तकार्येन तथैव सत्तइयो जदल । समस्तरोत्पद्यको नेरयिक पाय कम्म एथचैत्र याव
 दसाकाराप्युक्ता एवमञ्जुइकुमारोऽपि एव पावईमोनिक्का मत्तर यस्य यदस्ति तत्तस्यैवमिच्छितस्य एव प्रानावरणीयपि दळ्ळो एव निरवसे

तत्र पावकस्य ज्ञानाय पठविसु समाय निष्ठुविस । तथे पापकस्य समक्कास चारम्भा समक्कास नोठात्था । तत्त्व जेते समासका विस्मासवस्यगा । तिहा जइ
 ममायुपे विपमपथे जपयता । तेन पावकस्य समाय पठुविस विप्रमाय विष्ठुविस । तेने पापकस्य समक्कास चारम्भा विपमपथे नोठात्था । सेतेकडुव तथेव ।
 ते तथे पथे जेथोतस्य तिमहोक् । ससम्मान भते चर्चतरावस्यगा चेरइथा पावकस्य पवचेष । सलेयो हेमसयन्त् समस्तरोपपन्न मारको पापकस्य इत्थादि
 समथोक् कइया । जात्र यनाभारावकत्ताए एव समस्तकुमारोऽपि एव जात्र वेमाविक्का । यावत् यनाभारापडुक्कपथे एतक्का कइया इम समस्तकुमार पवि
 कइया इम जावत् यमानिचत्तवि कइया । चत्तर ज जइय पत्ति ते तज्जु माविचत्त । एतत्ताविपय जेइ जेइनेवे तइ तेइने कइयो । एव जापावत्तविज्ज
 परि इइया एर विररपथे जात्र चत्तराडक्क । इम प्रानावरणीयवस्यगाते पाव इक्कडुव कइया इम समस्तपथे यावत् चत्तरावकगे कइया । सेवभते र सि
 द्धाव विचरए । चइति जममवन्त् इत्थादि यावत् विचरे । एव एइय समएव लवव भविचए एइसण प चत्तको सजेवि इइवि भाविचत्ता जात्र चत्तरिमा

सङ्कीर्णशान्तिः ॥ कामप्रस्थापनाद्यप्रतिपादनपर श्रुतं कामप्रस्थापनशत ॥ एकानत्रिंशत् शत श्रुतितः समाप्तं ॥ २८ ॥
 अनुसुप्तसमाप्तौर्का टीकपटिव्यताप्रपुत्रेव । अमरुटापाटयोविदि पदुयतेपदुगमेमाटन् ॥ १ ॥

श्रुतराष्ट्रगुण सेन जते ! जत ! स्ति जाय विहरइ । एव एगुण गमएण २ जवेव यधिसए उद्वेसगपरियाजी
 खवेयि इहयि ज्ञाणियहा जाय श्रुचरिसीसि । श्रुणतरउद्वेसगाण चउरह्वयि एगाए यसस्यया ससाण सस्यरह
 एकात्रत्तस्यया । कम्मपठत्रणसय सम्मत ॥ २९ ॥

यं पावदत्तराय । तदेवं वदन्त । इति ॥ यायद्विहरति । मवमतेन कमस्य एके यन्त्रियते बहुशकपरिपाटी सापिसर्वा इहापि ज्ञेयि
 तस्या यायद्वरिसम् । अमरुटोद्देशानां चतुय प्यकैव वक्ष्यता क्रापाका सप्तानामैकावक्ष्यता ॥ कम प्रस्थापनशत समाप्तम् ॥ २८ ॥

श्रीपुत्राचार्यसौकागकवदसुतपत्रानिषेस्मुरिष्यम् राधिशौरायवाहादुरभमपालिसिद्धस्यसम्प्रापनम् ।

सुकीर्तः पञ्चमाङ्गमस्तपुत्रतदेवनापानुभाद सीपोऽपद्विस्तनेयप्रथमगुरुकारामचन्द्रकसिद्धिम् ॥ १ ॥

ति । इम इवे अनुवनेहरो जिबाहोव दमियते उद मकनो परिपाटो तिबा सुगभीहो इहा पवि कइवो यायत् पचरिमकग कइवा । पचंतरउद्वेस
 ना च बरवइवि एमाए बतल्लवा । पननराएउपच उल्लारावगाठ पननराइारव पननतरपबीमक ४ ए बार उद्वेगानो एक सरोओो बत्तयता कइ
 बी । सेमार्च मत्तर्बंवा बतल्लया । मय सातउद्वेयानो ०क सरोओो पत्तल्लता कइवो एवं ॥ कणपइवचसय सम्मत ॥ पापकम प्रस्थापनाद्यस मतिपा
 इन परायतक ते कम मल्लापन मत्तक नी उद्वेवचोसमा पूर्वववा ॥ २८ ॥ ० ॥
 पननरेगतकमविषे कमल्लापनादि पायबीने कोव विचारया इहा कम बत्थादि हेतुभूत वसुधाट मतेपायबीने जीवसीक विचारियले इसे सबधि एइ इ
 थारे उरेयानक एव मवमउद्वेयव पादिसुन । कइव मते समासएवा प । कतवा इमगवन् समवसरव प्रकृत्वा तिहां सुसइउरे तानापरिधान जीव

प्याय्यात् मेकोनत्रिंशत् शत मय त्रिशमारण्यते-ऽस्या चाय पूर्वैव सङ्गाप्रिसम्बन्ध प्राक्तमशाते क्रमोप्रस्थापनाद्यामित्य ङीया विचारिता इह तु क्वम
 यथादिदत्तु प्रतवन्नुवाद मामित्य तयव विचारयन्त इत्येव सम्बन्धस्यास्वेकारश्चाद्युक्तात्मकस्य इ प्रथमोदुक्तादिचूडम्-कारकमित्यादि ॥ समोसरञ्जति ॥
 समवसरति नामापरिचामा ङीवाः कथञ्चि तुल्यतया यपु मतपु तानि समवसरणानि समवसरतयो वा ऽप्योव्यभिन्नपु क्रियावादादिमतपु कथपि तुल्य
 त्वन क्वचि स्थयानि द्वादिना मयताराः समवसरणानि ॥ किरियावादादि ॥ क्रिया कर्त्ता विना न सम्भवति सा चात्मसमवायिनीति घटन्ति तच्छीला

कट्टण ज्ञेते । समीसरणा पण्यज्ञा ? गीयमा ! चउद्धिहा समीसरणा पण्यज्ञा, तजहा-किरियावादी अ्युकि
 रियायाद्री अ्युयागियधादी वेणइयथादीत्रि । जीवाण ज्ञेते ! कि किरियायादी अ्युकिरियायादी अ्युयाणि

ज्ञेते जदन्त । समवसरणाः प्रपञ्चाः ? गीतम ! यतुविषया समवसरणाः प्रपञ्चालक्षणा-क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानवादी विनयवादी च ।
 जीवानां जदन्त । कि क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानवादी विनयवादी च ? गीतम । क्रियावादिमोपि ङीवा ऽक्रियावादिमोप्यज्ञानवादि

कथञ्चित् तत्त्वपक्षेभ्यो जेह मतनेगिने तेह समवसरण कश्चिये १ ५ उत्तर । गायमा अठक्किहा समासरणा पं त । जेभोतम चारिभेदे समासरण क
 या ते कश्चै-किरियावादी पबिरियावादी पद्याबियवादी वेवराववादीवि । क्रिया कर्त्तार विना कथये नहो तिहा पाकममवाचनो इहो कश्चै ते
 इ यो कइना ते क्रियावादी कश्चिये पयवा क्रियाहोळ प्रधानये स्रू प्रानेचरो इवे एवरो कश्चै ते क्रियावादी कश्चिये तेह पाप्मादिपवाह पश्चित्त प
 तियचिककयव एवभोपयो संख्याये इवे ते खानाकारणको जांचवा १ जेह क्रियानो प्रभाव ते नहो कारणएव पबि पनबञ्जित पटाद्यने क्रिया मकोवे
 तइने पभावे पनबस्थितना यथाशक्को इमजे कश्चै ते पक्रियावादी कश्चिये पयवा पक्रियावादी कश्चै क्रियाकोषां च्च इवे विनमो विमुद्दहोळ करचो तेह
 ना एह भेद इवे २ पद्याबियति कुञ्चितप्रान ते प्रपञ्चान ते इमकश्चै प्रपञ्चानहोळ मना पबित्यकृत कसवणव वेपयकको एइना यतघट दिक्कम्य ख्याना
 भारकको जांचवा ३ विनवेचरो चाये पयवा विनबहोळ प्रपञ्चान इया कश्चै ते विनबवादी एइना ३२ भेद एवं एव ३६३ जांचवा । ङीवाच भते नि

इति ॥ अत्रिया ॥ अथ वा अत्राय नदि कस्यपि दृष्यन्वस्थितस्य पशुधर्म्य क्रिया समसि तद्भावे वा नवस्थितेरनावा दित्येव मे वदन्ति ते अत्रि
 यावादिम तथावापु रक-सावकाःशयसस्कारा इस्थितामाहुताःक्रिया जूति र्पया क्रिया सेव कारक सेव चाप्यत ॥ १ ॥ इत्यादि श्रम्येत्याहु - अत्रिया
 वादिनो य द्रुवत कि क्रियया चित्तशक्तिरव कापो तत्र वीरुा इति शस्यत व्याख्यालि-अक्रियां वीत्रादिपदार्थो नास्तीत्यादिवा वदितु मील
 यया त उत्रियायादिम तथास्मादिपदायभासित्वाप्रतिपत्तिलक्षणा यन्तुरशीतलिविषस्याः खानालरा दयसया ॥ अत्रियावियवाइति ॥ कुरिषत

अत्रियायादी अत्रिरियायादी अत्रियाणिययादी वेणद्वययादी वि । सुक्तापरिकया जहा सलेस्सा । सम्मद्विठी
 जहा अलेस्सा । मिच्छद्विठी जहा क्रयहपरिकया । सम्मामिच्छाविठीण पुच्छा , गीयमा । जो किरियायादी
 णा अत्रिरियायादी अत्रियाणिययादीत्रि वेणद्वययादीवि । णागी जात्र केत्रलगागी जहा अलेस्सा । अत्रिया

त्रियायादी पूष्वा गीतम । नेवत्रियायादी अत्रियायादी विमपवाद्यपि । सुक्तापरिको यथा ससत्रयः सम्पदृष्टियथाऽसत्रयः
 मिष्य दृष्टियथा कृतपापिक । सम्पगमिष्यादृष्टीना पुच्छा गीतम । नेव क्रियायादी नेवाऽक्रियायादी अत्रानवादी विमपवाद्यपि । ज्ञानी

इत्यत इव परीर इपयक परिच्छेद कृतपरिच्छेदो तथा अक्रियायादो नको पञ्चानवादी नको विमयवादा नका । अत्रयपरिच्छेदाच्च मते ज्ञोवा कि वि
 रियायादो पूष्वा । अत्रियापिक इमममन् जोमप्य विवायादो इ म उत्तर । मायमा वाकिरियायादो पकिरियायादो पञ्चावियवादी ववायया
 दावि । ज्ञोतम त्रियायादो नको अत्रियायादो पुत्रे पञ्चानिकवादोपविपुत्रे विमयवाको पविपुत्रे । सत्रयपरिकया अत्रा मन्त्या । अत्रयापिक इत्रिम
 यवमा अत्रा तिम अत्रया । पञ्चविष्टो अत्रा पञ्चयाः । मन्त्रगुटो त्रिम पञ्चमी अत्रा तिम अत्रया । मिषकृष्टिा अत्रा अत्रयपरिकया । मिष्याहुतो मिम
 अत्रयपिक अत्रा तिम अत्रया । मन्त्र मिषकादिशुभ परका । मिषकरोमा मन्त्रबोधा उत्तर । मायमा वाकिरियायादो बोपकिरियायादो पञ्च विषय
 वादोऽपच मयवादोदि । ज्ञोतम नको अत्रियायादो नको अत्रियायादो अत्रय मन्त्राहुतो साधारण परिचामनको नको पाच्छिक नको नाच्छिक वि

प्राप्तं मष्टानं तं दद्यात् तं सप्तानिदा क्तं च द्यादिनं येत्सऽपानिकवादिनः तेषां प्राप्तामनेव श्रेयोऽस्यिदित्यङ्कतकमत्यथीकल्या तया न द्यात्
 कल्प्यापि क्वचिदर्थं वन्यन्त्यसि प्रमाणांमस्य ऽस्युत्पन्नवस्तुविषयत्वादिस्थापान्युपगमवशः सप्तपञ्चिषङ्काः स्थानान्तरा इत्यथेया ऽ वचनइयथाइति ऽ
 विनयनं चरति स वा प्रयाजनं यथा मिति वैलपिकाः त च ते वादिनं यति वैलपिकवादिनः विनय एव वा वैलपिक तदथ य स्वयादिद्वस्तुस

णी जात्र त्रिजगणाणी जहा करहपस्त्रिया । आहारसखीवउत्ता जात्र परिगगहमखीवउत्ता जहा सलेस्सा ।
 णो सयोत्रउत्ता जहा अलेस्सा । संत्रेदगा जात्र णपुगत्रेदगा जहा अलेस्सा ।
 सकमायी जात्र लोचकसाइ जहा सलेस्सा । अरुसायी जहा अलेस्सा । सजागी जात्र कायजोगी जहा

यावत्कसत्तानी यथाऽलक्ष्यः । पञ्चानी यावद्विजगणाणी यथारुप्रपादिकः । पाहारसखीवउत्तो यावत्परिगगहसखीवउत्तो यथा सत्तत्रयः त्रिय
 सर्पापपत्ता यथाऽलक्ष्यः सवदका यावत्सुप्तकवदको यथा सत्तत्रयः सकपाइ यावत्प्राप्रकपाइ यथा सत्तत्रयः अकपाई
 नु ममपरिधीमवका पकार लहरे पञ्चानवाणे पचिक्कन विनयदाहो पचिक्कन । बाबी जात्र केरववाको अहा पसेक्काः प्राणो वावत् कनमप्राणी कि
 म पक्का अद्या तिम अहवा । पकाको जात्र विभेनवाको अहा अहवपत्तिया । पञ्चानी वावत् विभमप्राणो ऽ कल्पवाचिकनोपरे अहवा । पाहार
 मयात्रजगा जात्र परिगगहसखावत्ता अहा मसका । पाहार सप्रापवुत्त यावत् परिगगहसखापयुत्त किम मसगो अद्या तिम अहवा । बासखावत्ता
 अहा पसका । ना सप्रापवुत्त किम पलमी अद्या तिम अहवा । मसका अहा चर्पं समसदना अहा पसेका । संबेदक यावत् नुपुमकवेदक किम मसगो
 अद्या तिम अहवा । पवेदगा अहा पलया । पवेदक किम पसगो अद्या तिम अहवा । मसकाको जात्र साभकमारि अहा पलया । मसपार यावत्
 याभकपाइ किम मसगो अद्या तिम अहवा । पकपाको अहा पलया । पकपाको अहा कायजोगी अहा पलया पका
 नो अहा पलया । सबानी यावत् बासवाणी ए त्रिम सलमी अद्या तिम अहवा, पथीनी किम पसगो अद्या तिम अहवा । सागारावत्ता पथायार

या वदन्त्य श्रीनाथ त वैश्विकवादिभिः विपुतसिद्धाचार्याणां विमप्रतिपत्तिसङ्घा हाथिच्छाद्विधाः स्वामातरा वयसेयाः, इह चार्थे गाथा-
व्यतिबिरिययाइ अपतिन्त्यिबिरियवाइठ ४ अक्षाधिपसखाइ वद्वपाविद्वयवायति ४ १ ४ एतेषु सर्वे व्यस्यत्र यद्यपि मिथ्यादृष्टयो भिदि
ता कयापीश्याः सम्यग्दृष्टयो श्राद्धाः, सम्यगस्तित्वादिनामत्र तथा समाश्रयवाविति ४ सीयाखमित्सादि ४ तत्र जीवा यतुविधा अपि तथा
ह्यनावल्यान् ४ अयसवाभिसर्त्यादि ४ असुर्या अपागिन सिद्धा इ त च क्रियावाटन एव क्रियावाइतुनुतयथावस्थितद्व्यपयोपरिच्छेदे

मलम्मा । श्रुजोगी जहा श्रुलेस्सा । नागारीयउहा श्रुणागारीयउहा जहा सलेस्सा । गोरहयाण जते ! कि
किरियात्रादी पुच्छा, गोयमा । किरियात्रादीत्रि जात्र येणह्यव्यादिवि । सलेस्साण जते । गोरहया कि कि
रियात्रादी एयचेय जाव काउलेस्सा । करहपस्किया किरियावित्रज्जिया । एव एरण कमेण जञ्जेत्र जीयाण

यथाऽमत्रय मयोनी याधरवापजानी यथा सलश्यः अजोगा यथाऽसहयः साकारोपयुक्ताऽनाकारोपयुक्ती यथा सलवयः । नैरियको मवत्त ।
कि क्रियावादी पुच्छा गीतम । क्रियावाद्यपि यावद्विनययाद्यपि । सलइया नदत्त । नैरियकः कि क्रियावादी स्वबैव यावत्क्यापातलेत्रयः
रूपतपाचिका क्रियाविक्रिजितः एकमतम इमंयपदव जीवानावत्कव्यता स्वर्वेवनैरियिकावायमपि यावदनाकारोपयुक्ता नवर यदस्ति तद्गुचितव्य

वदन्ता इहा समया । याकारापयुक्त पनाकारापयुक्त त्रिम समया कथा । तिम कइथा । बेरइयाच मते कि बिरिवावादेो पुच्छा । नारको येमगबन्
यु क्रियावादी इत्यादि मयु उतर । भायमा बिरियावादीप कात्र यथाबवादीदि । हेनीतम क्रियावादी पबिइयेयाव् विनयवादी पबिइये । ससेष्ठा
य मत्र बदद्या कि बिरियाद नी ०यच नाव कावकया । सलया इमगबन् नारको यु क्रियावादी इत्यान् इमज कइथा सावत् कापातजया एतया
नय कइथा । कबदुवाकया बिरियाविक्रिजिता । कल्पयाचिक क्रिया बर्जित कइथा । ०४ ००५ कसं चअच जीजाकं मतव्यया सल्येव बेरइयावदि का
र पयावातरइत्ता । इम इके पनुकमे चरा त्रिवादीत्र जीवनी मज्जवता कइती तिकाइोज समलीइती नारकाने पबि कइयो याइत् पनाकारापयुक्त

पुत्रत्वादिव च यानि मय्यादृष्टिग्यानानि असेशयत्वसम्पदक्रमनान्नानिसौप्तोपयुक्तत्वादीनि तानि नियमा रिक्याणादे दिप्यन्ते मिथ्यादृष्टिस्थाना
 नि तु मिथ्यात्वादानादीनि श्रेयसमयसरूपये च समानिष्ठादिठीवमित्यादि ॥ सम्यग्मिथ्यादृष्टयो हि साधारणपरिखामत्वा लो अस्तिष्ठा नापि
 मास्तिष्ठाः बितु चदानविमपवद्विन एव सूरिति च पुढविकाइवाकमित्यादि ० नोकिरियावाइति च मिथ्यादृष्टित्वा सपा मक्तिपावाविमो अघा
 निवकादिन ए त भवगित वाइनापाप तद्वादयाग्यत्रीवपरिखामसद्भावा द्वैमयिकवादिमस्तु त न प्रवगित तयाबिपपरिखामाप्रवाविति च पुढवि

यस्तद्वृथा सहेय णेरडयागति जाय अणगागरोवउहा णवर ज अत्यिह, सेस ण न्नाणियह, सेस ण न्नाणियह जहा
 णरइया । एवं जाय यणियकुमारा । पुढयोकाइयाण जते । किं किरियावादी पुच्छा, गीयमा । णो किरिया
 यादी अकिरियायादीयि अख्खाणिययादीयि णो वेणइययादी । एव पुढवीकाइयाण ज अत्यि तस्य सहेत्ययि

श्रेय न प्रवति यथामैरविकः एव यावरस्तनित्तुमाराः । पृथिवीकायिका प्रदत्त । किं क्रियावादी पुच्छा गीतम । नैवक्रियावादी अक्रियावादापि
 अष्टानिष्ठापि नैवगितययादी । य एपृथिवीकायिकाया यदस्ति तत्र सबप्राप्यतो द्वौ मध्यमी समवसरधी याधदनाकारोपयुक्त एव यावत्

गतमाशने कहो । चरत्र पति त भावियत्र सेस च भवइ अइरा करइया । एतन्नावियेय जेइखे तेइ कहना अय न अइ । किम मारको कइया । ०
 व जाइ अविषयकुमारा । इम य वत् अन्वितकमारतां कहया । पुढोकाइयाच भते किं विरियावातो पुण्य । पृथिवीकायिक इभगवन् स्तुं विप्र ब
 दो इ ०० उत्तर । भावमा वाकिइयावातो पकिरियावादी वि वा वनइववादी । वेगोतम नही क्वियावातो मिथ्याइरा पनीइला
 पकिरियावादी इवे अष्टानिष्ठावादी इउ ०इने वादना पभासक ता पचि तेइ याइथाय्य जौवपरिचाम सठाइवको ए वइन विमववातो नही तथा वि
 थ परिचामना पभासको । ०२ पुढोकाइयाचं व पति तत्त सहेत्ययि । इम पृथिवीकायिकन जइके तिहा सगला । एयाइ टा मन्मिअ इ समासरथा
 इ याइ अवागापइउत्तर एव भाव अवरिदियाचं । इम हाव विपका समासरथ कहया यायत् पनाकारापयुक्त एतकाः अग कहवा इम यात्रत् अवरिदो

कारणक अं पत्योत्पादि न पृथिवीकापिकाता पद्विंशति सुसेर्यकानमीसन्नायोततेओसेर्यकप्रपाधिकत्वादि तत्र सुवत्रापि मध्यम समवसरकक्षय
 वाच्यमिति न एव जाय चउरिदियावमित्यादि ननु द्वीन्द्रियादीनां साक्षादमत्रावम सम्पन्न ज्ञान चप्यत तत्र क्वियावादिस्व युक्त तत्स्वजावत्वा
 दित्याद्युक्त्या-समत्तनाद्यद्वीत्वादि न क्वियावादीयनयवादी हि विशिष्टतर सम्पन्नादिपरिचाम स्याता न साक्षादनरूप इतिजायः अ इत्यि त
 प्राविष्यति न पृथ्विपतिरथा मल्लपाक्ष्यापित्वादि न प्रथम्यसम्भवा वितिजायः क्षीवादिषु पृथ्विपतिषु पदेषु यद्यत्र समवसरकक्षमिति त

एयाइ दी मज्जिझाइ समोसरगाइ जात्र झुणागारोत्रउत्तड । एवं जात्र चउरिदियाण ससूठ णे एयाउचेत्र
 मज्जिझाइ दी समोसरगाइ समसूत्राणाणेहिंथि एयाणिचेत्र मज्जिझाइ दी समोसरगाइ । पचिठियातिरिस्क
 जोणिया जहा जीथा जयर ज झुत्थि त ज्ञाणिपच्च मणुस्सा जहा जीथा वेहव णिरवसस त्राणमतर जीइ

तुरिंद्रियाको सुवस्थान वृताववद्वी मध्यमी समवसरकी सम्पन्नज्ञान उप्यती चैव मध्यकी द्वावेत्रसमवसरकी पृथ्विपतिर्यग्यानिका यथा श्रीम
 मवर पद्विंशति तद्गच्छितव्य । मनुष्या यथाजीवा सायैव निश्चिन्त्ये । वानज्यतरज्यातिक्वैमानिका यथाऽऽसुरकुमार । क्वियावादिमो ज्वल ।
 जीथा कि मेरिपिकायुप प्रकुर्वन्ति तिर्यग्यानिकायुप मनुष्या उप्युं दवायुप वाप्रकुर्वन्ति ? गौतम । मेवमेरियिकायुप प्रकुर्वन्ति मेवतियंयोभि
 न पतनात्मने कश्चा । मज्जु के प्याः चैव मज्जिझार वा समोसरवार । मय ज्ञानकर्मणिये एकोज निवे क्विचला दाव समोसरव कश्चा । समोसरवीदि
 दि पदाभिषय । मन्वज्जानाने विषे वेरिद्रियादिक्वमे एकात्र चक्विवावाइ पत्रानवाड । मज्जिझमाइ धामोसरवार । क्विचला दोय समोसरव कुवे प
 नि क्वियावाइ चित्तवहाट ए वे नउवे ए इमा पतिविगिट समझादि परिचामी कुव पचिचामी सासादनरूप इतिभाव । पचिठिया तिरिक्वजापिया क
 दा जोथा । पचिठिय तिरिक्वयानिक जिन जोरकक्षा तिम कश्चा । चवर न पत्थि त माचयल । एतकावियेव अ एकजमे तद्वने तेइ कश्चा पयोप्र
 तिरिक्वयानिकन पमेज्ज कश्चावपवादिक् न पूरणा पदव्यवहकी इतिभाव । मज्जुष्ठा कश्चा जोथा तद्वेव चिरवसेस । मनुज्ज जिन जोत्र कश्चा तिमकोत्र

न्मिय वेमांगिया जहा शुसुरकुमारा । किरियात्रादीण जते । जीया कि णेरडयाउयं पकरेति तिरिकजोणि
 याउय मणुस्माउय द्याउय पकरेति ? गोथमा । णा णरडयाउय पकरेति णो तिरिकजोणिगायाउय पकरे
 ति मणुस्माउयपि पकरेति देयाउयपि पकरेति । जइ देयाउय पकरेति कि जयणवासिदेयाउय पकरेति
 ज्ञाय वेमांगियदेयाउय पकरेति ? गोथमा । जयणवासिदेयाउय पकरेति णो याणमतरेयाउय पकरेति

कायुप प्रकुवन्ति मनुष्याद्यायुपप्रकुवन्ति द्यायुपमपिप्रकुवन्ति । यदिद्वामुप प्रकुवन्ति कि मधमपति द्यायुप प्रकुवन्ति यावद्देमाभिरुदयायुप
 प्रकुवन्ति ? गौतम । प्रवतवासिदेवायुप प्रकुवन्ति नैवस्योतिस्वरयायुप प्रकुवन्ति नैवस्योतिस्वरयायुप प्रकुवन्ति । वेमानिकद्वयायुपप्रकुवन्ति ।
 अक्रियायादिना भयत । सीताः कि नैरयिकायुपप्रकुवन्ति तियक पूष्ठा गौतम । नैरयिकायुपमपि प्रकुयास्त यावद्द्वामुपमपिप्रकुयन्ति ।
 ययणप्रानिउयाद्यपि वितययाद्यपि । सुत्तयो जयत । औत्र कि नैरयिकायुप प्रकरोति पूष्ठा गौतम । नैवनेरयिकायुप एव यथैयजायस्त

निरियत कइथा । शकमार जहा य वसाविया जहा पसुरकमार । बागवत्तर ण्यादिपो वेमानिक किम पसुरकमार कइथा तिम कइथा । किरिया
 याशक भत भावा कि करया इयं पकरेति । कियाव दो इभगवन् औत्र सू मारकाना पाऊयाकरे पयथा । तिरिकखाविया इव मणुग्गाव देशाठव
 पकरेति । किगावाओ इभगवन् ओव सू न रौना पाऊया करे पयथा तिरिययानिकना पाऊया वधि पयथा मणुग्गा पाऊया वाधे पयथा इवना
 पाऊया बाधे प यत्तर । गायमा वाधेरयाउय पकरेति वातिरिक्खाधियाउय पकरेति मयसाठव थ पकरेति द्वाठवपि पकरेति । इभोतम
 मारबोलापाऊया नकर नियवशा नइना पाऊया करे मणुग्गा पाऊया करे टयना पाऊया पबिक्करे । तइी उेव तथा मारव क्रियावाओ मणुग्
 गाप ऊणा कर पम मणुग् तथा यियेवना पाऊया करे । कइ दशाउयं पकरेति । आ इवनायाऊया करेता । कि भवक्कासि देवाठव पकरेति
 वा मयजपो इ ना प जया कर । ज्ञाव वसाविव देवाठव पकरेति । इम वायव वेमानिकना पाऊया करे प यत्तर । गायमा भवक्कासि दे

नारायण मय तपसायव्यतिरूपणायाम् किरियत्यादि ० मनुस्वाधयपि पकरेति देवाउयपि पकरेति ० तत्र ये देवा नारका वा किरियादिन
 स्त मनष्याप मनुवर्गिन ये तु मनष्याः पञ्चश्रिय तियन्वावा त इवायुरिति ० कबलसमाख जल । जीवा इत्यादी ० मनुस्वाधय पकरेति ०
 पुरुष त नारकागुरुमारादीनाधित्वावसय पतो प सम्पुष्टयो मनुष्याः पञ्चश्रियतियन्वय य मनुष्यु न यन्मनीत्येय वेमालिज्जुवेकत्वात्तथा

गो जाइनिपदेनाउय पकरेति वंमाणिथदेशाउय पकरेति । श्रुकिरियाथादीण जत । जीवा कि णेरइयाउय
 पकरेति, तिरिखपुच्छा, गीयमा । णेरइयाउयपि पकरेति जात्र देवाउयपि पकरेति । एव श्रुयाणियथा
 टीत्रि यणहयथादीथि । सलस्साण जत । जीया कि णेरइयाउय पकरेति पुच्छा, गीयमा । णो णेरइयाउय
 एय जहेय जीया तहेय मलस्सावि षजहिथि समीसरणेहि ज्ञाणियत्ता । करइउेस्साण जत ! जीवा किरि

पे । नलप्यपि पतुनिस्सनयसरुई त्रिगथ । रुजतेइयो नदस्त । जीवाः किरियावादी कि निरपिक्तायुपमकरोति पूष्ठा गीतस । सेवनेरयि

बाहव पकरत । इनीतम भवतपताइयता पाऊका करे । वा बाधमार इबाधय पकरेति । नको बालप्रलाष्टेवना पाऊगुी करे । पो ओ-सिय देवा
 उय पकरेति वमाबिबइ इय पकरेति । नको ज्ञातियाइयता पाऊका करे वेमालिकइयता पाऊका कर । पकिरियावाकाव मते जीवा कि विरइया
 इयं पकरेति तिरिका पुच्छा । पकियावाको हेमभवन् ज्ञान म् नारकीनापाऊका करे पडवा तियेपयतिवनापाऊका करे इ प्र उतर । गायमा
 करइयाउयपि पकरेति जाव इयाउयाप पडरेत । इनीतम नारकीनापाऊका करे इत्थादि यावत् देवनापाऊका पयिकरे । एव पक्याचिबवाठीदि व
 कइयतीदि । इम पञ्चानिकवाठी पवि कइवा विनयावाठी पवि कइवा । सलस्याव मते जीवा कि निरइयाउय पकरेति पुच्छा । सखयो हेमभवन्
 जाव म् नारकी पाऊकाकरे इ प्र उतर । गावमा पावरइयाउय एव कइव जीवा तइव सलस्यावि कइकिनि समीसरएहि माबिबइ । इगीतम
 नशा नारकीना पाऊकाकरे इत्थादि इम विमगीव जीवकञ्जा तिमइवाव सखयो पवि पारे सम सरनेइरी कइवा । कइइकस्याव भत जीवा किरिया

यायादी कि णेरद्वयाउय पकरेति पुच्छा, गीयमा । णो णेरद्वयाउय पकरेति णो त्तिरिस्कजोगियाउय पकरेति, मणुस्साउय पकरेति, णो वेवाउय पकरेति, अकिरिया अखाणिय वेणद्वयथादी य चत्तारिचि अयाउय पकरेति । एव णीललेस्सायि । काउलेस्सायि तेउलेस्सायि । जीजा किरियायादी कि णेरद्वयाउय पकरेति पुच्छा, गीयमा । णो णेरद्वयाउय पकरेति णो त्तिरिस्कजोगियाउय पकरेति मणुस्साउयपि पकरेति ।

काप्य पकरेतिनेवतिपयोनिक्कायपकरेति मनुय्यायुपपकरेति अकियाऽअामिको विनयवादीचेत चत्वार आयुप मकुवन्ति । एवकीससदपयपि कापोतसदपयपि । तजालघी मइत्त । कीव कियायादी चि नेरियिकायुप पकरेति पुच्छा गीतम । नेवनेरियि कायुपपकरेति म च तिययानिकायुपपकराति मनुय्यायुपपकरेति श्वायुपमपि पकरेति । यदि श्वायुपपकरेति तथैव तेजोसखी जवन्त ।

बाहो वि चरद्वयाउय पकरेति पुच्छ । अचत्तमो इभगवन् आव किकाबाहो खू मारकीना पाउल्लवाकरे इ प्र उत्तर । गायमा वा चरद्वयाउय पकरेति वा त्तिरिस्कजाविसाउय पकरेति मचत्ताउय पकरेति वा टवाउय पकरेति । इभीतम मारकीना पाउल्लवा मकरे तियववानिकता पाउल्लवा मकरे मणुय्या पाउल्लवाकरे पचि मडो दइत्ता पाउल्लवा करे इहा जे मणुय्या पाउल्लवाकरे इहा चत्ता ते मारक एसरकमारदि प्रतेयाअवीने चत्ता जेमाट जे इ चत्तमडो मणुय्य तथा पथेद्विच तियच जिवाबाहो इवे तइ मणुय्या पाउल्लवा मक्काध तेजाने वेमानिकता पाउल्लवानाज वय्ये तेमाटे । पकिरिया पक्काचि वेवायवादीय चत्तारिदि पाउल्ल पकरेति । पकिवाबाहो अत्तानिकयाहो विनयबाहो ण च रेइ पचि पाउल्लवा करे । एव चोउसेत्तावि वा ठवेत्तावि । इम मीअत्तमो पचि अइत्ता इम कापातसेत्ता पचि अइत्ता । तेअत्ताच भते ज्जावा किरिवाबाहो वि चेरद्वयाउय पकरेति पुच्छा । तेजाहे मी इममचन् जोइ जिवाबाहो खू मारकीनापाउल्लवा करे इ प्र उत्तर । गायमा वा चरद्वयाउय पकरेति । इभीतम मारकीना पाउल्लवा मकरे । वा त्तिरिस्कजाविसाउय पकरेति मचत्ताउयपि पकरेति श्वाउयपि पकरेति । तियेववानिकता पाउल्लवा मकरे इइत्तापाउल्लवा प

मिति न चरन्तस्य मते । जीवा किरियायादित्यादि ० अन्तेश्चाः स्थित्वा व्ययोगिनश्च ते शतुर्वप सप्या पु न वप्रगतीति सम्यग्निमध्यादुष्टिपदे-अद्या
 चनमति न नमसार्थपि न यप्रगतीत्यर्थ, नारकदक्रुके-किरियावाहंमिस्यादौ ० यत्करयिकायु र्हेत्रापुय न कुर्वन्ति क्वियावादिनारका सन्तारक
 प्रयानुनावाहव यय तियगायु न प्रभुवेति तस्मिन्नायादानुभावा दित्यवस्य, शक्तिपावादारिसमवसरश्चत्रय तु भारकाणा सवपदपु तियोगगुण्या

रेति, देयाउयपि पकरेति । जह देयाउयं पकरेति तदेव । तेउलेस्साण जन्ते ! जीवा अ्किरियावादी कि
 णरहयाउय पुच्छा, गीयमा ! णी णेरहयाउय पकरेति तिरिक्कजोणियाउय पि पकरेति मणुस्साउयपि
 पकरेति दयाउयपि पकरेति । एव अ्छाणिययादीयि जहा तउलेस्सा । एव पम्हलेस्सायि । सुक्कलेस्साणि
 णयन्हा । अ्खलस्साण जन्ते । जीवा किरियायादी कि णरहयाउय पुच्छा, गीयमा ! णी णेरहयाउय पकरेति

जीवाऽऽक्रियायादौ कि नेरयिजायुप पुच्छा नीतम । नेवनेरयिकायुप प्रकराति तिययोमिकायुपप्रकरेति मनुय्यायुपमपि करेति दवायुप
 मपि प्रकरेति मवमन्नामिकायाद्यपि यथा तबोसइयः एव पट्टसइयपि अ्खलस्सायपि प्रातल्यः । अलस्यो जदरत । जीव क्रियावादी कि नेर
 यिकायुप पुच्छा नी० । नेवनेरयिकायुप प्रकराति नेवतियमेव मनुय्यनेवदवायुप प्रकरेति । अ्खपाणिको प्रदन्त । जीवोऽक्रियायादा कि

नि करे । अइ दवाउय पकरेति तइव । आ देवना पाळया करे ता तिमइअ कइवा । तेइअयाव मते जीवा यत्किरियावादी कि नेरयाउय पच्छा ।
 तेअ युगा इअअअन् जीव यत्किरियावादी च्चु नारकाणा पाळयाकरे इ प्र कत्तर । गायसा वा नेरःउअय पकरेति तिरिक्कवायियाउयपि पकरेति ।
 देीनम नारकोना पाळया मकर तियेअजिनकना पाळया मकरे । मअयाउयपि पकरेति दवाउयपि पकरेति । मणुय्यना पाळया करे अना पाव
 वर तिदी एव तथा नारक क्वियावादा मणुय्यना पाळया करे यन मअय तथा तियेअना पाळया करे । अइ दवाउय पकरेति । आ दलो पाउउ
 करे ता । कि भअअवाःसी इवाउय पकरेति आअ अमानिय देवाउय पकरेति । च्चु मवमपतीदना पाळया करे इम वावत् वेमानिकना पाउअ करे इ

णो स्तिरिस्क णो मणुस्स णो देवाउय पकरेति । कण्हपरिक्कयाण ज्ञते । जीवा स्थकिरियावादी कि णेरइया
 उय पुच्छा, गीयमा । णेरइयाउय पि पकरेति । एव चउच्चिहपि । एव स्थखाणियवादीवि वेणइयवादीयि
 सुक्कपरिक्कया जहा सलेस्सा । सम्मद्विठीण ज्ञते । जीवा किरियावादी कि णेरइयाउय पुच्छा, गीयमा ।

नैरपिक्कयय पुच्छा, गीतम । नैरपिक्कययुपमपि प्रकरेति एव चतुविपपद्येवमच्छानिक्कयाद्यपि विमयक्काद्यपि । सुक्कपाच्छिका यथासुसइयः
 सम्यसुद्धं अदत्त । जीवा जियावादी कि नैरपिक्कययुप (करेति) पुच्छा गी० । नैवनैरपिक्कययुप प्रकरेति नैवतिपय्योमिक्कययुप त्मसुप्यायुप

प्र उतर । मायमा भवववांसि दवाउय पकरेति । इगीतम मवमपतादवना पाउछो करे । वा पावमतरइवाउय पकरेति वा काऽनिय देवाउय पक
 रेति । नही मानस्यत्तर दवना च उछा करे नहा ज्ञातिवोठवना पाउछा करे । वेसाचिअइवाउय पकरेति वेसानिअवेवमी पाउछा करे । पकिरिवा
 दादोच मत जीवा कि वराइवाउय पकरेति तिरिक्क पच्छा । पजियावादा इभगवन् जीव खू नारकाता पाउछा करे पक्का तियययामिक्का पाउछा
 करे । प्र उतर । मायमा अइवाउयपि पकरेति जाव इवाउयपि पकरेति । इगीतम नारकीना पाउछा पवि करे इत्थाऽठ यावत् इयना पाउछा
 पविकरे । इव पद्याचियवादादि वेवइववादीवि । इम पञ्चानिक्कवा पावि अइवा जिअववादी पवि अइवा । मखेज्जाच भन जीवा कि वरायाउय प
 करेति पच्छा । पक्की वेमयवन् जीव खू नारकीना पाउछा करे । प्र उतर । गायमा वा वरायाउय एव अइव जीवा तइव मसुप्पानि । नही ना
 रकीना पाउछा करे इत्थादि इम जिमज्जाल जाव अइवा तिमज्जाल मवया पवि । चउच्चिपि समासरेदि भावियवा । वारे समासरवउरो अइवा । अ
 वउछाअर्थ मत जीवा किरियावादी कि वेराया उय पकरेति पुच्छा । अण्णखेयो वेभगवन् जीव क्कियाव ही खू नारकीना पाउछा करे । प्र प
 तर । मायमा वा वराइवाउय पकरेति वा तिरिक्कजाचिवाउय पकरेति मणुप्पुअउय पकरेति पोरवाउय पकरेति । इगीतम नारकीना पाउछा नऽरे
 तियेवयानिक्कना पाउछो मकरे मणुपना पाउछा करे पाव नही दवनापाउछा करे इही अ मणुपना पाउछा करे इसा कइवा ते नारक मणुपकमारा

पुत्री पय प्रयतः सम्यग्निष्यात्ते पुन विशयो लीति तद्गुणमापाह-नवरं सन्नेत्यादि ॥ सम्यग्निष्यादृष्टि भारकाकां द्वे एवाङ्गितमे समवसरणे स्त
 म्नाया बापुययो भारत्वव गुणस्वात्मकस्त्रमावादत स्त त्वा न किञ्चिदपि श्रापुः प्रकुवन्ताति ॥ पुढविष्वाइयेत्यादी-दुविष्वा वाठयति ॥ मनुष्यायु

गो गेरडयाउय पकरेति गो तिरिस्कजोगियाउय मणुस्साउयपि पकरेति देवाउयपि पकरेति । मिच्छुद्विठी
 जहा कएहपरिकया । सम्मामिच्छुद्विठीण जत ! जीया श्रुस्साणियवादी कि णेरडया जहा श्रुलेस्सा । एय

मपिपकरोति देवापयमपि प्रकराति । मिष्यादृष्टिपयाकामपाच्छिः सम्यग्निष्यादृष्टी जटक्त । श्रीव श्रानयादी कि णेरपिका यथाऽस्तइय । यव

दि पतेपात्रयान कथा जेमाट अइ सम्यग्दृष्टी मतप्य तथा पचेद्वा तियेव क्रियावादी हुवे तेइ मतप्यना पाठखा नवापे तइते वेमानिकना पाठखानाज
 ईसहे तम टे । पबिरिया पयाचिय देवाइइ होय पत्तारिचि पाठय पकरेति । पञ्जियावादी पञ्जानिकवाटा विमन्वादी ० चारी पाठया करे । ए
 व बोममप्याचि काइमप्याचि । इम नीससेयो पचि कइवा इम कापातसयो पचि कइवा । तठकप्याचं भते जोवा किरियावादी कि णेरडयाउय पकर
 ति पइहा । तेव मयो इभगवन् जोव क्रियावादी छू नारलोना पाठया करे इ प्र उत्तर । गायमा वा चरडयाउय पकरेति वा तिरिक्कञ्जाचिवाउय
 पकरेति । इगोतम नारलोना पाठया मकरेतिदेवयानिकना पाठया करे । मक्क्याचठवपि पकरेति देवाउयपि पकरेति । मतप्यना पाठया करे
 टइमा पाठया पचि कर । अइ देवाउयपि पकरेति मक्केइ । आ देवना पाठया करे ता तिमहीच कइना । तठकप्याच भत जोवा पबिरियाच शे कि
 चरडयाउय पइहा । तेवामयो इभगवन् जोव पबिरियावादी छू नारलोना पाठया करे इ प्र उत्तर । गायमा वाचरडयाउय पकरेति तिरिक्कञ्जाचि
 पाठयपि पकरेति । इ गे तम नारलोना पाठया मकरेतिचक्रानिकना पाठया करे । मणुस्साउयपि पकरेति देवाउयपि पकरेति । मतप्यना पचि
 पाठया करे देवना पाठया पचि करे । एव प्रच रियवादीचि कइ ताठकेरसा पव पञ्जकेरसाचि सयमस्साचि जेयणा । इम पञ्जानिकवादी पचि कइवा
 अिम तेवाकयो कथा इम पप्रजयो पचि कइवा मुहसयो पचि कइना । पकरसाचं भत जोवा चिरियावादी कि णेरडयाउय पइहा । पबेजो इभग

येणद्वययादीथि । णाणी स्थान्निघोहियणाणी सुश्रुणाणी उह्निगाणी यं जहा सम्मंविठी । मगपज्जात्राणाणी
 ण जत ! पुच्छा, गीयमा ! णो णरुदयाउय पकरेति णो त्तिरिक्कजोणिया णो मणुस्सवेय्याउय पकरेति ।

अथपयस्येपि । प्राणी धान्निघोचिनप्राणी सुलप्यास्य उवापद्यानि येथा सम्यग्दृष्टी । मम पय्यवशान्तिनां त्रहस्य । पुच्छा गीतम । तेवनेरपि

नूबाव जिवावादी छ नारकोना पावपा करे प उत्तर । गायमा वा केरदावाच पकरेति नो विरिक्क वा मबरस वा कुवाउय पकरेति । इ गीत
 म नारकोना पावपा करे नहा तियवना पावपा करेनहा इतना पावपा करेनहा जमाट पकयो सिह तथा पयागो इवे त चारइ मंभारे पावपा
 न बाणे । कवपस्त्रियाच भत जोवा धारियावाठा कि करदायाक पक्का । उखपया इभगवन् जोव पक्कियावाठा खू नारकोना पावपा करे इ
 प उत्तर । गीयमा धिरावाउयपि पकरति एव यवन्दिपे । गीतम नारकोना पाउछा पक्कर (म चारइभर) पक्कियावाठा करे । एव चण्णविय
 इ ठानि कवपक्कवादीवि । इम पञ्चानिकवाटा पि कइवा (म विनकवादी पाव कइवा । मुक्कपस्त्रिया जइइ सुसरना । अज्जपास्य क जिम मसग्गा क
 या तिम कइवा । मया इीव मम आवा किरियावादी नि चरदायाच पक्का । सम्यग्दृष्टी इमगवन् जोव जिवावादी खू नारकोना पावपा करे इ
 प उत्तर । गीयमा वा चरदा वा त्तिरिक्कवाचिवा मणुप्या इव ययपि पकरेति । गीतम मया नारकोना मही तियेवना मणुप्यना इवतो या
 यपा पक्क करे । मिय्य इहो कइवा कवपक्किया । मिय्य इहो जइइ कण्णपाचिकनो पर कइवा । सप्यामिच्छादिहीच भत जोवा चण्णवियवादी कि वे
 दावा उवा पक्का । मिय्य इहो कइवा इमगवन् जोव पञ्चानिकवादी खू नारकोना पावपा करे जिम पस्यो कइवा तिम कइवा । एव कवपक्कवादीवि ।
 (म विनकवादी पक्क कइवा । वानी धान्निघोचिवाको सपवाको पादियावाच कइवा सम्यग्दृष्टी । प्राणो मतिप्र भा युतप्राणा पक्क कइवा उव
 वप्राणी ए जिम मय्यग्दृष्टो कइवा निम कइवा । मयपक्कवाचोच भते पुच्छा । ममपर्यवप्राणी इमगवन् इ म उत्तर । गायमा वा चर या वा ति
 रिक्कवाचिवा । मय्य इव उवं पकरेति । गीतम नारकोना मही तियेवना मही मणुप्यना मही एतावत देवता पावपा करे । क मय्यवासी पु

किं नयनग्रामी पुच्छा, गोयमा । गो नयनग्रामसिद्धेवाउय पकरंति गो व्याणमतर गो जोड्ढिनियत्रेमाणिगये
 व्याय परंति । केवलणानी जहा स्थलेस्सा । स्थ्याणी जात्र विनगणाणी जहा करुहपरिकया सखासु
 चउमुयि जाय सुलेस्सा । गो सखोयउथा जहा मणपज्जायणाणी । संवेदगा जाय णपुत्तगंविदगा जहा सुले
 स्सा । स्थ्येदगा जहा स्थुलस्सा । सकसाइं जात्र खोजकसाइं जहा सुलस्सा । थुकसाइं जहा स्थुलेस्सा ।

कायुप प्रकराति नव तिय्यात्वाजिक्कायुप न व सनुयायुप देवायुप प्रकराति । किं नवनवासि पूष्णा गौतम नैवतनवासि देवायुप प्रक
 रीत नैवतनप्रकार नैव न्यातिकवमामिकदेवायुप प्रकराति । कवसत्थानी यथाऽऽशयः क्खानी यथा किलगणानी यथाऽऽनयाणिक । सत्था
 सु णयपि यथासत्तरय नैवसत्थापयुक्का यथा मनपयवउानी सुवदका पाथक्कपुसकसत्थो यथासत्थयः अत्थतो यथाऽऽनहय । सुक्कायि

रत्ता । तावु नवनवतामा पाववाकरे ६ प कतर । गायमा भाभइक्कवासुवराउय पकरेति । इतीतम जहा मवनपता दाना पाववाकरे । वा वावम
 तर वा निय वमाचिइ देवाउय पकरेति । गडो दानवत्तर जहा न्यातिवतामा पाववा करे । एतावता वमानिकवेवता पावुया करे । कवसत्थापो अइ
 पन्या यथावा नाइ विभयवाओ जहा कइइपक्खिवा । कवनत्थानो जहा पखयोना पर कइवा पत्थानो वावत् विसइत्थानो जिन क्खयासोको परे
 कइवा । पत्थाम कइमदि जहा मत्थामा । सत्था चारान जिन पखयो कइवा तिम कइवा । वा मत्थावउता जहा मवपत्थववाओ । नामत्थोपत्तुल जिन
 मपय थानो कइवा तिम कइवा । पखेवमा जात्र कप सगवदया जहा मत्थामा । पवेदक यावत नप सकवेदक जिन सकयो कइवा तिम कइवा । पवेन
 मा जहा पन्या । पवेदक जिन पयो कइवा तिम कइवा । सकसाईं जात्र साइकसाईं जहा मत्थामा । सकसाईं यावत् कामकयाओ जिन सनयो क
 था तिम कइवा । पवमाइ जहा पन्या । पवमाइ जहा पन्योनापरे कइवा । सत्थागे जाइ कावजागो जहा सुलेष्सा पत्थापो जहा पत्थामा । सत्था
 ना यात्र कवसत्थो जहा ण पखयोनी पर कइवा पत्थागे पखयोमपर कइवा । सागारावउताय पवमागारावउताय जहा सुलेष्सा । साकारापत्तुल

नजीगी जात्र फायजीगी जहा सलेस्मा । श्यजोगी जहा श्लेस्मा । सागारीयउहा य श्यगागारीउहा य
जहा नलेस्मा । क्रियायादीण जत । गरडया कि गरडयाउय पुच्छा , गीयमा । णा णरडयाउय णी तिरि
रकजोगियाउय पकरेइ मणुस्माउय पकरेइ णो देयाउय पकरेइ । श्यक्रियायादीण जत । णेरइया पुच्छा ,
गीयमा ! णा गरडयाउय तिरिकजोगियाउय पि पकरेइ मणुस्साउयपि पकरेइ णो देयाउयपि पकरेइ ।

यापजानकपावि यथासलइयः चक्षपावि यथाऽऽरय सपागो यावकापयोगी यथासलइय चमोगी यथाऽऽवेय यागारीययच्छाऽऽनाऽऽरौपय
को यथामतरमः । क्रियायादी प्रदत्त । नैरयिकः कि नैरयिकापुप पुच्छा गीतम । नैवनेरयिकायुय म च तिय्यग्यानिकायुप प्रकुयात्त
मतथापय प्रकुवन्ति म च इथायुप प्रकुवन्ति । छक्रियायादीना प्रदत्त । नैरयिक पुच्छा गीतम । नैवनेरयिकायुप तिय्यग्योनिकायुपमपि प्र
कुवन्ति ममप्यायुवं प्रकुवन्ति नैव इथायुपमपि प्रकरोतात्यवमञ्चानिकयाद्यापि यिनयथाद्यपि । ससखी प्रदत्त । नैरयिका क्रियायादाकिनैरयि

पना कारापवत्त त्रिम ससमो च्छा तिम च्छवा । क्रियायादीच भेते चेरइया किं चेरइया किं चेरइयाच पुच्छा । क्रियायादी इभगवन् नारको श्य नारकाना
पयुको ऽ। जतर । गायमा वा चरइयाउय वा तिरियवावियाउय पकरइ मचछाउय पकरइ वा देवाउय पकरइ । इगौतम नही नारकना पाउच्छी
करे नही तियेबना पाउच्छाकरे मनुष्यना पाउच्छा करे देवना पाउच्छा करे नही तिइत नारक नारकीना तथा देवना पाउच्छा भवना चनभाइवकी
नकरे पन क्रियायादीना पनभाइवकी तियेबना पाउच्छा नकरे । एदिरियावादीच भत चरइया पुच्छा । पक्रियायादी इभगवन् नारकीना पाउ
छा वीपे । गायमा वा चेरइयाउय तिरियवावियाउयपि पकरइ मचरमाचयाप पकरइ चाटिवाउयपि पकरइ । इगौतम नही नारकीना पाउच्छा
रे तियेबनातिबना पाउच्छा पचि करे मनुष्यना पाउच्छा पचि करे । नही देवना पाउच्छी पचि करे । एव चछाविय वादीवि नचइयवालोवि । इम च
यातिबनारी पचि च्छवा वेनयिबनारी पचि च्छवा । चछवाच भत चरइया क्रियायादी कि चरइयाचयं । ससमो इभगवन् नारको क्रियायादी

एव श्रृणानियथादीत्रि । वेणडयत्रादीवि सुलेस्साण ज्ञेते ! नेरइया किरियाथादी कि नेरइयाउय एव सवेवि
 नेरइया जे किरियाथादी त मणुस्साउय पकरइ । ज श्रुकिरियात्रादी श्रुखानियथादी वेणडयत्रादीवि त
 समुठानेसुवि णो नेरइयाउयं पकरेति तिरिस्सजोगियाउय पकरेति मणुस्साउयपि पकरेति णो दयाउयपि
 पकरेति, णथर सम्मामिच्छेते उवरिस्सेहि दाहि समासरणेहि किचिवि पकरेति, जहेय जीअपदे । एव जाय

कापुपमव सुर्वेपि नेरपिकाः य क्रियायादिस स मनुष्यायुप प्रकुर्वन्ति । यत्तऽक्रियावादिनो ऽद्यामिक्यादिनो विनयथादिनोपि ते सवस्थाने
 यपि येवनेरपिकायुप प्रकुर्वन्ति तियग्यानिकायुप प्रकुर्वन्ति नैव देवायुप प्रकुर्वन्ति नवर सम्यक्प्रियात्वे उपरितमाप्त्वा ह्याप्या समवसरत्वाभ्या
 किचिदपि प्रकुर्वन्ति (मिसकृष्टिमारकस्य हावस्त्यौ समवसरतौ तत्र बायुबन्त्यान्नावो गुणस्थानस्यजावादिति) यथैव भीमपद । एव यावदस्त
 नितगुमारा यथैव नेरापकाः । अक्रियाथादी जदन्त । पृथिवीकायिकाः पृथ्वा गौतम । नो नेरपिकायुप प्रकुर्वन्ति तियग्योनिकायुप प्रकुव

न् नारकीना पात्रका करे इत्थादि । एव समान चेरया ज किरियाथादी त मवरसाउय पकर । इम समासार् पवि नारका जइ क्रियाथादी ते
 मन्थ ना पात्रकी करे । ज पावरियाथादी पसाविसवादी देवरववादीना त समुहावयवि । ज पाक्रियाथादी तथा पसाभिकवादी तथा
 विनववादा पवि त मननार् खानकनेविषे पवि । वा चरइवाउय पकरेति तिरिस्सजोगियाउयं पकरेति मणुस्स उवपि पकरेते वा देशाउयं
 पि पकरेति । नही नारकीना पायका करे तिवसुजानिकना पात्रका करे मनपना पात्रका पवि करेनही देइना पात्रका पवि करे । एवर सथापि
 पच्छेते ववरिस्सेहि दाहि समानरववि विचिवि पकरेति जइव लोभपदे एव जात्र विविसवमारा । एतकाविशय मिसठटो नारकीने जपरका नाव केइना
 दीज समानरव इउ तइने पात्रसु ना इइनही गुणस्थानना खमावकको ते जेउ चार् पात्रका नवीध विमकीज लोवपदनवि तेम इम वावत् सु न
 तवमार कपे । जइव चरइवा । विमकीज नारकीन कथा तिम कइवा । पकिरियाथादीव मत पुठवो नारया पुण्णा । पक्रियाथादी इभगवन् इयिवो

यज्ञियकुमारा जहेय णेरइया । अकारियाधावीण जते ! पुठवीकाइया पुच्छा, गोयमा । णो णेरइयाउय पक
 रेइ तिरिस्कजीणियाउय पकरेइ मणुस्साउयं पकरेइ णो देधाउय पकरेइ । एव अखाणियथावीथि । सले
 स्साण जते । एव ज ज पदं अलिय पुठवीकाइयाण तहि तहि मज्जिमेसु वीसु समीसरणेसु एवचेव दुव्रिह
 अ्याउय पकरेति, णधर तेउलेस्साए कि पि पकरेति । एव अ्याउकाइयाणांथि । एव वणस्सठकाइयाणांथि ।
 तेउकाइया धाउकाइया सव्ठानेसु मज्जिमेसु वीसु समीसरणेसु णो णेरइयाउय पकरेइ, तिरिस्कजांगिया

ति मनुष्यायुक् प्रज्वलि जेव देवायुक् प्रज्वलि । एवमस्मानवादी अपि । एव यद्यत्पद्मस्ति पृथिवीजायिकाना तत्र तत्र
 मध्यमयोर्द्वयोः समवसरणयो रव चैव द्विविधमायुक् प्रज्वलि मवर तत्रोलक्ष्याया किमपि न प्रज्वलि । ययमस्मापिजानामपि । एव वम
 स्पतिजायिकामामपि । तत्रस्मापिकाः कायुकायिकाः सर्वस्यानेषु मध्यमयाद्द्वयोः समवसरणयोः ना भैरयिकायुक् प्रजुयान्ति तिरिस्कजायुक्

कासिक् इ प्र वरर । गारुमा बाबरदाइय पकरेति । इमोतम गरी मारकोना चाउछा करे । तिरिस्कजायिकाइय पकरर मन्वसाठय पकरर णा
 देवाठय पकरर एव अकावियदादीदि । तिरिस्कजायिकाना चापुछा करे मन्वसा कावसा पावसा करे इम अत्र । नन्वसाठय पधि
 कइवा । सखसांभत एव अत्र पद अलि पुठवीकाइयाण तत्रि २ मज्जिमस राय समासरणेसु एवच व सुवह पाठय पकरेति । सखयो इममयन् इत्या
 दि इम अत्र २ पदं एव अत्रिक्कन विवे तिक्क २ विवका दोष समासरण ते इमोक् मन्वसा कावसा तिरिक्कना ए वसा करे अत्र तेउ
 वसाप अिपि पकरेति । एतकाविमेषे तेजाअखान विवे काइ पवि आउछा मकरे पवसीमक अरस्थानधिय तेजाअिजाना भावकका तेउने विगमसय
 व पावसाणा मयक्को । एव पावसाइयाअदि ०कं ववसाइयाअदि तउठाराया मालकाइया मज्जिमसु ठासु मम सउत्तमु । इम अरकादि
 अउयाने पवि कइवा इम मन्वसा नोकावियदसवते पवि कइवा तेअस्स विक्क अल्लक्क विक्क सवसाजकने विवे विवका इाव समासरणयिपे । वा बेर

सिपयापुपति ० तेजसराय ० न किंपि पकरेति ० अयोसकावस्वायामेय पृथिवीकायिकामा तद्भावा तद्विगम एय वायुयो यथादिति ॥ य
 मसतापसु न मळाप याउय पकरेति ० द्वीन्द्रियादीनां सम्यक्प्रज्ञानकालाम्यय एवायु यंथा प्रवत्यस्यत्यातत्कालस्येति नैकमव्यापु र्ब्रह्मति
 तपो स इति । पञ्चन्द्रियतिपयोनिबद्धसं-कषडसंघातमित्यादि ० यदा पञ्चन्द्रियतिपञ्चः सम्यग्बुधयः कृत्प्रलयात्रयपरिवृता जयन्ति तदायु

उयं पकरेइ, णो मणुस्साउय पकरेइ, णो देयाउय पकरेइ, वेइदियतेइदियचउरिदियाण जहा पुठथीकाठ
 याण णथर नम्मसं णणेसु ण एकूपि स्याउय पकरेति । किरियावादीण जते । पचिदियतिरिक्कजोगिया
 कि णेरइयाउय पकरेति पुच्छा, गोयमा ! जहा मणपळावणाणी स्युकिरियावादी स्युणागियथादी वेइइय

प्रजुवति ना मनुव्यायुक् प्रजुवति नो देवायुक् प्रजुवति द्वीन्द्रियधीन्द्रियधनुरिन्द्रियावां यथा पृथिवीकायिकामां मवर सम्यक् ज्ञानपु नैक
 मव्यापु प्रजुवति । क्रियावादी प्रवत्त । पञ्चैन्द्रियतिपयोनिक्काः कि नेरियकायुक् प्रजुवति एव्वा गौतम । ना नेरियकायुपं प्रकरोति नैव
 तिपयानिकायुक् करति नोमनुव्यायुक् करोति नैव देवायुपं प्रकरोति अक्रियावादी अज्ञानवादी यिनययादी यत चतुषिपमाव्यापुपि प्रजु

राउयपकरे ति रिक्रत्राविनाउय पकरेइ वा मव्याउय पकरेइ वा इवाउय पकरेइ । नइो मारकामा नाउयवा य च तिर्ववता पाउयका वाधि नइो
 मनुवता पाउयवा वाधि नइो इयता पाउयका वाधि । वेइइय तद इडिय चउरिदियाव जहा पठोतत्तुश्रो वात्तुश्रो अत्रन पुठिवोवा
 विड ० ज्ञा तिम बइथा । मवर मयत्तवापुप ए एकपि याउय पकरेइत । एतवाविपय सम्यक् यने य नमविदे एवइो पणि पाउयका नवाधि सम्यक्का
 यमनायेत्र पायुवपप इवे तेउ कासना अप्यपवा वको । किरियावादीव भते पचिदिय ति रिक्रकाविया कि परइहाउय प करेति पुच्छा । जियावादी
 एमवमनु पचिदिय तिपेयानिक सूं मारकोना पाउयका वाधि इ प उतर । गायमा जहा मवपय्यनवाको अचिरिवावाटा मस्यविपनातो मवरय
 वादी चउन्वियति पकरेति इइ । पादिया तथा सव्यादि । इगौतम अत्रम मजपयउतामो कइा तिम बइथा प्रक्रियावादी पञ्चानिक्कायो येमविबवना

याद्री चउच्छिहपि पकरेति जहा उहिया तथा सलेस्सायि । कणहलेस्सायि । किरियावादी पंचिदियति
रिरुजोगिया कि णेरुयाउय पुच्छा, गोयमा । णो णेरुयाउय पकरेति णो तिरिरुजोगियाउय पकरेति
णो मणुग्माउय पकरेति णो देयाउय पकरेति । श्रुकिरियावादी श्रुयाणिययादी वेणह्ययादी चउच्छिहपि
पकरेति जहा कणहलेस्सा । एय णीललेस्सायि । काउलस्सायि । तेउलस्सा जहा सलेस्सा । गवरं श्रुकिरिया

यति यथा कणलक्ष्य । एव नीलसहयाऽपि कापोतसहयायि । तसोत्तशयो यथा सलक्ष्यः नवरमन्त्रियावादी सञ्चानवाही विनयवादी मैव नैरपिस्सायुप
प्रकृतान् तिययीनिद्रायुपमपि प्रकृतान् नमुप्यायमपि प्रकृतान् इवायुबमपि प्रकृतान् । एव पटलसहया अपि । एव शुक्लसहया अपि प्रचि
तया । कामपातिका समवसरणे यतुविपमप्यायुप प्रकृतान् । शुक्लपातिका यथा सलक्ष्याः सम्यग्दृष्टियथा मन पययञ्चानी सद्येव वैमानिका

शा ७ चारभद पचि करे निम पीधिव तिम सनेगी पचि रमज । कवसेत्वाय भन बिदिरिवावावा पचिन्दि तिरिक्क वाविया कि करारायाउय पुपञ्चा ।
कचनया न वास्य नकार, इभनयन् क्रियावादी पचिन्दिय तियवयानिक स्मू नारकोभा पाजपाबरे र म उत्तर । गायमा वा चरइयाउय पकरेति
वा तिरिभवाविवाचय पकरे त वा मचसावसे पकरेति वा इयाउय पकरेति । इगोनम नारकोभा पाजठा नवाधे तियेवमा पाऊला नवाध मनु
यना पाऊला नवाधे इवन्तो पाऊला नवाधे चिवार पचेरी तियव मच्यरुन्तो कणवेत्या परिवत इवे तिवारे एवन्तो पाऊलो नवाधे सय्यग्दो न व
मानिक पाऊलाने इवपचे चरा पन वमानिकना पाऊला तत्राकय दिव तीतनवाधे वाध तमाठ । चबिरियावादी यणु विवव को वेवायवाला
चउच्छिहपि पकरेति । चक्रिगाव को पञ्चानय वा वितयवाको प तोनई चारैभद पाऊला वाधे । जहा कवइछाया एव कोकलप्यावि काउलस्य वि त
उमसा जहा सनेसा । किम मय्यन्तो कञ्चा तिम कइवा इम नीलजगी पचि कइवा कापातजगी पचि कइवा तत्राकयो निम समगो कञ्चा तिम क
इवा चे वचने क्रियावादी वैमानिकनाय प ऊला वाध पनेरा तीम ता चारभदे पाऊलावाधे इसा पाय्य । चर पचिदिरियावादी पञ्चा। चययानी

वादी शुभ गियथादी नेणहुयथादी गो णेरहुयाउय पकरेति । तिरिस्क जीणिय उयपि पकरेति मगुस्साउ
 यपि पकरेति देयाउयपि पकरेति । एय पम्हलेस्सात्रि । एय सुक्कलेस्सात्रि । एय सुक्कलेस्सात्रि । एय सुक्कलेस्सात्रि । एय सुक्कलेस्सात्रि । एय सुक्कलेस्सात्रि ।
 मरगहि चउत्तिहपि श्याउय पकरेति । सुक्कपस्सिया जहा सउेस्सा । मम्मद्विठी जहा मणपज्जाणागी तहेउ
 यमाणियाउय पकरेति । मिच्छुद्विठी जहा करहपस्सिया । सम्मासिच्छुद्विठीग एक्कपि श्याउय पकरेति
 जहेउ णरहुया । णणी जाय उहिणाणी जहा सम्माद्विठी । श्युखणी जाय धिनगणाणी जहा करहपस्सिया

यय मकराति । सिध्यादृष्टि यया कणपपाचिका । सम्मियाप्यादृष्टिरकमप्यापुप मकरेति यथैव नैरियिक्का । प्राणीयावदधविष्णानी यया स
 म्यादृष्टि । यथाना यावाहुनहुज्जानी यया कणपपाचिका । हाया यावदनाकारोपयोग्युक्ताः सर्वे यथा समथया स्तथा वैव तद्विजित्या यया पण्य
 ववउरातो । यतनाविगप पविद्यावातो यथानिकवातो वेतविकवातो ए ताज तवासया पवेद्विय तिवव । वा वरयाउय पकरति तिरिस्कवाचि
 याउयप पकरेति । मारवाणा पाज्जा नकरे तियवजा पाज्जा पवि करे । मवमाउयपि पकरेति उवाउयपि पकरेति । मज्जतो पाज्जा करे ले
 ना पाववा पवि करे । उव पणससससि उव मवसरससि भावियथया । इम पणससो पवि कइवा इम शकससो पवि कइवा । कइपस्सिया समास
 रयहि यउविजिपि पाउय पकरेति । कणपपाचिक तोज समासरेवे करो वारेउ मकारवा पवि पाज्जा करे । उवपस्सिया कइवा मसरसा सुव्यग्घो उ
 वा मयपज्जाणाको तइव वेमावियाउय पकरेति । यउपाचिक किस मसगी कइवा तिम कइवा सम्मद्विठी यिम मजपयवज्जानो कइवा तिमक वेमानि
 वजा प ज्जा वधि । मियइ इहो कइवा कइपस्सिया मव्यासिच्छानिहोव एक्कपि पाउय पकरेति कइव वेरावा । मव्याद्विठी किस कणपपाचिक कइवा
 मम मियद्विठी एक्कपि पवि पाववा नकरे जिमघोउ मारवो तिम उव पलना समासरव सुवे पवि किविज्जोला पाववा तयावे । वाको काव याकि
 यावो कइवा कइवइहो । ए गो पाविदा वाउए पवियिजानो किस सम्मद्विठी कइवा तिम कइवा । पन्नाको काव विभागवाको कइवा कइपपविषया वे

ममा जात्र शुणागारीयउत्ता, मझे जहा सलेस्सा तह चेत्र ज्ञाणियह्हा । जहा पचिदियतिरिक्क जोगियाण
 यत्तयथा ज्ञाणिया एय मणुग्ग्माणयि ज्ञाणियह्हा, णय्यर मणपज्जयगाणी णोससोवउत्ताय जहा सम्म द्विठी ।
 त्तिरिक्कवेणिया तहेय ज्ञाणियह्हा । अलेस्से केउलगाणी अउदकथुक्कसाह् अजोगीय एए एकूपि अउय
 ण पय्यरति जहा ठेहिया जीया मेस तंउ । वाणमत्तरजीठमियउमाणिया जहा असुरकुमारा । किरियावा
 दीण जेन । जीया कि जत्रसिद्धिया अउजवनिद्धिया ? गोयमा । जत्रसिद्धिया णी अउजयसिद्धिया । अकिरि

त्त्रियतिपयात्तिकाता वल्लयता सच्चिता एव सनुप्याखामपि प्रकितव्या नवर मनापययप्राना नोसुओपयुत्तासु यथा सम्यकुत्थितियप्योनि
 कामायेन नचित्तकाः। समउप कयमज्जानी एवउको ककयापी एयोपी देत एउमप्यायुप नैत्र प्रकुर्वन्ति ययोपिका श्रीया अय सदैव । वानअयत्तर
 ज्ञातिउमेमानिता ययासुरकुमारा । त्रियाथादिसो सवत्त श्रीया कि जववासिद्धिका अजवसिद्धिका नो अजवसिद्धिकाः । अ

वा अ उ पवागारउत्ता । एज्जानो पादिदु वाउत् ति भउत्त नो त्रिम उख्यगच्चिक्क अया तिम अइरा अय वाउत् पनाकारापयुक्क एतलामगी । सव
 उदा नवरथा तइअपर भावियथा । एमकार किम मसेयो अह्हा । तिमडोअ जिये कइवा । अइवा पचिदिय तिरियसुजावियाच वल्लयया भणिया ए
 मअय वदि भावियव्या । त्रिम एवेओ तिय ययानिअमो वउत्तयता कओ इम मअयनो पवि वउत्तयता कइवो । अइर मअपज्जयगाणी णा सस्यारउत्ता
 । अया मअदु इ तिरिकाजाविया तइव भावियवथा । एतसावियय मअपवउत्तानो ना संघापयुत्त त्रिम सम्यरुटो तिय वधानिक अह्हा तिमडोअ
 उदा । एमअय उअअवाणी एवउक्क एकमाउ एउआगोय एउ एउअपि पाउव च पउदेति जइ पादिया श्रीया मेस तअय । एसेयो कइमज्जानो एवेउक्क
 एववाओ एयाभा उ उक्कओ एवि एउउया तवाधे किम एोपिअओर अह्हा तिम अय तिमडोअ कइवा । वाअमत्तर आदिसय वेमाविया लइा एमुर
 कुमारा । वाअअत्तर एय तियो वेमानिक किम एउउरकुमार अह्हा तिम कइवा । किरियावादीच भत बोधा वि भवमिअिया एमअसिद्धिया । अइवाया

मायाटीण ज्ञत । जीत्रा कि जत्रसिद्धिया पुच्छा, गोयमा ! जवसिद्धियावि अन्नत्रसिद्धियात्रि । एव अखा
 णियत्राटीयि वेणइयवादीत्रि । सलस्साण ज्ञत । जीत्रा किरियावादी कि जत्रपुच्छा, गोयमा ! जत्रसिद्धिया
 णो अन्नत्रसिद्धिया । सलस्साण ज्ञते जीत्रा अकिरियावादी कि जत्रपुच्छा, गोयमा ! जवसिद्धियायि अन्न
 यसिद्धियात्रि । एव अखाणियवादीवि । वेणइयवादीत्रि जहा सलेस्सा । एव जात्र सुक्कलेस्सा । अल्लेस्सा

खियावादिनो नदल्ल । जीवाः कि प्रवसिद्धिकाः पुच्छा गीतम । प्रवसिद्धिका अपि अन्नवसिद्धिका अपि । एवमन्नामिमापि । वेनयिक्कवादिनोपि ।
 मन्त्तया नदल्ल । जीवाः किरियावादिन कि प्रवसिद्धिकाः पुच्छा गीतम । जवसिद्धिका नो अन्नवसिद्धिकाः । सलत्तया नदल्ल । अण्णपावादि नो
 ज्ञात्रा कि जवसिद्धिका पुच्छा गीतम । जवसिद्धिका अपि अन्नवसिद्धिका अपि । एवमन्नामवादिनोपि । वेनयिक्कवादिनोपि । एव

दो इमन्नम् जीव खू भवमिद्विक्क पडवा पभवसिद्धिक्क इ म उत्तर । गावमा भवसिद्धिक्का या पभवसिद्धिक्का इने पवि पभ
 मिद्विक्क नदल्ल । पन्निद्विक्क वादाव मते जीवा वि भवसिद्धिक्का पुच्छा । पन्नियावादी इमन्नम् जीव खू भवमिद्विक्क इत्थादि प्रत्य उत्तर । मायमा भवसि
 द्धिक्कावि पभत्रमिद्वियादि एवं पन्नादियवादीवि वेवददवादीवि । इगीतम भवसिद्धिक्क पविद्वक्क पभवसिद्धिक्क पविद्वक्क इम अन्नानिक्कवादी पवि वद
 या इम वेनद्विक्कवादी पवि कडवा । जखेस्यक्क मरे जीवा किरियावादी विमन्न पच्छा । अखयो हेमयम् जीव किरियावादी खू भवसिद्धिक्क इने पभ
 मिद्विक्क इक्क इ म उत्तर । इवमा भवमिद्विक्का या पभवसिद्धिक्का । इगीतम भवसिद्धिक्क इक्क पवि पभवसिद्धिक्क न इवे । सलक्काव मत जीवा पन्निरि
 वावादी वि मइ पच्छ । मन्त्तयो हेमन्नम् जीव पन्नियावादी खू भवसिद्धिक्क इने इ म उत्तर । गावमा भवसिद्धिक्कावि पभवसिद्धिक्कावि । इगीतम भ
 वमिद्विक्क प इक्क पभत्रमिद्विक्क पविद्वक्के । एवं पन्नादियवादीवि ववददवादीवि कडवा सलत्तया एव जात्र सलत्तया । इम अन्नानिक्कवादी पवि कडवा ।
 इम वेनद्विक्कवादी पवि कडवा किम अखयो कडवा इम यावत्तु गल्लक्कयो तदि कडवा । पखेस्यक्क मते जीवा किरियावादी वि मन्न पच्छा । पखेगी इक्क

ण नत । जीवा किरियायादी कि नवपुच्छा, गोयमा ! नयसिद्धिया णो अन्नवसिद्धिया एव एरणं अन्नं
 छात्रण करहपरिकया तिसुत्रि समोसरणसु नयणाए । सुक्कापरिकया धउसुत्रि समोसरणसु नयसिद्धिया णो
 अन्नवसिद्धिया । सम्माद्धिठी जहा अउलेस्सा । सिच्छद्धिठी जहा करहपरिकया । सम्मामिच्छादिठी दोसुत्रि
 समोसरणसु जहा अउलेस्सा । णाणी जाय केवलणणी नयसिद्धिया णो अन्नत्रसिद्धिया । अखाणी जात्र

यावत्तज्जसवया । यत्तया नदत्ता जीवाः क्रियायादीनाः कि नवसिद्धिका पुच्छा भीतम । नवसिद्धिका णो अन्नवसिद्धिका । एवमतसा जिशापन
 रुजपाचिकारस्यपि समवसरकपु नजनया । सुक्कापाचिकारस्यपि समवसरकेपु नवसिद्धिका णो अन्नवसिद्धिका । सम्यग्दृष्टि यथाफलदया मि
 प्यादृष्टिमया रुजपाचिका सम्यग्दृष्ट्यादृष्टधारपि समवसरकमो येयाऽऽशया । आनिनो यावत्केवलणानिनो नयसिद्धिका णो अन्नवसिद्धिका ।
 अन्नानी पावदुत्तज्जपानी यथा लामपाचिका । सुक्कासु अन्नस्यपि यथा फलदया । णो सुक्कापुच्छा यथा सम्यग्दृष्टि । सवदका यावत्तपुसकवे

नवत् जीव क्रियायादी सु भवसिद्धिक बुवे यथा यभसिद्धिक बुवे इ म उत्तर । गायमा भवसिद्धिया णो यभसिद्धिया । इतोतम भवसिद्धिक बुवे
 यभसिद्धिक नहो । एव (एवं यभिकायक कवइपल्लिया तिमनि समासरकेस मववाए । इम इवे पाळावेकरो अखापाचिक तोनई समामरवनेत्रिपे
 मज्जाज कववा भवसिद्धिक यत्र यभसिद्धिक । यत्तपल्लिया कवसवि समासरकसु भवसिद्धिका वा यभसिद्धिका । सुक्कापाचिक चारिइ समासरकनेवि
 य भवसिद्धिक कववा यभसिद्धिक नवववा । सवत्तुठ्ठो कववा यत्तच्छा सिच्छद्धि ठो कववा कवइपल्लिया । सम्यग्दृष्टो जिम पलया कववा तिम कववा
 एतक भवसिद्धिक मियादना जिम अखापाचिक कववा तिम कववा । सुक्कापाचिक कववा तिम कववा । मियहठो यत्तज्जपानी
 नववादी ए व समासरकनविने किम पलेया कववा तिम कववा एतसे भवसिद्धिक । चावो जाव केवलणणी भवसिद्धिया वा यभसिद्धिया । आनो
 पादिइइ वावत् कवकपानी एतका भवसिद्धिक कववा एवि यभसिद्धिक नहो । यत्तच्छो जाव विभगवावो कववा कवइपल्लिया । यत्तज्जो यावत् एवि

विभ्रंगणाणी जहा करहपस्किया । सरहासु चउसुत्रि जहा सलेस्सा । गीसणीयउत्ता जहा सम्मद्विठी । स
 वेदगा जात्र णपुसगवेदगा जहा सलेस्सा । छ्येदगा जहा सम्मद्विठी सकसाई जाय लोन्नकसाई जहा स
 लेस्सा । छ्यकसाई जहा सम्मद्विठी सजोगी जाय कायजोगी जहा सलेस्सा । छ्यजोगी जहा सम्मद्विठी ।
 सागरीवउत्ता छ्यणागारीवउत्ता जहा सलेस्सा । एव णरइयावि ज्ञाणियव्वा । णअर णायव्व ज छ्यल्यि । एअ
 छ्यसुरकुमारोत्रि जाय थणियकुमारा । पुठवीकाइया सम्मठाणसुत्रि मज्जिमेसु दीसुत्रि समीसरणेसु त्रयसिद्धि

दका यथा सलश्याः । अठवका यथा सम्मद्विष्टिः । सङ्घपायी पावसोन्नकपायो यथा सलश्याः । अङ्घपायी यथा सम्मद्विष्टिः । सुयोगी यावत्का
 पयोसो यथा सलश्या । अयोगी यथा सम्मद्विष्टिः । साकारापयुक्ता अनाकारोपयुक्ता यथा सलश्याः । एव नैरयिका अपि प्रविशतस्याः । मयदं
 शातथ्य पदक्षि । एवमसुरकुमारा अपि यावत्सन्निक्तकुमारा । पृथिवीकायिकाः सवस्यामद्यपि मध्यमयोहया स्वमयसरणयो प्रथसिद्धिका अपि

मङ्गलात्तौ पतन्ता जिन अङ्घपायिच कञ्जा तिम कइवा । अठवाम अठववि अङ्का सलेस्सा । अङ्गानविय अरिइ समानरनेदिय जिन सम्मावत्त कञ्जा
 तिम कइवा । बोसकावत्ता अङ्का सङ्घद्विष्टा । ना अङ्गापयुत्त जिन सम्मद्विष्टो कञ्जा तिम कइवा । अठवगा जाव परममयवदगा अङ्का सलेस्सा । स
 वेदक यावत् नपसववेदक पतन्ता जिन सङ्घयो कञ्जा तिम कइवा । अठवता अङ्का सङ्घद्विष्टो । मयदं जिन सम्मद्विष्टो कञ्जा तिम कइवा । सङ्घमा
 र जाव काठकसाई अङ्का सलश्या । सङ्घपायो यावत् कामकय यो पतन्ता जिन सङ्घयो कञ्जा तिम कइवा । अठवसाई अङ्का सङ्घद्विष्टो । अठवयो जिन
 सम्मद्विष्टो कञ्जा तिम कइवा । अठवयो जाव काठकसायो अङ्का सलश्या । मयात्तो पाविदेर यावत् कायवायो पतन्ता जिन ससगो कञ्जा तिम कइवा ।
 अठवो अङ्का सङ्घद्विष्टो । अठवो जिन सम्मद्विष्टो कञ्जा तिम कइवा । सागरीवउत्ता अठवगारावत्ता अङ्का सलश्या एव वेरयावि सावियत्ता व
 वर वावत् अ पत्ति । साकारापयुत्त अनाकारापयुत्त ए वेत्त जिन अठवो कञ्जा तिम कइवा एव नारको यपि कइवा एवकाविमय कोववा जेइले

रतमपि न यन्निति सम्पत्तुया वेमानिशापर्यन्तकालेन तेकोशेषयाविश्रययथ यन्मनादिति ॥ तद्वलेषा जहा सलसति ॥ अन्त प क्रियावादिनी श्री
मानिकायुत इतर न त्रय अनुविषयमव्याय मनुजलीत प्राप्त सलसयाका नवविषयकूपतयाकाला विष तु यद्वन्तिमत तल्लिपयतायाह-नवर

यावि स्थनवसिद्धिपानि । एव जाव यणस्सहकाडया । वेहदियतडुदिया अउरिंदिया एउचय नवर सम्मत्ते
तदियगाण अान्निगित्रीदियगाणे सुयगाणे एउसु येत्र मज्जिमेसु समीमरणेसु नवसिद्धिया णो स्थनवसि
द्धिया मस तचेत्र । पथिदियतिरिस्कजोणिया जहा णेरठया नवर ज स्थित्यि । मगुस्सा जहा उदिया जीया

अनवाधाटुका अपि । एव यावदुनरपत्तिकापिकाः । हीन्त्रियबीन्त्रियचतुरिन्त्रिया एव पैव नवर सम्पत्तौ षोपिकुणाने आन्निविदापिकुणान
मुनयान एतपु पैउ मध्यमयो स्समवसरययो नवसिद्धिका णो अन्नवसिद्धिकाः अय तथैव । पन्थिप्रियतिग्योविका यथा नेरयिका नवर यद

तड कडवा । य यसरकमाटावि जाव कवियकमारा । इम यपुरकुमारतत्रिय पवि कडवा । य वत् सुनितकुमारतरि कडवा । पुठबोव इया सवकुः
वेमवि मन्थिअम कामवि समाररसु भवसिद्धिवावि यभवसिद्धियावि एव जाव ययकडकाइया । एविबोवावित्र सर्वयतनविप विवका धाय एतए य
शियावाडो यज्जानवाडो ण कनमासररनविदे भवसिद्धि पवि कडवा यभवसिद्धि पवि कडवा इम वायत् वनयतोकायिअ एतकावती कडवा । यद
दिस तः दिवा अठरिदिया एवचय । इ अिय तारप्रिय यठरि दिस इमअ नियये कडवा । अवर सम्पत्ते आदिस णव आभिविवाडियवादि सवपावि ण
गमयव मन्थिमेसु समाररस भवसिद्धिया आचभवसिद्धिया सस तयव । एतकाविगय सम्पत्तन वये योविअकामपद्वनविदे आभिविवावि-कामान त्रिये
दुतज्जानवविप एतकापद्वन विव विवसाः वाय यजिसाव दो यज्जानवाडो णव समासररन विदे भवसिद्धि कडवा पवि यभवसिद्धिअ तडो अिय तिस
इअ कडवा । पथिअय तारकठत्राविद्या जहा अेरइया । पचे प्रय तियेवयाजिअ किअ तारको कडवा तिस कडवा । अवर अ पत्ति । एतकाविगिय ले
इअ तड कडवा । मयुसु जहा आदियात्रोया । मयुअ तिस योविअकोव कडवा तिस कडवा । वायमतर आदिस वन विद्या वन पसरकमारा ।

यागमन्त्रजोडितियत्रैमणिषा जहा असुरकुमारा । सेष त्ते २ त्ति ॥ तीसठमस्सय पठमी ३० ॥ १ ॥
 छुणत्तराययसुग्गाण न्त । णरुडया कि किरियावादी पुच्छा , गायमा । किरियावादी जाय वेणह्ययादीत्रि
 मरम्मसाण न्त । छुणत्तरोययसुग्गा णेरुडया कि किरियावादी एवचेव जहेय पठमुद्देस णेरुहयाण यत्तसुया
 तहत इहयि जागियसा , णयर ज जस्स सुत्थि । सुणत्तरोययसुग्गाण णेरुहयाण त तस्स जागियसु । एथ

१ । ममुष्या पपीपिका बीजा । मानव्यत्तरन्योतिकर्यैमणिका पयासुरकुमारासुख अक्षत । अयत्त । इति ३ त्रिअक्षत प्रथमः ॥ ३० ॥
 १ ॥ यमत्तरोपपक्का अक्षत । नेरपिकाः कि किरियावादिनः पुक्का गौतम । किरियावादिनो यावहुँनयिकवादिनोपि । सुले
 श्या अयत्त । यमत्तरोपपक्का नेरपिकाः कि किरियावादिन एव सेव यथेव प्रथमापुहाले नेरपिकाकां वसव्यता तपेवेकापि अक्षितया नवर
 पटम्यास्समत्तरापपक्कानां तत्तस्य ज्ञापितव्यम् । एव सुवत्रीवाना यावहुँमणिकाना नवरं यमत्तरोपपक्काना यद्यथासि तत्तय ज्ञापितव्यम्

शतव्यत्तर स्वातिवा वैमानिक किम यमत्तवत्तर कक्षा तिम कडवा । सबसते २ त्ति । तद्वत्ति हेमगवन् इत्थादि पूर्ववत् । तीसठमसुख पठमोडिसा ॥ १
 यामम यमत्तवा पडियाइया पूर्ववत्ता १ । पत्तरावववगाव भते केरया कि किरियाव को पुक्का । यमत्तरात्पवव हेमयवन् नारको
 वं किव वाटो इव १ प ७ । गायमा किरियावादी जाय वरुडवादीदि । ज्योतम किरियावादी प चद्रव यदियावाटो पचिइवे पत्तानवाडो पचिइवे
 या त्तिमयत दो यावइवे । मत्तयाव भते पत्तरावववगा वरया कि किरियावाटो एवयत । सुखो हेमगवन् यमत्तरात्पवव नारको सु किरियावा
 डो इव १ प १ मडोअ कडवा । जहा पठमुद्देस करयाव इतवसा तथेव इइवि भावियसा । किमडोअ पडिया वडेयानेविपे नारको वसव्यता
 वडो तिमहाव इकी पवि कडवो । ववर अ वस्य पत्ति । पत्तकाविमय वर कडवने । पत्तरावववगाव वरयाव त तस्य भावियव । यमत्तरात्पव न
 रनेन त तइने कडवा । एवं सुवत्रीवाव जाय वैमानिक एतकावम कडवा । एवर्ं पर्यतरावववगा

मञ्जीत्राण जात्र वेमाणियाण णधरं स्थणतरोवयस्रगाण ज जाहिं स्थल्यि त तहिं जाणियस्रं । किरियात्रा
दीण जंत । स्थणतरोवयस्रगा णेरइया कि णरइयाउय पकरेति पुच्छा, गोयमा । णो णेरइया णो तिरि णो
मणु णो देवाउय पकरेति । एव स्थुकिरियावादीवि । स्थुणियावादीवि थेणइयवादीवि । सलेस्साण जते !
किरियावादी स्थणतरोवयस्रगा णेरइया कि णेरइयाउय पुच्छा, गोयमा । णो णेरइयाउय जाथ णो देवा

क्रियावादिनो जवत्त । अमजरोपपक्का नेरयिकाः किं नेरयिकायुवं प्रजुवन्ति पुच्छा गीतम । मा नेरयिकायुप त्पो तियम्योनिक्कायुवं नोम
जुव्यायुप नोदबायुप प्रजुवन्ति । एवमक्रियावादिनोपि । अज्जानिकवादिनोपि । वेमयिकवादिनोपि । ससवया जदत्त । क्रियावादात्मकरोप
पयथा नेरयिकाः किं नेरयिकायुप पुच्छा गीतम । नो नेरयिकायुप यावज्जीदयायुप प्रजुवन्ति । एव यावज्जीदयायुप । एव सवस्यामिद्वनत्त

एव जइ पत्तिजतत्तिंमावियस्र । एतत्तावियस्र । एतत्तारात्यस्रने जइ जिइइ तेइ तिइ । किरियावादीचं मते पचत्तारावयस्रया चरइया कि
चेरइयाउय पकरेति पुच्छा । क्रियावादी हेममवन् एतत्तारात्यस्र नारको एव नारकोना पाज्जखावाधि इ प्र उत्तर । गायमा चाचेरइया चोतिरि वा
मस्र बाइगजव पकरेति एवं पकिरियावादीवि पच्छाः विववादीवि वेवइयवादीवि । हेमोतम नारकोना पाज्जखा नवाधि तियेवना पाज्जखा नवाधि म
गुणना पाज्जखी नवाधि एवना पाज्जखा पवि नवाधि एवववाक माटे इम पनत्तरोत्यस्र नारको पकिवावादी पवि जइया पञ्चानवादी पवि जइ
वा इमस्र वनयिकवादी पवि जइया । सवस्रयाक मते किरियावादी पचत्तारावयस्रगा चेरइया कि चेरइयाउय पच्छा । सखेयो हेममवन् क्रियावादी
नारको एतत्तारात्यस्र नारको एव नारकोना पाज्जखा करे इ प्र उत्तर । गायमा चा चेरइयाउय ज्ञाव चाइवाउय पकरेति एव ज्ञाव वेमाविवा
एव सवइ वम पचत्तारावयस्रगा चेरइया व क्विपि वि पाज्जवं पकरेति । हेमोतम नारकोना पाज्जखा मकरे यावत् देवना पाज्जखा नकरे इम यावत् वे
मादिव एतमाउम जइया इम सर्वं ज्ञानवन्निवे पनत्तारात्यस्र नारको चरिइ पाज्जखामधि एवही पाज्जखा नवाधि । ज्ञाव पचागारावउत्तन्ति एव

उपै पकरेति । एवं जात्र यमाणिना । एव सवृठाणेसु अणतरोयवयणागा णेरुडया णकिचियि अ्याउयं पकरेति जाय अुणागारोप्रउहेति । एव जात्र वेमाणिना णय्रज अस्स अ्यत्थि त तस्स जाणियइ । किरियायादीणे नने । अणतरोययणागा णेरुडया कि नयसिद्धिया अ्यन्नवनिद्धिया , गीयमा ! नयसिद्धिया णो अ्यन्नयसिद्धिया अुकिरियायात्रीणि पुच्छा , गीयमा । नयसिद्धियावि अ्यन्नयसिद्धियावि । एव अ्यणाणियथावीथि । वेणुडय यात्रीयि । महेस्साण नत । किरियायात्री अ्यणतरोयवयणागा कि नयसिद्धिया अ्यन्नयसिद्धिया पुच्छा , गाय

रोपपलत्ता नैरविडा म क्ख्याप्यापु; प्रमुवनि पावइनाकारापपुक्क इति एवं पावइमानिया; मवर ययस्यास्ति ततस्स त्तखिलव्वम् । क्रिया यादणे नदल्ल पल्लारापपयळा नैरपिका; कि मवसिद्धिळा अन्नयसिद्धिळा; ? गीतम । प्रवसिद्धिळा नैवा प्रवसिद्धिळा; । अक्रियावा ाणा पुच्छा गीतम । मवसिद्धिळा अपि पमवसिद्धिळा अपि । एवमपानिकवादिनापि । वेत्तियकवादिनापि । सल्लया प्रदल्ल । क्रियाया

त्राव वेमाणिया कवर अ क्खत्त तस्य भाविकाय । यावत् पनाकारापपुक्क इति एम वावत् वेमानिकल्लगे कइवा पतन्नाविशय जइ अणनेहे तइ नइव इया । विटिगइ/दाव नइ पल्लारावइल्ल ॥ वेरइया कि मवसिद्धिया पमवसिद्धिया । क्रियावाडो हेमगवन् पल्लारात्थव मारको खू भवसिद्धि इव पयथा पमवसिद्धि इव इतर । मावमा मवसिद्धिया वा पमवसिद्धिळा पविरियावाडोय पयळा । हे गीतम मवसिद्धि इव पणि पमवसिद्धि इव मडो पडियावाडो इममन् मवसिद्धि इ प उतर । यावमा मवसिद्धियावि पमवसिद्धियावि । अगोतम मवसिद्धि पणि पुव पमवसिद्धि इव पविइव । एव पमाविरवाडोवि यययथावादि । एम पयानिकवाडो पणि कइवा इम वेत्तियकवाडो पणि कइवा इमअ । मल्लमाव भत निरियावाडो पल्लारावपवळा कि मवसिद्धिया पमवसिद्धिया पुच्छा । मजेया हेमगवन् क्रियावाडो मारको पल्लारात्थव मारको खू भवसिद्धि इव पुव पयथा पमवसिद्धि इव इतर । मावमा मवसिद्धि इव वा पमवसिद्धिळा । हेमो म मवसिद्धि इव पाथ पमवसिद्धि इव मडा । एवएराय पणि

मा । नत्रनिष्ठिया गो शुन्नवसिष्ठिया । एव एएण शुन्निलात्रेण जहेय चहिण उवेसए णेरडयाण अन्नत्रया
 न्रणिया तहेय इहयि न्नागियन्ना जाय शुणागारावउत्तेसि । एव जात्र धेमाणिया, णत्रर ज अस्स शुथि त
 तस्स न्नागियन्नु । इम से छररुण जे क्रिरियात्रादी सुक्कपक्खिया सम्मामिच्छादिठीया एए सधे न्नत्रसिष्ठिया
 णो शुन्नत्रसिष्ठिया ससा सधु न्नत्रसिष्ठियायि शुन्नत्रसिष्ठियायि सव न्ने । त्ति ॥ तीसइमस्स त्तिन्ने

एतन्नरोपपयकाः किं नवसिद्धिका अत्रयपिद्धिकाः १ गौतम । नत्रसिद्धिका नो अत्रवसिद्धिकाः पयसतनात्रिलापन पयेत्रीपिडावृशान नीर
 विजाया यत्तयत्ता त्रिखिता तथैववपि त्रिखितव्या यावदनाकोरापयुत्त इति । एव यायद्वैमानिका नवर यद्यस्यासि तत्तस्य त्रिखितव्यम् । इव
 तस्य सवप य क्रियावादिन सुक्कपाठिकाः सम्यक्खिप्यावृष्टेन एत सयै अत्रवसिद्धिका ना अत्रवसिद्धिका क्षयाः सर्वेनयसिद्धिका अपि अलव

नाथ अत्र चरिपत्रवपेरायाथे वतवववा सविया तद्व इवदि भावियवशा आत्र पणायारावत्तिलवय नाथ वनाभिया । इम इवे पाशाववरा
 तिमथोक्क पापिअवृद्धयान्निवे नारकोनो वसववता कथो तिमथोक्क इवा पदि कव्वी यावत् पलाकारापयुत्त इम यावत् वैमानिक इति । एव
 य अत्र पत्ति त तस्य भावियवत्त । एतत्तावियवत्त अत्र कव्वेत्ते तत्र तेव्वेत्ते कव्वता । इमे मे कस्यप अेक्किय वादी सटपक्खिता मन्नामिच्छ निष्ठाया एए
 नात्र भवनिष्ठिया चापभवनिष्ठिया । त भवत्य अमकल्लनी सवव एव अत्र क्रियावादा मय्यट्टा एव एव सगमाई भवनिष्ठिव पदि एव
 वनिष्ठिव नथो । मसा मअ भवनिष्ठियाव अमभवनिष्ठियाव । याकता सवस इ भवनिष्ठिव पविइवे एमभवनिष्ठिव पविइवे एमगो सम्यवट्टो म्मानो
 एवइव एवव सो पयागोने भवपरो प्रमिअथोक्के तमाटि अथा । सेवभत २ त्ति । तइत्ति इमभवत्त । तीससमस्य वितिया अट्टेना सध्मत्ता । ए तीस
 मायतवना वाओवृद्धया पूरावयो २ १ २ १ परएराववववगाव भत एवइया किरियावादी एव अवेव पाडियवृद्धयुत्तर तवेइ परएरा

उद्देश्या व्याख्या नवरं द्वितीयोद्देशके-इममेकमन्वन्ति ॥ ३० ॥ जप्यत्वात्स्येदं सत्त्वं क्रियावादी युक्तपरिच्छिन्नं सम्मन्विष्यादुद्विष्टं नव्य एव नव
ति मा प्रव्यं शेषां सु नव्या अत्रव्या इति असत्त्वसम्बन्धिद्विधात्वात्प्रव्यायोमिणा प्रव्यात्वं प्रसिद्धमवति नोच्यं वृत्तीयोद्देशक तु ॥ तियदस्य

उद्देशो सम्मत्तो ॥ ३० ॥ २ ॥ परपरोयवस्वगाण जते ! णेरुह्या किरियायादी एव जहेय
ठहियुद्देशेण तहेव परपरोयवस्वगसुवि णेरुह्यादीन् तहेव णिरवसेस ज्ञाणियसु तहेव तियदकगसगहिन् ।
सव जत । जत । ति, जाव यिहरइ ॥ तीसद्धमस्स ततिठ उद्देशो सम्मत्तो ॥ ३० ॥ ३ ॥
एवं एण कमेण जसुं वचिसणु उद्देशेण परिवाकी ससुं व इहपि जाव सुचरिसो उद्देशेण, णवर सुण

विद्विक्ता अपि तद्वत् प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ विद्विक्कत द्वितीय ॥ ३० ॥ २ ॥ परस्परोपपन्नका प्रदत्त । नैरपिक्काः क्रियावा
दिन एव पर्ययीपिक उद्देशके तथैव परस्परोपपन्नकवपि नैरपिक्कादिकतयैव निरवस्ये प्रखितव्यम् तथैव दकककपसहित उदव प्रदत्त ।
प्रदत्त । इति यावद्विहरति ॥ विद्विक्कते वृतीय, ॥ ३० ॥ ३ ॥ एवमतम कमव यासैव कल्पिताना परिपाटी सावै

वत्त्ववति । परपरात्पन्नक हेमगहनं नारको विवादायो इ म कतर इम विमहोव यौचित्तुदुदयाननिये कथा तिमहोव परपरात्पन्नकने विदे
पनि । नरयादीया तद्वत् विरवसेस माविद्वत्त्व तसेव तिद्वद्वगसमविपि । नारको यादिवेरेन तिमहोव समस्तपथे कथा तिमहोव तीजतयत्तु न
नारकादि पन्नेनिये क्रियावादी यादिवेरे प्रकपनादकक इ भावुवेवक २ भव्य समक एव इ ते उचित । सर्वभते २ त्त जाव विहरइ । तर्हित हेमग
वत् वचिसणु विवटे । तोसदमव्य ताथा उद्देशा सपत्ता । ए यौसमायतकना जोकाउद्देशा प्रयावका ॥ २ ॥ ३ ॥ एवं एएव कमेव क
वत् वचिसणु उद्देशमात्रं परिवाकी सवेव इहपि जाव परिवाकाउद्देशा । इम इवे यमुकमेवरो विवाहोव वंक्षिमतकनेनिये उद्देश्यानी परिपाटी क
हो विवाहोव इहा पदि ककरो यावत् पररिमउद्देश्य एवकाकने कइतो । नर प्रकतता यतादिवि एव गता परपरा यतादिवि एवमतमएव एव

गन्धर्वसुति ॥ इह दशरुचयं नेरपिकादिपदेषु शिष्यावाद्यादिप्ररूपकारकम् १ चाप्युपन्यस्यरुचो २ नव्यान्त्यश्रुत्कस ३ दोत्येवमिति सूकार्यो
 द्वग्वं नु चरमा क्वली चवोनी य न प्रणहति ॥ अचरमासा मलदयत्वादीना मसम्भवादिति ॥ शिग्रतमक्षत युत्तितः समाप्तम् ॥ ३० ॥
 पदाहमशामपरमन्थन शालाखवाहुष्वालिताम्बुध ॥ मावापरवानिममापिदृष्टौ यातानितयुत्तिसहताजयति ॥ १ ॥

तरो चत्वारियि एकगमा, परपरो चत्वारियि एकगमएण एव चरिमोयि, अचरिमोयि एवचेत्र गत्ररं श्य
 लेस्से केत्रली श्यजोगीयि ण नणइ सस तहेत्र सव जत ! जत ! ति ॥ एए एकारसवि उद्दसगा ॥ समो
 मरणमय सम्प्रप्त ॥ ३० ॥ ॥

यथापि यायदचरम उद्देशका नवर अमलरा सुत्वारोपि एकगमा ॥ परस्पराद्यत्वारोप्येकगमाः यथ चरमोपि अपरमोपि एव सेव नयरम
 तत्रपः क्वली चपाप्यपि न प्रत्यत शप तथैव तदथ मदत्त । मदत्त । इति ॥ एत एकादशोद्देशकास्त्रिगतसवाते प्रातःक्याः ॥ ३० ॥
 ११ ॥ ॥ समाप्त समयसरसगत ॥ ३० ॥ ॥
 श्रीपूज्याचार्येसीकागजदयुतचन्द्रानिचैस्मृतिर्यर्म रादिष्टोराययाङ्गादुरपमपतिषिदस्यस्यम्प्रायेनेन ।
 मधीतः पञ्चमाम्भुप्रकृतपुण्यतदयनायामुद्याद सीषोऽप्यक्षिप्त्वमयप्रथमगुरुकारामचन्द्रकृतिद्विम् ० १ ॥

न एसात्रि चरिनात्रि ०००० । एतनात्रिमय पनकारना च रा ०० नरावा गमा जीववा इम चरम पवि चचरिम पवि इमत्र कत्रथा । चत्रर पन्ने
 इम कवा पनालोत्रि न भण । एगलात्रिमय पक्षमी क्वला चयागो पवि एतना न क्ववा । उरु तइत्र । मय तिमकोत्र क्ववा एच रमत्र पसगपचा
 दिक्कना चमन्थरमाट । मन्थर त ति । तइति चैमगद्व् । ख ति । एउत्रारसत्रि सट्टदमगा । इम एष्यारे कट्टदसा पवि जीववा । समांतरक मय सुत्र
 ॥ समासरेच उपलपत मत त समासरक मत पूरायसा ॥ ३ ॥ ० ० ०

गिनतात बत्वारि समवसरथा सत्ताभीति बहुदृष्टयथाचम्प्यो एतयुगवत्कथ्यतानुगतमथाविस्तृष्टेगणपुत्रमेकत्रिंशत्तत्त्वाप्येते तस्य चेद मा
 रिमूत्र रायमिष्ट इत्यादि ॥ सुल्लाजुम्भति ॥ युग्मानि वस्त्यमात्रा राशिर्विशेषा स्ते च महालोपि सन्त्यतः सुल्लज्जवाद्दस्य विशेषितः। तत्र यथा
 राशौ द्वन्द्वमात्रान्दुवान् राशि सुल्लज्जतयुग्मा उन्निषीयत एव त्रिसप्तैकादश्यादिकी राशिः सुल्लज्ज लयोः द्विदृष्टयत्तिको राशिः सुल्लज्ज

रायगिहे जाय एय ययामी-कडण जते । खुक्कागजुम्मा पणत्ता ? गोयमा ! चत्वारि खुक्कागजुम्मा प० ,
 तजहा-कण्डुम्मे तन्गे दायरजुम्मे कलिउण । नं केणठेण जत ! एव बुच्चइ-चत्वारि खुक्कागजुम्मा प० ,
 तजहा-कण्डुम्मे जाय कलिउण ? गोयमा । जेण रासीचउक्काएण सुयहारेण सुयहारेण चउपज्जवसिण

राजगण यावदवमबादीन्-कति जसल । सुमक्युग्मानि प्रकृपितानि ? गौतम । बत्वारि सुल्लज्जयुग्मानि प्रकृपितानि तद्यथा-जतयुग्म थ्या
 च द्वारपरपम कस्योत्र । एय कनार्येन सत्त । एवमुच्यत-बत्वारि सुल्लज्जयुग्मानि प्रकृपितानि तद्यथा-जतयुग्म यावरकस्योज ? गौतम ।
 यो राशिचतुष्कापहारथापत्रियमाचसुतुःपयवसिता स सुल्लज्ज जतयुग्म । यो राशिचतुष्कापहारकोपत्रियमाच स्थिपयवसित स सुल्लज्जकल्या

रायगिहे जाय एय ययामी । राजगण्ड जनरजविषे जावत् इमकथे । अथ भते युक्काग जथा पं । अतथा हेमनरन् पुत्रकडुम्म प्रकृप्या वज्जनाथ रा
 मिशिय तदमाटा पणिक्क पतथामाटे पुत्रकडुम्म करो विमियित कीया इ प्र कतर । गावमा यत्तारि अज्ज गजथा प त । जगौतम पार यज्ज
 कथिय नाकायुग्म प्रकृप्या त कथ्ये-कडुम्मा तेपानी धाररकथे कथिथाण । जतयुग्म गज्ज द्वारपरयुग्म कथ्या ४ । सत्तकडुम्म भत एव यदइ । त
 ए पदे इममवत् इम कथा । बत्वारि यज्जय जथा प त । ए र पुल्लज्जयुग्म प्रकृप्या त कथ्ये-कडुम्मा जाव कथिथाए जतयुग्म यावत् कथ्याज
 इ प जतर । नापया जर्ष राशोवज्जय एवधारेण एवधारेण प्रकथोरमाचे कडुम्माकथिण । हेभीतम जेइव वाक्काकथार, रायिप्रते वत्तुक्क पयवसिरेरी स
 यदरतीवथा चार पाठ थारे इत्यादिक संक्कावत्त रायि तत्र पुल्लज्जयुग्म कथिब । एत सुल्लज्ज जतयुग्म कथिबे । जेव राधा

हापर, यत्रपप्रचृतिवस्तु शुभ्रकवस्तोत्र इति ५ अथा कर्तुंतीयति ५ प्रद्यापमायप्रपदे अर्पत ऐवतत् पञ्चभिर्परिर्णयो गतत्र मनुष्येस्वय गारका

सप्त खुम्नागकक्रजुम्मे । जेण रासीचउक्काएण अथहारेण अथहीरमाणे अथअथसिए सप्त खुम्नागततठगे ।
जेण रासीचउक्काएण अथहारेण अथहीरमाणे दुपऊअथसिए सप्त खुम्नागदाथरजुम्मे । जेण रासीचउक्काएण
अथहारेण अथहीरमाणे एगपऊअथसिए सप्त खुम्नागकलिउंगे स तेणठेण जाव कलिउंगे । खुम्नागकक्रजु
म्मणरदुयाण अत ! कउ उवयऊअति कि णरहएहिंते उवयऊअति तिरिस्क पुच्छा , गीयमा । णो णेरहए

का. २ । यो राशिचतुष्कापहारेणापत्रियमाणो द्विपयवसितः स शुभ्रकदापरयुष्मम् २ यो राशिचतुष्कापहारावापत्रियमाण एकपयवसित एतद्यु
स्रकं कस्माच्च सातनायेन यावत्कस्त्रोत्रः । शुभ्रककतयुग्मवैरपिका प्रदत्त । कुत उत्पद्यत कि नैरपिकस्य तिर्यग्यामिकेभ्यः पुच्छा गीतय ।

अथपयव अथहारेण अथहारेण अथहीरमाणे अथअथसिए सप्त खुम्नागकलिउंगे स तेणठेण जाव कलिउंगे । खुम्नागकक्रजु
म्मणरदुयाण अत ! कउ उवयऊअति कि णरहएहिंते उवयऊअति तिरिस्क पुच्छा , गीयमा । णो णेरहए
का. २ । यो राशिचतुष्कापहारेणापत्रियमाणो द्विपयवसितः स शुभ्रकदापरयुष्मम् २ यो राशिचतुष्कापहारावापत्रियमाण एकपयवसित एतद्यु
स्रकं कस्माच्च सातनायेन यावत्कस्त्रोत्रः । शुभ्रककतयुग्मवैरपिका प्रदत्त । कुत उत्पद्यत कि नैरपिकस्य तिर्यग्यामिकेभ्यः पुच्छा गीतय ।

हितो उग्रयज्जति एव गेरुहयानं उवयानं जहा वक्कंतीए तहा नाणियसो, तेण जते ! जीत्रा एगसमएण
केयडया उग्रयज्जति १ गायमा । चत्तारि वा अठ्ठा गारसया सखेज्जाया अस्खेज्जाया उग्रयज्जति
तण जत । जीत्रा कह उग्रयज्जति ? गीयमा । न जहाणामए पवए पत्रमाणे अज्जयसाणे एव जहा पघ
धीनडमसए अठमुद्देसए गेरुहयानं यत्तइया तहेव इहवि नाणियसु जाव ध्यायप्पउंगेण उग्रयज्जति णी पर

ना गेरुहयानं उग्रयज्जति एव गेरुहयानं यथा पुराणात्तौ तथा प्रकृत्याः । त नदस्य । कीवा एकसमयम कियल उत्वयस्य ? गीत
म । अत्थारा या हीरे वा इवहा वा फोशश वा सङ्घपा वा अमुह्या वा तोत्पयस । ते नदस्य । कीवाः कथमुत्वयस्य ? गीतम । स यथात्तम म
पक मयमाभो उग्रयज्जतिमत्तम कर्णोपायमेव यथा पञ्चपिप्रतिमत्तम अट्टमाहुक्के गेरुहयानं सखेज्जाया वक्कयता सखेज्जापि प्रकृत्या याव
यागपुठम ग्यादि १ । वा सको जीवना इवे उग्रयज्जति म् अति एवा उज्जा । तवमत जीराण समएव वेरुहा उव ज्जति । तत्र गेरुहयानं प्राव
उवममेव वा जपने उ ३ । गा अत्थारिवा उट्टा वारसया गीत्तमा मसुत्त मा पदस्यज्जाया उग्रयज्जति । प्रभो वारपयथा भाठ पपवा वारे
पवथा मान पवथा अज्जाया पवथा पमज्जाया अज्जाया । तवमत गीत्तमा अट्ट उवमत्तम । तत्र उवमत्तम जीव विमेषकारि अपज्ज इ म उ । गीयमा सज
हाणामए पए परमाव । जीतम ते यथानामे उवमत्तम । प १ । कापव सव ति । उवमत्तमसखे एव ज्जता पववास समसु १ अट्टमसए अट्टमाव व
मवथा तइव इति भावियथा । पयथात्तम निरुत्तम इरा गीत्तमा उवमत्तम । तम पयथानमा यत्तवजा ग्राठमा उट्टमान गिये नारकाया वल्लयता क
थो तिसथोत्र इदीपनि कइयो । आप पाव १ गण पव जा । प १ ग ३ वज्जति । यावत् पामप्रयोगे इरो उवमेव वा अपज्जे नइो प १ प्रथमी
वरो अपज्जे । एउवचना पुठनिउट्टाग कउजय वर य १ म । १ ३ ज्जत । एउत्ता एउविरो वक्कव उगतसुम्म नारका इमगवन् विक्कीवरो अपज्ज ।
एव कइवा पादिक् अट्टमाव वल्लयथा कइव एवमथपापि भावियथा । एम अत्तम पौजिक् न रकोना वक्कयता कइो तिक्कावाक्क एउमभाज्जति ए प

वत्पद्यत इति विद्येयस्तु परसखी यस्तु पठममित्यादि ॥ गाथास्या मन्त्रस्येयः ॥ अथैतन्न यत्कथंसाधति ॥ अथैतन्न यत्कथंसाधति ॥ अथैतन्न यत्कथंसाधति ॥ अथैतन्न यत्कथंसाधति ॥

पुत्रुगीण उत्रवज्जाति । रयणप्यन्नापुठविश्वुम्नागकरुजुम्नणेरुथयाण जंत । कनु उत्रवज्जाति एव जहा उहिय णे
रुथयाण यत्तसुया सञ्चैत्र रयणप्यन्नाएथि ज्ञाणियन्ता जात्र णो परप्यन्तीगेण उत्रवज्जा ते एव मङ्करप्यन्नाएथि ,
एथ जाव अथै सप्तमाएथि । एथ उवथाठ जहा वक्कतीए । अथयणीस्वस्तु पठम दोञ्चैत्र सरोसीथातईयपरुकी

हासप्रयाणकोत्पद्यत नैव परमयोगसोत्पद्यत । रथप्रज्ञापुपिपुसुक्कतयुम्नैरपिणा जवत्त । कुत उत्पद्यत यय ययीपिन्न नैरयिकाया
वत्तप्यता सासैव रथप्रज्ञापामपि प्रवित्तव्या सावलो परमयोगभात्पद्यत एव शकैरप्रज्ञापामपि । एव यावदप्य सप्तमायामपि । यत्तमुत्पादो
यथा व्युत्कथान्तिव । असम्मित्त एतमुत्पत्ता द्वितीयाधरोद्यया स्वतीथीवापद्य ॥ गाथा ॥ एवमुत्पाद्यमित्तव्याः शप तयैव । सुसुक्कयोअनैरपिणा

वि शक्तव्यता कइवो । जाव था परप्यथागेव उवदर्यति । जाव त ॥ पर ॥ पागकरो अण्णे । ० इं सक्कटयभाएवि एव जाव पद्यसतमाएवि एव उववा
था जहा वईताए । इम यक्करभाने विपे पवि कइवा इम सा त नाच मा सा पुविदोन्नम कइवा इम उवपात विम पद्यवाला कइवापद्यन विपे कइवा
तिम कइवा । असको यत्तुपठम साधर सरोमिवा तावपल्लो । यन्था नथे पविठोपविठोसगे जाव दोत्रीपुठिवो मरोसुप बीसोपुठिवोये पयाजाव ।
थाइ एव कइवापद्यवा सुस तइव । इत्ताठि सावविक्कवा इम उववा यत्त मिमकोज कइवा । सुम्नागतथाग वेरुसाथ भते कथा उवदर्यति । सुस
कथाज नारकी वेमममम् विक्कविक्कवो उण्ण । विक्कटएठिवा उववापा जहा उवतीग । एव नारकावका उण्णे उवपात विम पद्यवाला कइवापद्यने
विपे कइवा तिम कइवा । तवमत जोवा एगसमण्ण वेरुसा उवदर्यति । तव वेमममम् जाव एकमवेरुरी केतवा उवपत्त र म उवत्त । यीयमा वि'ए
या सतवा उव्वारमवा पक्कममम मसुत्तावा यमसुत्तावा उवदर्यति । इतीतम भाग पक्कवा सात यक्कवा इत्तारे यक्कवा एतरे यक्कवा मत्तव्याता यद्यत्ता
पद्यव्यता उण्णे । उव जहा कइवअथए एव जाव प्रवेसतमाए सुम्नाग दावइक्कवा । येव विम उववुक्कवना तिम कइवा इम दावत्त गाव सातमो

१ ॥ द्वितीयस्तु कर्षलेख्यास्य सा च पञ्चमीयेष्टौसंतीष्वि च पृथिवीपु मन्त्रतीति कृत्वा

दोवा तथा वसुधा षडवसुधा सखेजावा अखेजावा सेस तचेव । एव जाय अहेसप्तमाए । सुम्नाग
कलित्गणेरइयाग जते ! कठ उवज्जाति एव जहेव सुम्नागकरुजुम्म गथरं परिमाण एकौत्रा पचवा गथ
या तेरमया सखेजाया अखेजाया उययज्जाति सस तचेव । एव जाय अहेसप्तमाए ॥ सेव जते ! जते ।
ति आय विहरइ ॥ इक्कीतीसइमस्स पठमो ॥ ३१ ॥ १

जते । कठ उययज्जाति एवं जहा ठडियगमो जात्र पी परप्पउंगेण गथर उववाती जहा वक्कीतीए धूमप्पज
वा सत्थवा वाऽऽसङ्गुपा वात्थय्यत्त सेप तसेव एव । यावदथ सप्तमायाम् तव तवत्त । इति यावद्विहरति ॥ एकत्रिंशत्त प्रथमो

दशाः ॥ ३१ ॥ १ ॥ कर्षलेख्यो शुभ्रः कृतयुग्मनेरयिका प्रदत्त । कथमत्पद्यत्ते एव यथा औपचक्रमो यावन्नेव परमयोगेव
मवरमुपपातो यथा व्युत्कान्तिकः धूमप्रजा पृथिवी नेरयिकाका वाय तथैव धूमप्रजापृथिवी कण्ठलक्षी शुभ्रः कृतयुग्म नेरयिका प्रदत्त ।
कस्मादुपपद्यत्ते एव तेषु निरवहाय एव तमायामपि एवमपरसप्तमायामपि । नवरमपपातो श्वयंत्र यथा वल्ग्वः कण्ठलक्षी शुभ्रः श्योक नेर

ठमा कटुत्तमा सन्ध्या । ए इहकोसमा यतवता पडिक्काठदुदमा प्रायथा ॥ ३१ ॥ १ ॥ १ ॥ काजाठदुदगा कण्ठलेख्या पाशुवानी कडवो
ति का कण्ठलेख्या पचमो कटो सातसो पृथिवीनेज विवे इव इमकरो सामाज्य इच्छक त तोन पृथिवीना तीम वल्ग्व इवा इव तवहेत्—कण्ठलेख्या पु
लाग कडवथ नेरय्याग भते कथा उववत्तति एवं कडा पाडियगमया । कुच्छरगो चसक धूमयुग्म मारको इमगवन् विन्नीववी कपके इम जिम
शौपिकगमाम विवे कडा निम कडवा । जात्र वा परत्थयामक कडर उववापा कडा वडतीण । यावत् नडो परपयाग कपके पतकाविशय कपपात जि
म व्युत्कान्तिक पवशकागा कडापद्वनत्रिये कडा तिम कडवा । धूमपम पुठवि कररवाच ससतसेव । धूमपमा नारको इत्यादि श्व तिमडोव । धूमप

मामान्यदकल लदुदककचरुपं चाउ प्रयताति ॥ उववाठि जहा धकनीए पूमप्यनपुठबिनेरपावति ० इह कृष्णलेइयाप्रकाला वा च पूमप्रलाया प्रव

पन्थिगरडयाण नस तहत्र । धूमप्यनपुठधिकरहलेस्सखुम्भागाकजुम्मणेणरडयाण जते । कच्छे उवत्रज्जाति एव
चेत्र णिरयससं । एव तमाएथि एव स्थेहसप्तमाएथि णनर उववाठे ससुल्य जहा वक्कतीए । करहलेस्स
खुम्भागतछेगणेणरडयाण जत ! कच्छे उववज्जाति एवचेत्र णथर तिग्गिवा सप्तत्रा एक्कारसत्रा पणारसत्रा सखे
जाया अ्सखेजाया सस तेहेय एव जाय स्थेहसप्तमाएथि । करहलेस्सखुम्भागादावरजुम्मणेणरडयाण जते !

यिका नदल । कस्सापुपपचल एव येव नवर त्रीवि वा सस वा एकाइश वा पण्यइए वा सख्याता वा उवख्याता वा सस तथेव एव याव
इप मममायामवि । कृष्णसयी सुसक हापरपुम नैरयिका नदल । कस्सापुपपचगते एव येव नवर द्वीवा पण्ठा इअवा वतुर्दंयत्रा सेप तथेव

भ पुठार कचइअक पुठाल कइअक चेरइवाच भत कपा कववज्जाति । पूमभा एविवा कृष्णसया पुठक कुण्डुम नारका इभनवन् विडिअिकको जप
जे इत्यादि । एवचेत्र विरवसेव एव तमाएथि एव चइसतमाएथि । इमहोच निरवयप ममसु कइवा इम तमानविपे पवि कइवा इम नोच सातमो
नविपे पवि कइवा । चवर् उववाथो सख्य कइवा वक्कतीए । एतकावियप चपयात समइइ किम पकरवाता कइ पइनेविपे कइया तिम कइवा । कचइ
सयापुठ य तथाय चेरइवाच भते कपा उववज्जाति एवचेत्र । कृष्णसयी पुठक इयाच नारको इभनवन् विडिअिकको जपवे इमहोच कइवा । चवर ति
विवा मत्तवा उववारइवा पवरसवा यउलावा चसकज्जावा सयतइव । एतकावियेय तीम चअवा साव चअवा इथ्यारे चअवा पकरे चअवा सख्याता
पअवा चसख्याता येप तिमहोच कइवा । एव जाव चइसतमाएवि । इम जावत् नोच कातमो एविचोकसे कइवा । कचइअक ज्जुग ग हावर
त्रय चरइवाच मते कपा कववज्जाति एवचत्र । कृष्णसयी चअक हापरपुम नारको इभनवन् विडिअिकको जपल इमहोच । चवर तीम कइवा इयथा चउ
इयथा येसतयेव एव पूमयमाएवि जाय चइसतमाएवि । एतकावियेय हाव चअवा च पअवा इय चअवा चइवे इत्यादि यय तिमहोच कइवा इम पूम

कर्तु उग्रयज्ञाति एवचेत्र णवर दोधा त्वया वसया चउद्वसया संस तचेव । एव धूमप्यनाएवि जाव अहे
सप्तमाएयि । फरहलेस्सखुम्नागकलिठेगणेरद्वयाण नते ! एवचेव णवर एकौवा पचवा णवथा तेरसवा
सखेजावा अ्सखेजावा संस तचेय । एव धूमप्यनाएवि तमाएयि । अहे सत्तमाएयि सेव नते ! नते ! ति । ति ।
एगतीसद्वमस्स यित्तिठे उद्वेसी सम्भप्ती ॥ ३१ ॥ २ ॥ णील्लेस्सखुम्नागकजुम्मणरद्वयाण नत !
कर्तु उग्रयज्ञाति एय जहेय फरहलेस्सखुम्नागकजुम्मा , णवरं उववाठे जो अलुयप्यनाए संस तचेत्र ।

एव धूमप्रापामपि माववपस्सप्तमापामपि । अणलसी शुद्धक कस्योव नैरियका नदत्त । एव तैव नवरमको वा पव वा नववा त्रयोदश वा
सत्याना वा अस्सयाता वा संस तचेव एव धूमप्रापामपि तमापामपि अपस्सप्तमापामपि तदेव नदत्त । इति ॥ एकत्रिंशत्तते
द्वितीयोद्वः ॥ ३१ ॥ २ ॥ भूसंख्येयो शुद्धक कतयुम्स नैरियका नदत्त । कस्मापुपपद्यते एव पर्येव कप्रसेयी शुद्ध

पमा एविनीभविपे एवि वावत् नोप सातमो एविनीभविपे जपले । अचद्वय्य बुद्ध्याग कलिपागचेरद्वारं भत पचयेव । बुद्ध्येयो सुत्रं कच्चावजरा
को हेमगवत् इत्यादि इमहोव कच्चा । अवर एजावा पचवा नववा तेरसवा संखेजावा संसत्तचद । एतत्ताविमव एक पचवा पव पचवा
नव पचवा तरे पचवा संख्याता पचवा संख्याता इत्यादि ग्रप तिमहोव । एव धूमप्यभाएवि तमाएयि अहेयत्तनाएवि । इम धूमपमाने विपे एवि क
दवा तमानेविपे एवि कच्चा नोपे सातमोपुबिबोने विपे एवि कच्चा । अचभत्त २ ति । तद्वति हेमगवत् इत्यादि पूवत् ॥ एगतोसमेस्य विविधा
उद्वदवा मथला ॥ इकपोसमा यत्तकवा बीबीउद्वदवा पूरापवा २१ ॥ २ ॥ नोजाठद्वेया नोखल्लया पायबोने कच्चा तिने नोखले
वा नोत्रो नोत्रो पंचमो ढोखपुबिबोनेविपे बुवे इम करीने सामाख दस्यव एक तद्वनाएकच तोग इम एव वारदस्यव इवा इवे त कहेवे—पोखेस्य च

प्रय मा च तृतीयाचतुर्थीर्वचनीवेव पृथिवीषु प्रवतीतिरुत्था सामान्यदशक साहस्यकथय चाय प्रवतीति ॥ उच्यते ॥ की वालुप्यप्यजायति ॥ इव
 नीलमव्यामकाला मा च वालुकाप्रजाया प्रवतीति तत्र ये कोवा लत्यद्यन्ते तेषा मवीत्यादौ वाच्यः तेषासिद्धिरीच्यपवर्त्ता इति ॥ परिमाणं
 त्रावियवृत्ति ॥ चतुरद्वारद्वारमन्त्रितुल्यकरुतयुग्मादिस्वरूप प्रातव्यवित्ययः ॥ ३१ ॥ ३ ॥ चतुषसु चापातसेव्याश्रयः सा च प्रय

घालुप्यनपुत्रविणीललेस्वस्तुक्कागकरुजुम्मेणेरडयाण एव पकप्यजायति । एव चउसुत्रि जुम्मेसु णत्रर परि
 माण जाणियधं , परिमाण जहा कएहलेस्वउद्वेसए सेस तहेय । सेव जते । जते ! सि ॥ इकतीसइमस्स
 ततिने उद्वेसो सम्मसो ॥ ३१ ॥ ३ ॥ काउलेस्वस्तुक्कागकरुजुम्मेणेरडयाण जते ! कने उयत्र

करुतयुग्म मवरमुपपाता यो वालुकाप्रजायां दोष तथैव वालुकाप्रजापृथिव्यां नीलसशी शुक्लक कतयुग्म नीरयिवाः एव पकप्रजायामपि एव
 चतुषपि युग्मपु नत्रर प्रमाणं प्रातव्य प्रमाणं यथा-कजलद्वयदृक्क आय तथैव तद्वय प्रदत्त । इति ॥ एकत्रिंशत्तिसस्य तृतीयोद्वेद्यः
 ॥ ३१ ॥ ३ ॥ चापातसशी शुक्लक कतयुग्म नीरयिका प्रदत्त । कस्मादुपपद्यन्ते एव यथैव कजलसशी शुक्लक कतयुग्म , मवरमु

प्राग ककजलय चराबाव भते कथा उच्यन्ति एव जहेव । नीलकेम्वा युक्क कतयुग्म नारको हेमगवन् विहायको जपजे इत्यादि इम किमहीज । क
 चरुण्य पञ्जाम ककजला । कृपणपया युक्क कतयुग्म कश्चो तिम कडवा । मवर उच्यते आ वालुप्यभाए जेम तचव । एतस्मात्त्रियेय इकी नीलके
 म्या पचरव तिवा च तुल्यमात्र विवे इवे तिहा जड जोर जपजे तेहामात्र उपाय कडवा ते चसशी सरीसृप पप्यनि इत्यव । वालुप्यम् पठवि जोर
 नेपणमाग ककजलय चरापाव । वालुकाप्रजापृथिवी नीलसशी युक्क कतयुग्म नारको इत्यादि । एव यंजक्यमायदि एवं चउसत्रि युक्क मवर परिमाण
 इम पञ्चमात्रेवै कडवा इम चारेरे पवि रममत्रिवे कडवा एतस्मात्त्रियेय परिमाण जायता । एव यंजक्यमापदुद्वेय सेस तहेव । परिमा
 च तिम कृपणयो चरुदेय जेवै कजा तिम कडवा जेप तिमहीज कडवा । जेव भते र ति । तद्वति हेमगवन् इत्यादि युक्कव । इकतीसइमण्य तद्वचा

जाति एत्रं जहेय करहलेस्सपुब्बागककुम्भे, णयर उवयासं जी रयणप्पन्नाए सेस तहेय । रयणप्पन्नपुटवि
 काउलेस्सपुम्भागककुम्भेणेरइयाण जत्ते ! कले उवयजाति एवयेय । एव सक्करप्पन्नाएवि । एव थालुयप्प
 नाणयि । एव षउसुयि जुम्भेसु णयर परिमाण जाणियइ परिमाण जहा करहलेस्सउहेसए सेस तचेव ।
 सेय जत्ते । जत्ते । ति ॥ ३१ ॥ ४ ॥ जयसिद्धियसुब्बागककुम्भेणेरइयाण जत्ते । कले उवय

पपातो यो रयमनापामपि गव तयेव रवमजापुचिषी कापोतसञ्जी सुत्तं कतपुग्ग नेरयिका जदत्त । कस्साहुपपद्यत्ते एव सेव एव छकरम
 नाथामपि एव वामुक्कप्रमापामपि एवं चतुपपि पुग्गेषु भवर प्रमाथ यथा कण्ठसपुद्दकके कोप तथैव तद्वयं जदत्त । जदत्त ।
 इति ० ३१ ० ४ ० जवविट्ठिक सुत्तकतपुग्ग नेरयिका जदत्त । कस्साहुपपद्यत्त कि नेरयिके एव पयेव औचिक कपेव

वदुठ्ठा कथथा ० ७ इववायसा मतत्तना भोवाउदुदेया प्रावत्ता ० ३१ ० ३ ० भोवोउदुदेया कापातत्तया पायवोन जाविवा तिका
 पडिनी बोथी बोथी ० तीन पविनेनेवियेव जे इम करोने सामान्यदुठ्ठक तीन इत्ती इवे तेकडेके—काउसका सुत्ताय ककत्तया केरएव च भत यत्त
 ककत्तयि । कापातत्तयो यत्त कृतययम भारको हेममन्नं किइत्तको उपवे इत्तादि । एव कडेव कपइसेस सुत्ताम ककत्तया कवर उवयाया वा इव
 ययभाए मेवं तहेय । इम निमडोल वृत्तकाया सुत्तक कतयमने विपे कत्ता तिम कइवा पतथाविशिय कपपात सामान्यदुठ्ठकनिये इत्तप्रमालो परे क
 इवा गप तिमडोल । एवव्यभ पुठवि काउसक्य पुत्तान ककत्तय्य चरइवाक भत कथा उवपव्वति यक्केर । इत्तप्रमापविषी कापातत्तयो सुत्तक कृतय
 रम नारको हेममन्नं किइत्तको उपवे इमडोल कइवा । एव सक्करप्पमाएवि एव वानुक्कमाएवि एवं ककत्तयि कत्तय । इम यक्करप्रभा पविषीने विपे
 पविक्कइवा इम वानुक्कमाने विपे पवि कइवा इम चरिरे पवि कृतकत्तमादि पटनेविपे कइवा । कवर परिमाक जाचियत्त । एतत्ताविशिय परिमाच
 कइवा । परिमाणं कइवा ककत्तइइए सेसतचेव । परिमाच निम कत्तयत्तयो उदेयानेविपे कत्तयो तिम कइवा यय तिमडोल कइवा । सेवभत र ति ।

ज्ञाति किं पारद्वे एव जहेय उद्विन्नं तहेय गिरयसेस जाव णी परव्यनंगेण उययज्जाति । रयणप्यजापुठवि
 जयसिधियसुम्नागकुरुजुम्मेणेरद्वयाण जते ! एयवेय गिरयसेस एय जाव छहेसप्तमाए । एय जवसिधियसु
 म्नागतेनेगणेरद्वयायि । एय जाव कालिठेगोसि णवर परिमाण पुष्टु ज्ञाणिय जहा पट
 मुद्रेमए सेय जते । जते । सि ॥ ३१ ॥ ५ ॥ कणहलेस्सजयसिधियसुम्नागकुरुजुम्मेणेरद्वयाण
 जत । कनु उययज्जाति एव जहेय उद्विन्नं कणहलेस्सउद्वेसए तहेय गिरयसेस चउसुवि जुम्मेसु ज्ञाणियसु

। अरययय यावन्नेय परमपोगवोपपद्यत रवममापयिप्या मवसिठिक पुष्टककतपुग्म नेरयिकावा प्रदत्त । एव वैव निरवद्यपं एव पायदपद्य
 माया एव जवसिठिक पुष्टक म्नाज नेरयिकायि एव यावत्स्योययि नवर प्रमाक प्रातव्य प्रमाक पुम जखित यथा प्रथमोदयके तदेव
 प्रदत्त । इति ॥ ३१ ॥ ५ ॥ कजलसयी मवसिठिक पुष्टककतपुग्म नेरयिका प्रदत्त । कस्सादुपपद्यग्ते एव यचेवी
 पिक कान्तवप्रदुग्मेके तयेय निरम्यं यतुययि युगेसु जखितव्य यायदपरसप्तमपयिप्या कजलसयी प्रवसिठिकपुष्टक कतपुग्म नेरयिका प्रदत्त ।

तइति येमनवन् इत्यादि ॥ ३१ ॥ ५ ॥ मवसिठिय पुष्टाग कडकय वेरदवाच भते कथा उववर्जति । मवसिठिय पुष्टक कतपुग्म जा
 रकी येमनवन् बिशबिकी जपवे । कि वेरदए एवं अकेव याडिपा तडेव बिदवयय जाव वा परयपतिच उववर्जति । एव नारकी जपवे इम किमकी
 य डोबिक निमहीच भिजियेव कडका कारत् नही परगकाने कपो जपवे एतकाकणे कडवो । एवव्यभापुठवि मवसिठिय कडकाग कडकय वेरदवाच
 मने उववय बिदववेवं एव काव पडेनत्तमाए । रवममापयिप्यो मवसिठिय पुष्टक कतपुग्म नारकी येमनवन् इत्यादि इमकोच निजियेप इम कावत् की
 वे वागयी इबिगोवते । एवं मवसिठिय कडकाग तेषाव वेरदवादि एव काव कडिपाजति । इम मवसिठिय कडक यथाक नारकी पवि कडवा इम
 कारत् कथाककन कडवा । वरर परिमाच काडिबन्ध परिमाच पुर्व भविवं कडा पठमुद्वेसए । एतकाकियेप परिमाच कावशा परिमाच पुर्वकड

जाय अहिससमपुत्रात्रिकरहलेस्सन्नयसिद्धियसुम्नागकलिष्ठगणेरहयाण नते ! कष्ट उद्ययजाति तहेय । सेव
 नते ! नते ! सि ॥ ३१ ॥ ६ ॥ नीलस्सन्नयसिद्धियचउसुयि जुम्मेसु तहेव न्नाणियसु जहा उहिय
 नीलस्सउदेसए सेव नते ! नते ! सि जाय थिहरह ॥ ३१ ॥ ७ ॥ काउलेस्सन्नयसिद्धियचउ
 सुयि जुम्मेसु तहेव उयवातेयसो जहेय उहिए काउलेस्सउदेसए सेव नते ! नते ! सि जाय थिहरह ॥ ३१ ॥

कस्यादुपपद्यन्त तयेव तदेव मदन्त । मयन्त । इति ॥ ३१ ॥ ६ ॥ नीलससो भवसिद्धिकथतुयपि सुम्सपु तयेव नथितव्यो ययो
 पियनीलससपुहस्ये तदेव नदन्त । नदन्त । इति यावद्विहरति ॥ ३१ ॥ ७ ॥ कापातससो भवसिद्धिकथतुयपि सुम्सपु तये

तिम कथा किम पदिनाउदयाने विवे कथा तिम कथा । सबभत र ति । तद्वति हेभगवन् इत्यादि ॥ ३१ ॥ ५ ॥ कथकसस भव
 सिद्धियसुखान कथकथ्य कर्याच मत कथा उववल्कति । अथसो भवसिद्धि पन्नक उतनुम नारको उभयवन् विहावको उपवे । एव अथेव योदि
 या कथकथ्यउदसए तद्व चिरवसने चकसवि अण्ये भाविकथ्य जाय चकससमपुठवि । इम किमसो क योविक नुवयेयो उदयेयो कथा तिमसो क
 निविमय चारई सुग्माने विवे कथा यावत् नीचे सातमो एविनी । कथकनेरस भवसिद्धियसुखान कलिपाय चरयाच मत कथा उववल्कति तद्व ।
 सुग्मयो भवसिद्धिय सुन्नक कल्याण नारको उभयवन् विहावको उपवे इत्यादि तिमस कथा । सेव भत र ति । तद्वति हेभगवन् इ पुंवेत् ॥ ३१ ॥ ६
 योमसस्य भवसिद्धिय चकसवि अण्ये तद्व माविकथ्य कथा पाठिय योमससउदेसए । नीमसया भवसिद्धि चारई सुग्म ने विवे तिमसो क कथा कि
 म योविक मोरकेयो उदकमान विवे कथा । सेवभंर ति जाव विहरह । तद्वति उभयवन् इत्यादि पुववत् यावत् विचरे ॥ ३१ ॥ ७ ॥
 काउलेस्स भवसिद्धिय चकसवि अण्ये तद्व उपवापयथा कथेव पाठिए काउलेस्सउदेसए । कापातसयो भवसिद्धि चारई उतनुमादिकने विवे तिम
 स उपजावकी किम यो व च कापातसयो उदयानेविवे उपभावा । सबभत र ति जाव विहरह । तद्वति हेभगवन् पुववत् यावत् विचरे ॥ ३१ ॥

माद्वितीयावृत्तीवाश्लेष पृथिवीवित्तिलत्वा सामान्यशक्तको रवमसादिदृक्कप्रयं चात्र समञ्जतीति ॥ उवधाठ प्रो रपव्यमाएति ॥ सामान्यवृत्तको

॥ ८ ॥ जहा जत्रसिद्धीर्णहं चक्षारि उद्देशगा एव स्थनत्रसिद्धिगहि चक्षारि उद्देशगा
त्राणियज्ञा जात्र काउलेस्सउद्देशरत्ति, सेव जते ! जते ! सि ॥ ३१ ॥ १२ ॥ एवं सम्मद्विठीहिवि
लेम्सासजुत्तेहि चक्षारि उद्देशगा कायज्ञा णवर सम्मद्विठीपठमवितिएसु दोसुधि उद्देशसु स्थहे सप्तमपुठ
यीन् ण उयथातेयस्यो सेस तचेत्र सेव जते ! जत ! ति ॥ ३१ ॥ १६ ॥ मिच्छद्विठीहिवि च

कोत्यागळो पसेवौपिक कावोगसपुद्दयत्र तववं जदत्त ! जदत्त ! इति पावद्विरति ॥ ३१ ॥ ८ ॥ यथा तववित्तुक्तानं
चत्वारोदृष्टकाः कथिता एवमभवसिद्धिकानां चत्वारोदृष्टकाः आतव्या यावत्सायोतलद्वयुदृष्टकवन् तदर्थं जदत्त ! जदत्त ! इति ॥ ३१ ॥

१२ ॥ एव सम्यपुद्दृष्टीनामपि सप्तपासुक्ते यत्वारोदृष्टकाः कर्तव्या णवर सम्यग्दृष्टि प्रथमद्वितीययोर्द्वेपोरुदृष्टाकयोरपः सप्तम
पृथिव्या नीत्यादमित्यः इय तचेव तद्व जदत्त ! जदत्त ! इति ॥ एकत्रिंशत्त पोठयः ॥ ३१ ॥ १६ ॥ मिच्छाद्विठीनामपि

जहा मवविविद्वि चत्वारि उद्देशका मथिया । जिम मवविविद्विद्विद्विद्वि चत्वारि उद्देशका मथा । एवं समवविविद्वि चत्वारि उद्देशका भाः कयव्या जात्र
वात्रच उद्देशकानि । इम समवविविद्विद्विद्विद्वि पवि चार उद्देशका कयवा यावत् कापावसेयो उद्देशका एतकाकग कयवो । सेवंसते इ ति । तद्वति
सेमववन् इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३१ ॥ १२ ॥ एव सम्यद्विद्विद्वि कयवा संजुत्ति । इम सम्यद्विद्विद्विद्वि पवि कयवा संजुत्तेकरो । चत्वारि उ
द्देशका कयव्या । चार उद्देशका कयवा । कवरं कयविविद्वि पठमवितिएसु कामुवि उद्देशकसु च कयवाकयव्या संयतचेव । एतकाकिय
व सम्यद्विद्वि पठिका बोधा वात्रउद्देशकाने विभे एतके योविक सवा कयवसेयो उद्देशकयो विभे उयकायवा जहो येव तिम
योव कयवो । सेवंसते इ ति । तद्वति प्रथमवन् इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३१ ॥ १६ ॥ मिच्छाद्विठीहिवि चत्वारि उद्देशका कयव्या कयवा कयवा मव

रजमजाबुपपाती बाण्य सेवं भूत्रसिंहं ॥ एकचिह्नं सत्वं युक्तिः समाप्तं ॥ ३१ ॥ ० ॥ ० ॥
 स्यतमत्तद्गुणवत्या मणवत्याप्राविशमपावास्या । पद्भुपदेशेकनिरव प्रवेशवसुनुपरेकवत्या ॥ १ ॥ ०

स्यारि उद्देशगा कायस्था जहा नयसिद्धियाण सव नते ! नते ! ३१ ॥ २० ॥ एव करह
 परिकणुहिवि छेस्तासजुसा चस्यारि उद्देशगा कायस्था जहेय नवसिद्धिणुहिवि, सेत्र नते २ ! सि ॥ ३१ ॥ २१ ॥
 सुक्तापरिकणुहि एवसेत्र चस्यारि उद्देशगा ज्ञाणियस्था जाव थालुपप्यनापुढविकाउलेस्ससुक्तापरिकणु सुमुक्तागा

बत्वार उद्देशकाः कतव्या यथा नवसिद्धिकालां तद्व नदन्त । नदन्त । इति ॥ एकत्रिस्रस्यते विद्यतिमः ॥ ३१ ॥ २० ॥ एवकण्य
 पाठिकैरपि सेइयासपुखायत्वार उद्देशकाः कर्तव्या यथैव नवसिद्धिकैरपि तद्वं नदन्त । इति ॥ एकत्रिस्रस्यते चतुर्विद्यतिमः ॥ ३१ ॥
 २४ ॥ गुण्यपाठिकैरप्येव चैव बत्वारो उद्देशका नदितव्या यावत्त्वानुक्रमसापृथिवीकापोतलदप्यग्राह्यपाठिकगुण्यकालोबनैरियथा
 प्रकृत । गुण्य उदयान तथैव पावकोपरमयोमेकोत्यदाले तद्वं नदन्त । इति ॥ एकत्रिस्रस्यते उद्देशविद्यः ॥ ३१ ॥ २० ॥
 सव एते चस्यारिगुण्यकाः ॥ उपपात शत समाप्तम् ॥ ३१ ॥ ० ॥ ० ॥ ०

सिद्धियाच । सिद्ध्याहोचस्यते पवि चार उद्देश्या कइवा जिस सबसिद्धिकमा कइवा तिम कइवा । सेवमते २ ति । तइति सेममवन्त् स्याटि एव
 वत् ॥ ३१ ॥ २ ॥ एव कइवपत्निएकवि स्या संकुता बत्वारि उद्देश्या काबन्वा कइव मवसिद्धियद्विदि । एम कइवपाठिक सवसि
 पवि सेइयासकृत चारउद्देश्या कइवा जिसहोच सबसिद्धिकस्यते पवि तिमहोच कइवी । सेवमते २ ति । तइति सेममवन्त् स्याटि ३१ ॥ २३ ॥
 मुक्यपत्निएचि एवसेत्र बत्वारिउद्देश्या भावियन्वा । मुक्यपाठिकस्यते पवि इमक चारउद्देश्या कइवा । जाव चाउदयमा मुकवि काउदिय सुक्य
 स्थिर सुक्य म वनिपीन सेररावाचं मते कयो कइवर्त्तति तथैव जाव ची परवपामेक कइवर्त्तति । चावए चासुवपमा एविवी कापातसेयो मुक्यपाठिक

पञ्चविंशो व्रत नारकाद्या मुत्यादौ त्रिद्विंशो द्वात्रिंशो तृतीया मेवो द्रुतलोप्यत इत्येव सन्धुः मष्टाविंशत्युद्देशकमान मिव व्याख्यायते तस्य वेद

फलितुगणरक्षयाण नते । कत्र उययजति तहेव जाय णो परप्यत्तैगेण उययजति सेय नत २ । सि ॥ ३१ ॥

॥ २८ ॥ सधैयि एण अथाधीसउद्देशगा ॥ उवयायसय सम्मस ॥ ३१ ॥ २८ ॥

सुम्नागकरुमुम्णेरक्षयाण नत ! अणतर उद्धृष्टो कर्हि उययजति कि णरुइएसु उययजति तिरिकजो

पुत्रकृतपुत्रमैरियका मदल । पत्तारमुदृत्य क्रात्यल कि नैरयिकपूत्यद्यते तिययोभिकपूत्यद्यते उद्वतना पया ध्युत्त्राली । ते जत्र ल । घोवा उद्वतमयन कियल उद्वतगत ? गौतम । बत्पारोवा ऽथौवा द्वादशवा पोकसया सस्यया वा ऽसस्येया बोद्वतगत । ते जदल ।

पयव अथाज नारको उभनवन् बिहाबको अपले १ म उतर । तिमडोव यावत् नको परपयाने अपले एतच्छाखगे कडवा । सवभते १ ति । तड नि उभनवन् इत्वादि १ ११ । २८ । यत्नेविण्यपयुक्तोस उद्वेसवा । एसगकाई पडाकोसउद्देश्या आथवा । उवयायससससगत १ पया वातमये करो उपकचितगतक ते उवपातगतक कडिव ते पूकयका १ ११ । २८ । * ० ० ० उवधोवम यनके नारकना उपादकथा द्विद्वेवधोममे नारकनो उद्वतना कडवे—इधे सवध पड बोसउद्वदयक ए बधोसमा बयावियत्ते तेवना या दिमसू । यस्यानकडअयेवरयेयाच भत पचतर उद्वद्विता कर्हि उवकजति । पूकक पुनकुम नारको उभनवन् पत्तररहित भोबकोन बिहा अपले । बि केरएणम ववकजति । च् नारकोने विदे अपले । तिरिकजाविएस उवकजति उवद्ववा कडा यकतोप । तियेवयानिकन विदे अपले उद्वतना कि म उवववाना उद्व पदने नारकनोउद्वतना कडो तिम इहा पवि कडवो । तप भते कोवा एमममएच कडवया उवकजति । तड उभनवन् कोव एउसमेये कनका नोवने १ म उतर । भावमा जलारिणा पडुवा वारवशा मावमवा सयेज्जावा पसयेज्जावा उवकजति । उगौतम वार पडववा पाठ पववा वार उवववा एके पववा संख्याता पयस्यावा उद्वत्ते भोवसे तेचमते कोवा कड उवकजति । तड उभनवन् कोव बिम भोवके १ म उतर । गायमा सेजडा

मादिबुधं सुशान्तिरिति ० उद्वहन्तौ जहा यच्छतीरिति ॥ साचिव मयत्तः-गराणोऽवहन्तौ भक्षिपत्न्यत्तस्यभीवीश्रुतिः ॥ हृगिर्ब्रह्म श्रुतं दक्षिणत समस्तं ॥ ३२५ ॥
 व्याख्याते प्राकृत्यत्वात्मा कृतेवास्यसमत्वतः । एकत्रतोपचक्षेत्रे च दृष्टव्या परऽपि ते ॥ १ ॥

णिणसु उदययज्जाति उद्वहणा जहा यच्छतीए तेषं जते ! जीवा एगसमएण केव्हया उद्वहति ? गोयमा !
 चत्तारि वा स्युठ वा वारस वा सोलस वा सखेज्जा वा स्यसखेज्जा वा उद्वहति तेण जते ! जीवा कह उद्व
 हति ? गोयमा । से जहा णामए पत्रए एव तंहेव एव सोचिय गमठ जाय स्यायप्पज्जेण उवहति णो पर
 प्पज्जेण उद्वहति । रयणप्पज्जेणपुढाविस्सुम्मागकज्जुम्म एवं रयणप्पज्जाएवि । एव जाय स्युहे सत्तमाएवि ।

जीवाः कथमुद्वहन्ते ? नीतम । स यथानाम प्रवक्त एव यथैवं स एव यमको यावदात्मप्रयोगोऽद्वहन्त नैय परप्रयोगोऽद्वहन्तते । रजप्रजा-
 पयिवी बुद्धककतपुम्म (प्रचति) एव रजप्रजापायामपि । एव यावद्वच सप्तमापायामपि । एव बुद्धककतपुम्म बुद्धककस्योको
 नवर परिमाच घातव्य अप तथैव तदव प्रवक्त । इति ॥ हृगिर्ब्रह्म श्रुते प्रथमः ॥ ३२ ॥ १ ॥ काप्रलम्बकतयुग्मसै

यामः पत्रए एवं तद्व एव साचिव नमया जाय पात्रव्यवामच उवहति । हेगोतम तयज्जायाम उवहति इम तिमहीण पठिहीपर इम तद्वान
 पाकावा रावत् पान्नाप्रयोगेवरो नीकसे पचि । वा परप्पज्जातं उवहति । नही परप्रवामवरो नीकसे । एवकप्पज्जुमपुठि सुम्माग ककतव्य । रजप्रमा
 पचिवी पुत्रक कतपुम्म इत्यादि । एव एवप्पमाएवि एव जाय पत्रवतमाएवि । इम रजप्रमाने विधे पचि ककवा इम वाजत् नीचे सातमोपचिवोन
 विधे पचि ककवा । एव सुम्माक तेपाम सुम्मान दावररुत्त सुम्माग ककतव्ये । इम पुत्रक स्याकनेविधे पचि ककवो ककव दापरदुग्मने विधे पचि
 ककवो पुत्रक ककतव्ये पचि ककवा । नवर परिमाच ककतव्य सेसत्तयेव । एतथाविधय परिमाच ककवा पठिहीपरतेतोण सात तथा दाय क
 तथा एक पत्रर इत्यादि परिमाच ककवा । सेवभते र ति । तद्वति सेवभवन् इत्यादि ॥ ३२ ॥ १ ॥ ककवसेवक क

एवं सुम्नागतेर्गौ सुम्नागवाधरजुम्ने सुम्नागकलित्त्रेगे णवर परिमाण जाणियह् सुसं तधेव सेव न्ते !
 नते ! सि ॥ ३२ ॥ १ ॥ करहलेस्सकजुम्ने णेरहया एवं पूरण कमेण जहेव उववायसए स्य
 ठाथीस उव्वेसगा न्णिणिया तहेव उव्वहणासएवि स्यठाथीसं उव्वेसगा न्णाणियह्वा णिरवसेसा णवर उव्वट्ठित्तिसि
 स्यन्निळावो न्णाणियह्वी सेसं तचंचय सेव न्ते ! जत ! सि जाव त्तिहरह ॥ उव्वहणासय सम्मस ॥ ३२ ॥

रपिका एवमेतन्न कमच पर्येवोपपातज्जे अष्टाविंशस्युदीयथा मच्चितासपेवोदुत्तभासुत्तपि अष्टाविंशस्युदुत्तथा न्चित्तथा न्तिवज्जेया नवर
 उव्वचग्ग इत्थपिळापो न्चित्तत्तथा अपं तथेव तदव मरत्त । न्तत्त । इति पावट्टिकरति ॥ उव्वर्त्तना सुत्तं समाप्तम् ॥ ३२ ०

श्रीपुण्याचार्यशौकाणकप्रवृत्तवत्त्राऽऽप्तपैस्मृतिवर्ष्यै राक्षिठोरायबाहापुरजनपतिविहस्यसम्प्राचयेन ।
 सुकीर्त पञ्चमाङ्कप्रवृत्तपुत्रवृत्तवत्तनापानुवाक् नीतोयश्रित्पिनममवचनगुठकारामचण्णैकसिद्धिम् ० १ ०

अवचेरराया । नृचकेयो नूतहुस्म नारको इ म कत्तर । परं परचं कमचं अचेव उववावसए पहावोच उदुदवया मविवा । इम इचे ममुकमेवरो वि
 मकोन उपपातनामा यतवमविचे पहावोच उदुदेया कथा । तथेव उवववावसएवि पहावोच उदुदेवगा माविबववा । तिमहोच उववतना यतवमे विप
 पहावोच उदुदेया कथा । विववसुवा चवर्त्तवववत्तति अमिळावा माविबववा सेसत्तव । निरवयेव समसुत्तपये एतकाविमेव उव्वत्ते इवोनाम थाळा
 वामेविचे कथा येप तिमहोच कथो । येवंमत २ ति जाव विवर । तत्तति हेमनवत् इत्थादि वावत् विवरे ॥ उववववासें उववत्त ॥ उव्वर्त्तना उपव
 चित यतव ते उववतनायतव जावोचो वचोसमा ते पूरावया । ३२ • • • • •

इतीहमेयतथे नारकनी उववतनाकथो तेइ नारकवचो मोवळाः एवेद्विवादिबनेविचे अपजे सुव ते इवो पावट्टायेते पुविचो कायिक प्रकृपिकायोच पुव
 तेवोमिचिचे बरिका एवेद्विच प्रकृपिया तेमाके एवेद्विच प्रकृपववचप तेवोसमायतव भायेयतव पवावरउरहित वळाविचैतेवना परिबाम्भ कथञ्चि ।

कठविहाण जते । एगिद्विया पखसा, गीयमा ! पचविहा एगिदिया पखसा, तजहा—पुठविकाडया जात्र
 यणस्सडकाडया । पुठविकाडयाण जते ! कइविहा पखसा, गीयमा ! पुठिहा पखसा, तजहा—सुज्ज
 पुठविकाडयाय वादरपुठविकाडयाय । सुज्जमपुठवीकाडयाण जते । कइविहा पखसा, गीयमा ! पुठिहा
 पखसा, तजहा—पज्जत्तसुज्जमपुठवीकाडयाय अथपज्जत्तसुज्जमपुठवीकाडयाय । वादरपुठवीकाडयाण जते !

कतिविधा प्रदल । एकन्दियाः प्रदसाः १ गीतम । पञ्चविधा एकान्द्रिया प्रदसास्तथा—पायवीकायिमा यावद्वसरपत्तिकायिका । पयि
 वीकायिमा मटल । कतिविधाः प्रदसा गीतम । द्विविधा प्रदसास्तथा—सूक्ष्मपृथिवीकायिकाय वादरपृथिवीकायिकाय । सूक्ष्मपृथिवी
 कायिका प्रदल । कतिविधा प्रदसाः गीतम । द्विविधाः प्रदसास्तथा—पयोसमूक्ष्मपृथिवीकायिकायापयोसमूक्ष्मपृथिवीकायिकाय । वाद

वदविहाच मते पतिटवा प । केतकभद इभगवन् एके प्रथ मरुन्वा इ म उत्तर । गायमा दुविहा प त । ज्योतम कइभद मरुप्या त कइहे—सु
 इम पुठविकाडयाय वादरपुठविकाडयाय । सूक्ष्मपृथिवीकायिक वादरपृथिवीकाडयाय भते कइविहा प । सूक्ष्मपृथिवीकायिक
 इभगवन् ततकभद मरुप्या इ म उत्तर । गायमा दुविहा प त । ज्योतम कइभद मरुप्या ते कइहे—पज्जत्त मज्जमपुठवीकाडयाय अथपज्जत्तमज्जम
 पुठवीकाडयाय पयोसमूक्ष्मपृथिवीकायिक अथपयोसमूक्ष्मपृथिवीकायिक । वादर पुठविकाडयाय भते कइविहा प एवसेन । वादरपृथिवीकायिक इ
 भगवन् कतकभद मरुप्या इत्येति इत्येति । एव वादकवाडयावि एव कइवपव भदय माविज्जया काय वकथइव । इयाय । एम भदकठिज वयि कइवा
 एम वादरमद करो कइवा यावन् वनस्यतीकायिककय कइवा । अथपज्जत्त मज्जमपुठवीकाडयाय भते एव कइवपवगोषा प । अथपयोसमज्जत्त रपृथिवीकायि
 क इभगवन् कतमो कसप्रकति मरुपी ए म उत्तर । गायमा एवसेन । ज्योतम इत्येति वाठकमज्जति मरुपी । पज्जत्तम उत्तर पुठवीकाडयाय भते
 कइवकथपवगोषा प एवसेन । पयोसवादर पृथिवीकायिक इभगवन् केगो कसप्रकति मरुपी ए म उत्तर ज्योतम इत्येति मरुपी । एव एव

इन्द्रियज्ञाने नारकीदंशनीत्ता नारकाद्योदृता पंचेन्द्रियादिषु मोक्षग्रन्थे, के च ते इत्यस्वामाशङ्क्यायां ते प्ररूपयितव्या नवन्ति तेषु चोच्चैस्त्रिया

कृद्ग्रन्थिहा पयसा, एवंचेव । एय स्याउकाइयात्रि । एय चउक्काएण जेदेण चाणियसुवा जाय वगस्सइकाइयाण
स्यपज्जससुज्जमपुठुयीकाइयाण जंते ! कइ कम्मपगणीठे पयसाठे, गोयमा । स्यठ कम्मपगणीठे प०,
तअहा—णागायरणिज्ज जाय स्यंतराहय । पज्जससुज्जमपुठुयीकाइयाण जंते ! कइ कम्मपगणीठे पयसाठे
? गोयमा ! स्यठकम्मप्यगणीठे पयसाठे, तजहा—णागायरणिज्ज जाय स्यंतराहय । स्यपज्जससुवाठरपुठुवी

रुपायवावापिका नदन्त । कातविषाः प्रप्रसा एव चैव । एवमक्कापिका अपि । एव चतुष्कल प्रदन्त प्रकितव्या यावद्द्वन्द्वरपतिकापिकामाऽ
मपयोसमूहमप्यिवावापिकामो नदन्त । कति कम्मप्रकृतीः प्रप्रसाः ? गौतम ! अहुकम्मप्रकृतीः प्रप्रसासकथया—आमावरयीय यावदन्तरायिकम्
पयोसमूहमप्यिवापिकामो नदन्त । कति कम्मप्रकृतीः प्रप्रसाः ? गौतम ! अहुकम्मप्रकृतीः प्रप्रसासकथया—आमावरयीयं यावदन्तरायम् ।
अपयोसगद्दरप्यिवापिकामो नदन्त । कति कम्मप्रकृतीः प्रप्रसाः ? गौतम । एव चैव । पयोसवावरप्यिवापिकामो नदन्त । कति कम्म

कम्मस जाय वाहर वण्णइवाइयाच पपल्लतावति । इम इथे चतुष्कमेवरो वावत् वाहरएवजस्यतोवाविक पपयीमाने एतकावमे कइवा । पपल्लत
मइमठोवावाच कर कथयगहोपा ववइ । पपयीस मूहमप्यिवापिक हेमनवन् जेतथो कम्मप्रकति वाथे इ म कत्तर । मोइमा सतविइ ववगा
दि पइ'वइ वथगादि । हेगातम मातविधि वथक पविपाठमवारि वथक पवि । सतववमावा पाववववमावा सतककपगहोपो ववति । धातिमवा
रे वावतावका पाकपटाडो यात कम्मप्रकृति वाथे । पइइवमावा पविपकाया पइइवपमहोपा ववति । पल्लत सुइमपुठुवीकाइयाच भंते कइ कथ
एवचव एव वाथे । पयोस चक प्यिवापिक हेमनवन् जेतथो कम्मप्रकति वाथे पू'जिमवारि कइवा इम यगथाई कइवा । जाय पल्लतवाहर ववक
इवाइवाचं भंते कइ कथयगहोपा वपवि एवचव । वावत् पयीसवाहर वववतोवाविक हेमपवन् जेतथो कम्मप्रकृति वाथे इमहोच पू'गीत्तरोति पपल्लत

साव प्रकृत्यधीया इत्येकेन्द्रियप्रकृत्यपरं अयच्छिन्नं शतं द्वादशधाकारसतोपेतं व्याख्यायते तास्य वेद सावित्र्यं-ऊडविहाकमित्वादि ॥ सोडुवक
 म्पत्तीष्टति ॥ तत्राहौ प्रानावरणादिका साहस्य पदं तद्विशेषयति ॥ साहदियवज्जति ॥ क्रोत्रन्त्रिय वष्य इमीय पस्य त तथा मतिप्रानाय

काह्याण जते ! कइ कम्मपगणीठे पयत्ताठे, गोयमा ! एवचेव । पज्जसुआवरपठयीकाह्याण जते ! कइ
 कम्मपगणीठे प०, एवचेव । एव एएण कमेण जाय वायरयणस्सइकाह्याण अ्पज्जत्ताणंति । अ्पज्जसु
 सुज्जमपुठयीकाह्याण कइ कम्मपगणीठे बधति ? गोयमा ! सप्तविहयधगादि अ्ठविहयधगादि । सप्त
 यधमाणा अ्थाउययजाठे सप्तकम्मपगणीठे बधति, अ्ठयधमाणा पण्डिपुणाठे अ्ठकम्मपगणीठे बधति,
 पज्जसुज्जमपुठयीकाह्याण जते ! कइ कम्म एवचेव एवं सधे जाय पज्जसुवावरयणस्सइकाह्याण जते ।
 कइ कम्मपगणीठे बधति, एवचेव । अ्पज्जसुज्जमपुठयीकाह्याण जते ! कइ कम्मपगणीठे वेवेति ? गो

मरुतीः मज्जताः एव चैव । एवमेतेन क्रमेण पावद्गारवररपत्तिकारियकानामपयोसामाभिति । अपयोससूक्ष्मपुपिषीकायिका प्रदत्त । इति कर्म
 प्रकृतीर्भ्रान्ति । गौतम । अष्टविषययका अपि । अष्टविषययका आयुवज्जाः सप्तकम्मप्रकृतोवभ्रान्ति अष्टौ यत्पयप्रति
 पूबौ अष्टौकम्मप्रकृतोवभ्रान्ति पयोससूक्ष्मपुपिषीकायिका प्रदत्त । इति कर्म (प्रवृत्ति) एव चैव । एव सर्वे यायस्योसवावररपत्तिकायि
 का प्रदत्त । इति कर्मप्रकृतोयभ्रान्ति एव चैव । अपयोससूक्ष्मपुपिषीकायिका प्रदत्त । इति कम्मप्रकृतयो वदयन्ति । गौतम । अतुदुष्ट कम्मप्र
 कृतयसाद्यया-प्रानावरणीये पावद्गारार्ये, सोत्रेन्द्रियवष्य पत्तिन्त्रियवष्य प्राञ्चेन्द्रियवष्य स्त्रीवदवष्यं पुरुषयदवष्यं । एवं

यइमपठोकाह्याव मते कइकम्मपयोषोपा बहेति । अपयोस पूस्य पृषिषीकायिष इमगवन् वेगवो कम्मप्रवृत्ति वेदे १ प्र उतर । गायमा अउइय क
 म्पववहीपा वेदेति त० । वेगौतम अउरे कम्मप्रवृत्ति वेदे तत्रेवे—वावावरविल्ल जाय अंतरादय साहदिय वष्य पत्तिदियवष्य पात्तिदियवष्य जिधिं

रक्षयिषेप इत्यथः एव समान्यपि स्पष्टान्त्रियवर्णं तु तेपा नास्ति तद्भावे एवेन्द्रियस्वप्नानिमग्नान्द्रियेति ॥ इत्येवैयवर्णंति ॥ यदुत्थात रक्षीवे

यमा । अउद्दसकम्मपगानीनु वेदेति त-णाणाधरणिजा जाव अतगइय सोहृदिययज्ज चस्किदियवज्ज घाणि
दिययज्ज जिस्सिदिययज्ज इत्यिवेदयज्ज पुरिसवेदवज्ज । एव अउक्काएण जेवेण जाव पज्जसवादरयणस्सह
काइयाण जते । कइ कम्मप्यगानीनु वेदेति ? गीयमा । एवंचेव चउद्वस कम्मपगानीनु वेदेति । सेव जते !
जते । सि ॥ ३३ ॥ १ ॥ कइयिहाण जते । अणतरोदयणा एगिदिया प० ? गीयमा ।
पचयिहा अणतराययसुगा एगिदिया प०, तजहा-पुठानिनाइया जाव थणस्सहकाइया । अणतरोदययण

अणतरोदययण नदन पावत्योसवाटरवतस्पत्तिकायिका नदल । कति कम्मपकती वेदयत्ति ? गीतम । एव चैव अतुर्दसजममकती वेदयत्ति ॥ तवे
य नदल । इति ० अयाउदयसुत प्रथमा ० ३३ ०

दियवत्त इत्थिदवत्त परिसवदवत्त एव परलपव मदेव । आनावरपीव जावत् पत्तराय ए चाठम य वेद्रियवत्त कइवे इवरावीप्य जेइने ते म
तिआनावरपीव विषय इत्थय अत्तरिद्रियवत्त कइवे इववायाम्य जेइने ते अतुदयययवरव इत्थय इम मावेद्रियवत्त ते अत्तरइयगतावरव इत्थय अयने
द्रियवत्त ता मही तइण अभाव एवेद्रियवत्तनी जागिना प्रथमवकी सीइमा उदववकी एवी वेइम यामे ते आवेउदवत्त इम परयवउदवत्त पत्ति कइया
मर्मववेउदवत्त तेइण मही मयमववद वतीपिवाइको इम यतुत्तभवे करी । जाव पत्तरयवाटर अत्तरइकाइयाव भते कइवत्तपगनीया वेदेति । जावत्
पयीतववाटर वनसगीकाविक इमगवम् जेतकी कम्मपकृति वदे इ म उत्तर । गावमा एववव अतइम कथ्यपगनीया वेदेर । इगीतम इमहीव अउदे
कम्मपकृति पूतीकीव वद । येवभते २ ति । तइति इमगवम् इत्थादि ३ ३ ३ ।
केववव इमगवम् पत्तन्नात्तात्तवत्त एवे इव पठ्या र म उत्तर । गावमा र्चवत्तिटा अत्तरावपत्तगा एगिदिया प । त । वेभीतम पत्तिभेरे पत्तन्ना

गाण जते ! पुढविकाड्या कइविहा प०, गी० ! दुविहा प०, त०—सुजमपुढवीकाड्याय थादरपुढथ्रीका
ह्याय, णयर दुपदेसिएण जवेण जाव थणस्सइकाड्या । स्थणतरोधवथुगसुजमपुढवीकाड्याण जत ! कइ
कम्मपगणीत्ति ? गोयमा । स्थुठकम्मपगणीत्ति प०, त०—णाणाथरणिज्जा जाव स्थंतराइय । स्थणतरोधवथुग
थादरपुढवीकाड्याण जते ! कइ कम्मपगणीत्ति प०, गोयमा । स्थुठकम्मपगणीत्ति प०, तंजहा—णाणाथर

गीतम । पञ्चविधा अमलरोपपद्यका एकैन्द्रियाः प्रज्ञासाक्षाद्या-पृथिवीवायिका यावद्दहन्तरपत्तिकायिका । अमलरोपपद्यका प्रदत्त । पृथि
वीकायिका कतिविधाः प्रज्ञासाः १ गीतम । द्विविधा प्रज्ञासाक्षाद्या-सूक्ष्मपृथिवीवायिकाय यादरपृथिवीवायिकाय नवर द्विप्रदधिकम ज्ञे
यम् यावद्दहन्तरपत्तिकायिका अमलरोपपद्यकसूक्ष्मपृथिवीवायिकाया मत्तम् । कति कमप्रकृतय ? गीतम । अष्टौ कमेप्रकृतयः प्रज्ञासाक्षाद्याया-
द्यानादरक्षीय यावद्दत्तरायम् । अमलरोपपद्यकथादरपृथिवीवायिकामा प्रदत्त । कति कमप्रकृतय प्रज्ञासाः ? गीतम । अष्टौ कमप्रकृतय प्रज्ञ

त्ययक एकैन्द्रिय प्रदद्या तेकइहे—पठविवाइया जाव थवत्थाइकाइया । पृथिवीवायिक थावत् थनसतोवायिक पतथासग कइवा । अथतरावथुगगाथ
भते पुढविवाइया कइविहा प । अमलरात्ययक हेभगवन् पृथिवीवायिक केतसभेइ प्रदद्या इ म कतर । गीतमा दुविहा प त । इगीतम वेदुभ
इ प्रकृत्या तवइहे—सइमपुढरीकाइयाथ न इएठकोकाइयाथ । सूक्ष्मपृथिवीवायिक थादरपृथिवीवायिक । अथर दुपदसिग्य थाव थवत्थाइकाइया ।
पतथाविशेष अमलरात्ययक एकैन्द्रियने पर्वीठ अर्थातकभदने अर्थावेकरो अर्थाविष भइना अथमवथको द्विपदभेदे करो इसाकथा थावत् थनसतोका
विष अमलरात्ययक पतथासमे कइवा । अर्थातरावथुगन सुइमपुढकोकाइयाथ मते कइकथापमछोपा । अमलरात्ययक सूक्ष्म पृथिवीवायिकने हेभगवन्
केवछो कमप्रकृति कछो इ प्र कतर । मायमा अइकथापमछोपा प तं । हेगीतम अठ कमप्रकृति कछो ते कइहे—थावावरिच्च जाव अतराइय ।
द्यानावरथो थावत् अथराइक इति । अर्थातरावथुगन थादरपुढवीकाइयाथ भते कइ कथापमछोपा प । अमलरात्ययक थादर पृथिवीवायिकने हेभग

णिञ्ज जाव श्यतराद्ध्यै एवचेव एव जाव श्यणतरोधवख्युगवाद्वरणस्सद्दकाइयाणति । श्यणतरोधवख्युगसुञ्ज
मपुढवीकाइयाण नते ! कइ कम्मप्यगणीठं यधति ? गीयमा ! श्याउययजाठं सत्तकम्मपगणीठं यधति
एवं जाव श्यणतरोधवख्युगवाद्वरणस्सद्दकाइयासि । श्यणतरोधवख्युगसुञ्जमपुढवीकाइयाण नते ! कइ कम्म
पगणीठं वेदेति ? गीयमा ! अउइस कम्मपगणीठं वेदेति त०— पाणावरणिञ्ज तहेव पुरिसवेदयञ्ज । एव
॥ ३३ ॥ २ ॥ कइविहाण नते ।

श्यणतरोधवख्युगवाद्वरणस्सद्दकाइयति सेव नत ! प्रते ! सि ॥ ३३ ॥ २

श्यणतरोधवख्युगवाद्वरणस्सद्दकाइयति । अतन्तरोपपन्नसूक्ष्मपुच्छिकायिका
सासरापा-प्रानावरणीय पावद्वनन्तरोपपन्नकवाटवन्नस्यतीकायिकानामिति । अतन्तरोपपन्नसूक्ष्मपुच्छिकायिका इति । अतन्तरो
प्रदत्त । अति अममकतीवन्नलि । गीतम । अपुदेय अममकतीवयति तथाया-प्रानावरणीय तथैव पुरुषवेदव
पपन्नसूक्ष्मपुच्छिकायिका प्रदत्त । अति अममकती वेदयति । गीतम । अपुदेय अममकतीवयति तृतीयः ॥ ३३ ॥ २

पं । एव पावद्वनन्तरोपपन्नकवाटवन्नस्यतीकायिका इति तदेव प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ अथस्त्रियस्ये तृतीयः ॥ ३३ ॥ २

नन् केतसो अममकृति अथो इ म उत्तर । गायमा अइअपवसोपा य । हेगीतम पाठ अममकृति अथो तेवरेवे--वावावरिअस जाव अंतरारय
एवंचेव । प्रानावरणीय यान्त् अन्तराय इमथोव । एवं जाव यत्तरावख्यग । इम जावत् अन्तरात्पन्नक । वाट्टर अन्तरात्पन्नकाइयावति । वाट्टरवन्नक
तीकायिकने इति । अर्बतरावख्यग अइमपठतीकाइयावं मते अइअपवसोपा संवतो । अन्तरात्पन्नक सूक्ष्म पुच्छिकीकातिक अममपन्न अतसो अमम
अति अथै इ म उत्तर । गायमा पावद्वनन्तरोपपन्नकवाट्टर वन्नस्यतीकायिको यो यति । हेगीतम पाठु अममकतीने सात अममकृतिने वाचे पाठुपाना अन्तरात्पन्नक
नेमाटे पावद्वनी यन्ती । एवं जाव अर्बतरावख्यग वाट्टर अन्तरात्पन्नकवाट्टर । इम जावत् अन्तरात्पन्नक वाट्टर वन्नस्यतीकायिक इति । अन्तरात्पन्नक
सइमपठतीकाइयावं मते अइअपवसोपा वेदेति । अन्तरात्पन्नक सूक्ष्म पुच्छिकायिक हेममपन्न केतसो अममकृति वेदे इ म उत्तर । गायमा अउ

इ न सप्तत त स्वीकृत्य मय पुंवेद्यमप्यसि नपुंसक्येवमर्थं त तयो नास्ति नपुंसक्येवमर्थं त तयो नास्ति नपुंसक्येवमर्थं त तयो नास्ति नपुंसक्येवमर्थं ॥ सत्र एवं सुप्रसन्न

परपरोद्ययगा एगिविया प०, गायमा । पत्रयिहा पररानत्रयगा एगिविया पयुष्ठा, तजहा—पुठत्री
काह्या चउक्तेवा जहा ठहियउहसए । परपरावययगाशुपञ्जात्तसुज्जमपुठवी काइयाण मते । कठकममप्य
गानीने प०, एत्र एण्ण अज्जिलावण जहा ठहियउहसए तहेव गिरत्रमस ज्ञाणियसु जात्र चउहस वदेति

कतिविधा भवत । परम्परापपलस्य एकस्त्रियाः प्रकृष्टाः गीतस । पचावधा परम्परोपपलसा एकस्त्रियाः प्रकृष्टाः लक्षण-प्रायवाकायिशा
यतुक्जदापयोपिकाहृशक । परम्परोपपलकापयाससूक्ष्मपयिधीकायिक्तानो जदत । कतिकमप्रकृतयः प्रकृष्टाः मयर्मतन नाजिलापन यथी
पिकीहुसक तथैव निरवद्यप्य प्रकितव्यम् पावसुतुव्यवदयन्ति तत्रय जवत । इति ॥ अयस्त्रिजा शत तृतीयः ॥ ३३ ॥ ३ ॥ अमनत

इस कथ्यपगडापा इहति त । हेयोतस चउहे कमकुत इहे तकइए—पाचारनिव्य तइय परिसइदकम् । आजावरनोव चाटिवा तिनकाज पुव
पवइ कथ्य गतकायय कइवा पूंजरात । एव जाव चउतएवइगडाएर ववसुकाकाइयति । इम खावत् पतगरात्पस बाइर वनसगाव यि ३ ०१का
नमकइवा । मेवमत र ति । तइति इमगवम् इत्यादि पूवम् ॥ ३३ ॥ २ ॥ कइविहाउ भत परपरावययगा एगिविया प । क सुभडे
इमनवन् परपरापपलस ०के द्रव म्प्या इतिवय उतर । गावमा पंचविहा परपरावययगा एगिविया प । क सुभडे
पके द्रव म्प्या तकइए—पठभावाया चउकभडा कइवा पाइसइहइमए । पूविनाकायिक इत्यादि इम चतुष्कभइ विम योषिअरुदुदगानि वे । पर
परावययग पपल्लन मज्जमपठनीकायाचंभत काकअयगकाया पल्लता । परपरापपलस चपयात्तक सूक्ष्म पूविनीकायिकन हेमगवम् कतली कमज्जुति
पदया । पव ३०७ चमिसावच अवा पाइयउहइमए तइय विरवसस भावियज्ज जात्र चउइसइवेति । इम इहे पाशावे करी विम योषिअरुदुदगानि वि
वे कइवा तिमहात्र निरियवपचे कइवा याइत् चउहे कमज्जुति वदे एतकावग कइवा । सुभभतर ति । तइ त इमगवम् इत्यादि पूवम् ३३ ॥ ३ ॥

प्रपद्यति न पगल्लरापपयक्राना मत्रन्द्रियाणां पयासना पर्वास्तस्मैवो रनाथेन चतयिथेस्तेदस्या सम्मया द्विपदेन जदने त्यक्त तथा ॥ चरिमस्य च

परपरगजज्ञगा जहा परपरोत्रयणगा ॥ ३३ ॥ १ ॥ चरिमायि जहा पररोत्रयणगा तहेय ॥ ३३ ॥ १० ॥
पत्र गुचरिमामि ॥ ३३ ॥ १ ॥ पत्र एए एङ्कारस उद्देशगा ॥ पठम एगिदियसयं सम्मत्त ॥ १ ॥
त्र जन । जन । ति जाय विहरड ॥ ३३ ॥ १ ॥ कद्दयिहाण जत । कद्दयिहाण एगिदिया पयासा ,

नयेव ॥ ३३ ॥ १० ॥ पव चपरमा यपि ॥ ३३ ॥ ११ ॥ एवमेत एकादश उमुष्ठाका स्तदेव भदस । जदस । इति याव
द्विहरति ० प्रथमसकाग्र्य जत समाप्त ० ३३ ॥ १ ॥ कातविधा प्रवत्त । कातविधी एकस्त्रियाः प्रक्रसा , गीतम । पञ्चयिधा ।

भदे प्रमग न् उगुमगो ण्वेदिय मदव्या १ म जतर । गायमा पचविदा कचकवसा एगिदिया प त । उ गीतम पाचभेदे कण्यसमी एकोद्वय प्रक
वा तर्क्ये—पठोकाशया जाय चकसाकाशया । एगिवाकाशिक याथा वनस्पताकाशिक । कचकवसाय भत पुठोकाशया कचविहा प । कण्यसि
या इमगवन् वृक्षीकाशिक कातसभन् मदव्या १ म जतर । गायमा दुविहा प त । उ गीतम चकभेदे कणा तेककणे—मुदुसपुठोकाशयाय वादर
पठोकाशया । मूय्य वृक्षीकाशिक वादर पूयिवाकाशिक । कचकवसाय भते मुदुसपुठोकाशया कचविहा प । कण्यस्यो इमगवन् मूय्यवृक्षीनो
कातसभन् कया इत्यदि । एव एव च अभिवाचय चउउभया उक्त पादियउदुदुमय जाव चककवाशयति । एम इवे पान्नावकरी चतुक्कभन् जिमसी
त्र शीपिकवदुग्गाशिकिय कया तिम कथवा यावत् इमसीकाशिकिय इति । पञ्चतराववसाय कचकवसाय भते मुदुसपुठोकाशयाकभते कचकवसायकीवा
य । पञ्चतराववसाय कण्यस्यो चपयानिक मूय्यवृक्षीकाशिक इमगवन् कातसो कसकृत् कथी । एव एव च अभिवाचय कचवेव पादिया पञ्चतराव
वउउदुदुमवा तदेव पकला तद्वच कथति तद्वच वेदति । एम इवे अभिवाचकरा जिमसीत्र शीपिक पञ्चतराववसाय कचकवसाय तिमसीत्र प्रकपवा
प्रकप तिमशालवग तिमशाल कवे ए गीत वगुक्क कथवा । उवभते इ ति । त इति इमगवन् इत्यदि । १ ॥ कचविहायभते पञ्चतरावकवसाय कचकवे

याण जते । कङ्कम्पगमीच्छे पयाज्ञाते, एष एरण अन्निनावेण जहेव छेहिच्छे अणतरोत्रयथागउहेच्छे तहेत्र
 पणमा, तहेत्र यथति तहेत्र वेदेति सेत्र जते । जत । सि ॥ १ ॥ इन्द्रिहाण जते । अणतरो
 यत्रयागा कसहलेस्सा एगि देवा पयसा ? गोचमा । पवतिहा अणतरोववयागा कसहउरगा एगिद्विया एउ

कात कमजकतया मद्रसा यत्रसतमाप्रशापन यथेपिमानलरोत्यलकोदृशक सथेय मरूपकाउरका मद्रसा, अथेजमलि तथयविव
 लिल तयव जतल । जतल । इति ॥ १ ॥ कतिविषया जतल । अमभरात्यलका अमभरायव कात्यया ॥ मद्रसा गीतम । पञ्चवि
 चाडाकलरात्यलना कणवत्रयमन्त्रिया यत्रसतनाऽजल पन तथेय द्विपगजना य एदमस्पतीकापम इति । अललरात्यलना कणाज्ञा यूग
 पुचिजाकायिका जतल । कति कममरुतया मद्रसा यजगतनाऽजिनपयत्र यथापयमऽनलरापदकक वृक्षसथेय यायद्व्ययक्ति तत्रय जत्र
 ल । जतल । इति ॥ २ ॥ कतिविषया जतल परस्परपपत्रका कणलहया एकास्त्रिया मद्रसा ॥ गीतम । पञ्चावयपरस्परपव

तत्रमन् रा य वत् तत्रयतोका यक इति । परपरा यजना कथामस । परपरापय । कृत्यकगो । पञ्चजलमद्रपटगाबासाप भते वाअश्वपगोचीचो
 पवला । यपवीर्येव सम्पद्विषयाकायिक वृगगवत् कालो कमपत्रुन कथा । एउं गणपय भव यव । म इवे वाकावेधरो । जत्रय ओद्विया परपरा
 यत्रयग उद्वमया तहेत्र आश वेदेति । जिनपयाज यो यत्र पररर तयत्र कृत्रय तथे कथा जिनगीत्र यावन नहे । २ एउ गणपय यमि
 लायव यत्रव पाद्विए इगि उयमप गकारस दुदुगगा भविया । म वे प भवावहरा जिनमहाअ योवित्र एकद्विय यतवजेदिये रथ रे एदुदुगा व
 या । तत्रव कथाऽन्मसत व भावियका आश यवदिस यरिम कपत्रसमा ग ग ग्या । जिनगीत्र कृत्यनेय याकनति प पति वजना य वत् यवदिसन व
 रिम कृत्यनेयो गकेद्विये ए । क रुग कथा । विविध वधिविषयय मयस ॥ २२ ॥ २ ॥ ० ० ०
 तदा कथाऽकरवदि भविव एउ योवसरवदिवि सव भावियव । जिन कृत्यनेय भवे ते याक कथा एम जोनसयासपति पचि यत्रव कथा । सपभत २

एणुण अत्तित्रयेण तहेव दुपदो जेदो जाय वणस्सइकाइयस्सि । अणतरोयवयसुगा करुहलेस्सा सुज्जमपुत्तवी
 काइयाण जते । कउम्मपगलीं पयसाढे, एव एणुण अनिखावेण जहा व्हिन्नु अणतरोयवयसुगाण उहे
 मन् तहय जाय वेदति सेव जते ! जते ॥ २ ॥ कइयिहाण जते । परपरोवयसुगा करुह
 तस्सा एगिन्टिया पयान्ता ० गोयसा । पचविहपरपरोयवयसा करुहलेस्सा एगिदिया ५०, तजहा पुत्तवी
 काइया एव एणुण अनिखायेण चउक्कनेदो जाय वणस्सइकाइयस्सि । परपरोयवयसुगा करुहलेस्सअपज्जात्त

अथा कउत्तवयसा पुकन्टिया अयसात्तयथा-पुयिवाकापिका ययमतमाजिसापयन वपुस्सा जसो यान्दुणरुपतिकापिका इति । परस्परोप
 यथा कउत्तवयसा अयसात्तयसापुसपुयिवाकापिकाना जउत्त । अति कमसतोः पयसा एवसतेनाजिसापेस यथैवीपिकाः परस्परोपपयवव वदुस
 व सपेय यावदुदयमि अयमतमाजिसापन यथैवीपिक एकन्टिययत्त एकत्त वदुसात्ता अजिता सायैथ कउत्तवयसात्तपि अजिताथा यावद
 परमपरमरुत्तनयसा अकन्टियाः ॥ द्वितीय एकन्टिययत्त सुनासम् ॥ ३३ ॥ २ ॥ यथा कउत्तवयसे अप्वित्तमव नीलशयैरपि सुम
 न्तिपत्तम तदय जउत्त । इति ॥ युतायमकन्टिय यत्तम् ॥ ३३ ॥ ३ ॥ एव कापोत्तसव्यैरपि सुम अजितत्वं नवरं का

ति । तइति इमभवन् इत्या ॥ । ततिय पमिदियमय सयत्त । ३३ ॥ ३ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ०	०	०	०	०	०	०	०
पव काउत्तवयसि मय भाविय ७ चउत्त काउत्तवसेति पविवाया भावियथा । एम कापावसेत्तासवाते पवि यत्तक कउत्ता एतत्तावियेय कापावसेयया	०	०	०	०	०	०	०
इया नाम कउत्त । चउत्तं पमिदियमय सयत्त ॥ ३३ ॥ ४ ॥	०	०	०	०	०	०	०
काः इति एव भत भवमिदिया पयसा । कउत्तवसे इमभवन् मवसिदिव एकन्टिययत्त । कायसा पवदिवी । भवदिविया अजिताया प	०	०	०	०	०	०	०
॥ ऐलोत्तम रोक्कमदे भवमिदिव एक उत्त मरुया तेवडेइ—पुट्टोवा या जाय ववउत्ताकायसा । पुत्तियोवापिक य वत् ववउत्तवीवापिकयपयित कव	०	०	०	०	०	०	०

सुकमपुठवीकाङ्गयाण ज्ञेते । कङ्कमपगङ्गीते पय्याहाते, एवं एणुण स्थञ्जिलावेणं जहेव ठेहिंते परपरोवत्र
 खगउहेसठे तहेव जाय वेवेति एवं एणुण स्थञ्जिलावेण जहेव ठेहिंते एणुणुदियसए एक्कारसउहेमगा ज्ञ
 णिया तहेय कणहलेस्व सतयि ज्ञाणियञ्जा जात्र स्थचरिमचरिच कणहलेस्वाएणुदिया ॥ त्रितिय एणुदियस
 य सम्मस ॥ ३३ ॥ २ ॥ जहा कणहलेस्वाहे ज्ञाणिय एत्र णाललेस्वाहेहि यिसय ज्ञाणियह् सव
 ज्ञते ! २ सि ॥ तत्तियं एणुदियसय सम्मस ॥ ३३ ॥ ३ ॥ एत्र काउलेस्वाहे यिसय ज्ञाणियह् णवर
 काउले सति स्थञ्जिलावो ज्ञाणियञ्जो चउत्य ॥ एणुदियसय सम्मस ॥ ३३ ॥ ४ ॥ कङ्कविहाण
 ज्ञेते ! जत्रसिद्धिया प० ? गी० ! पचविहा ज्ञवसिद्धिया एणुदिया प०, त०—पुठवीकाङ्गया जाय वणत्स
 इकाङ्गया जेवो चउक्कते जाय वणत्सइकाङ्गयाति । जत्रसिद्धियापज्जाहसुजामपुठवीकाङ्गयाण ज्ञेते । कङ्कम
 पगङ्गीते यधइ एव एणुण स्थञ्जिलावेण जहेव पठमिसग एणुदियसय तहेय जत्रसिद्धियसयपि ज्ञाणियह्

पातलइयति कमिसायो ज्ञाखित्तयः ॥ चतुर्थे मकन्त्रियकृत समाप्तम् ॥ ३३ ॥ ४ ॥ कतिविधा प्रवत्त । जवसिद्धिकाः प्रकृता ?
 गीतम । पचविहा जत्रसिद्धिया एकद्विधाः प्रकृतास्तथा—पुचिवीकायिका यावद्वृत्तस्पतिकायिका जदो चतुक्रमा यावद्वृत्तस्पतिकायिका इति ।
 जगमिद्धिवापयोस्तुपुचिवाकायिका प्रवृत्त । कतिकमकृती ज्ञेप्रति एवमसनामित्सापन यथेन प्रथममकन्त्रिय यात तथेन जवसिद्धिककृत
 वा । मदी चउक्कया जाय वचन्नाहकारायाति । मेठ चतुक्क बाहर परीतक यपर्यीतक ०४ ४ यावत् वनसनावाचिक इति । मउसिद्धिया यपञ्जल सङ्गम
 पठोवाइयाव भते कङ्कमय यको वधर । मवसिद्धिक यपर्यीतक सस्य पुचिवाकायिक हेमगवन् कातलो कर्मगच्छति याधि । एवं एणुण यभिलासव ज्ञ
 व पठमिसग एणुदियसय तइइ मवसिद्धिसवपि भाणियहं । एम एणे यभिलावेकरो विगङ्गात्र प इया एणे इव यतन ज्ञो तिमहीत्र मवसिद्धिक

उद्देश्यपरिधानी तद्देव जाय श्रुचरिमिति मेव जते । जते । सि ॥ पचमएगिदियसय सम्मत्त ॥ ३३ ॥ ५ ॥
 कडयिहाण जते । कणहलेस्मा जयसिद्धिया एगितिया पणता ? गोयमा । पचयिहा कणहलेसा जवसिद्धि
 या एगिदिया पणता, तजहा-पुत्रवीकाइया जाय वणस्सडकाइया कणहलेस्सजयसिद्धियपुत्रवीकाइयाण
 जते । कडयिहा पणता, गोयमा ! दुयिहा पणता, तजहा-सुज्जमपुत्रवीकाइयाय धादरपुत्रवीकाइयाय
 कणहलेस्सजयसिद्धियसुज्जमपुत्रवीकाइयाण जते । कडयिहा पणता, गोयमा । दुयिहा पणता, तजहा-पज्जा

भवि पञ्चिणत्तम् उद्देश्यपरिधाटी तदेव पायद्वरम इति तदेव प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ अरपमज्जन्त्रिय जत समाप्तम् ॥ ३३ ॥ ५ ॥
 कतिविधा मत्त । कणमेषया प्रवसिद्धिका ज्ञेय्याः प्रणताः ? गौतम । पञ्चविधाः कणमेषया प्रवसिद्धिका ज्ञेय्याः प्रणताः कणमेषया-
 पयित्रीवायिका वाचद्वनस्पतिवायिकाः । कणमेषयमवसिद्धिकपुत्रवीकायिका मत्त । कतिविधाः प्रणताः ? गौतम । द्विविधाः प्रणताः कणमेषया-
 मत्त पञ्च ज्ञेय्याः । उद्देश्यपरिधातो तदेव जाय पचरिमिति । उद्देश्यजतो परिधाटी तिमहाज यावत् पचरिमइति । सेवमते र ति । तदिति इ
 मत्तम् इति । पचम एगिदियसय मत्त । ए पचमा एवेद्विमतव पूषया । ३३ ॥ ५ ॥ * * *
 वाचिद्वार्थं मते कचद्वनया भवसिद्धिका परिद्विषा प । जेभोतमदे देवमवन् कणमेषयो भवसिद्धिक एवेद्विष प्रणता १० प उतर । मायमा पचविहा
 कचमेष्या भवसिद्धिका परिद्विषा प त । देभोतम पचमदे कणमेषयो भवसिद्धिक एवेद्विषा त कचदे-पुत्रवीकाइया कणमेषया पचविहा
 रविषोवायिक यावत् वज्जतोवायिक । कचमेष्य भवसिद्धिक पठवीवाइयां मते कडयिहा प । कणमेषयो भवसिद्धिक एवेद्विषा कणमेषया पचविहा
 कचमदे कणमेष्या १० प । मायमा दुविहा प त । देभोतम कचमदे कणमेषयो भवसिद्धिक एवेद्विषा कणमेषया पचविहा
 धादर इविषोवायिक । कचमेष्य भवसिद्धिक कचमपुत्रवीकाइयां मते कडयिहा प । कणमेषयो भवसिद्धिक एवेद्विषा कणमेषया पचविहा
 कणमेष्या भवसिद्धिका परिद्विषा प । देभोतम पचमदे कणमेषयो भवसिद्धिक एवेद्विषा कणमेषया पचविहा

सुगाय अपञ्जसगाय एव वायरायि । एव एएण स्थन्निनावेण तहेव चउक्कठे नेदी ज्ञाणियधो । करहले
 स्सा नवसिद्धियस्थपज्जता सुञ्जमपुढथीकाठयाण जते ! कइ कम्मपगणीठे पखत्ताठे ? एव एएण स्थन्निता
 धेण जहेत्र ठहिण उहेसए तहेत्र जाव वेवेत्ति ॥ १ ॥ कइविहाण जते ! स्थणतरोवथयुग्गा करहलेस्सा नव
 सिद्धिया एणिविया पखत्ता, गीयमा । पचविहा स्थणतरोवथयुग्गा जाव यणस्सइकाइया, स्थणतरोवथयु
 गा करहलेस्सा । नवसिद्धियपुढथीकाइयाण जते ! कइविहा पखत्ता ? गीयमा ! दुविहा प०, तजहा—सुञ्ज

या-सूस्मपुपिबीकायिकाय वावरपुपिबीकायिकाय । इमलसएजवसिद्धिकसूस्मपुपिबीकायिका नदत्त । कतिविधाः प्रज्ञता ? गीतम । दि
 विधाः प्रज्ञतासुसुया-पर्यासकायापर्यासकाय । एव वादरा अपि । एवमतनाभिजापन तयेव वतुक्को नेदी प्रकितव्यो । इमसेवयप्रवसिद्धि
 कापर्याससूस्मपुपिबीकायिकाना नदत्त । कति कर्ममरुतय प्रज्ञताः एवमेतेनाभिजापेन पर्यासोपिके उक्कठे तयेव यावद्वेयन्ति ॥ १ ॥
 कतिविधा नदत्त ! अनन्तरोपपलकाः इमलसया प्रवसिद्धिका एकान्त्रिया प्रज्ञताः ? गीतम ! पञ्चविधा अनन्तरोपपलका यावदुनस्यपिका

कथा इ म उत्तर । मावमा दुविहा प त । हेमोतम वेइमेरे कथा तेकइहे—पञ्चतनाय अपञ्चतनाय । पर्यासक पर्यासक । एव वायरायि एव
 एएव अमिकायेव तहेव चउक्कठे भां स्या । इम एवे अमिकायकरो तिमहीत्र वतुक्क मटेकरो जावयो । कइकइत्ता भवसिद्धिय अपञ्चता सुइम
 पुढथीकाइयाच भते कइकइयपगळोपा प । कइकइयो भवसिद्धिय पर्यासक सूस्मपुपिबीकायिक इममवन् केतलो कम्मवृत्ति कइो । एव एएव अमि
 कायेव कइव पाठिउठद्वेसए तहेव जाव वेवेत्ति । इम एवे अमिकायकरो विमहीव योविउठद्वेयानयिये कथा तिमहीव यावत् वेदे । कइविहाच
 भते अचतरावत्तना कइकइत्तया मवमिठिया एमिद्धिया प । केतमदे इममवन् अनन्तरात्पवक कुक्कणेयो भवसिद्धिक एकेद्विय कथा इ म उत्तर ।
 मावमा पचावइ । अचतरावत्तना जाव वएवइकाइया । इगोतम पाचभेदे अनन्तरात्पवक इत्वादि यावत् अनन्तरोपपलका । अचतरावत्तना कइव

मपटुयीकाडया य यादरपुटुयीकाडया य । एय दुपुटु जेदो । छणतरोयवणुगा करहलेस्सा जयसिद्धियसे
 जमपुटुयीकाडयाण जंते । कइ कम्मपगणीउं प०, एय एणुण छुन्निलायेण जंहेय उंहेन सुगतरोवणुण
 उट्टमनु तहेय जाय येउंति ॥ २ ॥ एउ एणुण छुन्निलायेण एक्कारसथि उंहेसगा तहेय ज्ञाणियथा जहा उंहे
 यमणु जाय सुचरिमोसि ॥ उठ एणिदियसय सम्मस ॥ ३३ ॥ ६ ॥ अ १५००० ॥ जहा करहउस

विद्या यमलरापपटका रुजसदया यवसिद्धिकपुयिबीकायिका प्रदल । कतिपिपाः प्रपसाः १ गौतम । द्विपिपाः प्रपसाः सप्तसासुघया-सुरमप
 विधीयायिकाय यादरपुयिधीकायिकाय । एय द्विपटु सत् । यमलरापपटकरुजसदयलधसिद्धिकसूस्मपुयिधीकायिकाना मवल । कति कस
 प्रदतयः प्रपसाः १ यवमतमामिसापम ययेयीपिकाऽनलरोपपटक उदुशक सयेन याददुपल ॥ २ ॥ यवमतमानिसापमेकादशापि उदुशका
 सयेव जयितया ययीपिकशात यावदरम इति ० पसुमजन्त्रिय यठ सनासम् ॥ ३३ ० ६ ॥ यथा रुजसदयनवसिद्धिकेः जल

येया भवसिद्धिय दुठोकादयाभते अद्विधा यथा । यमलरोपपटक कुरुकयो भवसिद्धिक पूबिधीकायिक हेमगवन् केनसमठ कथा इतिप्रय पस
 र । गावमा दुविहा पं तजहा । इयोतम वेहेसु कथा तकइहे—महुसुठोकादयाय वादरपुठोकादयाय एव सुपयीभन । सूजपूबिधीकायिक वा
 दरपुयिधीकायिक इम वपदे मड जायवा । यवतरोवणुगा कवकल्या भवसिद्धिय सडमणठगीवाडयाय भते कइकथपमडोथा पयनापा । यमलरो
 पपटक कुरुकयो भवसिद्धिक सूजपूबिधीकायिक हेमगवन् खेतयो कसकृति कयो । एउ एएय पमिनाथ अइव पाइया । इम इहे पमिनाथेउरी जि
 मडोत्र योपिक । यवतरोवणुगवदुडमया तहेव काव वदेति । यमलरोपपटक उदुशक कथा तिमडोत्र कइवा ३ । एम एएय पमिनाथ एकारसथि
 परेमगा तजय भानिजना जहा पाडिरमए साव यपरिमति । इम इहे पाजावेउरी एयारे उदुशगा तिमहाज कइवा जिन यो पकयतकनो प
 रयावन् यपरिम इति । अउ एमिद्धिक उवं लण्य ॥ ३३ ॥ ६ ॥ [पन्व १३] जहा कइकथ मवसिद्धिकसय भविय एवं यो

धरं णव उद्देसगा धरिमथ्यचरिमउद्देसगावज्ज सेस तहेत्थ ॥ ३३ ॥ णवम एगिदियसय सम्मत्त ॥ ९ ॥
 एय कएहलेस्सथ्यनयसिद्धियएगिदियसयपि ॥ दसम एगिदियसय सम्मत्त ॥ १० ॥ णोललेस्स
 थ्यनयसिद्धियएगिदिएह सय ॥ ११ ॥ काउलेस्सथ्यनयसिद्धियसय ॥ १२ ॥
 पय अत्तारि थ्यनयसिद्धिया सयाणि णत्थ २ उद्देसगा नवति एव एताणि वारसथि एगिदियसयाणि नवति
 तेत्तीमइम सय सम्मत्त ॥ ३३ ॥

प्रबन्धित्वात् नवरं नव उद्देसगाधारभावरमवज्जोः शय तपेव ॥ नवमसकन्दियगत समाप्तम् ॥ ३३ ॥ ए ॥ एव कण्ठलशयामवसि
 द्धिकेचन्द्रियगतमपि ॥ इक्षमनेकेन्द्रियगत समाप्तम् ॥ ३३ ॥ १० ॥ नीलसशयानवसिद्धिकेचन्द्रियैः स्रतम् ॥ एकादशमकेन्द्रियं स्रत
 ॥ ३३ ॥ ११ ॥ कापोततउपाप्तवसिद्धिकेः स्रतम् ॥ ३३ ॥ १२ ॥ एव अत्वारोपवसिद्धिकाः स्रतानि नव नयोद्देशकानि जयन्ति
 एवमतामि द्वादश्याप्यकन्दियगतानि प्रवन्ति ॥ अयन्ति ॥ ३३ ॥ ० ॥
 श्रीपुण्याचार्य्येसीकागबन्धवसुतत्र्याभिप्रेस्तुरिष्यर्ष्ये राविषोरायथाङ्गवुरयमपत्तिविहस्यसम्भायंतल ।
 समीतः पञ्चमाहुमपितपुष्पतद्वचनायानुवादः श्रीबीज्यस्मिन्नेवप्रवचनगुरुकारामेचन्द्रियसिद्धिम् ॥ १ ॥

इदमं एगिदियसय सम्मत्त ॥ ३३ ॥ १ ॥ श्रीकनैव्यपमवसिद्धि एगिदि एहि सय ॥ इम लोकेस्यो पमवसिद्धि एकेन्द्रियगतक पवि कव
 वा ३३ ॥ ११ ॥ काउलेस्य पमवसिद्धिसय ॥ कापातसेयो पमवसिद्धिसयतक परि कववा ३३ ॥ १२ ॥ एव अत्तारि पमवसि
 द्धिका सवाणि १२ ॥ उद्देसगा भवति परंपतामि वारसथि एगिदियसयाधि भवति । इम वार पमवसिद्धि सयतकने मवमय कन्देसगावजे इम इह वार
 पवि एकेन्द्रिय शयक पुणे ए वारसय मतके यवात्तरित तेत्तीममा पुष्पको ॥ तेत्तीकार्मण्ये सवत्त ॥ ३३ ॥

व्याख्येयमिहलोक लोकाव्याख्यातव्यविहितेय । नद्योवनमाश्रया मतिमाय्यव्यञ्जनयुक्त ० १ ॥

प्रयत्निशासते पक्रन्त्रियाः प्रकृतिता वतुच्छ्रयतपि तन्पत्तरव तएय प्रकृप्यन्त इत्यय प्रकृतस्यास्वात्तरहावशात्तापेतस्यव माविसुत्र-अइयि

कइयिहाण जते ! एगिद्विया पखत्ता ? गोयमा । पघयिहा एगिद्विया पखत्ता , तअहा-पुठत्रीकाडया जाव वणम्सकाइया , एनमेतयि चउक्ताएण नेदेण नाणियहा जाव वणस्सडकाइया । अयपजाहासुजामपुठ वीकाडयाण जते । इमीस रयणप्यनाए पुठत्रीए पुरास्थिमिहे चरिमत समोहए समो ० २ ज अयिए इमीसे

कतविचा जठल । एकन्त्रियाः प्रपसाः ? गौतम । पचविषा एकन्त्रियाः प्रकृतास्तथया-पुषिबीकायिकायायुहमस्पतिकारिकाः , एयमतपि वतुफकल जहन जचितव्या यावहुमस्पतिकारिकाः । अयपासमूखपुषिबीकायिका जठल । अस्या रजप्रयाया पुषिब्याः पीरस्य वरमास्त स

तवीवसा गतकनविपे एकत्रो प्रकृप्याः वठवीवमयनके पवि भमालरेकरो तेहीज प्रकृपीयवे ईसे उइव्यना एइ अवात्तर वारैयनकसहित वाषाससा ग तव कइवे-कइयिहाव भत एगिटया प । कतकभडे ईमगवन् एकेत्रिय प्रकृप्या इ प्र० उतर । गावसा पचविहा एगदिबापं त । हेगौतम पा चभद एकद्विइ प्रकृप्या तअइवे-पुठवीकाया जाव वचछाकाइया एवमतेवि वठकण मदेव माणिवन्वा जाव वचछाकाइया । प्रयिवोकायिक इत्या दि बावण वणल्लोकायिक इम एइ पवि चारभ-करोने सुख्म व टर पर्याप्तव नपनीमच ४ भन्नेकरो कइवा यावण वणल्लोकायिक एतहाजगे क इया । अपज्जता मइमपठनावाइवाच भते इमीसे रयचप्यम पुठकोए पुराब्जामसे चरिमत समाइए च २ । अपवाप्तव सुख्म वापवीकायिक इमगवन् पा ररजवभा पुषिबीजा पूवना वरमास्त कउता कइहा वरमातनेविय सम्पदात करे समुदात करोने । अनविए इमीसेरयचप्यभाए पुठवीए पचच्छिमिले चरिमत । अइ भव एइ ररजवभाटविधान विपे पचिमना चारमात्तन विपे । अपज्जता चारमपठवीकाइयताए उअवज्जिताए । अपवाटन च मज्जइयिवी

हेत्यारि । इदं च लोकाधी प्रस्ताय मावनीय ० एवमसमहृएव्यसि ० एक समयो पत्रास्त्यसायकसामयिक स्तेन ॥ विगणहेवंति ॥ विपद्यो यत्र गतो ए तस्य सम्भवा द्रुतिरय विपद्य विस्मृष्टा वा युद्धो विच्छिद्यस्वाभमासिहेतुप्रूतागति यियश् स्तेन तप ॥ उष्णुषापयसि ० यवा मरुदस्थामा पयथाप्यन्तिस्थान समभस्या सयति तदा श्रुगवायता श्रिक नैवति तथा च पञ्चत एकसामयिकी गतिः स्या वित्यस उच्यते-एगसमहृएवमित्यादि ॥

रणप्यन्ताए पृथयीए पञ्चिच्छिमिषे चरिमते श्यपजासासुक्कमपुनवीकाडयताए उयत्रजिज्ञाए, सेण जते । क इसमहृएण धिगगहेण उयत्रजिज्ञा ? गीयमा ! एगसमहृएणवा दुसमहृएणवा तिसमहृएणवा विसमहृएणवा विसमहिण उव यज्जिज्ञा । से केणठेण जत ! एव युञ्जइ एगसमहृएण वा जात्र उयत्रजिज्ञा एव खलु गीय

मवपतः समयदस्य या न्रविको ऽस्वारवप्रजायाः पृथिव्याः पाथास्ये षरमात्त अपयोत्सूत्सपृथिवीकायिकतयोत्सुं स न्रवल । कति सामयिकेन थियुदधोत्पदान ? गीतम । एकसामयिकेन वा त्रिसामयिकेन वा विपद्येकात्पद्येत । अप कनार्थेन न्रवल । एवमुच्यते एव

वायि उपवे अपव । मेवभते कर समहृएव विवहृव उववळ्ळ्या । तेव हेभननन् जातसा समयने विपद्येकरो अपजे इ प्र उत्तर । नायमा एवसमहृए ववा दुसमहृएववा तिसमहृएववा विसमहृएववा विपद्येकरो अपजे एववा वेयमयने विपद्येकरो अपजे एववा तोन स मयने विपद्येकरो विपद्येकरो वदगतिमे विवे तेवना उच्यवको नतिशोत्र विपद्य तेव विपद्यमति करो अपवे । येकेवृच भंते एव वुधर । ते येपये हेमगन् इम कथा । एवसमहृएववा दुसमहृएववा जाव उववळ्ळ्या । एकसमयेकरो दासमयेकरो वापत् अपजे इ प्र उत्तर । एव खलु गीयमा म ए सतमठीया प त । इमतिवे इगोतम मे सातयवि मरुयो ते कदवे — उळ्ळयावता एववाववा दुववाववा एववाववा दुववाववा । जिबारे मरुदस्थान अपेचये उत्पत्तिस्थान समयेचि करो इवे तिवारे उळ्ळयावता येचिचुवे तिवा नतिजाता एकसमयको मविचुवे तथा जिबारे मरुदस्थानको इप तस्थानव एकप्रतर येचिचि वरुवे एकको वकचवि इवे इमर वेवृकरो उत्पत्तिस्थानकमते पामको चुवे एतथाभाटे एकको वाको जिबारे मरुदस्थान

पुन मरुस्थानादुत्पत्तिस्थानमेकमतरे विद्येस्या यतते तदेकतो वक्रा येतिः स्या स्वयमद्वयेन भोत्वन्तिस्थानप्राप्ति स्यादित्यत उच्यते-एगठं
 वंकायुं सेत्रीयं उववज्जमाणे दुसुमइएव विगणइयमित्यादि ४ यदानु मरुस्थाना दुत्पत्तिस्थान मयस्थाने उपरितम वा मतर विमण्या स्या तदा
 द्विवक्रा भक्तिः स्या स्वयमत्रयस्य बो त्पत्तिस्थानावाप्तिः स्या दित्यत उच्यते-वक्राएव वक्राएवत्यादि ५ एव एवावकाइएवुवि वक्रारि एवावकावगा

मा । मए सप्तसेठीते पयसाठे, तजहा उज्जुस्थायता सेठी एगठं वक्रा एगठं सुहा दुहठं खुहा ।
 चक्कीयाला अष्टचक्कीयाला उज्जुस्थायया सेठीए उववज्जमाणे एगसमइएण विगणहेण उत्रयज्जोऊजा १ । एगठं
 वक्राए सेठीए उत्रयज्जमाणे दुसुमइएण विगणहेण उत्रयज्जोऊजा, दुहठं वक्राए सेठीए उववज्जमाणे तिसमइ

शामयिकन वा द्विसामयिकेन या यावदुत्पद्यत मय खलु भौतम । मया सप्त भेदयः प्रकृतासाधया-धुववापता भेदि रक्तो वक्रा उत्रयतो वक्रा
 यकतः एं उत्रयतः एं । वक्रवासाद् वक्रवासा । अत्रजायतायो भक्ष्यामुत्पद्यमान एकसामयिकेन विप्रदेवोत्पद्येत १ । एकतोवक्रायां वक्ष्यामु
 त्ययमानो द्विसामयिकेन विप्रदेवोत्पद्येत २ । उत्रयतो वक्राया वक्ष्यामुत्पद्यमानो द्विसामयिकेन विप्रदेवोत्पद्येत तत्रेमार्येन गीतम । यावदु

वको उत्पत्तिस्थान पधस्तन उत्रया उपरितन मतरनविधे वयचिद्वये तिवारे एव वक्रत्रेविद्वये पतकामाठे वक्रे-एकवो उववपाकाय ४ वेदूपासे या
 क य १ । यत्रावना पदवक्रवावा । वक्राकार ६ पदवक्राकार एव ० त्रीन देखावक-उववपायया सेठीए उववज्जमाणे । अत्रुपायतात्रेवि विववार
 मरुस्थानमथको उत्पत्तिस्थानक समयचिद्वये तिवारे अत्रुसरकपायत सौर्वचचिद्वये तिवेकरो घाताने एकसमयमी विपद्वयमिद्वये अत्रुगति द्वये अ
 तुपायतात्रेवि करो उत्रयतायका । एवमस १०य विमद्वयेउववज्जमाणा । एकसमय विपद्वयगतिकरो उत्रयते । एगपीवक्राए सेठीए उववज्जमाणे । जिवा
 र वकी मरुस्थानमथको उत्पत्तिस्थान ०क मतर वयचिद्वये एवपासे वक्रयाव द्वये तिवारे उववपासे वक्रत्रेवि करो उत्रयतोवक्रा । दुसमइ
 एवं विमद्वय उववज्जमाणा । उत्रयत विपद्वयगति करो उत्रयते । दुववपायका सेठीए उववज्जमाणे तिसमइएव विमद्वये उववज्जमाणा । विववारे मरुस्थान

एण विग्गहेण उव्वज्जेजा सं तेणठेण गोयमा । जाय उअयज्जेजा १ । अणपज्जाप्ता सुज्जमपुठवीकाहयाण
 न्ते । इमीसे रयणप्पन्नाए पुठवीए पुरिच्छिमचरिमते समोहए समी० २ जे न्निविए इमीसे रयणप्पन्नाए पु
 ठवीए पञ्चिम्मिल्ले चरिमते पज्जाप्तासुज्जमपुठवीकाहयप्ताए उअयज्जिप्ताए सेण न्ते । कइसमइएण विग्गहे
 ण उव्वज्जेजा ? गोयमा । एगसमइएणवा दुसमइएणवा संस तचेअ जाय सेतेणठेण जाव विग्गहेण उव
 यज्जेजा ॥ २ ॥ एअ अणपज्जात्तासुज्जमपुठवीकाहए पुरित्थिमिल्ले चरिमते समीहणाअप्ता पञ्चल्लिमिल्ले चरिम

त्वद्योत १ । अपयाससूत्तपृथिवीकायिको नदत्त । अस्या रत्नप्रज्ञायाः पृथिव्याः पीरस्ते चरमान्ते समवदन्त समवदन्त्ययो प्रयिको ऽस्या रत्न
 प्रज्ञायाः पृथिव्याः पादात्स चरमान्त्त पयोससूत्तपृथिवीकायिकतयोत्पत्तु सु नदत्त । कतिशामयिकल विग्रहकोत्पद्यत ? गौतम । एकशामयि
 क्त वा द्विसामयिकल वा शेषं तथैव यावत्तत्तनार्थेन पावट्टिपइयात्पद्यत २ । एवमपयाससूत्तपृथिवीकायिकाः पीरस्ते चरमान्ते समवदन्त

बबो वत्यत्तिस्वान्त इठिअ तथा अपरए प्रतरनेविपे वअरिचरो अपजे तिवार विवङ्गति तेअभबो तीनसमय विवङ्गति करो तपजे १ । सेतेवइए
 गावना जाअ उव्वज्जेजा । ते तचेपवे केमीतस याअए अपजे । अणज्जाता महमपठवीकायाअ मते इमीसे रसवण्णमाए पठवोए पुरत्तिस चरिमते स
 माइए म २ । पपबोत्तक सूअरविोकायिक हेमगन्नु या रत्तमना वृथि । ना पे पूजा चरमान्त्तमविपे समुत्तावरे समप्रात क्कान । अ भविग ३
 मास रत्तवण्णमाए पठोए पञ्चिम्मिल्ले चरिमते । अइ भव्य वा रत्तमभाएदितीना पे पयिनना चरिमान्त्तर्त्त पे । पञ्चला महमपठ विका यत्ताए उ
 व्वज्जिण० । पबोत्तसूत्तरविोकायिकपवे अपजे । सेवभते वइममा०अ विवङ्गेण उव्वज्जेजा । तेअ एममदन्त्तकणा समसम ि पइइरा उअअ १ म
 उअर । माअसा उमसमइएअथा दुसमइएअथा पेसतअअ । केमीतस एकसमय विवङ्गेअरा याअ तिमकोअ उअअ । जाव तत इअ मा
 ३ ि लइअ उव्वज्जेजा । याअए तेचेपवेचरो याअए विवङ्गेअरा अपजे २ । एअ अणज्जाता सुअमपठवावाअया पुरिच्छिन्निसे चरिमते या०१३वाअरा ।

इत्येतस्य विवरणं शुद्धमहीत्यादि, वावरतेअकाराधिक्रमत्रे-रयप्रभाप्रक्रमेति यदुच्यते-ये त्रिविधं मनुस्वयेतेति ४ तद्वावरतेअकारागप्यग्रीत्यादासुमवा

त वावरपुढ्यीकाडएसु अपञ्जासएसु उवधानियक्षा ३ ॥ ताहे तेसु चैव पञ्जासएसु ४ ॥ एव आउवृताडएसु
त्रि अपञ्जासएसु उवधातेयक्षा । ताहे तेसु चैत्र पञ्जासएसु , एव आउकाडएसुत्रि चत्वारि आलात्रगा सुञ्ज
मेहि अपञ्जासएसुहि १ ताहे पञ्जासएसुहि २ वायरहि अपञ्जासएसुहि ३ ताह पञ्जासएसुहि ४ उवधानियत्री एव
चैन सुञ्जम तउकाडएसुहि त्रि अपञ्जासएसुहि ताहे पञ्जासएसुहि उवधातेयक्षा । अपञ्जासएसुञ्जमपुढ्यीकाटएसु

एव पादास्य परगास्ते वादरपुष्यी कार्याकषयपासकपुस्यादयित्तय्य ३ । तत्कल्प येन पयासकेषु ४ । यवमच्यायिक्खवि अपयासूनपूचारयि
तत्याः । तत्कल्प येन पयोसकपु यवमच्यायिक्खयि चत्वार आसापसा करोरपयोसके १ । तत पयासके २ प देर पयासके ३ । ततः
पयासके ४ । इत्यादयित्तय्यः एव चैव सूक्ष्मतत्त्वस्वापिके रयि मम अरदासके तत पयासके इत्यादयित्तय्य । अपयासपू-पुचित्रीम

इम अपयोरित सूक्ष्मपुष्यीकार्यायिक्ख पूढन चरमात्तनविदे समहान करगाम । पय एव मसु य इतन न इरपठक इ । मु अपञ्जासएसु उवधानियत्री २ ।
पयिमभा चरिमात्तने विदे वादरपुष्यीकार्यायिक्ख अपयोरितत्त्वम उपपन्नः वा । त इत मयः पञ्ज एव ४ । ताहाय वा र पुत्रिशोकायिक्ख पयोसक त्रिवि
उपजाववा एवं ४ पाळावा । एवं पाठकाडएसुवि अपञ्जासएसु उवधा य । तात्र तत्त्वः पञ्चमएसु । इम अपयोरितत्त्व सूक्ष्म पुष्यीकार्यायिक्ख वि ० ते प ० ४
यिक्ख सूक्ष्मपयोसकनेविदे उपजाववा तद्वीम अकार्यायिक्ख पयोसकनेविदे पय एव उपजाववा । पय पाठकाडएसुवि चत्वारि आसापसा मत्रनेऽपु अपय
तएहि । इम वादर सूक्ष्मवादरनविदे पवि च्छवा इम अकार्यायिक्खनेविदे पवि चार पत्तना च्छवा त च्छव-सूक्ष्म अपयोरितत्त्वः । तात्र पञ्जासएसु
वि ० वादरकि अपञ्जासएसु ताहे पञ्जासएसुहि ४ उवधापयत्तो । तेद्वीच पयोसकनेविदे तात्र अपयोरितत्त्वसंज्ञात करा उपजाववा । एवंचा मत्रम तत्त्वा
इएहि च अपञ्जासएसुहि ताहे पञ्जासएसुहि उवधापयत्त्वा । इमद्वीच नियते सूक्ष्म तत्त्वस्य विवक्षयतात अपयोरितत्त्व चरो ताहा पयोसकनेविदे उपजाववा ।

इति ० धीसमुदायेति ॥ पृथिव्यादयः पञ्च मूलभूतानामेव द्विषति इत्येतेषु प्रत्येकं पपासकाऽप्यासकमेव द्विशति रिति इव चेद्विद्विषन्

नते । इमीसे रयणप्यन्नाए पुढवीए पुरच्छिमिहे चरिमते समोहए स०२ जे नविए मणुस्सखेत्ते अप्पज्जासयथा
दरतेउकाडयप्ताए उत्रवज्जितए सेण नते ! कइसमइएण थिग्गहेण उधयज्जेज्जा सेस तचेत्त । एव पज्जासा
यादरतेउकाडयप्ताए उत्रयातेयथी , वाउकाडएसु सुज्जमयादरेसु जहा ख्वाउकाडएसु उधवाइठ तथा उयथा
तेयथी । एव यणस्सइकाडएसुवि पज्जासासुज्जमपुढयीकाहएण नते ! इमीसे रयणप्यन्नाए एव पज्जाससुज्जम

पिको नदत्त । अस्या रत्नमन्नाया पृथिव्याः पौरस्त्ये चरमास्ते समवत्तः समवत्तः मनुष्य सेवऽपर्याप्त्यादरतेअस्कायिकतयो
त्यमुं न नदत्त । कतिमानयिकेन विग्रहेषोत्पद्यत इत्ये तच्चेत्त । एव पर्याप्त्यादरतवत्तयिकतयोत्पादयितव्यः कायुक्कायिकपु सुखवादरेपु
पयाप्कायिकपुत्पादित लायात्पादयितव्यः एवं वमरपतिकायिकवृषि । पर्याप्तमूलमपृथिवीकायिको नदत्त । अस्या रत्नमन्नायाः पृथिव्या एव

पपञ्जना मइमपठगेवाएव भते इमीसे रयवप्यमाए पुढगेए । पपसात्तव मूळ पृथिवीकायिक इममवम् धा रत्नमभा पृथिवीना । पुरच्छिमिहे च
रिमते समाइर स २ । पूना चरमात्तमि विने समहाते करे समहाते करोने । जे भविष मसुखसेसे पपञ्जतवादर तेउकाडयत्ताए उववत्तितए । जे म
दिक् मनुष्यसेने विने पपयात्तयादर तेअस्कायिकपे लपसे इवा मनुष्येच इसाकप्ता ते वादर तेअस्कायिकन पनरेस्मानके उत्पादना यभावयथी ।
सेप्येते अइसमएण विमहेत्त उत्रवज्जेज्जा सेम तचेत्त । तेइ इमपयन् कुतला समनेविने विग्रहेषोरो छपले इत्वादि येप तिमथीउ कइवा । एव पञ्च
भाष दर तेउकाडयत्ताएउत्रयाएयत्ता । इम पर्वात्ता वादर तेअकाडिकपे उपजावयो एवं ११ सुव वाउकाडएसु सइमवादरेस कइवा याउकाडएसु च
इत्ताएत्ता तथा उववाएयत्तो । वाउकायिक मूळवादरेनेविने विम साकायिकनेविने उपजावो तिम कपजावथी एतेके १६ थाळावा कइवा । एव अक्ख
-वाएमवि । म वत्तव्यतोकाडिकनेविने पवि कइवा एतेके ७ थाळावा कइवा । पञ्जता सुइमपुढगेवाएव भते इमीसे रयवप्यमाए । पर्वात्तव सुइ

पुढवीकाइएसुत्रि पुरच्छिमिसे चरिमते समोहणावेसा एणुं चैव कमेण एएसु चैव वीससु ठाणेसु उत्रवाए
 यधी जात्र यादरयणस्सइकाइएसु पज्जासएसुयि १० । एव अ्यपज्जासए यादरपुढवीकाइइठवि । एव पज्जास
 यादरपुढवीकाइइठवि ८० । एव अ्याउकाइएसुयि षडसुवि गमएसु पुरच्छिमिसे चरिमते समोहयाएचैय वस
 इया , एएसु चैय वीस ठाणेसु उयथाएसुधी १६० । सुज्जमतेउकाइइठवि अ्यपज्जासठ पज्जासठय-एएसु चैय

पर्याप्तसूक्तप्रायश्चित्तविधौ चरिमाते समवहतायाः, एते चैव क्षमतेषु चैव विद्यतित्यागकपूर्वावधितया पाठद्वारवमरुपातिका
 यिकपु पर्याप्तकस्यपि ४० । एवमपर्याप्तबो यादरपुयिचीकायिकोपि । एवं पर्याप्तकवादरपुयिचीकायिकोपि ८० । एवमप्यायिकेस्यपि चतुर्थ्यपि
 ममकेषु पौरस्त्य चरमागत समवहतायैव वक्तव्यता एतपु चैव विद्यतित्यागकपूर्वावधितयाः १६० । सूक्ततेजस्वायिकोप्यपर्याप्तकः पर्याप्तक

पूबिबोकाबिक इमववन् एउ एतमभापुबिडोने इत्थावि पूववत् । एव पय्यत सुइमपठबोकाइएसुवि परच्छिमास चरिमत समाइवावेता । इम पर्याप्त
 सूक्तपुबिबो काबिक पबि पूर्वम चरमागतनेविये समुदाय करारोने एडोव चतुसकेडरो । एए चैव कसच एएसु चैव बोसस ठाचेसु उववाएइळा । एडो
 च बोस अ्यागकनिये उववाइवा बोस अ्यागक पुबिबो १ एप २ तेज ३ वाळ ४ वनअानो ५ ए सूक्तवादर भेदेडरो १० ते पर्याप्तक अपर्वाप्तक भेदेडरो
 २ पूव त बोसअानकने विये उपजाववो । जाव वकसइकाइएसु पय्यतएसवि ४ । इम जावत् वाठरवनअतोकायिक पर्याप्ताने विये पबि उपजाव
 बो ४० । एव अपय्यतठ वादर एठबोकाइएसुवि एव पय्यतवाठर एठबोकाइएसुवि ८ । इम अपर्वाप्तक वादर पुबिबोकाबिक बोसअानकनेविये उप
 जाववा एव ४ इम पर्याप्तक वादर पूबिबोकाबिक पबि उपजाववा एव ८ पाळावा । एव पाठकाइएसुवि चतुसुवि गमएसु पुरच्छिमिसे चरिमते उ
 माइयाए च वक्तव्यता । इम पाठकायिकनिये सुक्त अपर्वाप्तक वादर अपर्वाप्तक वादर अपर्वाप्तक ४ ए चार ममानेविये पूवत चर
 मागने समहाते करोन इत्थादि निये वक्तव्यताये । एएसुचैव बोसठावसु उववाइइळा १६ । एडोव निये बोसअानकने विये उपजाववा एव ८ पाळा

धीससु ठाणेसु उद्ययातेयहो २०० । अथजाज्ञाथायरतेउकाएण जते ! मणुस्सखेहे समीहए समी० २ जे
 नविए इमीसे रयणप्यजाए पुढयीए पञ्चत्थिमिहे चरिमते अथजाज्ञसुज्जमपुढवीकाइयसाए उववज्जिसए ,
 सेणं जते ! फइसमइएण त्रिगहेण उववज्जेजा सेस तहेव जाव से तेणठेण एव पुढवीकाइएसु चउच्चिहेसु
 त्रि उद्ययातेयहो । एव अ्याउकाइएसु तेउकाइएसु अथजाज्ञएसु पजाज्ञएसु य एवं चैव उववाए

येतेपु चैव विद्यातित्थामकेपूत्थावपित्तम् १०० । अथपयोसवाररतत्तस्कायिको जइत्त । मणुप्यकेहे समववत्तः समववत्तः उसा इज्जम
 माया एणिय्याः पावात्स चरमाग्गेऽपयोसपूत्तमपयिदीकायिकतायात्पत्तुं स जइत्त । कति सामयिकेन विपरेयोत्तपद्योत म्मेवं तथैव यायतत्ते
 नार्चयेव पुण्यिकीकायिकेपु यत्तुपिपेधप्युत्तरपावपित्तम् । एवमप्यायिकेपु चतुविधपेपुत्तत्तस्कायिकयथासक्यपु पर्याप्तुं येव वैशोत्तगादिग्घ्याः ।

पिकता पाकावावाय एवं इव १६० । मुइम तेउकाइएपादि अथत्ततथा पत्तत्तथाय इएतुचैव बोवाय ठाणेसु उववाएत्तवा १ । सक्क तेउत्तस्कायिक प
 दि परीत्तक तथा अथपयोजक पचि वइोत्तं वीसक्कानकने विधे उववाववा इम तेउत्तस्कायिक पूत्त अथपरीत्तानां २ एने युक्कापयथीत्थाने २ ए वनेए जे
 वत्तानकता ३ पाकावावाय एवंइव २ पाकावा वाय । अथत्तंसां चार्यर तेउत्तंकाइएवंभंते मचइत्तंते समाइइ एवं २ । अथपरीत्तवाइर तेउत्तस्कायि
 क इममवद् मणुप्यत्तवने विधे समवात करे समवात करीने । जे मयिप इमीहे रववत्तमाए पुठवोए पचत्थिम्मिहे चरिमते अथत्तत्त युक्कमपठवीकाइव
 ताए उववत्तित्तए । जेइ मदिक्कं पा एतत्तमभापुत्तवोने विधे यत्तिमजा चरमात्तने विधे अथपरीत्त युक्कमपठवोकाइकएत्तए जपजे । उवंभंते चइ समइइ
 व विववत्तं उववत्तोज्या सेसंतइइ । तेइ जेमसवत्तं जेतथा समवने विधेकेचरो जपजे इत्थादि पववत्तं गइ तिमहीव । जाव सेतेचइत्तं एवं पुठवीकाइएस
 चउच्चिहेसुवि उववाववत्तो । वावत्तं तेचैपत्तं इम पुत्तवोकायिक चारेइने विधे उववाववा । एवं पाठकाइएसु चउच्चिहेसु तेउत्तकाइएसु अथत्तत्तएसु पत्त
 तपसुत्त एवंचैर उववाएत्तवो । इम अत्तवायिकने चारेइनेविधे पचि तेउत्तस्कायिक अथपरीत्तकने विधे इमहीव जपकाववो । अथत्तत्तवावाइर तेउत्तकाइ

वीरस्थाने विद्यति गंगा प्रवति तदेव पूर्वाङ्गमाना पत्नारि क्षुता न्येव पदिमात्मादियमानानामपि तत्तद्वैवं रत्नप्रमाप्रकरे सर्वादि योऽङ्गानां

यष्टी । अथपञ्चाभावाद्दत्तेउकाइपुण जंते ! मणुस्सखेष्टे समीहए समी०२ जे जयिए मणुस्सखेष्टे अथपञ्जात्ता
वायरतेउकाइयसाए उययजिअए सेण जंते ! कप्पिसमय सेसं तथेअ एव पञ्जास्रवायरतेउकाइयसाए उववा
एयष्टी । याउकाइयसाए वणस्सडकाइयसाए जहा पुठवीकाइएसुवि । सहेव वउक्काएण जेदेण उववातेयष्टी ,
एव पञ्जाभावाद्दत्तेउकाइठ वि समयस्रे समीहणावेसा एएसु वीसाए ठाणेसु उववातेयष्टी जहेव अथपञ्जा

अपर्याप्तवाद्दत्तेअस्कायिकी प्रवत्त । मणुअस्रे समववत्ता समववत्स यो प्रविकी मणुअस्रे अपर्याप्तवाद्दत्तेअस्कायिकतयोरपत्तुं सु प्रदत्त । अति
सामपिअ (प्रवति) अयं तथैव । एव पर्याप्तवाद्दत्तेअस्कायिकतयीरपाइयित्तव्यः । वायुकायिकतया वनरपत्तिकायिकतया यथा पृथिवीकायि
केयपि तथैव वतुअकन प्रदेगोरपाइयित्तव्यः एवं पर्याप्तवाद्दत्तअस्कायिकीपि समयस्रं समुद्रात् कारयित्वा यत्तेषु सैव विद्यन्तित्स्यान्तेषु अरया

एव मते सखेष्टेते समाइए २ । अपर्याप्तव वाद्दर तेअस्कायिक इमववन् मणुअस्रं इमवात्तवरे करीने । अ मपिए मणुअस्रं अथपञ्जात्ता वाव
र तेअस्कायिकताएअववित्तए । जेअ मव्य मणुअस्रंनेविसें अपर्याप्तव वाद्दर तेअस्कायिकपरे अयवै । सेव मते अइअमय सेसं तथेव । तेअ इमववन्
अववाअमव इत्थादि येव तिमशौक कइवा । एव पञ्जात्तावाद्दर तेअस्कायिकाए अवाअस्रवो । इम पर्याप्तव वाद्दर तेअस्कायिकपरे अथपञ्जात्ता । वा
अकाइयसाए अअरवाअसाए अजा पठवोकाइएसुवि । आअकायिक पचे वनअतोकायिक पचे जिम पृथिवीकायिकनेविसें अज्जो । तथेव अअएव
भेदवं अवाअयमो एवं पञ्जात्तावाद्दर तेअस्कायिकाए अमववत्ते समाअसावेता । तिमशौक अअअभेकेकरी अथपञ्जात्ता इम पर्याप्तव वाद्दर तेअस्कायि
क पदि अमववचेरनेविसें समुद्रात् करीन । एएव योसाए ठावेस अवाअयमो अकेअ अथपञ्जात्ता अवाअसा । एअकावीसकाअकनेविसें अथपञ्जात्ता । अइ
ए अपस्वनीपा अवाअसा इवं अमववत्ति वाद्दरतेअस्कायिका । तिमशौक अपर्याप्तव अथपञ्जात्ता । तिमशौक अमववत्ति । अपस्वनीपा अथपञ्जात्ता । अप

सप्त उवयात्तिष्ठ एव सद्युयवि यादरतेउकाइया ह्यपजज्ञगा य पजज्ञगा य समयखेत्ते उववातेयह्यो, समो
 हणायियस्युयि २४० । वाउक्काइया ३२० । घणस्सइकाइया य जहा पुठवीकाइया ४०० । तहेव चउक्का
 एण नेवेण उववातेयह्यो जाव पजज्ञावादरयणस्सइकाइयाण जते ! इमीसे रयणप्पजाए पुठवीए पुरच्छि
 म्मिहे चरिमतते समोहए समो० जे न्निविए इमीस रयणप्पजाए पच्चच्छिमिहे चरिमतते पजज्ञायादरवणस्स
 वयित्तयो ययेवापर्यासोत्पावित एव सबेवापि वादरतेउकरकयिका अपर्यासकाय पर्यासकाय समयकेत्ते कत्पादयित्तयाः समुहात्तयित्तया
 अपि २४० । वायुकायिकाः ३२० । क्कस्पत्तिकार्यायकाय यथा पुयिवीकायिकाः ४००, तथैव वतुप्पकण त्रदनोत्पादयित्तया यायत्पयात्तवाटरवनरप
 तिकायिको त्रदत्त । अस्या रत्तप्रजायाः पुयिज्याः पौरस्स चरमाणते समजइतः समवइत्तः यो त्रविकोत्सारत्तप्रजाया पाद्यात्ये चरमागत यथा

जत्तवाव समवखेत्ते कववाएवग्गो समोउवाविजग्गववि २४ । अपर्याप्तक पर्याप्तक समवचपने विये उपजाववा समुहात्त एवि क्कवाववा ० वत्त याका
 वा इव सर्वं २४ पासावाववा । वाउक्काइया ३२ । वाउक्काइया २० एवं सर्वं ३२ पासावाववा । वत्तयाववा ० वत्त याका
 वत्तपतोकायिकना ८ विम पुविबोकायिकना क्कया । वत्तये क्कवपय भेट्ठे क्कवाएवत्तया । तिस वत्तया उक्काइया ४० ।
 यावत् पर्याप्तक वादर वत्तपतोकायिक केमवन्त्त एव रत्तपमापुविबोनेविये पूवना चरमात्तनेविये समुहात्तकट्टे चरिमतते समो २४ म २ ।
 क्कवत्तया पच्चच्छिमिहे चरिमतते पत्तया वादर क्कवाएवत्तया एव वत्तया ० । उक्क भय ० उ रत्तप्रभा पविबोना पच्चिमत्तया रत्तया
 एव वादर वत्तपतोकायिकपत्ते अपके । वेव मते कविचमवा सेव तत्तये । तेव केमवन्त्त वाउक्काइया ३२० । जे मत्ति २४ म २ ।

इन्द्राद्वयसाए उवयजिज्ञाए सेण जते ! कतिसमय० सेस तहेत्र जाव से तेणठेण अणुपज्जासासुज्जमपुग्गयीक्काह
एण जत ! इमीम रयणप्पजाए पुठयीए पच्चिक्खिमिहे चरिमते समोहए समो० जे जविए इमीम रयणप्प
जाए पुठयीए पुरिक्खिमिहे चरिमते अणुपज्जासासुज्जमपुठयीकाइयसाए उवयजिज्ञाए, तेण जते ! कडसमइएण
सेस तहेय गिरयसेस, एव जहेत्र पुरिक्खिमिहे चरिमते सच्चपदेसुवि समोहया पच्चिक्खिमिहे चरिमते समय

सवासरयनस्पतीवायिकतपीरपुं स जदत्त । कति समय (प्रवृत्ति) अेष तथैव यायत्तत्तमार्चनार्थोत्सूत्सपुण्यीकायिको जदत्त । जग्गा रम
प्रमायाः पुण्य्याः पापारये चरमात्त समवहताः समवहत्त्व यो जविको स्या रवप्रजायाः पुण्य्याः पीरस्ये चरमात्ते उपयोत्सूत्सपुण्यीका
यिकतपीरपुं स जदत्त । कति सामायिक (प्रवृत्ति) ज्ञाप तथैव निरवस्रप एवं यथैव पीरस्ये चरमात्ते सयं पवयपि समवहताः पापारय
चरमात्त समपकृत्रे चोत्पादितो यः समयोत्रे समयवृत्तः पापारय चरमात्ते समपकृत्र चोत्पादयितव्य एतेव गमकस । यवमेतन्न प्राणिणारये

ववा । काव मतवृत्ते पपच्छता सङ्गम पठगीबारहव भते इमोसे रवव्यभाए पुठगीए पच्चिक्खिमिहे चरिमत समाहव म २ । कावत् तथैवसे इत्यादि
पूर्ववत् द्विजे पविमना चरमात्तनविये उपजे तेज्जा पवि ४०० पाकाया कुव त देखावहे, पपबीरनव सूचुम पूवित्रीकायिक सभगवम् एव रतनप्रभा
पूवित्रीना पविमना चरिमात्तनविये समदृशातवरीने । ज मविये इमोसे रवव्यभाएपठगीए पुरिक्खिमिज चरिमते पपच्छता सङ्गमपठवी
बाहयत्ताए उववव्यिणए । जेह भय्य एव रतनप्रभा पूवित्रीना पूवना चरिमात्तनविये पपयीरतव सूचुम पूवित्रीकायिकएजे उपजे । तेन भते कडसमइ
एवं वेमं तथैव विरवसेम । तेव हेभगवन् जेतका समयने विपहेकरो उपजे इत्था द पूववत् गोप तिमज्ज निर्वियेपपचे कडवा । एव जज्ज पुरिक्खिमि
चरिमते वावपयेनवि समाहया पच्चिक्खिमिहे चरिमते समवसेत्तय उववाएए । इम किमसीक पूवना चरमात्तनविये सवपव्वनविये पवि समदृशातवरा
पविमना चरिमात्तनविये समयपचने विये उपकावथा । जेसमवसेत्तय समाहया पच्चिक्खिमिहे चरिमत समवसेत्तय उववाएएवथा तेत्तय गमएव । जे स

खेत्ते य उवथासि ए जे समयखेत्ते समोहया पञ्चिच्छिमिहे चरिमते समयखेत्ते य उत्रयाएयथा तेणव गमएण
 एव एण दाहिणिहे चरिमते समयखेत्ते य समोहयाण उप्परिहे चरिमते समयखेत्ते य उवथातो, एव
 चैव उप्परिहे चरिमते समयखेत्ते य समोहयाण दाहिणिहे चरिमते समयखेत्ते य उत्रयातेयथा, तेणव गम
 एण । अण्जसासुजमपुठवीकाहएण जते ! सक्करप्यनाए पुठवीए पुरच्छिमिहे चरिमते समोहए समो
 जे जतिए सक्करप्यनाए पुठवीए पञ्चिच्छिमिहे चरिमते अण्जसासुजमपुठवीकाहयथाए उवव० एव जहेव

चरमागते समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः एवं वैवीचरीय चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चर
 मागते समयखेत्ते चोत्पाद समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः
 इत्यथो जतिः चरमागते समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः

समयखेत्तेयि समुद्रवातकरोने पच्छिमना चरिमागतेयिहे समयखेत्तेयिहे यिहे उपजायवो तिचरीक भाखेवकरी इही पवि ३० याबाबा कइवा । ए
 व एएव दाहिक्कात्ते चरिमते समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः
 यात चरमागते समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः
 चिचिहे चरिमते समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः
 समयखेत्तेयि समुद्रवातकरोने पच्छिमना चरिमागतेयिहे समयखेत्तेयिहे यिहे उपजायवो तिचरीक भाखेवकरी इही पवि ३० याबाबा कइवा इवसव २१० चिचि
 हे समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः
 ये समुद्रवात करे करीने । जे मदि ए चकरप्यमाए मुठवीक चरिमागते यिहे यिहे उपजायवो तिचरीक भाखेवकरी इही पवि ३० याबाबा कइवा इवसव २१० चिचि
 हे समयखेत्ते य समयवतामामुठरीये चरमागते समयखेत्ते य समयवतामा दाहिक्कात्य चरमागते समयखेत्ते चोत्पादः

रयणप्यनाए जाव सेसेगठेणं एथ एएण कमेणं जाय पज्जासएसु सुज्जमेतेउकाइएसु अ्यपज्जासएसु । सुज्जागपु
 दयीकाइएण जते । सक्करप्यनाए पुठयीए पुरच्छिमिह्वे चरिमते समाहए समा०२ ज जतिए समयखसे अ्य
 पज्जातायायरेतेउकाइयत्ताए उअयज्जासए सेण जते ! कइसमए पुच्छा, गीयमा । तुममडणण या तिसमइ
 एण या थिग्गेहण उअयज्जा । से केणठेण जते ! पुच्छा, एथ खलु गीयमा । मए सत्त सेतीठे प० त०

लमक याधरपर्यासजपु मूलतत्तरआपिकेवपपोसजपु । मूलपृथिवीकायिको जदत्त । शकराप्रजाया पृथिव्याः पीरस्य चरमात्त ममपइतः
 ममवस्य यो जतिव समये ज्जे उप्यांसकाइरतलस्वार्थियकतयोत्पत्तुं स जदत्त । कति सामपिअपुच्छा गीतम । विसामपिअन या विसा
 मपिकेअ या विअइयोत्पट्टत । अय केताचैअ जदत्त । पुच्छा मय ससु मया गीतम । सत्त अअयः प्रज्जासात्ताया-अउगायता यावदवहुअक्या
 एविवाता पयिमना चरमांतने विपे अयवात्तक सूअ पुविबीकाडिक पक अपले इत्थादि । ०व अइअ रयअयभाए आव सतअइअ । इअ अिमइअ र
 मवभानविपे अत्ता तिस इअ पवि अइवा यावत् तजे येत्ते इत्थादि पूववत् । एवं एअअ अमय काय पअअएअ ससुअ तेअकाइएअ । इअ इअे अअअअ
 की यावत् पर्यागक मूलतेअस्वार्थियक म विपे अपले एतवाअग आवावा कइवा पागे विअय अइअे—अपअअअसु मुअमपुठबीकाइएअ भते सअअयभा
 । पठोए पुरअ्थिमिअ चरिमते समाइए स २ । अपर्यात्तक सूअपृथिवीआयिक इअगवत् शकरपभाएथियोना पूव चरमांतनेविपे समहात करे । जे भ
 विअ समयपुते अयज्जातावाअर तेउकाइयत्ताए अअवअत्तएण । अइ भावअ समयअअनविपे अयवात्तक वाअर तेअअयिकपके अअअे । जे भ
 ए पुअ्था । तअ इअगवत् केतवात्तमयने इत्थादि पूववत् मय अत्तर । गाथमा दुअमइएअवा तिसमइएअवा विअअअ अअअअेअ । इंगीतम यअमयेअरो
 यअवा तीअममये अरो विअइअरो अपअे इअी अअअअभागा पूवना चरमअअकी मअअअेअने विपे अयअतायकाअ मअअेवि अइते तमाटे एकममये
 अरो इअअअा अरो दुअमइएअ इत्थादिअ एक अअना तथा दीअ अअना भअअकी अत्ता । सेअेअइअ भत पअ्था एव अत्त । ते अे पये इअगवत् इत्थादि

उत्पुण्यायता जान् शुद्धचक्षुत्राला । एगुठं अन्नाए सेढीए उन्नयज्जामाणे दुसमइएण विग्गेहेण उववज्जेज्जा,
 दुहेठं यन्नाए सेढीए उन्नयज्जामाणे तिममइएण विग्गेहेण उययज्जेज्जा, स तेणठेण एय पज्जाहाएसुथि याद
 रनउत्ताहुएणु सस जहा रयणप्यन्नाए । जेथि आयरतउक्काडया थ्यपज्जासगा य पज्जासगा य समयखेहे स
 माहया वेञ्चाए पुठवीए पन्थिच्छिमिहे चरिमते पुठथिकाइएसु थ्यउक्काइएसु थ्यउच्छिहेसु तेउक्का

मा । उक्कतो यज्जायां सेस्वामुएपद्यमामो द्विसामयिकुल विपयेवोरपद्यत्त उन्नयतो धकाया अस्वामुएपद्यमामात्तिसामयिकुल विपयेवोरपद्योस
 ततनार्थेनैव पयासकसुपि यादरतत्ररकायिकपु गोप यथा रकमन्नाया । यपि च वादरतत्तरकायिका अपयोसकाय पर्यासकाय समयपत्रे सम
 यदता द्विसोवाया पृथिव्या वायास्य चरमात्त पृथिवीकायिकपु बहुविधस्यप्यायिकपु बहुविधपु तत्रस्वायिकपु द्विविधपु वायुकायिकपु पतु

पुठवत्त पय्य इम निये उत्तर । मासमा मए सत्तसेठीया प त । इगोतम मे सातय्यिचि प्रकपी ते कहेवे— उल्लुपायता यइवककाका । अल्लुपायत इ
 त्ति एावत्त यइवककाम एतमात्ममे पुठवीपरे कइया । एगपावकाए सेठीए उववज्जामाणे दुसमइएव विव्वेकेव उववज्जया । एव उववज्जिचि करो अयउ
 मावका वममएने विपयेवोरो अयत्ते । दुइपावकाए सेठीए उववज्जामाणे तिसमइएव विव्वेकेव उववज्जया । टाय ककय्यिचि करो अयउतासका तोनसमय
 ने विव्वेकेवोरो अयत्ते । सेतेअयुच एव पय्यत्तएमुवि काटर तेउक्काइएसु मेस असा रयवपमाए । ते तेणे पये वेगोतस इत्थावि पूर्ववत् इम पर्यागतव काट
 र तउरभायिकने विपे पचि कइयो गोप किम एरनपमानेविपे कइया तिस इत्था पचि कइयो । जेवि वायर तेउक्काइया अपय्यत्तमाय पय्यत्तमाय समय
 गोत ममाइया । पि पचि कादर तेउक्काइव अपय्यत्तमा तका पर्यागता मत्तपयेवने विपे समहातकरोने । तासाए पुठवीए पय्यच्छिमिहे चरिमते । योखो
 वृथियोमा पयिम चरमात्तनेविपे । पुठवीकाएणु अउच्छिक्कमु पाठकाएणु उववज्जिस तउक्काइएणु दुनिहेस काडकाइएस अउच्छिक्किस अउक्काइएणव
 अन्विइस उववज्जत्त तेवि एवचर । वृथियोवायिक चारोअमदने विपे अउक्कायिक चारोअमदने विपे तेअउक्कायिक वायपदने विपे वाअअायिक चारोअमदने

तानि गमामामिति, शरराप्रजापकारे वादरतेत्ररत्रापिबसूत्रे-दुसमएएववेत्यादि ॥ इए शर राप्रजापूववरमासा न्मपुण्यश्रे उत्पयमानस्य युसमशेवि
मोस्तीत्ययसमएवमितीइमीव ॥ दुसमएएवमित्यादि तु एकस्य वकस्य द्वयो वा सुभवावुक्तमिति अथ सामान्येना ऽथ सेशमदुसत्र वा श्रित्वा इ-

इएसु दुयिहेसु घाउकाइएसु घउ छिहेसु यणससठकाडएसु घउ छिहेसु उवयज्जइ तेवि एववेत्र दुसमइएण या
तिसमइएण या विगहेण उववानयव्वा । वादरतेउक्काठया अ्यपज्जत्तगा य पज्जत्तगा य जाहे तसु चैव
उवयज्जति ताहे जप्पेय रयणप्पन्नाए तहेय एगसमइए दुसमइय तिसमइय त्रिगहा ज्ञाणियव्वा, सेस जहा
रयणप्पन्नाए तहेव णिरवसेस, जहा सक्करप्पन्नाए वत्तव्या ज्ञाणिया एव जाव अ्यहे सत्तमाए ज्ञाणियव्वा ।

विषयु वनरपत्तिकायिषेपु धनुषिचपूत्पद्यग्ते तेप्येव चैव द्विसामयिकस वा त्रिसामयिकेन वा विग्रएवोत्पादयितव्याः । वादरतत्तरत्तापिका
अपर्यासव्याय पर्यासव्याय यदा सेपु चैवोत्पद्यन्ते तदा याचैव रत्तप्रजाया सचैवे कसामयिषाद्विसामयिकोत्रसामयिषाद्विषया प्रवितव्याः सोप
यथा रत्तप्रजाया तथैव निरवशापम् यथा अकराप्रजायाः यत्तव्यता प्रवितैय यावद्वयः ससमा (धावदु) प्रवितव्या अपर्यासवूत्तमपुपियीका
विय वलसनीकाविक्रि चारिभटने विपे अपपे तं पचि इमहीज । दुसमएएववा तिसमएएववा विव्यज्जेय उववाएववा । वे समयमे विपदेकरी तथा तो
न समयतावये विपदेकरी उपजाववा । वादर तेउकाइया अपज्जत्तगाय पज्जत्तगाय जाहे तेष चैव उववव्वति । वादर तेत्तरकाविक्रि अपर्याप्ता तथा
पर्या ताता जिवारे तेहानेत्रविपे एतसे वादर तेत्तरकाविक्रि अपर्याप्ता तथा पर्याप्तपत्त तथा पर्याप्तपत्तै अपपे । ताहे अत्तव रयवप्यभाए तत्तैव एगसमए दुसमइए
तिसमइय विव्यका सावियव्वा । तिवारे विव्याहीक रत्तप्रभाने विपे तिसमहीज येव सामयिक उाय सामयिक सोन सामायिक विग्रइ जाववा ।
सेस जहा एववप्यभाए तत्तैव निरवसेस जहा सक्करप्पन्नाए वत्तव्यता मविया । यप ज्जिम रत्तप्रभानेत्रियेअप्पो तिसमहीज निविगियपपे कइना जिमहीज
गत्तरप्रभानेत्रिये वत्तव्यता कइो । एवं जाव पत्तेसत्तमाए भावियववा । इम यावत् नोवे सावसो पुविबोसगे कइवा । पपज्जता मुत्तमपुटवोवाइएव भति

पयससासुदुभेत्वादि ऽ षडे लोपयेत्तगालीयति ॥ अथोलोकमहादे षप या माली प्रसनाली वा शोलोकप्रसनाली तस्या एव सुश्लोकप्रसनाह्वयपि ०
 तिसुमहत्पुत्रति ॥ अथोमाकचक्रनाहना यतिः पूर्वोदिदिदि युत्वा युक्तमालीमप्य प्रयित्ते द्वितीय समय ऊर्ध्वं गत एत एवप्रतरे पूर्वस्या पयि
 माया वा वदो त्याप्त जवति तदा तु अस्या गत्वा तृतीयसमय उत्पद्यत इति ऽ अठसमहत्पुत्रति ० एव नाह्या यदि वायव्यादिविदिधि युताः

श्यपज्जासासुज्जमपुठ्ठीकाहण जते । श्यहे लोयखेत्तगालीए याहिरिखे खेसे समोहए समो० जे जत्रिए उहु
 लीए संत्तगालीए याहिरिखे खेसे श्यपज्जासासुज्जमपुठ्ठीकाइयसाए उवयज्जात्तए सेण जते ! कहसमहएण
 थियगहेण उत्रयज्जेजा ? गोयमा ! तिसमहएण वा चउसमहएण वा थियगहेण उवयज्जेजा । से केगठण

यिका जदत्त । अथोलोकचक्रनाम्यां वाप्ते ऋत्रे समयइत्ताः समयइत्तस्य यो षविक उरुश्लोकचक्रनाम्या भासे ऋउपयोससूक्ष्मपृथिवीकायिकत
 यात्पत्तं सु जदत्त । अतिसामयिकल विपद्यवोत्पद्येत ? गीतम । अिसामयिकेन वा अतुस्वामयिकेन वा विपद्यवोत्पद्येत । अथ क्लार्थनिवमु

पइसावगत चानोर वाहिरिक्खत्त समाइए समा २ । अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक हेमगम् अथ-वेच ते प्रधासावकथवच्च तेहनेविपे बिक्का
 नाडिबहिवे अयनाडि ते प्रधासाव अथनाडौ बहिवे तइना वाहिरना अथनेविपे समहात करे करोने । जेभविए उच्छुठ्ठाए खेतनालीए वाहिरिक्ख खे
 त । अ भविक्क अठ्ठावक्क अथनाडौ तेइना वाहिरना अथनेविपे । अपज्जता सुदुमपठ्ठीकाइयताए उवयज्जित्तए । अपपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एवे
 जपत्रे । वेपमत कायसमएण विपद्येक्क उवयज्जत्ता । तइ हेमगम् खेतथा समयन विपद्येक्करो उपलै १ प्र उत्तर । मायसा विपसमहएववा अठसमह
 एववा विपद्येक्क अथवज्जेजा । हेभौतम तोन समने दिपद्येक्करा ऊपलै तवा वारसमयेने । अथवेक्करो उपलै एइना अथ विवरक्क सूत्रमदि प्राये कइसि ।
 अथइएव एव इया । ते एवे एवे हेमगम् इम कइया । तिसमहएववा अठसमहएववा विपद्येक्क उवयज्जेजा । तोन समयेक्करो वार समनेने विपद्येक्करो
 इपने १ प्र उत्तर । मायसा अपज्जता सुदुमपठ्ठीकाइएव अठ्ठावज्जेण वालीए वाहिरिक्खे छत्ते समाइए सु २ । हेभौतम अपपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवी

तद्वैकल्य समयेन पश्चिमाया मुत्तरस्या वा गतो द्वितीयम नाह्वया प्रविष्ट स्वतीये ऊर्ध्वे गत बभुवर्षे तु केस्या गत्वा पूर्वविदिष्यु त्यद्यत इति इदं च प्रायो वृद्धिमद्वीकृत्योक्त मन्वथा पञ्चसामायिक्यस्य मति सुम्भवति यदा योसोक्तकोवा दूद्वुलाककोच एवो त्यथ्य प्रवतीति जज्ञन्तिचात्र मा ध्या-सुप्तपठसगपाठे मत्पिमर्षुपराविकिसिषा । जुञ्जइयपचसमया जीवस्वगइइंसोए ७१ ॥ अतमतमविदिषाए समोइउयजसोमोविदिषाए । उप

एव युञ्जड-विसमडरण वा अउसमडरण या यिग्गहेण उववज्जेजा ? गोयमा । अउज्जासासुज्जमपुठवीका डरण अहोलीयस्सेसणालीए वाहिरिस्से खेस्से समोहए समी० जे नविए उदुलीयस्सेसणालीए वाहिरिस्से खेस्से अउज्जासासुज्जमपुठवीकाइयसाए एगपपरसि अणुमेढी उववज्जेजाए ? सेण तिसमडरणेण यिग्गहेण उववज्ज

अत-विशामयिकम वा अनुस्वामयिकम वा विघइकोत्यद्यत ? भीतम । अपयोससुस्सपुथियोकोपोलोकइज्जनादया वास्से उत्रे समयइतः समवइत्य यो प्रविज उवुसोक्तइज्जनादया वास्से इयेऽपयोससुस्सपुथिवीकायिकतया एकांसिग्गप्रतरे ऽनुमस्यामुत्पसु स जइत । यिषामयिकम

कासिच यथासाक यथासोको वाइइरुपेपाने पूर्वदिशिनविपे सराने एकेसमवे माठिमिचि पेठा मीजमसय ऊवागवा तिवारपण्णा एक प्ररजत्रिपे पूर्व दिशिय यथा पठिमदिशिय जिवारे उत्यसिचवे तिवार त्रिचिकरी जांन मीजसमवे ऊपज अपर्याप्त सूअरुथियोकायिक परे एक मवर यमुअथि कर उपज तेइ तोममयने विपडेकरी अपजे तथा । अ भविए उदुठकावसे तवाकोग वाइइरुखल यपअसा मइमपठवासाइयताए । अइ मविक जिवारे माठिकी वाइइर वाववाठि दिशिनविपे मया तिवारे एकसमवेकरा पठिमदिशिनने विपे तथा उतरदिशिनत्रिपे गवा मीजमसय माठिनत्रिपे पेठा नीजे खकोण्या मीजसमवे यमुअथि कारने पूर्वादिशिन विपे अपजे एइ प्रासे इत्तिमसे ममीकारकरीने कइया अम्भवा यवमामायिकी पाण तिस अथतति जिवारे यथासाक अउथियो कोरुसोअने अउथोअ ऊपजाववा इवे इहा गाथा-उतयउसमयाया अत्तिग-अत्रिचिचिइः । जुञ्ज यपचसम वा अोवण्णमागतोशाए ११ ॥ अतमतमविदिषाए समोइउयजसमवाए । उववअइयइए सानिवमापचसमवाए १२ ॥ उउयइए । समवा दु

वज्राङ्गम् सोनियमापंचसमयात् ० २ ० उजुयापतेगवका बुइउंयंभाणईयिबिदिहा । बुअतिपतिउउवका यिनामपउपवसमयात् ० ३ ॥ उवका
यानावाउ मपवसमयाऽइवामसतावि । प्रणियाजइउसमया मइस्यपेमसताविसि ० ४ ० अण्णसायायरतउकाइएअमित्वादी ० दुसमइएव

जेजा, जे नविए यिसेठीउ उययज्जिअए तण चउसमइएण यिग्गेण उयत्रजेजा । से तेणठेण जाय उ
घयज्जति । एव पज्जत्तासुज्जमपुढवीकाइयसाएयि । एव जाय पज्जत्तासुज्जमतेउकाइयसाए । अण्णत्तासुज्ज
मपुढयिमाइएण नते । अहोलीग जाय समोहणिसा जे नविए समयखेसे अण्णत्तायादरतेउकाइयसाए उ
ययज्जिअए सेण नते । कइसमइएण यिग्गेण उययज्जिजा ? गीयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा यि
वियइपोत्यद्यत यो मयिओ विअस्यामुत्पत्तुं म अतुस्सामयिकेन विग्रहेपोत्यद्यत तत्तनार्चन यावदुत्पद्येत । एय पयोससुखपुयिवीकतयायि

अपयोसवादरतअस्कायिकतपोत्पत्तुं स जइस । कति यामयिकेन विग्रहेपोत्यद्येत ? गीतम । द्विसामयिकेन वा तिसामयिकेन वोत्यद्येत । अण्ण
एपाअगाएविदिहा । अण्णयतिउउवका यिनामपउपवसमयात् ० २ ० उवकायाभावापा नपवसमयाइवानसमावि । अण्णियाअइउसमयामइस
इनेमतावि इइः योउइए काव उववत्ति । ते तेरेपेअं देगीतम यावत् उपत्ते । एव पण्णत्ता सुइमपुठरोकाइयसाएवि । इम पर्यायतव सूअरविओका
यिअ एवि अइवा । एवं काव पण्णत्तामइम तेउकाइयसाए । इम यावत् पर्यायतव सूअ तेउकायिक एवि अइवो । अण्णत्ता सुइमपुठविवाइएव मते
एयमाग आव समाइविता । अण्णत्ताव सूअइविवाकायिक अेभगवन् एवाकाकने इत्यादि यावत् समवातकरीने । अण्णिए समयखेसे अण्णत्ता
काइर तउकाइयसाए उववत्तिअए । जेइमविक समयखेसेविदे अण्णत्ताकवाइर तेउकायिकपचे उपत्ते । सेअते कइसमइएव विअइए उववत्तेअ ।
तेउ देभगवन् काव समयने विग्रहेकरो उपजे इ म उत्तर । गायमा दुसमइएअवा तिसमइएअवा विग्रहेव उववत्तेअ । देगीतम केसमयेकरी तोन

या तिसमइएव वा विष्णुश्च उववज्जेज्जाति ॥ एतस्पर्यं प्रावता समयेनो द्वा द्वा वेकेन समयेनो द्वेगतो द्वितीयेन तु साध्या वदि विष्णुश्च स्थित
 मृत्युत्पत्त्याम मिति तथा समयेनो द्वा द्वा वेकेन समयेनो द्वेगतो द्वितीयेन तु साध्या वदि पूर्वाविकिणी पृथीयेन तु विदिग्नवस्थित मृत्युत्पत्त्याम मिति
 ग्गहेण उववज्जेज्जा । स केणठेण जते । एव खलु गीयमा ! मए सत्तसेठीन पखुसत्तं, तजहा—उज्जुस्था

यता जाय स्येधचक्खियाला । एगतो बंकाए सठीए उथयज्जामाणे दुसमइएण यिग्गहेण उववज्जेज्जा, तुहन
 थकाए सठीए उथयज्जामाणे तिसमइएणं यिग्गहेण उववज्जेज्जा से तणठेण एव पज्जासुणसु वायरतउका
 इएसुयि उथवातेयथी । वाउकाइयवणस्सइकाइयत्ताए चउक्कीएण जदेण जहा स्याउकाइयत्ताए तहेय उय
 बनार्थेन नदण । एव खलु गीतम । मया सुत भवप मज्जासाकवाया—अवशायता यावददुपकथासा । एकतो वक्काया मस्या मृत्युवामाना

द्विमामयिकम विग्रहवात्पद्यत उतपता यथाया श्रव्यामृत्युवामानास्त्रिसामयिकन विग्रहवात्पद्यत ततनार्थेन । एव पयासकपु वावरतगरका
 यिकवपि उत्पादयितव्यः । वायुकायिजवनस्पतिकायिकतया वतुक्कन नदण यथा प्कायिकतया तथैव जचितव्य २० । एव मया पयाससूख
 समदेवरा विपदेवरो उपज । सेअवइव भते एव खलु गामए मए सतठठापा प त । तइ जे एव जमगवन् इत्ये दि एम तिये जगोतम स सातय
 वि कइ । तिकइजे—उत्पयावता काव यवपवववामा एगवावकाए सठाए उववज्जेज्जा । अणुपायता यावत् भठपववाम इत्यादि पूववत् एववज्जेज्जे
 बरो उपजतावका । दुसमएसे विक्कप उववज्जेज्जा । सत्तमयन विपदेवरो उपजे । दुइपार्थवाए सेठाए उववज्जेज्जा । व वज्जेज्जेज्जे उववज्जेज्जे

का । तिसमइएव विपदेवरो उपज । तौनसमये विपदेवरो उपज । सकवइव । ते तथेये इत्यादि पूववत् । एव पज्जतएमुवायर तेठवाएयमि उ
 ववापयथा । एम पयासक वावर तउवाविक्कनपिये उपजावका । वाउकाइय ववववववाइयताए वउक्कण भेदेव जहा पाउकाइयताए तइव भावि
 यथा २ । याउवाविक्क वनसोवा विक्कपये वउवभट्ट करी खिम पाशायिक उपजाववा तिमहीज उपजाववा । एव जहा उपजाववा सुउसपठ १ उा

अथ मोक्षरसात्मनित्याह-अपञ्जतासुज्जमपुढविकाहण्य जते। लोनरहेत्यादि ४ इह च लोकाचरमाले पादराः पृथिवीकायिकाप्यायिकतजोवन
रपतया न सन्ति मूल्या सु पन्थापि सन्ति वाहरवायुकायिका येति पर्यासापर्यासप्रवृत्त आश्रय स्वात्मा ल्युसुसप्तध्यामीति, इह च लोकास्य पूयवरमा

धानयन्त्री २० । एय जहा अ्यपञ्जतासुज्जमपुढविकाहयस्स गमत्तं चणित्तं एव पञ्जासासुज्जमपुढवीकाहय
स्सत्थि नाणियन्त्री तहेय वीसाए ठाणेसु उवथाएयद्यो ४० । अहे लोयस्वेसणालीए याहिरिहे खेसे समोहत्तं
एय थायरपुढवीकाहयस्सत्थि अ्यपञ्जत्तगस्स पञ्जासगस्स य नाणियत्तु । एव अ्याउकाहयस्स चउच्चिहस्सत्थि
नाणियत्तु । सुज्जमतेउकाहयस्स तुविहस्सत्थि एवचेव । अ्यपञ्जासाथादरतेउक्कातिएण समयस्वेसे समोहए

पृथिवीकायिकस्य गमनो प्रकृत एवं पर्याससूत्रमपृथिवीकायिकस्यापि मन्त्रिस्य सत्येव विमसितित्यातकेषु उत्पादयितव्यः ४० । अथोसोक्तकेत्र
नालयो वाप्ये इने समवहत् एवं वाहरपृथिवीकायिकस्यापि अपर्यासकस्य पर्यासकस्य च प्रकृतस्यम् । यवमप्यायिकस्य चतुर्विधस्यापि प्रवि
तव्यम् । सूत्रमतेत्रकायिकस्य द्विविधस्यापि एव वेव । अपर्यासथादरतेत्रकायिकः समययोत्रे समवहत्तः समवहस्य यो प्रविष्य क्तुसोक्तकेत्रना

रहस्य गमपाम्बिषो । इम त्विम अपर्वाग्नक सूत्रपृथिवीकायिकता गमाकथा । एवं पञ्जता सहस्रपुढविकाहयत्थि माभियवता । इम पर्यासक सूत्रपृ
थिवीकायिकता पवि गमा कडवा । तत्रेव वीसाप ठावेसु कडवाएयवता ४ । तिमवीक बोध सानकनेविदे उपकारयो । यदेकायसेतवाद्योए वाहिरि
वे एत नमाहयो । अथाकाव अजहाकता नाद्योने वाहिरिसेयाये समाहत्त कोधो । एवं वायरपुढवीकाहयत्थि अपञ्जतमप्यत्र पञ्जतमप्यत्र भाषिय
त्तु । इम पृथिवीकायिकने पवि कडवा अपर्वासकने तथा पर्यातकने कडवा । एव पाठवाहरस्य चतुर्विधत्थि माभियवत्तु । इम अथाकायिक चतुर्विध
पवि कडवा । सुत्रम तेजकायस्य द्विविधत्थि परचेव । मूत्र तेजस्थादिकने चतुर्विधने परि इमहीक कडवा । अपञ्जतवापर तेजवाहण्य समयत्थने स
माहर च २ । अपर्वागतकवाहर तेजस्थापिक समवहत्तने विदे समुत्तुवातचरे करीने । वे भविए उदुडोग सेतवाद्योए वाहिरिहे अत्ते अपञ्जतासुत्रम

समीह० जे नत्रिए उहुलोगखेसगालीए बाहिरिसे खेसे अ्यपजासासुज्जमपुढात्रिकाहयज्ञाए उयवज्जिहए सेण
 नते । कइसमहएण त्रिगहेण उयवज्जेज्जा ? गीयमा ! दुसमहएण वा तिसमहएण वा चउसमहएणवा यि
 ग्गहेण उयवज्जेज्जा । से केणठेण अ्यठो जहेय रयणप्यजाए तहेय सप्तसेढीए । एव जाव अ्यपज्जासावादरते
 उकाइएण नते ! समयखेसे समीहए समी० जे त्रियिए उहुलोगखेसगालीए बाहिरिसे खेसे अ्यपजासासुज्जमते
 उकाइयज्ञाए उयवज्जिहए सेण नते ! सेस तथेय । अ्यपजासावादरतेउकाइएण नते ! समयखेसे समीहए

या वाहे सेत्रउपयोससूत्तमपिपीकायिकतपोरपु स मरत्त । कातिसामयिकत्त विग्रहेकोरपद्यत ? भौतम । हिसामयिकेस तिसामयिकेसवा
 चतुसामयिकेस वा विग्रहेकोरपद्येत । अय केनार्थेसार्थो पर्यैव रत्तप्रज्ञाया तथैव सप्त श्लेषः । एव यावत्पयोसवादरतेखस्कायिको जदत्त ।
 समयद्वय समवदत्तः समवदत्स्य यो प्रविक्त असुलोकाशेप्रमादना साहस सेत्र उपयोससूत्ततेखस्कायिकतपोरपु स जदत्त । श्लेष तथैव । अ्यपयोस

पुठविकाइत्ताए उववच्छित्तए । अेइ मरिक्क जठसाव चचनाडोनेविये बाहिरवा सेचनेविये अ्यपयोत्तक सूत्तएविपीकायिक पचे अ्यपले । सेवे मति क
 इसमएवर्च भियसेक उववच्छेज्जा । तेइ प्रेममवन् केवसा यमवने विग्रहेबरी अ्यपले इ ए उत्तर । गायमा पुसमहएणवा तिसमहाएणवा चउसमहएणवा
 भियसेक उववच्छेज्जा । जेगोतम केइयमवने विग्रहेबरी अ्यपले तवा तोजसमवने विग्रहेबरी अ्यपले चववा चारसमवने विग्रहेबरी अ्यपले । सेकेचकुच भ
 ते एही अहेव रत्तवप्यभाए तथैव सत्तसेढीए । ते सेएव प्रेममवन् इत्यादिक पचे जिनकीज रत्तमभा पूर्विकीनविये तिमज सातत्रयो प्रकयो । एव जा
 क अ्यपज्जासादर तठकाएव मति समवच्छले समीहए च २ । इम यावत् अ्यपयोत्तक वादर तेखस्कायिक उममवन् समयचवने विये समदुवातबरे क
 रोने । जे मरिय उवठनाय खेतवाकोए बाहिरिसे केले अ्यपज्जाता समुम तेखकाइयताए उववच्छित्तए । जेइमव्य ऊर्ध्वकोक सेचनाडोने बाहिरवा सेव
 नेविये अ्यपयोत्तक सूत्त तेइवकायिक पचे अ्यपले । सबभते सेवं तथैव । तेइ प्रेममवन् इत्यादि श्लेष तिमहीक चइयो । अ्यपज्जासावादर तेठकाइएण भति

समी० जे नाथिए समयखेत्ते अपज्जसायावर्तेउकाइयसाए उवथज्जिआए सेणं जते ! कइसमइएण थिग्ग हेण उवथज्जेजा ? गोयमा । एगसमइएण या दुसमइएण वा तिसमइएण वा विसमइएण वा थिग्गहेण उवथज्जेजा । से केणठेण जते ! अथी जहेय रयणप्पजाए तहेन सप्तसेवीए । एव पज्जसायावर्तेउकाइयसाए थि । वाउका इएसुय अणस्सइकाइएसु जहा पुढवीकाइएसु उवथातिठ तहेव चउक्कएण जेदेण उवथातेयथी । एव पज्ज सायावर्तेउकाइएथि । एएसु चैय ठाणंसु उवथातेयथी । वाउकाइयवणस्सइकाइयाण जहेय पुढवीकाइए

वावर्तत्तवरायिकां महत्त । धमपसेवे समवहत्ता समवहत्त यो प्रविकः समपद्य उपपासवावर्तत्तवरायिकत्तपावर्तुं स प्रदत्त । कासिसामयि केन ावपसेवोत्पद्यत ? गीतस । एकसामयिकनवा विसामयिकन वा विसामयिकन वा वियएखोरपद्योत्त । अथ क्लार्पेन प्रदत्ता । अथी यथेय रयणप्पजाया तथैव सप्त सखय । एव पर्याप्तवावर्तत्तवरायिकत्तपापि । वायुक्कायकपुं च वनस्पतिकायिकेपुं यथा प्राचिनीकायिकपुं उरुपावित

समवहत्ते समाइए सु र । उपरीतववावर्त तेअरवाविक जमग न् समवहत्तत्रिय समदुपातकरे करोग । अ भविए समवहत्ते उपल्लतावावर्त ताठ बाएयसाठ उववज्जितप । अइ सख समयसेवनेबिये अपबीरत्त वावर्त तेअरवाविकपये छपजे । सेवभते कइसमाएव बिसएव उववज्जजा । तेइ सुभ गदन् यतएा समयभविग्गे करी उवजे इ प्र उत्तर । वावसा एमसमएववा दुसमएववा तिसमएववा तिसमएववा उववज्जजा । जौतस यन्माग विक विग्गेकरो वपे वसमरन विग्गेकरो उवप तीतसमयने विग्गेकरो उवजे । सेकवइवं भते पट्टा उवव रववज्जमाठ तइव सप्तसठीए । ते खे पय इमगन् इत्थान्किय अथ अिसकीअ रत्तपमान बिये तिसमान मातय्यइ प्रकया । एव पल्लतावावर्त ताठ वावसायावर्त ताठ वावएणय ववज्जजाएण स जहा पुठोवाएस उववाएथा । इम पयासकवावर्त तेअरका १ पने पचि वाउवाविकनविप वनससायायिअने बिये तिस एविवीवायिअने इवै उरुपाव । तइव उउवइव भदइ उववाएयथा एव पल्लतावावर्त ताठकाएयाव । तिसहाअ वावमद करी उपत्रायना इम पर्याप्तववावर्त तेअरवायि

उत्र्याइत तहेव जाणियही । अणुजासासुजामपुढयीक्राडण जते ! एत्यवि लोगखेतणालीए वाहिरिहे खेहे
 समीहए समी० ले नथिए अहे खेतणालीए वाहिरिहे खेहे अणुजासासुजामपुढविकाहयसाए उयवजिए
 सण जते । कतिसमए ? एव उहुलीगखेतणालीए वाहिरिहे खेहे समोहयाण अहेलीयखेतणालीए वाहि
 रिहे खेहे उयज्यायाण सोचय गमठे गिरयसेसा जाणियही जाउ वापरयणस्सइकाइठे अणुज्जत्तले वायर

कायेउ वतचकम जनेगेरपादियसय्य । एव पयासवावरसज्जकायिकोपि एतपु येय स्वायेपु उरपादियतय्य । वायुकायिकरगतपतिक्रियापि
 क्षाना ययेव पृथिवीकायिक उरपादितसकचेव प्राविसय्यम् । अपयोससूक्ष्मपृथिवीकायिका जदत्त । समुज्जसाकसुप्रमायना धास्य एते समयएतः
 समयइत्य यो प्रविकीपाकप्रमाय्या धास्य इतरेऽपयोससूक्ष्मपृथिवीकायिकतयोत्पत्तुं स प्रदत्त । कतिनामयिक (मण्डलि) एवमुत्तुलाकाय
 नाएना धास्ये इतरे समवपुठानामपयोसोबलप्रमाय्या वास्ये इतरे उरपद्यता स एव गमको निरवयेयी प्रवितय्या यावहुट्टरयवस्वतिकाय एव

नेत्रिये पवि । एसुपुव ठाचेस उरवाण्यत्वा । ण्दोत्र त्रिये स्तानकनविप उयजाववा । वाठकाइय बबअरकाशयाव लडव पुठुवाकाइया उरवाएया त
 वड मावितत्वा । पाज्जकाविज वनस्यतोकायिक निमडोत्र पृथिवीकायिक उयजावको तिमडोत्र जायवा । ययज्जता सडमणुवावाइणय भन पय्यनि
 वागपितवाकोए वाहिरिहे पित समाइए स २ । यययोसक मज्जपविनाकायिक जेभगवन् इहा पवि काकचव भावान वाहिरिना यणनत्रिय सनएतात
 बरे करोने । जेमविण पड पितवाकोए वाहिरिहेजेते ययज्जता उरमपडविकाइताए उववज्जेत्ता । अड भविक मोच अयनाउने वाहिरका यननवि
 ये यययोसक सूक्ष्मपृथिवीकायिकपके जमजे । सेवंसते कइममएण । तड इमगवन् अतसासमथ इत्थाटि । एव उरठुहागलेनवाको उ वाहिरिण येत
 समाइयाव । इम उठुवाक येवनाउने वाहिरना येभनेत्रिये उमहात कोथा । यहेसायसुतवाकोए वाहिरिहे यत उरवज्जवाचं कायेव गमथा थिरव
 सेसा भावियथा । यथाकोब यनगाउने वाहिरना यवनेत्रिये अणुज्जतान तेडोत्र गमा निरवयव समसुपवे कइवा । जाण वायर बपअएवाएया यय

यगस्सइकाइएसु अ्यपज्जत्तएसु उयथाइठं । अ्यपज्जत्तासुज्जमपुढवियिकाइयाण जते ! लोगस्स पुराच्छिमिस्सि चरि
 मते समीहए समी० जे न्निथिए लोगस्स पुराच्छिमिस्सि चरिमते अ्यपज्जत्तासुज्जमपुढवीकाइयत्ताए उयथाज्जि
 त्तए । सेण जते ! कट्ठसमइएण विग्गहेण उव० ? गोयमा ! एगसमइएण वा तुसमइएण वा तिसमइएण
 या विग्गहेण उयथाज्जेज्जा । से केणठेण जते ! एवं खुच्चइ—एगसमइएण या जाय उयथाज्जेज्जा ? एव खलु

यांसको वादरवजसपतिवायिकवपयोसकूपूरयादिता । अपयोससूस्सपुषीवायिको प्रवन्त । सोकस्स पोरस्स्ये चरमात्त समवइत्तः समवइत्त्य
 यो प्रविबो सोकस्स पोरस्स्ये चरमान्तेऽपयोससूस्सपुषीवायिकतयोत्पनु स प्रइत्त । कतिधामयिकम विप्रइयोत्पयेत ? गीतम ! एकधाम
 यिकम वा द्विधामयिकम वा त्रिधामयिकम वा विप्रइयोत्पयेत । अप कनार्थेन प्रइत्त । एवमुच्यते—एकधामयिकम वा यावदुत्पयेत ? एवं

ज्ञत्तया वादरवजसपत्तिकाइएसु उयथाइठं । यावत् वादर वजसतोवायिक अपयोत्तक वादर वजसतोवायिकनेविभे अपयोत्तकनेविभे उ
 पत्तया । पपत्तता सुद्धमपुढोकाइयाव भते वागअ पुराच्छिमिस्सि चरिमते समाइए स २ । अपयोत्तक सूक्खपुढीवायिक इममवन् वाकना पूरणा
 चरमान्तेविभे समइत्त करे करीने । कनदिए लोमअ परच्छिमिस्सि चरिमते अपत्तता सुद्धमपुढोकाइयाव उववज्जित्तए । जेइ भविक वाकना पूव
 ना चरमान्तेविभे अपयोत्तक सूक्खपुढीवायिकपये जपये । सेव भंते कसमइएव विज्जइव उवव । तेइ इमगवन् केतवा समयनेविभे विमुक्केरी
 उयये १ प उत्तर । गारमा एगसमइएववा तुसमइएववा तिसमइएववा विज्जइव उववत्तेज्जा । जेयोतम इवा वाकने चरमति वादरपुषीवायि
 क परवायिक तेज्जवायिक वजसवोवायिक उ महीजे यने सूक्ख तो पविजे वादर वासकायिक तो अपयोत्तक पर्यायिक वेत्तमइकरी एव वारे ज्ञान
 क पनुत्तरवा इवा वाकना पूव चरमान्तेविभे उववतावकाने एकसमइयादि चत्तुऽसमव पर्येतवति सभवे पनुत्तेवि वेत्तेज्जिता उववव
 को पूरणा चरमात्तको ववो इविचणा चरमात्तेविभे उववतावकाने इयादि धामयिको होअ गति पनुत्तचित्ता पमाववशी इम अम्यउ पवि वेत्तेवि

भात् पूवपरमाने उत्पद्यमानस्यैकसमपादिना षतुसमपात्ता गति सम्यस्तनुषेचिविशेषमायात् पूवपरमाणा स्तुन वचिबपरमाने उत्पद्य

? गीयमा । मए सत्त सढीउं प० , तजहा—उजुश्यायता जात्र अष्टश्रक्कात्राजा । उजुश्यायताए सेढीए उव
वज्जामाण एगसमएण विग्गहेण उग्रश्रज्जेजा । एगढंथकाए सेढीए उवत्रज्जामाण दुसमहएण विग्गहेण उग्र
वज्जेजा । दुहठंथकाए सेढीए उवयज्जामाण जे त्रयिए एगपयरसि अणुसेढी उवयज्जित्तए तेण तिसमहएण
विग्गहेण उग्रयज्जेजा । जे त्रयिए विसढी उवत्रज्जित्तए संण षउसमहएण विग्गहेण उववज्जेजा से तेण

एतनु गीतम । मया सत्त मणयः मघसासुअथा-अश्रवायता यावद्वद्वकवासा । अश्रवायताया श्रेस्यामुत्पद्यमान एकसामयिजेम विपुइकोत्प
द्यत । एकतो वक्कायां श्रेस्यामुत्पद्यमानो द्विसामयिकेम विपुइकोत्पद्यत । द्विधावक्कायां श्रेस्यामुत्पद्यमानो या त्रयिक एवस्सिमत्तरे ऽनुग्र
स्यामुत्पद्यु ष विग्रामपिकन विपुइकोत्पद्यत । यो त्रयिको विग्रसामयिकम विपुइकोत्पद्येत ततोनायेन यावदुत्पद्यत । एय

पमना । मनात तेडोत्र कइजे—० अउसमयने विग्गहेकरो वसमयने विग्गहेकरो तीजसमयन विग्गहेकरो छपजे । सेजेवद्वद्व भत एव वुस । ते से मये जेमग
बन् इम कइजा । एमउमए०७था जाव उववज्जेजा । एकसमयन विग्गहेकरो बाकत्त छपजे । एवउतु गाबना मए सत्तमढी प त । इम मिये इगीतम
ने मातयचि मकयो ते कइजे—उजुपावता जाव एइवकवासा । अउपायता यावत् एउवकवासा उतकाकणे कइवा । उज्जपायताए सेढीए उववज्ज
मावे । अउपायत यचिकरो उपवतासवामे । एमसम०७ विपुइक उववज्जेजा । उज्जमयने विपु इग्गहेकरो छपजे । एगपावकाए सेढीए उववज्ज
माव । एकको वकयचिकरो छपजे । दुसमएएव विपुइक उववज्जेजा । जेउसमयने विग्गहेकरो छपजे । दुइथा वकाए सेढीए उववज्जमाव । यभुभेरे व
कयको उपवतासवामे । ज मदिए एमपपरसि पउसेढी उववज्जित्तए । ज मविक एव प्रतरनेविपु यतुयचि छपजे । सेव तिसमहएयं विपुइक उववज्जे
जा । तइ तीजसमयन विग्गहेकरो छपजे । ज मदिए जेसेढी उववज्जित्तए । ज भविक जेसेढी छपजे । उव उउसमहएव विपुइक उववज्जमाव । तेइ वा

मामस्य द्याविशामायिक्येव मति रमुग्रं रसावादेव मत्पत्रापि विधेविभमन इति । एव मुत्यावमचिकत्यैकस्त्रियप्ररूपका इति ७५ तेपामव ह्या

ठेण जाव उवयज्जेजा । एव अयपजाससुजामपुठवीकाडठ लीगस्स पुराच्छिमिहे चरिमते समोहए लीगस्स
पुराच्छिमिहे चेत्र चरिमते अयपज्जसएसु य सुजामपुठवीकाडएसु सुजामथाउकाडएसु अयपजातएसु पजासएसु
सुजामतेउकाडएसु अयपजासएसु य सुजामथाउकाडएसु य अयपजातएसु पजासएसु य थादरवाउ
काडएसु अयपजासएसु य पजासएसु सुजाम थयस्सठकाडएसु अयपजासएसु पजातएसु य थारससुथि ठाणंसु

मयोससूत्सप्राथवीकायिको लोबस्य पीरस्य थरमाने समवइतो लोबस्य पीरस्य वेव थरमाने उपयोसकपु थ सूत्सपुथिवीकायिकपु सु
साय्कायिकेययोसकेपु ययोसकेपु सूत्सतबस्कायिकेययोसकेपु ययोसकेपु थ सूत्सवायुकायिकपु ययोसकेपु थ वादरवायुका
कसुययोसकेपु थ ययोसकेपु सूत्सबनरपतिकायिकेययोसकेपु ययोसकेपु थ हाइइअपि स्यामवेतमेव कसव प्रकित्तव्याः, सूत्सपुथिवीकायिक

रिसमदन विपुदेवते उपवे । सेतेवइव काव इववव्वेळा । तेचेपवे वेनोतम वावत् उपवे । एव अपवत्त सुइमएठथोबारथा । इम अपवर्त्त सूत्सपुथिवी
कायिक । वानथ पुरच्छिमिहे चरिमते समाइव । कावने पूर्वना थरमातने विवे अनुवाग करीने । सायअपुरच्छिमिहे चेव चरिमते अपवत्तएसव सुइ
मपठवीकारणम । कावना पूर्वना थरमातनविदे अपवर्त्तकनेविदे तथा ययोसकने सूत्सपुथिवीकायिकने विदे । सइम थाइकारणस अपवत्तएसु पञ्च
तणस । मअपरकाविकन विदे अपवर्त्तानविदे यवोत्ताने विदे । इहुम तेउकाएणु अपवत्तएसु पवत्तएसु पवत्तएसु पञ्च
पवोत्तकने । इहुमवाउकाएसव अपवत्तएसु पवत्तएसु । सूत्स थाइकाविकनेविदे अपवत्तकनेविदे यवोत्तकनेविदे । वादर थाउकाएएसु अपवत्त
तणस पवत्तएसुय । वादर थाउकाविकनेविदे अपवर्त्तकनेविदे एव एतकनेविदे । सुइम इवअकारणसु अपवत्तएसु पवत्तएसुय । सूत्स बनमतीका
विकनेविदे अपवर्त्तकनेविदे यवोत्तकनेविदे । वादरअविकनेविदे इहुवंचेव कनेचं भाविसव्या । वादरं स्यामवनेविदे इचे यहुकने करी कइथा । सुइम

एरण चैव कमेण ज्ञानियधी, सुजामपुठथीकाइठं पजासठं एव चेत्र निरत्रसेसे वारससुचि ठाणंसु उवथा तेयधी २४ । एव एरण गमएण जाव सुजामयणस्सइकाइठं पजासठं । सुजामयणस्सइकाइठंसु पजासएसु चेत्र ज्ञानियधी ! अणज्जासासुजामपुठथीकाइयाण जंते ! लोगस्स पुरच्छिमिसे चरिमते समोहए समोह० जे नदिए लोगस्स दाहिणिसे चरिमते अणज्जासासुजामपुठथीकाइएसु उवयज्जित्तए सेण जते ! कहसमइ एण विग्गहेण उवयज्जेजा ? गोयमा । तुसमइएण वा तिसमइएण था यउसमइएण था विग्गहेण उवव

पर्याप्त एव चैव निरवसेयेषु द्वावधाद्यपि स्थानद्वयत्वमित्यत्र २४ । एकमेतेन गमकेन यावत्सूक्ष्मवतरपरिकायिकी पर्याप्तकः । सूक्ष्मवतरपर्याप्तकसु पर्याप्तकसु चैव नखिलमव्यः । अपर्याप्तसूक्ष्मपर्याप्तिकीकायिकी प्रवन्त । लोकस्य पौरस्त्ये वरमास्ते समवदन्तः समवदन्त यो नयिकी लोकस्य दासिकास्य वरमास्ते उपर्याप्तसूक्ष्मपर्याप्तिकीकायिकीपुत्र्यनुं च प्रवन्त । कतिवामयिकेन विग्रहेषोत्पद्येत ? गीतम । द्विसामयिकेन वा पठथोकाया पञ्चगथा । सूक्ष्म एविकीकायिकेन विवे पर्याप्तकने । एकपत्र विरवसेसे वारससुचिहासेसु उवथाएवथो २४ । इमकोन निरवसेव वारेइ पत्रिसुवदन्तव्याइएव पञ्चगथसचेव भाविकथो । एतन् वनकथोकायिक पर्याप्तकने विवे नित्ये कथवा । अपञ्चगता सङ्गमपठथोकाइयाएव अते सोमस्य पुरिच्छिमिसे चरिमते समोहए स २ । अपर्याप्तक सूक्ष्म इविकीकायिक देभागवन् कोबला पर्यन्ता परमातनेविये समहातकरे करोने । ये भविए सागच्छ दासिचिसे चरि मते अपञ्चगता सङ्गमपठथोकाइएव उववख्लियए । तेइ मविक कोबला दचिबना चरिमातने विवे अपर्याप्त सूक्ष्म एविकीकायिकनेविये अपणै । सेकभंते कइएवसाएव विस्सुवेवं उववख्लिये । तेइ देभागवन् केतवा समयने विमुदेकरी जपणै इ प उत्तर । गाबमा दूमसइएवथा तिसमइएव वा उववसइएव वा विरवसेवे उववख्लंति । हेगीतम देवमरने विग्रहेकरी तीगससने विमुदेकरी वारससयने विग्रहेकरी जपणै । सेकेवेइवं अते एवं

ज्ञाति । से फेणठेण नंते । एव युच्चइ—एव खलु गीयमा ! मए सप्त सेठींउ पणसत्ताए , तजहा—उज्जुआ
 यता जाय थुत्थच्छायाला । एगठं थकाए सेठीए उग्रयज्जामाणे दुसमइएण विग्गहेण उग्रयज्जेज्जा । दुहउत्तं
 काए सठीए उग्रयज्जामाणे जे नथिए एगपयरसि थुणुसेठी उग्रयज्जिसए सेण तिसमइएण विग्गहेण उग्रय
 ज्जेज्जा । जे नथिए त्रिसेठींउ उग्रयज्जिसए सेण चउसमइएण विग्गहेण उग्रयज्जेज्जा से तेणठेण गीयमा !

त्रिसामपिकन वा चतुस्सामपिकेन वा विग्गहेणोत्पद्येत । अथ केतार्थेन प्रवृत्त । एवमुच्यते—एवं यस्तु गीतम ! मया सप्त सेषयः प्रष्टसाक्षाद्य
 या श्रुतायता यावददुश्चकवासा । एकतो वजापार्थं श्रेया मुत्पद्यमानो द्विसामपिकेन विग्रहकोत्पद्येत । छत्रयतोवकाया अस्यामुत्पद्यमानो
 यो प्रविश्व सकस्मिन्प्रतरेऽनुप्रस्थासुत्पत्तुं स त्रिसामपिकम विग्रहकोत्पद्येत । यो प्रविश्वो त्रिमेस्यामुत्पत्तुं स प्रवृत्त । चतुस्सामपिकेन विग्रहे
 षोत्पद्येत तप्तनार्थेन गीतम । एवमतन गमकेन पौरस्त्ये चरमान्से उत्पादयित्वाभ्यो यावत्सूक्ष्मवत्परपतिक्वायिष पार्थसूक्ष्मवत्परपतिक्वायि

बय । त खे पर्थे हेममवन् इम वद्या । एवचसु भो मए सप्तसठोपा प त । इम त्रिचै हेमोतम मे सातयेवो प्रकपो तेवडेवै—उत्पुपायता ज्ञान
 पश्चत्तमाना एगपावकाय सेठीं उग्रयज्जामाणे । काशुपावता इत्वादि यावत् पश्चत्तमाना विद्या एवकी यत्तवकी उग्रयतावका दुसमइएणं वि
 रगइव उग्रयज्जामाणे । वेकमयेने विग्गहेणोत्पद्येत । दुइपावकाए सठीए उग्रयज्जामाणे । वेइकी वात्तयेवकी उग्रयतावका । केमविए एगपयरसि चए
 मठी उग्रयज्जामाणे । जे मथिक एव प्रतरने त्रिये चतुस्सामपिकेन उत्पद्येत । मेष तिसमइएण विग्गहेणं उग्रयज्जेज्जा । तेइ तीन समयेवकी विग्गहेणोत्प
 द्ये । केमविए इमेठीं उग्रयज्जामाणे । जे मथिक वेत्तिचिठेवकी उत्पद्येत । येण चउसमइएणं चित्तमइएणं उग्रयज्जेज्जा । तेइ चारसमयेने विग्गहेणोत्पद्येत ।
 मेतवइवं भावमा एव एववं गमयए परिक्खिमिहे चरिमते उग्रयज्जामाणे । तेचै पर्थे हेमोतम इम इवै पासायेवकी पुंवेने चरिमातने उग्रयज्जामाणे । ज्ञान
 उग्रम इवच्छाकारा । यावत् सूक्ष्मवत्परपतिक्वायिक्कते । एवचससुम इवच्छाकाराएव चैव सत्तयेसुं दुसमइएण । पार्थोत्तव सत्तम वत्तमतीक्वायिक्कतेविद्ये

एरण गमएण पुरिच्छिमिहे चरिमते उययातेयधी जाव सुज्जमयणस्सहकाइठे, पज्जत्तिसुज्जमवणस्सइकाइ
 एसु चेष सवेसि दुसमइठे तिसमइठे षउसमइठे विग्गही जाणियधी । अयज्जत्तोसुज्जमपुठवीकाइएण न
 ते ! लीगस्स पुरिच्छिमिहे चरिमते समो २ जे ज्ञाविए लीगस्स पञ्चिच्छिमिहे चरिमते अयज्जत्तिसुज्जमपुठ
 वीकाइयसाए उवयज्जिअए सेण ज्ञते ! कइसमइएण विग्गहेण उवयज्जेज्जा ? गोयमा ! एगसमइएण या दुस
 मइएण वा तिसमइएण वा षउसमइएण वा विग्गहेण उवयज्जेज्जा । से केणठेण एव जहेय पुरिच्छिमिहे

कपु चेव सर्वेपा द्विधामयिकविशामयिकयनुस्वामयिको विग्रहो नञित्तथो उपयोसूत्तमपुपिवीकायिको प्रदत्त । लोकास्य पौरस्त्ये परमात्मे
 समवदत्तसमवदत्तयो जयिको लोकस्य पाथास्य चरमात्त उपयोसूत्तमपुपिवीकायिकवतयोत्पनु स नदत्त । कति सामयिकान विग्रहेषाल्पयो
 त ! गौतम ! एकसामयिकेन वा द्विसामयिकेन वा त्रिसामयिकेन वा चतुस्सामयिकेन विग्रहोत्पद्यत । अप कनार्थमेव पथैव पौरस्त्य चर

पर्याप्तानि विपे सबनविपे वेसमच्चि । तिसमइथा षउसमइथा विग्रमइथा भाच्चियत्ता । दोनसमयिक चारसमच्चिकता विगुह जायथा । अपज्जता सडुम
 पठवीकाइएठं भते लीमच्छ पुरिच्छिमिहे चरिमते समा २ । अपर्वात्तस सूत्तमपुठवीकायिक वेसमइएण एवमात्तानविपे समहात करे क
 रोने । जेमविण कानस्य पचच्छिमिहे चरिमते अपज्जत्त सुत्तमपुठवीकायिकताए उवयज्जिअए । ते मच्चि कान्ता पयिमता चरिमात्तेविपे । अपज्जत्त
 सडुमपठवीकाइयाताए उवयज्जिअए । अपर्वात्त सूत्तमपुठवीकायिक पच अपजे । सेक भते चारसमइएठं विग्रहेषं उवयज्जेज्जा । तेइ वेसमइएण केतथा
 समवत विगुहेकरो कप्येइ म उतर । माअमा एगसमइएठवा दुसमइएठवा तिसमइएठवा षउसमइएठवा विग्रहए उवयज्जेज्जा । वेगीतम एव
 समवते विगुहेकरो वेसमयने विगुहेकरो दोनसमयने विगुहेकरो चारसमयने विगुहेकरो अपजे । सेकेवडुव एवं कइए परिच्छिमिहे चरिमते समाइया ।
 ते से पठे वेसमइएण इत्थादि इम विमचीक पूवना चरिमात्तेविपे समुहात करो । पुरिच्छिमिहे चर चरिमते उवयज्जिअथा । पूवने भिये चरिमात्तने विपे

चरिमते समोहया पुरच्छिमिह्वे चैव चरिमते उयथातिया तहेत्र पुरच्छिमिह्वे चरिमते समोहया पञ्चच्छि
 मिह्वे चरिमते उयथातियह्या । सहे अयज्यसासुजामपुठयीकाइएणं नते । लीगस्स पुरच्छिमिह्वे चरिमते स
 मोहए समो० जे नधिए लीगस्स उत्तरिह्वे चरिमते अयज्यससुजामपुठयीकाइयसाए उवय० सेण जते !
 एयं जहा पुरच्छिमिह्वे चरिमते समोहए दगहिणिह्वे उयवाइठ सहा पुरच्छिमिह्वे समोहए उह्वरिह्वे चरिमते

मात्ते समवइतः पौरस्से चैव चरमाग्ते इत्यादिता स्सयेव पौरस्से चरमात्ते समवइतः पाथात्ते चरमाग्ते इत्याइयितव्या । सर्वे अपयोस
 भूस्सपुचिधीकायका नइत्त । लोक्कस्स पौरस्से चरमाग्ते समवइतः समवइत्स यी अक्किको लोक्कस्सोत्तरीय चरमान्तऽपयोसभूस्सपुचिधीका
 यिकतपोरपपुं स नइत्त । एवं यथा पौरस्से चरमाग्ते समवइती दादिषात्ते इत्यादिता सथा पौरस्से समवइत भोहरिये चरमात्ते इत्या
 इयितव्या । अपयोसभूस्सपुचिधीकायिका प्रवत्त । लोक्कस्स दादिषात्ते चरमात्ते समवइतः समवइत्स यी अक्किको लोक्कस्स दादिषात्ते चर

अपवाया । तहेत्र पुरच्छिमिह्वे चरिमते समोहया । किमशेषं पूवणा चरमात्तेनिये समुदुवात करोने । पञ्चच्छिमिह्वे चरिमते उयवाएवव्या । पचिम
 ना चरिमात्तेनिये अपवायया । एवं अपव्वता सुभुमपठोकाइएवं भेते खोगच्छ पुरच्छिमिह्वे चरिमते समाइए २ णा । एवं अपयोस भूस्सपुचिधीका
 विक्क इममवन् आकना पूर्वणा चरमात्तेनिये समुदुवात करे करोने । जे मविय आनच्छ कत्तरिह्वे चरिमते अपव्वत्त सुभुमपठोकाइएवाए उवय ।
 जेव मविक आकना कत्तरना चरिमात्तेनिये अपयोसव भूस्सपुचिधीकायिकपये अपपये । एवंभते एवं कइतापुरच्छिमिह्वे चरिमते समाइपो । तहेत्र इममव
 न् इम त्रिम पूवणा चरमात्तेनिये समुदुवात करोने । दादिषिह्वे उयवाइया तथा पुच्छिमिह्वे समाइपो । दादिषज्जे चरिमात्त अपवाव्यो तिम पूर्वणि
 चरमति समुदुवात करोने । कत्तरिह्वे चरिमते उयवाएवव्यो । कत्तरना चरमात्तेनिये अपवायया । सुभुमपठोकाइएवावं भेते खोगच्छ दादि
 षिह्वे चरिमते समाइपो ३ । अपयोसव भूस्सपुचिधीकायिक इममवन् लोक्कना दादिषज्जे चरिमात्त अपवाव्यो । जे मविय आनच्छ दादि

उयथाएयध्वी । अथज्जासासुक्कमपठवीकाइयाणं जते । लीगस्सं दाहिणिस्से चरिमते समोहत्तं समीह० जे
 न्निपिए लीगस्सं दाहिणिस्से चरिमते अथज्जासासुक्कमपठवीकाइयत्ताए उयथाएयध्वी एव जहा पुरिच्छिमिस्से
 समीहत्तं पुरिच्छिमिस्से चैव उयथातित्तं तहेय दाहिणिस्से समीहत्तं दाहिणिस्सेचैय उयथाएयध्वी तहेय णिरय
 सेस जाय सुक्कमवणस्सइकाइत्तं पज्जासत्तं सुक्कमवणस्सइकाइत्तं सुक्कमवणस्सइकाइत्तं सुक्कमवणस्सइकाइत्तं उवथा
 इत्तं एव दाहिणिस्से समीहत्तं पञ्चच्छिमिस्से चरिमते उयथाएयध्वी , णयर तुसमइए तिसमइय चउसमइत्तं

माभन ऽपयांसुस्सपुयिधोकायिकतपोरपुत्तु मय यथा पौरस्य चरमान्ते समवहत्तः पौरस्य चरमान्ते समवहत्तः एतच्चैव दाहिणारहे सुम
 वइती दाहिणारहे चैवोरपादपितव्यस्तथैव निरावस्य यायत्सुस्सत्रस्यतिकायिकः पयासक सुस्सत्रस्यतिकायिकेषु चैव पयासकपु दाहिण
 एय चरमान्त उरपावित एत दाहिणारहे समवहत्तः पाद्यात्य चरमान्ते सत्यादयिसत्थीः णयर द्विसामयिक्कयिसामयिक्कपुत्तुसामयिको विग्रहः

दिक्किं चरिमते पपञ्जता सङ्कमपठवाकाइयाणं उयवस्सितए । एव भविक सोवता वचिपना चरमांतनविपे पपवसिक्क मूक्क पुयिधोकायिकपने
 उयत्तै । एव जहा परच्छिमिस्से समाइया परच्छिमिस्से च उववातिपा । इम चिम पूवता चरमांतनविपे समुदुवात करे चरोत्त पूवता चरमांतने नि
 पे उयत्तया । तहेव दाहिणिक समाइया दाहिणिके चैव उववाएयत्ता । तिसमोत्त वचिपन समुदुवात चरोत्त उयत्तयावती । तहेव
 निरवसेसं जाव सङ्कम वचिपकाराया पज्जातया । तिसमोत्त निविशय यावत् मूक्कमवणस्सताकायिक पवसिक्क । सङ्कमवणस्सकाराएसु चैय पञ्जनाएव ।
 मूक्कमवणस्सतोकायिकने विपे निचे पवसिक्कने विपे । दाहिणिके चरिमते उववाएयत्ता । एयिक्कने चरिमते उयत्तयावता । एवं दाहिणिकेन समाइया ।
 इम वचिपन समुदुवात करीत्तै । एव वचिपने चरिमते उववाएयत्ता । ययिमसे चरमांतं उयत्तयावता । चरर तुसमइए तिसमइए चउसमइया
 विप्यथा सयत्तचैय । एतथाविगीम वेवमविक तोत्तमविक चारिसमविकने विग्रहे मय तिसमोत्त चरवा । दाहिणिकेन समाइया उयत्तए चरिमते उव

यिगगही सेसं तहेत्र दाहिणिसि समोहठ उप्तारिसि चरिमते उवयाएयही जहेय सठाणे तहेत्र , एगसमडय
 दुसमडय तिसमडय चउसमडय यिगगही पुरच्छिमिसि जहा पञ्चच्छिमिसि तिसमडय तिसमडय पञ्च
 च्छिमिसि चरिमते समोहयाण पञ्चच्छिमिसि उवयजामाणाण जहा सठाणे उप्तारिसि उयवजामाणाण एगसम
 डउ यिगगही णल्य सेस तहेत्र । पुरच्छिमिसि जहा सठाणे । दाहिणिसि एगसमडठ यिगगही णल्य सेस
 तहेत्र , उप्तारिसि समोहयाण उप्तारिसिचेत्र उयवजामाणाण जहा सठाणे उप्तारिसि समोहयाण पुरच्छिमिसि

यय तयेव दाहिणस्य समवइत औत्तरीय चरमाने उत्पादयितव्यो ययेव स्यात्तु तर्षेयैकसामयिकद्विसामयिकचतुस्वामयिकद्वि
 एव पौरस्य यया पायास्य तयेव द्विसामयिकत्रिसामयिक पायास्ये चरमाने समवइतामां पायात्यवत्ययमानां यथा सस्यान भीष
 राय उत्पद्यमानासकसामयिका विप्रही मासि श्रेयं तयेव । पौरस्ये यया सस्याने दाहिणस्य एकसामयिकोदियही मासि श्रेयं तयेव

ययतडा जडव सडाक तडव । दक्षिण समदुवातं करोने उत्तरा चरमातनेविषे उपजावथो बिमडोल सस्याने तिमडोल । एगसमडय पुसमडय ति
 मडय चउसमडय विमडा पुरच्छिमिसि जहा पचच्छिमिसि । एकसमडिच वेसमडिच तीजसमडिच चारसमडिच विनुइ पूर्णा बिम पचिमना चर
 मने । तहेत्र दुसमड तिसमडय पचच्छिमिसि चरिमते समाइयाच । तिमडोल यसमडिच तीजसमडिच पचिमना चरिमातनेविषे समदुवात करोमी ।
 पच एक मड उउवस्यमावाचं जडा सडाचे उत्तरिसि उववस्यमावाच । पचिमना चरिमातने उपजताने बिम सस्याने उत्तरने उपजतावसाने । एगसम
 डया विमडा कलि सेस तहेत्र पुरच्छिमिसि जडा सडाचे । एक सामडिच विनुइ मथो येप तिमडोल पूवने बिम सस्याने विषे जडा तिम । दाहिचि
 च पचसमडया विमडा कलि सर्वं तडव । दक्षिणमडिच एक सामडिचमो विगड मथो यय तिमडोल जडवा । उत्तरिसि समाइयाचं कतरिसि येव उवव
 यमावाचं जडा सडाचे उत्तरिसि समाइयाचं । उत्तरने समोहयाचीने उत्तरने निषे उपजतायकाने जिन सस्याने उत्तरन समाइतने । पुरच्छिमिसि

उद्यत्जमाणाण एवधेय णयर एगसमइठं धिग्गहो णत्थि, उत्तरिखे समीइयाणं वग्हिणिखे उववज्जमाणाण
जहा सठाणे, उत्तरिखे समीइयाण पञ्चच्छिमिखे उववज्जमाणाण एगसमइठं विग्गहो णत्थि सेस तहेव जाय
सुज्जमथणस्सइकाइठं पज्जसठं सुज्जमथणस्सइकाइएसु पज्जसठएसु चेय । कहिण भत्ते ! वावरपुठवीकाइयाण

श्रीतरीय समयइतानामुतरीये वेवोत्पद्यतां यथा स्वस्थाने उत्तरीये समवइतामा पीरस्सये उत्पद्यतां एव वैव नवरमेकसामयिको विग्रहो ना
स्ति श्रीतरीये समवइतानां दण्डिणस्सये उत्पद्यतां यथा स्वस्थाने श्रीतरीय समवइतानां पापारय उत्पद्यमानामकसामयिको विग्रहो
नास्ति इय तथैव यावत्सूस्मवमरपतिक्कायिक पर्याप्तक सूस्मवमरपतिक्कायिक्यु पर्याप्तक्यु चेय । इ प्रवत्त । वावरपुचियीक्कायिकानां स्या
मानि प्रप्रसानि ? गौतम ! स्वस्थानेनाएसु पुचियीसु यथा स्थानपरै (प्रच्छापमाया द्वितीये) यावत्सूस्मवमरपतिक्कायिका य च पर्याप्तका य

उववज्जमाणाण एवधेय । पूवन उपज्जताज्जान इमहोक्क । वावर एगसमइथा विग्रहो भत्ति । एतक्कावियेव एवसामसिक्क विमुइजनको । उत्तरिक्क समाइ
वाधं इत्थिक्क उववज्जमाणाण कइया सइयाये । उत्तरने समीइतन इत्थिक्कने उपज्जताज्जाने द्विम स्वस्थानविधे कइया तिम कइवा । उत्तरिक्के समाइया
न एवधेयानिक्क विमुइजनको मय तिमहोम कइवा यावत् सूस्म वज्जतोक्कायिक पर्याप्तक । सुइमववच्छइकाइएसु पक्कतणसु चेव । सूस्म वज्जतोक्कायि
कनविधे पर्याप्तकनविधे निक्कये इत्थादिक्क प्रवत्त इम इत्थाए धरिक्कार करीन एवेन्निइक्क प्ररूपवाकोधो धिवे एकग्रियेव स्वानादि प्ररूपयनिपर्ये क
रथे—उत्थिक्क मत्ते वावर पठवोक्काइयाक्क ठाका प । विक्का इममवम् वावर पुचियीक्कायिक पर्याप्ताना स्वानक प्ररुवा इ प्र उत्तर । गाससा सइया
रथं उइम पठवोस कइया ठाकापर्ये काव सुइमववच्छइकाइया । हेजेतम स्वस्थानक पातानास्वान जिक्का वावर पुचियीक्कायिक रथे तिल्ले पाचयोनि इ
स्व तंइ पाठ पुचियीनेविधे वे द्विम परववागा बोजा स्वानपर्येविधे कइया तिस कइवो ते इम—तं एवधेयभाए सक्कएयभाए वासुएययभाए इत्थादि,

आदिप्रपञ्चपादा-कश्चिदितित्यादि ० सहायेकति ॥ अस्वान पत्रासे वाहरूपिणीकायिक स्तौन स्वास्थानेन अस्वानामसाश्रित्येत्यर्थः ॥ कदा ठायप
 इति ० स्वानपद ॥ प्रजापताया द्वितीयापद तासैव-तज्ज्ञा रयवप्यज्ञाय सङ्करप्यज्ञाय इत्यादि ॥ एग्यिदिति ० एकमकार एव प्रक
 तस्त्वानामादिविचारमपिकस्योपतः ॥ अविसेसममाकति ० अविद्याया विशुपरहितः यथा पर्याप्तता सायेवतरपि ज्ञानानात्वा नानात्वयस्त्रिजाः
 येववापारपूर्णाकाशप्रदस्यत्वे तद्यवतरेपीत्यर्थः ॥ सुश्लोपपरिपावञ्चति ० उपपातसमुद्घातस्त्वानैः सर्वलोका वर्तन्ते इति ज्ञायना तन्नीपपाठ

ठाणा प० ? गीयमा ! तठाणेण सुठसु पुढवीसु जहा ठाणपडे जाय सुज्जमवणस्सठकाडया जे य पज्जाता
 जं य सुपज्जसा त सहे एगयिहा सुयिसंसा ते सहे एगविहा सुयिससमणाणसा सुवलोगपरियायसा प०,
 समणाउत्तो ! सुपज्जसासुज्जमपुढवीकाइयाण भत । कइकम्मप्पगणीठे प ? गीयमा ! सुठ कम्मप्पगणीठे

चापयोप्तकासे नव पकाविया अविशेषा सा सर्वे एकविधा अविशेषा अज्ञानात्वाः सर्वलोकापर्यासा प्रकृताः अमर ० चापुसम् । अपयोप्तसू
 त्मपुपिणीकायिजामा तद्वत् । कति कमप्रकृतीः प्रकृताः ? गीतम । अष्टौ कमप्रकृतीः प्रकृतासाद्यया-ज्ञानावर्णीयं यावत्तराय एव चतुभक्ते

यावत् मरुमरुतमन्त्रतोकादिह । वेपयता जेय उपयताते सये एगविधा अविशेषा । त्विने पर्याप्ता त्विने पर्याप्ता ते सगसाह एकमकार शीह म
 कति पस्यानादि विचार मन्त्रिचारकरो पातकको पनियप ककती वियेपरहित तिम पर्याप्ता तिम पर्याप्ता । तेसये एगविधा अविसेसम चायता
 माहनामयटिवाक्या पयता । पयानति, नागालककती सेववचिन तेह चाधारसूत पाचाय एकव्ययेनेविधे पर्याप्तात्वे तिचिदोचने विये अपर्याप्ता
 पचिदे इत्यथ उपायत समनृपात अस्वानिकरो १ सवनाकने बने पत्ते इति भावना तिचि उपायत ते उपायताभिमुख समदृशात इकी आरवातिकादि
 पयानता त्विचि इहे ते २ । समनाकसा । हेअसथ पातुसम् । उपयता सुहमपुढीकाववाच मन कइकम्मपनकोपाय । अपर्याप्ता सुहमपुढिबोका
 विचन इमपदम् केतको कमप्रकृति प्रकृती इ म उत्तर । योवना पइकम्मपयकोपाय त । हेगीतम पाठ कमप्रकृति प्रकृती तक्कहे-वाचारावरवि

उपपातान्निमुखं मनुष्यात् इह मारुत्यान्निवादिः स्वस्वाभ नु पत्र ते आसते समुद्रात्सपूर्वे वसविषयसमुच्चारति ॥ यदुक्तं तद्वायुर्वायिकात्मा स्थित्ये

प, त-णागाथरिण्डा जाय श्यतराहय । एव चउक्ताणुण नेदेणं जहेय एगिदियसएसु जाय वायरवणस्सइ
काहयापजासुगण । श्यपजासासुक्रमपुठुयीकाडयाण जते । कडकम्मीप्यगनीउ वधति २ गोयमा ! सस्रथि
ह्यथगाथि श्यठयिह्यधगाथि जहा एगिदियसएसु जाव पजासावायरवणस्सइकाहया । श्यपजासासुक्रम
पुठुयीकाहयाण जते ! कइ कम्मप्यगनीउ वेदेति ? गोयमा । चउइस कम्मप्यगनीउ वेदेति, णाणाथरोग

न जदेन ययेवेकेन्निपयु मावदुदरवणरपत्तिवायिकापर्यासकाणाम् । अपर्याससुस्मपुपिबीकायिका जवन्त । कति कसठ्ठीयधन्ति ? गीतम ।

सप्तविषयपका अपि वसुविषययका अपि ययेकेन्निपयथात यावत्पयासकादरवणरपत्तिवायिकाः । अपर्याससुस्मपुपिबीकायिका जवन्त । कति
कसमसुतो वेदपत्ति ? गीतम । यदुइश कसमसुतोवेदपत्ति प्राणावरणीय ययेकेन्निपयसत पावदुपुठपयववथम् । एवं दादरवणरपत्तिवायि

न प्राण येतराहय एवं वसुवएवं भेदये कइव एमिदियसएसु । प्राणावरणीय इत्यादि यावत् यन्तराय एतकाहगे कइवा इम यदुस्वभेदरो जिमसोज
वकेन्द्रिणा मतकनेविवे । जाव वावरवणरपत्तिवायिकाः यथावत् वावरवणरपत्तिवायिका यथावत् पयासकाः यथावत् प्राणात्ति कइवा तिम कइवा । अपज्जता सइमपुठुवी
कारयाप भेते कइकथपगणेया वसति । एतकारत सूयुम वृत्तिबीकायिक इभगवन् कतकोकसमसुति वधे ए प्र कतर । मावसा सगविइ वधमावि
यदुइइइगावि जहा एमिदियसएस जाव पज्जता वायरवणरपत्तिवायिका । जेनीतम सातभदे कथक पविइवे पाठभदे कथक पविइवे इत्यादि जिम
वकेन्द्रिणा मतकनेविवे कइवा तिम इहा पवि कइवो यावत् पर्याप्तक वादरवणरपत्तिवायिक एतकाहग कइवा । यपज्जतासइम पुठुवीकारयाप भेते
कइकथपगणेया वदेति । एपर्याप्तक सूयुम वृत्तिबीकायिक इभगवन् कतको कसमसुति वेदे इ म कतर । गायसा वउइस कथपगणेया वदेति । जे
गीतम बोदे कसमसुति वदे । वावावरपिज्ज जहा एगिदियसएसु जाव पुंसिसेवेइइअ । प्राणावरणीय इत्यादि जिम एकेन्द्रिय मतकनेविवे कइवा यावत्

ति ॥ एकस्त्रिंशत्तरेण प्रकृत्यात् ॥ शर्मदियात् ॥ तुल्यस्वितिकात् परपरपद्यया समानाया इत्यर्थे ॥ तुल्यवि
 शेषादिप कम्म पक्करोति ॥ परपरपद्यया तुल्येन विश्वेना सकृन्नागादिना उपि क पूर्वकास्यदुक्तस्योपद्यया अपि कतरं तुल्यविशेषाधिक कर्मे

जं जहा एगिदियसएसु जाय पुरिसवेववसु । एव वावरथणस्सहकाइयाण पज्जत्तगाण । एगिदियाण जने ।
 कउ उअयज्जाति किं णेरइएहिती उववज्जाति जहा वक्खतीए, पुठवीकाइयाण उवथाउ । एगिदियाण जत ।
 कउ समुग्घाया प ? गोयसा । चत्तारि समुग्घाया प त-वेयणासमुग्घाए जाय वेउच्चियसमुग्घाए । एगिदि
 याण जत । कि तुल्लठितीया तुल्लठितीया वेमायथिसेसाहिय कम्म पक्करोति, तुल्लठितीया वेमायथिसेसाहिय कम्म पक्करो

कारो पयोसकानाम् । एवेन्द्रिया मवन् । कुत उरपद्यन्ते कि नेरियिकन्त्य उरपद्यन्ते यथा कुतकान्तिके एयिवीकायिकामामुत्पादः । एकेन्द्रिया
 यो मवन् । कति समुद्घाताः मयसाः ? भौतम । चत्वारः समुद्घाताः मयसाकाद्या-वेदनासमुद्घातो पाषण्डिकपसमुद्घातः । एकस्त्रिया जदन् ।
 कि तुल्यस्वितिकास्तुत्यविशेषाधिक कर्मे प्रकुर्वन्ति तुल्यस्वितिका विभाजविशेषाधिक कम्म प्रकुर्वन्ति विभाजस्वितिकास्तुत्यविशेषाधिक

पक्करोति इत्येतदर्थे कथं । एव वावरथणस्सहकाइयाए पज्जत्तगाए एगिदियाए मते कथा उववज्जाति । इम वावर बनरपताकाजिकन पवीटानि
 कथा एवेन्द्रियेने हेमपवन् विद्यायो लपन्ते । कि वेरइएहिता उववज्जाति । एव वावरकोइको लपन्ते । कथा वक्खतीए पुठवीकाइयाए उववज्जाया । किन्त
 पयवज्जाता स्वरकान्तिक पदेनिये एवेन्द्रियता उपपात कथा तिम कथा । एगिदियाए मते कथा उववज्जाया प । इहा पवि एवेन्द्रियेने हेमपवन् केत
 वा यन्हात प्रपूया ए म कतर । माकमा चत्तारि समुग्घाया प त । हेगौतन चारवमहात मरूणा तेकइके—वेववायमग्घाए जाव वेउच्चियसमु
 ग्घाए । वेदनासमुद्घात इम वावरत् वेच्चियसमुद्घात उ ए चार कथा । एगिदियाए मते कि तुल्लठितीया तुल्लठितीया इमपवन् ए तुल्ल
 थितिक माशमादिनी पपथावे समान पाज्जत्तगाए परपरतो पपेथावे उरोको विसेयाधिक पयज्जेव मागादिक्करो पधिक पूर्वकाक उरकम्म

पानापर्यादि प्रकृष्टेति इति । तथा तुल्यस्थितयोः विमात्रोऽन्वोत्पायेषया विपमपरिमात्रः कस्याप्यव्युत्पन्नगत्या
ऽन्वस्य सर्वेषुपन्नगतयो यो विशेष एतापि पूयकासयुक्तमपि प त तथा २ । तथा ३ वेमायच्छिद्यति ४ विमात्रा विपममात्रा स्थिति ए

ति, वेमायच्छितीया तुल्यविसेसाहियं कम्प पकरेति, वेमायच्छितीया वेमायविसेसाहिय कम्प पकरेति ? गो
यमा । अत्येगद्वया तुल्यच्छितीया तुल्यविसेसाहिय कम्प पकरेति, अत्येगद्वया तुल्यच्छितीया वेमायविसेसाहिय
कम्प पकरेति, अत्येगद्वया वेमायच्छितीया तुल्यविसेसाहियं कम्प पकरेति, अत्येगद्वया वेमायच्छितीया वेमा

कम्प प्रकृष्टलि विमात्रस्थितिका विमात्रविशेषापिक कम्प प्रकृष्टलि ? नीतम् । सम्यक् कम्प तुल्यस्थितिकास्तुल्यविशेषापिकं कम्प प्रकृष्टलि,

एक कम्प तुल्यस्थितिका विमात्रविशेषापिक कम्प प्रकृष्टलि एक कम्प विमात्रस्थितिकास्तुल्यविशेषापिकं कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पपचये परिशर । तुल्यताया कम्प पकरेति । तुल्यविशेषापिक कम्प प्रकृष्टलि ? नीतम् । सम्यक् कम्प तुल्यस्थितिकास्तुल्यविशेषापिकं कम्प प्रकृष्टलि,

प्रकृष्टलिनाय विपमाहिय कम्प पकरेति । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

भागद्वये विपमपरिमात्रे विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि । तुल्यस्थितिक यनाय कम्प पपचये विपमपरिमात्रे कम्प प्रकृष्टलि, एके कम्प

पु र्दया ते त्रिमास्यस्थितयो विषमायुषा इत्यथः ॥ तुल्यविषुसाङ्घियन्ति ॥ तच्चैव ष म्ब चतुर्षीषि ४ ७ तत्त्वञ्च जे ते इत्यादि ॥ समाउया समीषवषण

ययिमसाहिय कम्म पकरेति । से केणठेण जते ! एव बुच्चइ-अत्येगइया तुल्लिठितीया जाव वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति १ गीयमा । एगिदिया चउल्लिहा प, त-अत्येगइया समाउया समीत्रयणगा जाय अत्येगइ या त्रिमसाउया त्रिसमीत्रयणगा, तत्यण जे ते समाउया समीषवषणगा तेण तुल्लिठितीया तुल्लिठितीया तुल्लिठितीया कम्म पकरेति १ । तत्यण जे ते समाउया समीत्रयणगा तेण तुल्लिठितीया वेमायविससाहिय कम्म पकरे

विषयस्थितिका विमात्रविशेषाधिकं कम्म प्रकुवन्ति । अथ कनार्चन प्रदत्त । एवमुष्यते-एके केवल तुल्यस्थितिका पावविषयविशेषाधिकं कम्म प्रकुवन्ति १ नीतम् । एकन्द्रिययानुविधाः प्रज्ञासालक्षणा-एके केवल समायुषा समापयवत्वा यावदकं कचन विषमायुषा विषमापय यथा तत्र प त समायुषा समापयवत्वास्त तुल्यस्थितिकास्तुल्यस्थितेः पाधिकं कम्म प्रकुवन्ति १ । सत्र ये समायुषाः समीपयवत्वास्त तुल्यस्थि

माणक विषममात्र स्थितिक विषममात्र विषयपाधिक कम्मवधि ४ । येकेषुपुत्र भते इव बुद्धा । ते खेपेके ईमववदु इम कक्षा । आरोगेगइया तुल्लिठिडा जाव वमाय विदसाहिय कम्म पकरेति । वेतथापक तुल्यस्थितिक इत्यादि सावत् विषममात्र विषयपाधिक कम्मवधि ६ म उत्तर । गीयमा एविसिद्धिवा चउल्लि हा प त । नीतम् एकेन्द्रिय आरोगेके प्रकव्या तेकइके-एरोगेगइया समाउया समाववषणगा अने समसाहिलेण छपना इ त्यादि । जाय परवषणगा विषममात्रया विषमोववषणगा । जावत् वेतकाणक विषमायुष विषमछपना पत्तयाकमे कइया । तत्त्वञ्च जेते समाउया समावव षणा तत्र तुल्लिठिया तुल्लिविषयपाधिक कम्म पकरेति १ । तिहा जइ समपाउयापत्त समछपना तेइ समस्थितिक समछपपके करो परकरे कमात्रया य पचावको उरोया महील कम्मवरे तेइ पम कम्मपपेसादे एम पववा नीम पववा पचिइ कम्मवरे जा पचिइ ता विषेयाधिक । तत्त्वञ्च जेते समाउया समाववषणगा तेच तुल्लिठिया वेमायविषेसाहिय कम्म पकरेति १ । तिहा जइ समाउय समछपना तेइ तुल्यस्थितिक पचि विषम छपपपके करो या

गति ॥ समस्थितय समबन्धमवोत्पन्ना इत्यर्थः, एते च तुल्यस्थितयः समोत्पन्नत्वात् परस्परं च समानयोगत्वात् स्वमानमेव कर्म कुर्वन्ति ते च पूव
 कर्मापवया सम या हीन वा ऽपि न वा काम कुर्वन्ति यद्यपि क तदा विद्यापाधिकमपि त ॥ परस्परत सुस्त्यविद्यापाधिक न तु विद्योपाधिक
 मेव इत्यत उच्यते-तुल्यविद्यापाधिकमिति १ । तथा ये समाप्तयो विपमोपपन्नका एत तुल्यस्थितया विपमोपपन्नत्वात् च योगवैपम्या द्विसमाश्रित्य
 पाधिकं कर्म कुर्वन्तीति २ । तथा ये विपमापुयः समोपपन्नका एते विमात्रस्थितयः समोत्पन्नत्वात् च समानमागत्या तुल्यविद्योपाधिक कर्म कुव
 न्तीति ३ । तथा ये विपमापुयो विपमापपन्नका एत विमात्रस्थितयो विपमोत्पन्नत्वात् च यागवैपम्येन विमात्रविद्योपाधिक कर्म कुर्वन्तीति ॥ चतु

ति २ । तद्यथा जे ते विसमाउया समोवययुगा तेण वेमायठितीया तुल्यत्रिसेसाहिय कम्म पकरेति ३ ।
 तद्यथा जे ते विसमाउया विसमोवययुगा तेण वेमायठितीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति ४ । से
 तेणठेण गीयमा ! जाय वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति सेव जते २ । ति जाय विहरइ ॥ ३४ ॥ १ ॥

तिहा विमात्रविद्योपाधिक कर्म प्रकुर्वन्ति २ । तत्र ये विपमापुष्काः समोत्पन्नत्वात् विमात्रस्थितिकास्तुल्यविद्योपाधिक कर्म प्रकुर्वन्ति ३ । तत्र
 य विपमापुष्काविपमोत्पन्नत्वात् विमात्रस्थितिका विमात्रविद्योपाधिक कर्म प्रकुर्वन्ति ४ । तन्नार्थेन नीतम् । यावद्विज्ञपापिक कर्म प्रकुर्वन्ति
 तदा विपमपत्ता क्वो वेमात्र विद्योपाधिक कर्मकरे । तत्र च जते विसमाउया समानत्वात् तत्र वेमात्रविद्या तुल्यविद्योपाधिक कर्म पकरेत् १ । तत्र
 जेह विपमापुष्क समान्यतेह वेमात्र स्थितिच समान्यपपचे करी समानत्वात् पक्षात्कौ तत्रचविद्योपाधिक कर्मकरे । तत्र च जेहे विसमाउया विसमाव
 यगा तेच वेमात्रविद्या वेमात्रविद्योपाधिक कर्म पकरेति ४ । तत्रा जेह विपमापुष्क विपम अपत्ता तेह विपममात्र स्थितिच विपमापुष्कपत्ता यको वेमा
 त्रविद्योपाधिक कर्मकरे । स तेचठेन गायमा जाय वेमात्र विद्योपाधिक कर्म पकरेत् । ते तत्रेपयेह नीतम् यावत् विमात्र विद्योपाधिक कर्मकरे एतत्सास
 ने कइया । सेवभते २ ति जाय विहरइ । तइति हेमगबन् इत्यादि यावत् विषये ॥ ३४ ॥ १

विशेषतः प्रथम ॥ १ ॥ अथ द्वितीयस्तत्र ॥ दुपदो जेदोति ॥ अतस्तरोपपत्तौवेन्द्रियाधिकारा अतस्तरोपपत्तानां च पर्याप्तस्य
 त्वात्मावा इपर्याप्तानां सतां सूक्ष्माकाराद्यति द्विपदो जेदः ॥ उववाण्च सव्वलोपे सव्वलोपेति ० अथ उपपातनीयतात्प्रामुख्येना
 पाशरासगतिवृत्त्यर्थः समुदात्तन मारजात्तिकेनिति त इ ताज्या मतिवृत्त्या तसवलोभमपिव्याप्य वतल ३३ च मवजुतया स्यापमाया

कहविहाप्य जत । अणतरोत्रयस्यगा एगिविया पयसता ? गीयमा । पंचविहा अणतरोत्रयस्यगा एगिविया
 प०, तजहा-पुढविककाहया दुपदे जेदो जहा एगिवियमएसु जात्र यादत्रयगस्सहकाहया । कहिय जत !
 अणतरोत्रयस्यगा वायरपुढविककाहयाण ठाणा प० ? गीयमा ! सठाणेण अणसु पुढवोसु तजहा--रयग

तदेवं जदल । जदल । इति यावद्विहरति ॥ अतुल्लिख्येव प्रथमः ॥ ३३ ॥ १ ॥ अतिविधा जदल । अतस्तरोत्पत्तिका एके
 त्रियाः प्रकसाः ? गीतम । पंचविधा अतस्तरोत्पत्तिका एकत्रियाः प्रकसालाश्रया-पुयिवीकायिकाद्विपदो जेदो पंचकल्पियत याठहादरय
 मरपतिव्यापिकाः । अ जदल । अतस्तरोत्पत्तिकावाइरपुयिवीकायिकानां स्यात्तानि प्रकसानि ? गीतम । अस्याजनासु पुयिवीपु तश्रया-रय

दिया प । अतस्तमेदे अंभयन् पतस्तरोत्पत्तय एकेद्विय प्रकसा इ म कतर । तवमा पंचविहा अंतरोत्पत्तयमा एगिविया प त । जेगीतम पाचमेदे
 पतस्तरोत्पत्तय एकेद्विय प्रकसा तैकेव-पुठविकारावा इपदभटा अहा इगिविकसुःइ वाव वादरवचस्यवाकारया । पुठवोकायिक इत्यादि पतस्तरो
 त्यय एकेद्वियका पयिकारकावो अतस्तरोत्पत्तयने पवतीकपयाना पयववको अयवीमायकाने सूक्ष्म अने वाटर ० वाय पदनाभेठ सिम एकेद्विय यत
 केविये वावन् च हरकनस्यतीकाविक अहा एवशाकम अहावा । अद्विय मत अयतरोत्पत्तयगा वायर पुठविकारावाव ठावा प । अिहा अंभयन् पत
 कलापयव वाटर पुठवोकाविकना स्याव प्रकसा इ म कतर । तवमा सहाकेच एदुव पुठवोसुं त । जेगीतम अस्यानकेवरो याठ पुठवोनेद्विये
 अ ते सिम । तवव्यभा अहा अहापद वाव दोरसमरेसु । तवमभा इत्यादि त्रिम पववर्वानाबीजा अस्यानपदनेविये अहो तम इहा पयि अहावा

भासना कार्यो एव च प्रपञ्चक यदैवेके सहरन्ति तदैव तद्वक्त्रमस्ये पुरर्पति एव द्वितीययत्नसहरणेचि क्वचोस्वप्नायपि प्रयाइतो प्रायसीयं ।
अन्तरोपपञ्चकस्य च प्रतिक्रियायेव प्राप्स मयात्तरासे तस्य साद्या इत्याद्या आरब्धात्त्रिभक्तमुद्रातस्य प्राक्तनप्रवायेषुया अन्तरोपपञ्चकावस्थायां

प्वना जहा सठाणपदे आव दीवसमुद्देशु । एत्यण स्थणतरोयवसुगागवा आवरपुठवीकाइयाण ठागा प०
उत्रयातेण सव्वलोए समुघाएण सव्वलोए सठाणलोगस्स स्थसखेजाडुनागे स्थणतरोयवसुगसुज्जमपुठवीकाइ
याण एगविहा स्थिससमणाणहा सव्वलोए परिपावणा प०, समणाउसो ! एव एएण कमेण सव्वे एणिं

मजा एया स्वस्थानपदे मावहीपसुद्रमनात्तरोत्पन्नकानां आवरपुष्पिणीकापिधाना स्वानामि मज्जसामि, उपपानेन सवसोके समुद्रात्तेन
सर्वसोके स्वस्थानलोकासाधक्ये प्रागे अन्तरोत्पन्नकसूत्रमपुष्पिणीकायिका एकाविषया अविश्रया अनामात्वा सत्रलोका पर्याप्ता प्रपञ्चाः अमप ।

यावत् होपसमुद्रमन्त्रिने । एत्यत्र पञ्चतरावच्छगाय आवर मुठविचारवाच ठावा प । इहाचं वाक्काशकारे, अन्तरात्पञ्च वाटर इतिवोवाविकना स्ना
न प्रक्या । उपमाइव सत्काले समुद्राएव सत्काल । उपपानेकरो मज्जकत्तौगति इतिवरो इत्यत्र तथा मारवातिकसमजात प वेत्तरी अति इडस्य
पञ्चविंशो सत्रलोकाशिवे व्यापाने एते इहा एषो स्थापनावे वरौने मावना वरौने इहा पडिहायव विचारोव एव सहरै तियारोव ते वक्त्रे समपते पनेरा
पूरे एवं द्विवत् सहरैकरो एव पञ्चसहस्रवृत्तिवको एविक मवाइवको भावनावरोपो अन्तरात्पञ्च पञ्चथा भावोभावपते पपेचीने गुडवा उपपत्तारोवि
अन्तरात्पञ्चाना चापाम् पमावको अने मारवातिक समुद्रात् पवि पुठवा मवभोपपेपासे कइयो अन्तरात्पञ्चक पञ्चकाशिवै ते मज्जपुत्राणा
पमावको । एतावतात्पञ्च पञ्चसुखरामासी । सज्जानेकरो कावने पञ्चकाशमेमागीके रत्नप्रभा इतिवोने विमानात्तने कावने पञ्चक्येवमा वल्लिपकोम
को इतिव्यादिवने इतिवोकाविकना स्वस्थानपञ्चको । पञ्चतरावच्छगन समुद्रमपठवोकाइवाच एमविहा अविश्रमनात्तना मन्त्राण परिहावच्य प ।
अन्तरात्पञ्च सूत्रमन्त्रिणीकाविक एवमकार होअप्रकति स्वस्थानादिविचार मज्जकरो पावकोपो अविश्रमवद्वित भागात्त्रिमद्वलित सर्वकावने निदे वत्त

तस्यासम्भवादिति ॥ सहास्य सोनस्य सर्वशैल्यज्ञानागति ॥ राजप्रनादिपृथिवीर्मा विमानाना ॥ लोकस्यासुहृयज्ञानागतिर्निश्चया तृप्यिव्यादीना ॥
 पृथिवीकायिकाना स्वस्थानत्वादिति ॥ सहासाह सर्वेसि जहा ठाणपठ तसि पञ्जतगार्ध बायराकति ॥ इह सयामिति पृथिवीकायिकादीना स्व
 स्थानानि चैव वादरपृथिवीकायिकाना मऽऽसु पुढवीसु तवहा-रयवप्यनाए इत्यादि ॥ वादराक्कायिकाना तु सतसु यकोवहीसु इत्यादि वादर

त्रिया ज्ञानियथा । सहाणेण सर्वेसि जहा ठाणपदे तसि पञ्जतगण वायराण उवत्रायसमुग्घायसठाणा
 णि जहा तसि चैव स्पपञ्जतगण वादराण सुज्जमाण सर्वेसि जहा पुढवीकाडयाण ज्ञणिया तहेव ज्ञाणि
 यथा जात्र वणस्सडकाडयसि । स्पणतरोत्रयखगसुज्जमपुढवीकाडयाण ज्ञते ! कड कम्मपगणीउं प० ? गो
 यमा । स्पठ कम्मप्यगणीउं प०, एव जहा एगिदियसएसु स्पणतरोववखगउहेसए तहेव प० । तहेव व
 धति । तहव वेदेति जात्र स्पणतरोववखगाय वायरथणस्सडकाडया । स्पणतरोववखगएगिदियाण ज्ञते । कड

चापुसत । एवमेतेन कमेव सर्वं पक्खिन्त्रिया प्रबित्तव्याः स्वस्थानेन सर्वेषा यथा स्थानपदे तेषा पयोसकाना वादराकामुपपातसमुत्पातस्य
 स्वामानि यथा तथा चैवापयोसकानो वादराका सुल्लाया सर्वेषा यथा पृथिवीकायिकाना प्रबिता तथैव प्रबित्तव्या यावद्गतस्पसिकायिका
 इति । अतन्तरोपपन्नकसूत्सपृथिवीकायिकानो जइत्त । कति कम्मप्रकृतयः प्रपत्ता । अष्टौ कम्मप्रकृतयः प्रपत्ता एव यथैवेकेन्निप्रयशते

एवहा प्रकृत्या । समवाउधा । इत्तमच चापुसन् । एवं एवच कमेव सर्वे एगिदिवा भावियन्वा । इम एवे चपुसमेवरो सर्व एकेन्द्रिय कडवा । सहाचैव
 मजेसि जहा ठाणपदे ताम पञ्जतगार्ध बायराकं । धव्खाने विम स्वानपटनेविदे कड्या तिम इहा तेह पृथिवीकायिकादिक्खने स्वस्थान ते इम वादर
 पृथिवीकायिकाना चट्टमपुढवीस त रयवप्यनाए इत्यादि वादर पाक्कायिकाना सतसयवाउहोम एह पृथिवीकायिकाधि पर्यासकवादरनो स्वस्थान
 कड्या । उवत्रायसमुग्घाय सहासाचि जहा तेसि चैव स्पपञ्जतगार्ध वादराच सडमाच सुवेसि जहा पुठयिवाइयाच मन्विवा तहेव भावियन्वा जाड व

नेत्रकायिकामा तु-अतीमधुरस्येतइत्यादि ॥ बाहरवायुकायिकानां पुमः ॥ सतसु पक्षवायतबुधवायवलयेषु इत्यादि ॥ वाहरवजस्वतीनां तु सतसु

उद्ययज्जति जहेव ढहिण उद्धेसए नणिठ तहेव अणतरोधवयए । एगिवियाण जते । कइ समुग्घाया प० ?
गोयमा ! दोयिण समुग्घाया प०, तजहा-वेयणासमुग्घाए य कसायसमुग्घाए य । अणतरोवधयणगएगि

अनलरोपपयओइसक तथेव मज्झसाः । तथेव यमंणि । तथेव यदयन्ति । यावद्वनलरापपयदका वाहरवमरपतिकायिकाः । अनलरोपपयओइसकिया
मदल । ओत्पद्यल पयेवीपिक उहेयक अखितसस्येवातललोपपयक । एकेन्द्रियाका मदल । अति समुसुताः मज्झसाः । गीयम । ही सुसु
रुपाती मज्झसी लघणा-वदमासमुद्रुपातय कयायसमुद्रुपातय । अनलरात्पयकैअन्त्रिया मदल ! कि तुस्यास्थितिकासुस्यविओपापिक कर्म प्रकु

बस्यइकारयति । उपपयात समतुवात सखाम ए जिन इहा ते इति एयिओकायिकना तइ इम अहेव वायरपुठविक्कारयाच पखलगाय ठाया तहेव
वाकरपउवीकारयाच पपखलगाय ठाया प अयवापच सखसाठ समग्घाणच सखलाएमहायव कागय अचखखामागे । खिस तेइतेअ अययागकवाहर
तवा सूख सभे जिन पृथिवीकायिकना कखा तिमओज कइवा वावत् वमसओकायिके । अयतरावअखग सइमपुठओकाइयाच भंते कइअयपगओपीओ
प । अनलरात्पयक सूख पृथिवीकायिकने हेमगवन् खेतहा कममलति कओ इतिप्रय अतर । गायमा अइअभयगओपीया प । हेगोतम पाठ कसओ
प्रवति मरुपी । एवं अहा वगिंदियसयसु अर्यतरावअखग अर मए तहेव पखसा तहेव यथति तहेव अहेति । इम जिन एकेद्रिय मतअनेविये अनलरात्प
अइ अहेयानेविये कखा तिमओज मरुप्या तिमओजधीध तिमओज अहे । काय अयतरावअखगाय वायरजअखखकारया । यावत् अनलरात्पयक वायर
अनलरात्पयक गतमाअगे कइवा । अयतरोयअखग एभिंदियाच भंते कया अयअखति अइअ वादियअहेसठ मविया तइअ अयतरावअखग । अमलरा
त्पयक एकेद्रिय हेमगवन् विहायिको अयवे जिनओज ओधिकअहेग ने विये कखा तिमहाअ अमतरात्पयक अपि कइवा । एयादियाच भंते कइ स
मग्घाया प । एकेद्रियने हेमगवन् खेतहा समतुवात मरुप्या इ म अतर । गायमा इधिसमुग्घाया प त । हेगोतम इय समतुवात मरुप्या ते

द्वियाण नन्ते ! किं तुल्यविसेसाह्यिय कमम पकरेति पुच्छा तहेय, गोयमा ! श्यत्येगइया तुल्यवि
तीया तुल्यविसेसाह्यिय कमम पकरेति, श्यत्येगइया तुल्यवितीया वेमानन्ति उसाह्यिय कम्म पकरेति । से केण
हेण नन्ते ! जाय वेसायविसेसाह्यिय कमम पकरेति ? गोयमा ! श्यगतरेत्तय्यागा एगिविया दुयिहा प०,
तजहा—श्यत्येगइया समाउया समीयवयुगा श्यत्येगइया समाउया विसमीयवयुगा । तत्यण जे ते समा

वन्ति पुच्छा तयेव गौतम । सत्येवे तुल्यस्वितिकासाल्यविसेसाह्यिय कममे प्रकुवन्ति सत्येवे कवन तुल्यस्वितिका विमानविसयपापिय कम्म
प्रकुवन्ति । अप केनार्येण जइय । यावहेमान्निविहीयापिय कम्म प्रकुवन्ति । गौतम । अनन्तरोपपत्तिका एकस्त्रिया विविधाः प्रप्रसासतद्यथा-
सरस्यक कवन समायुक्ताः समीयवयुगाः । एके केचन समायुक्ता विपमोपपत्तिकाः । तत्र ये समायुक्ताः समीयवयुक्तास्तुल्यस्वितिकासाल्यवयुधि

करेहे—वेरकासमुत्तयाएव कथायसमुत्तयाएव । बइनासमुत्तयाएव मारणातिकसम्भवातना पमावकको । पञ्चतराववकण एमिदियाण
भते कि तुल्यवितीया । पनन्तराएवक एवेद्विइ वेममवन् एत्तुल्यस्वितिक । तन्नविसेसाह्यिय कम्म पकरेति पुच्छा तहेय । तुल्यविसेसाह्यिय कम्मकरे इ
प अन्तर तिमहोक् पूच्छा । यायसा एत्तुल्यवितीया तुल्यवितीया तुल्यविसेसाह्यिय कम्म पकरेति । वेगौतम अन्तयाएव तुल्यस्वितिक तत्रयविसेसाह्यिय कम्ममते
करे तथा । परवेगइया तन्नवितीया समायविसेसाह्यिय कम्म पकरेति । केनकाएव तुल्यस्वितिक विपममात्र विसेसाह्यिय कम्ममते करे । सेवेवद्वेव काव
वमाव विससाह्यिय कम्म पकरेति । ते सेवेवे वेममवन् यावत् विपममात्र विसेसाह्यिय कम्ममते करे इ प अन्तर । गावसा पञ्चतराववकणा एमिदिया
दुविया प त । ज्यौतम पनन्तराएवक एवेद्विइ बइ भेरे प्रच्छा तेकरेहे—परवेगइया समाउया समीयवयुगा । केतयाएव करोके पाउच्छे करो
खात्ररमा । परवेगइया समाउया विसमाववकणा । अन्तयाएव करोके पाउच्छे विपम जपणा । तत्रक जे ते समाउया समाववकणा तेव तुल्यवितीया
तन्नविसेसाह्यिय कम्म पकरेति । तिहा जेइ करोकेपाउच्छे पनन्तराएवकपाव मतेपावकणेने समयमावस्वितिक तेइ उपरांतकको परपरोत्पन्नक जाइ

उया समोदयथागा तंण सुखिठ्ठितीया तुल्लविसेसाहिय कम्म पकरेति । तत्यण जे ते समाउया विसमोयत्त
 थगा तंण तुल्लिठ्ठितीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति से तंणठेण जाव वेमायविसेसाहिय कम्म पकरे
 ति ॥ घउत्तीसमसयस्स विसिठ्ठे उव्वेसो ॥ ३४ ॥ २ ॥ संघ जते ! २ सिं ॥ कइविहाण ज
 ते ! परंपरीयथयुगा एगिंदिया प० ? गोयसा ! पंचविहा परंपरीयथयुगा एगिंदिया प०, तजहा-पुठ

शोपापिक्कं कर्म प्रजुवंति । तथ ये समापुका विपमोत्पलका से तुस्यस्त्रितिका विमात्रविद्यायापिक्कं कर्म प्रजुयन्ति तथेतायेन यावद्विमात्रवि
 शोपापिक्कं कर्म प्रजुवन्ति तदेव जइत्त । इति ॥ वतुल्लिखत्तमशते द्वितीयोव्वेद्यः ॥ ३४ ॥ २ ॥ कतिविधा जइत्त ।
 परंपरोत्पलका एकान्त्रियाः प्रज्जताः पंचविधाः परंपरोत्पलका एकान्त्रियाः प्रज्जताः पंचविधाः परंपरोत्पलका जेवो वतुल्लको यायइ

यावो समारपयव एकशोलससबने विवे उत्पत्तिस्थान प्रते पाय्या ते तुस्यस्त्रितिक समात्पयवपंचे करो समोदयको तुस्यविशेषाधिक कसबरे । तस्य
 च जे ते समाहवा विपमोत्पलका तेचं तुल्लिठ्ठिता वेमायविसेसाहिय कम्मपकरेति । तिसां जेव समापुप तिसको वियमोत्पयव ते वियज्जमति करो
 ममयादि भवेवरो उत्पत्तिस्थान प्रते पाय्या ते तस्यस्त्रितिककत्तवा पचि सालखाना कइवने वियमपंचेकरो उत्पत्तिस्थान मासकास बिपमपचावको विय
 जनेविये पचि कम्मपयव पंचांजको वेसाच विशेषाधिक कर्मवापि २ वियमस्त्रितिकपंचको पचिसभगा वीय जमरतरोत्पयवने नसथे वियसस्त्रितिकानाचो
 मावको । येतचकुचं काव वेमायविसेसाहिय कम्मपकरेति । ते जे पंचे यावत् वेसाचविशेषाधिक कम्मवापि । सेवगते २ ति । तइति वेभयवन् तुल्ले कइ
 ते सर्वे सवणे पत्तज्जानको । पचतोसमसयस्य विजिपोपइसा सवत्ता ॥ ए पचतोसमायतकता ठूणाणकुपेया थपको पूरोव्वो ॥ ३४ ॥ २ ॥
 कइविहाण भंते परंपरावकत्तवा पचिद्विवा पे । जेतकभते वेमसवन् परंपरात्पयव एवेदिय प्रकल्पा इ म उत्तर । गायसा पंचविहा परंपराव
 कत्तवा पचिद्विवा पे तं० । जेगोतम पचेमेवे परंपरोत्पयव एवेदिय प्रकल्पा तेकइत्ते-पुठविहाइयाभेदा वउत्तथा जाव ववत्तइत्तारवति । पूयिथोका

यिकाइया नेदो चउक्कट जात्र वणस्सहकाइयन्ति । परपरोववणगश्चपज्जात्तासुक्कमपुठवीकाइयाण जते ।
 डमीम रयणप्यन्नाए पुठयीए पुरच्छिमिहे चरिमते समोहए स २ जे ज्ञायिए रयणप्यन्नाए पुठयीए जाव प
 च्छिमिहे चरिमते अण्णसुक्कमपुठवीकाइयन्ताए उववज्जाति, एव एएणं अण्णिलोवेण जहेव पठमा
 उद्वेसत्तं जात्र लोगधरिमतोसि । कहिण जते । परपरोववणगपज्जात्तागयायरपुठवीकाइयाण ठाणा प० ?
 गायमा ! सठाणेण अण्णसुत्थि पुठयीसु, एव एएण अण्णिलोवेण जहा पठमे उद्वेसए जाव तुसिठ्ठित्थियसि ।

नस्पतिकायिका इति । परस्परोपपलकापयीसूक्ष्मपृथिवीकायिका प्रदत्त । अस्या रजप्रभायाः पृथिव्याः पीरस्स्ये परमान्ते समवद्वतः सम
 वद्वस्यो प्रयिको रजप्रभाया पृथिव्या यावत्पाद्यास्ये चरमान्णपयोससूक्ष्मपृथिवीकायिकतयोस्पद्यते एवमेतेनाजिज्ञापन यथैव प्रथमोदुषाको
 मायसोऽपरमान्ते इति । अ नदत्त । परस्परोपपलकापयीसूक्ष्मपृथिवीकायिकामा स्यान्नाति प्रकृतानि ? गीतस ! स्वस्थानेनाटासु पृथिवी

यिक इत्यादिभूतवत्त्वबरो कइवा यावत् वतस्सतोकायिक एननासग कइवा । परपराववणम पपलतासुक्कमपठवीकाइयाचं मते । परपरास्पसक
 पपवीतक सूक्ष्मपृथिवीकायिक नमगबन् । इमोवे रयणव्यमाए पुठवीए पुरच्छिमिह चरिमते समोहए २ ना । एह रत्नप्रमा पृथिवीना पूवना चरमा
 तनविये ममद्वयात करे करोने । जेमविये रयणव्यमाण पुठवीए जाव पश्चिमिल चरिमते पपलता सुक्कमपठवीकाइयन्ताए उववज्जाति । जेह मखर
 रत्नप्रमा पृथिवीना इत्यादि यावत् पयिमना चरमान्तेविये चपवीत सूक्ष्मपृथिवीकायिकपचे जपले । एव एएच प्रमिस्सिवेव जहेव पठमा उद्वेसएया
 जाव कामचरिमताति । इम इवे पमिस्सिवेवरो लिमडोल पञ्चिका उद्वेसगा यावत् जाव चरिमते इति । कइइव मते परपराववणम पपलताग यावरपु
 ठवीकाइयाच ठावा प । किन्ती इमगबन् परपरास्पसक पमिस्सिवेव यादरपृथिवीकायिकना स्यान्न प्रकृत्या १ प्र ७ । भावसा सुद्वेषेण अण्ण पठवी
 सु । गीतस स्वस्थानवरो पाठ पृथिवीमविये इत्यादि पूर्ववत् । एव एएच पमिस्सिवेव जहा पठमेउद्वेसए जाव तुहाइनीवति । इम इवे प्रमिस्सिवेव

सेव्यं नन्ते ! २ त्ति ॥ ३४ ॥ ३ ॥ एव सेसावि अष्ट उद्देशगा जाव अथरिमोसि, णवर अण
 तरा अणतरसरिसा परपरा परपरसरिसा चरिमाया अथरिमाया एव चैव एव एते एकसारस उद्देशगा
 ॥ ३४ ॥ पठम एगिदियसेठिसय सम्मस ॥ ३४ ॥ १ ॥ कडविहाण नन्ते ! करहले
 स्सा एगिदिया प० ? गीयमा ! पचविहा करहलेस्सा एगिदिया प०, नेदी चउक्कन जहा करहलेस्सा
 एगिदियसए जाव वणस्सइकाइयसि, करहलेस्सअपज्जासगसुक्कमपुठविकाडयाण नन्ते ! इमीसे रयणप्य

धेवमेतमात्तत्तापेन मया प्रथमं सवृषाणे यावत्तुल्यास्तित्वा इति तदव नदन्त । इति ॥ चतुस्त्रिंशत्तमशोते सुतीया ॥ ३४ प ३ ॥
 पर्यं शेषा अप्यष्टदशका यावद्वचरस इति नवरमनन्तरा अनन्तरसवृक्षाः परस्परः परस्परवृक्षाः चरमाद्याचरमा एव चैवैवमत एकावद्य
 सवृषाणाः ॥ प्रथममेकेन्द्रियसचिच्छत समाप्तम् ॥ ३४ ॥ १ ॥ ० कतिविधा नदन्त । कण्ठसेवया एकन्द्रियाः प्रज्ञासा ? गीयत ।

रो विम पविशावृद्धेयान्निवे बावत् तद्व्यक्तिव इत्यादि पूर्ववत् । सवन्ति २ त्ति । तद्वन्ति हेमगवन् इत्यादि पूर्ववत् ३४ । १ ॥ एव
 सधावि पञ्चदशेयना जाव पचरिमात्ति । इन शेष पचि पाठ वृद्धेया वृक्षा यावत् पचरिम इति । चर पचतरा अचतर सारिमा परपरा परप
 रसरिया । एतन्नाभियय पनन्तरानावृद्धेया अनन्तर सरीखा परपरानावृद्धेया परपर सरीखा । चरिमाया चचरिमाया एवचव एव एते एकारस सट्ट
 देवया । चरिम तथा पचरिम इमशौच वृक्षा इम एव इत्यारेवृद्धेया वृक्षा । पठम एगिदिवसठिसवे सव्यत् । ए यावत्तो एकाद्रिय अविद्यतन पूर्वव
 बो ॥ ३४ ॥ १ ॥ कडविहाणन्ते वचसेखा एगिदिया पं । कोतसमेदे हेमगवन् वचसेयो एके द्वय प्रक्या इ म कतर । गायमा
 पचविद्या वचसेखा एगिदिया पं । शैगीतम पचमेदे वचसेयो एके द्विय प्रक्या भेद पठसेवरो । कडा वचसेखा एगिदिवसए जाव पचसेखाइकाइय
 त्ति । विम वचसेयो एकेद्रिय यतकनेविदे वृक्षा यावत् बनसतोकाचि ३ इति । वचसेख पपञ्चत्तगसुक्कम पुठविकाइयाव भन्ते इमीस एवचव्यभाए पुठ

नाए पुनुर्योए पुरच्छिमिस्त्रे एय एरण्य श्यन्निखाधेण जहेय उधेसत्त जाय खीगथरिमत्तसि, सव्वस्य करहलेस्से
 सु उययातेयहो । फहिण जते ! करहलेस्से श्यपज्जसगवायरपुठविकाइयाण ठाणा य० ? एव एरण्य श्यन्नि
 छायेण जहा वीहियउधेसत्त जाय तुसिठ्ठितीयसि, सेवं जते ! २ त्ति । एव एरण्य श्यन्निखाधेण जहेय पठम
 सेटिसयं तेहय एक्कारस उधेसगा जाणिमहा ॥ वितिय एगिदिय सेटिसय सम्मस ॥ ३४ ॥ २

पण्यविपाः कण्ठसएकन्निपाः प्रसथा नेवो वानुफको यथा कातत्वमेकन्निप्रयत्ते पापद्वगस्पत्तिकायिक इति कण्ठलेखयवयोसकसूक्ष्मपृथिवी
 बायिका प्रदत्त । छाव्या रज्जमनायाः पृथिव्याः पौरस्त्ये एवमेतेनामिसापन पथेवोद्वेषको यान्नोक्करमात्त इति, सवत्रकण्ठसेइपपुत्पाव्यि
 पष्ठा । इ नदत्त । कण्ठसदपपर्यासकपादरपृथिवीबायिकाभा स्वामानि प्रसप्तानि एवमेतेनामिखायेन पथीपिकोद्वेषको याद्यन्तुस्पृथिविक
 इति तदेवं प्रदत्त । नदत्त । इति एवमेतेनामिसापन पथेव प्रथम भेदिकत्तं तथैवैकावशोद्वेषा नक्षितव्याः ॥ चतुर्विंशत्यन्ते द्वितीयमेकन्नि
 रोप इतिप्रकमिन्ने । अथवेयो पपयासक सूक्ष्मइविबीबायिक इमगवन् चारजममा इद्विबोना पूवता वरसावनेविवे इत्यादि । एव एएए परिभावेवं
 अदेव इद्वेसया चार जाग हरिमत्तति । इम इवे परिभावेकरो किमशोम अद्वेयक वासन् वाक्करिमत्त इति । समत्त अथइसेसुपु उववाएयत्तो ।
 सगनेरि अथवेवामेविदे कदत्राववा । अकिचं मते अथइतेदे अपण्णत्त वायद पुठविकाइकावं ठावा प । बिदाइेमत्तवन् अथवेयो अपर्यासक वावर
 इविशीबायिकने स्थान पदव्या । एव एएए परिभावेव अथा पोंडियउधेसयो जाय तुसिठ्ठितीयसि । इम इवे पावावेकरो किम शीविकउद्वेषयो विम
 शोव वावन् तुसिठ्ठितिक पवमाअने अइवो । वेवंभंति २ ति । तत्तति इमगवन् इत्यादि । एवं इएए परिभावेवं अदेव पठम सेटिसय तथेइ इक्कारस उ
 द्वेसया माचियत्ता । इम इवे पासावेकरो किमशोम परिदे केचियत्तवे अको तिमशोम इव्वारे उद्वेसया अइवा । वितिय एमिदिवं सेटिसयं सम्मस ।
 ए कोत्रो एकेद्विइव त्रेचियत्तक पूवसयो ३ ३३ ३

पयोदहीषु इत्यादि ० उक्त्वापसमुपापसठाकादि कथा तेषिंशेव अपञ्जसगायं वायराचंति ॥ इह ० तसिंशे वेधसि ० पृथिवीकायिकादीना तानि ज्ञेय-
 ज्ञान्य वापरपुढविवायिकादीनां तानि ज्ञेय-ज्ञान्य वापरपुढविवायिकाइयाव पञ्जतावं ठाया सत्येव वायरपुढविवाइयाव अपञ्जताव ठाया पञ्जता
 अववायव सवसोय समुपाएव सवसोय सठाकव लोगरव अससेज्जइजागत्यादि ॥ समुद्रपातसूत्र दोखिसमुपायपति ० अनलरोत्पलख्येन मारवा
 निक दिवसमुद्गाताना मससवाविति ० अलतरोववषण्णगिदियाव जते । कि तुल्लुछितीपत्यादी ० ज ते समासया समोववकृणा तव तुल्लुछितीया
 तुल्लुविनेसादियं काम पकरंतिषि ० य समायुपी उजलरोपपलकत्वपर्यापमाद्यित्य समयमात्रस्थितिका स्तत्परतः परस्परोपपलकत्वपदञ्चा स्वमोप
 पलका एवमेव समये उत्पत्तिस्थान प्राप्ता स्ते तुल्लुस्थितयः समोपपलकत्व च समयोगत्वा तुल्यविक्षोपायिक कर्म प्रमुयन्ति ॥ ज ते समासंया वि
 समोववषण्णा तवं तुल्लुछितीया यमायविक्षोपायियं कामं पकरंतिषि ॥ य तु समायुय स्तथैव विपमोपपलका विग्रहणत्या समयाविजदनी त्यपि
 स्थान प्राप्ता स्ते तुल्लुस्थितयः आयुसोदपदैपमेखोत्वोत्पत्तिस्वानप्राप्तिसावैपम्या द्विग्रहपि च इत्यकत्वा द्विमात्रविज्ञापयिक काम प्रमुयन्ति विप
 मत्वतिवस्यन्त्यात्थ निममङ्गुडय मत्तलरोपपलकाना न समथत्यमत्तरोपपलकत्व विपमस्थित रजाया वृत्तश्च गमनिकामात्रमेवेति क्षय सूत्र

एव णील्लेस्सेहिवि ततिय सय ॥ ३ ॥ काउलेस्सेहिवि सय एवचेव ॥ चउत्य सय ॥ ४ ॥
 जयसिदियएगिदिगुहं सय ॥ पचम सम्मत्त ॥ ५ ॥ कइविहाण जते । कएहलेस्सचवसिदिया

यथेकिगत समासम् ॥ ३४ ० २ ॥ एव नीलसूर्येरपि वलीयस्यतम् ॥ ३४ ॥ ३ ॥ कापोतलव्यैरपि क्षातमेव
 वेय वतुये गतम् ॥ ३४ ० ४ ॥ जवसिदिकान्त्रिये क्षातम् पञ्चमम् ॥ ३४ ॥ ५ ॥ कतिविधा जदत्य ।

कइवा ॥ ३४ ० १ ॥ काकतके द्विवि सव एवचेन । कापातकेव्यासवाते पवि गतव इमडोव कइवा । चउत्य सय । चोवी गतव पूव व
 या ॥ ३४ ० ४ ॥ भवसिदिय एगिदिएवि सय पचम सम्मत्त । भवसिदिक एवेद्विदसवात गतव पचमा पूव वया ॥ ३४ ० ५ ॥

एगित्तिा एय जहेय उहियउहेसु ॥ ६ ॥ कडविहाण जने ! छुणतरोत्रयणगा करहलेस्सा जत्रमि
 तिवा एगिटिया प० जहव छुणतरोत्रयणगा उहेसु उहिउ तहेव । कडविहाण जने । परपरोत्रयणगज
 वनिद्विपा एगिटिया पयत्ता ? गोयमा । पचविहा परपरोत्रयणगा करहलेस्सजवसिधिय एगिटिया प०,
 उ उउ जग चउक्कन जाय वणस्सइकाडयत्ति, परपरोत्रयणगा करहलेस्सजवसिधिय अयज्जात्तगसुज्जमपुठ
 वीकाउण जने । इमोसे रयणप्यजाए पुठनीए एव एणुण अग्निउावेण जहेउ उहिउ उहेसु ज्ञाय लोय

एणुणगाया जयमिदुवा एकम्बिया प्रससा यथेयानत्तोत्पयडावेणकस्तयव । कसिदिवा प्रदत्त । परस्परोत्पयजानयसिदुलोकन्त्रिया प्रस
 सा गानम पयविपा परस्परोत्पयकठमलेगमयसिदुकेकम्बियाः प्रससाः । यीपिको जदयतुकको यावहनस्पतिकायिक इति । परस्प
 राउत्ररजानगएययसिदुःडापयोसकम्बुत्तपुविशीकापिको प्रदत्त । अस्सा रवमत्तायाः पुथिय्या स्वमतनानिलापन यथेवीपिठ उहेसुको

का'र ५ मत कवकमज भवसिदिया एगिटिया एव अहेव पादियउहेमयो । केतसभेदे हेसयवन् कय्यकोगी भवसिदिक एकेको प्रक्या इत्थादि इम
 निम । विउउउउउगान विवे कसा तिम कइवा ॥ ३४ ॥ ६ । कडविहाण भते एवतराववसगा कइउहेसुसा भवसिदिया एगिटिया प० । केत
 उभमे उभगउन् यमभरापयक उणुणयो भवसिदिक एकेदिय प्रक्या अयेव एवतराववसगा उहेसुसा अडिया तयेव । जिनकोम एमत्तराववसगा
 उदुउगक यो।एक कसा तिमकोल कइवा ॥ ३४ ॥ ० । कडविहाण भते परपरोत्रयणग भवसिदिया एगिटिया प । केतनेभदे हेभगउन् परप
 रावपय प्रग्गनयो भवसिदिक एकेदिय प्रक्या। ६ म एत्तर । गावसा पचविहा परपराववसगा कइउहेसु भवसिदिय ० गिटिया प । के'तम पचमे
 उ परपरावपक कय्यनगो भवसिदिक एकेदिय प्रक्या इत्थादि । यादियामेठो उउउगु काव ववमइकाइयत्ति । योविहनीपरे भेउ एत्तय कइवा या
 वपु वनसुतीडायिक एतमासगे कइवा । परपराववसगा कइउहेसु भवसिदिय । परपरोत्रयव कय्यकोल भवसिदिक । परपत्तजगसउमपुठनीकाइया।प

परिमतेति, सश्रुत्य कण्डलेस्सेसु नत्रसिद्धियेसु उत्रघातेयद्यौ । कहिण नत्रे ! परपरोवत्रणागा कण्डलेस्सा
 नत्रमिद्वियपल्लभावायरपुठवीकाइयाण ठाणा पयात्ता, एव एएण अञ्जिनावेण जहेय उहिच उद्वेसठ जाय
 तुसठितीयासि । एय एएण अञ्जिनावेण कण्डलेस्सन्नसिद्धियएगिदिए तहेव एक्कारय उद्वेसगसजुससयं तठ
 सत सम्मत्त ॥ ६ ॥ णीललेस्सन्नवसिद्धियएगिदिएसु सत्तमसय सम्मत्त ॥ ७ ॥

यावत्ताकचरमान इति सयय कण्डलेस्सेसु मयसिद्धिकेपूत्यादपितव्यः । इ नदत्त । परस्परोपपल्लकण्डलेस्सन्नवसिद्धिकययासवावरपुपियीका
 यितानां स्वागानि प्रपत्तानि एयमेतनाजिलापन यर्षवीपिक उद्वेगको यावत्तुस्यस्थितिक इति । एवमेतेनाजिलापन कण्डलेस्सन्नवसिद्धिकेके
 त्रियपल्लयेयाइतीहणअगपुत्तघातम् ॥ पठ शत समाप्तम् ॥ ३४ प ६ ॥ नीललेस्सन्नवसिद्धिकेकेन्द्रियेषु शतम् शतं समाप्तम्

भत इमोमे इवचयभाए पुठबोण । यपर्यासिक सूअरुबिबोकायिक हेभगन्न एइ ररत्तमभापुबिबोना इत्वादि पूववत् । एव एएय परिभासावय जहेव पाडि
 या उद्वेसया याय सायचरिमंतति । इम एवे परिभासायेकरो किमशौल उद्वेगानेविये कक्षा यायत् सायचरमात एतथा कइरो इदी पयि । सवत्तक
 चदन्नरेम भवमिद्विम उववायव्या । सगल्लं कूचसेगो भवसिद्धिकनविये उपजायवा । कइचभते परपराववखगा कचइसेखा भवसिद्धिय पज्जता ।
 किइरी हेभगन् परपराववय कचज्जगो भवसिद्धिक पर्यासक । वावरपुठवीकाएयाचं ठाया पं । वादर पुबिबोकायिकना स्यात्तक प्रख्या इत्यादि ।
 एव एएय परिभासायेक सइव पाडिया उद्वेसया काय तुक्कइतीवति । इम एवे भासावेकरो किमशौल योपियउद्वेगानेविये यायत् तुस्यस्मितिक एत
 न्नापने कइरी । एव एएय परिभासायेक कचइसस भवसिद्धिय एगिदिए तस्य एकारम उद्वेसग सधुत्तसय । इम एवे परिभासावेकरो कण्डलेस्सन्नवसिद्धि
 च एकेन्द्रियनविये पयि तिमशौल इत्थारे उद्वेगक सवुत्तगतक कक्षा कइवा । उइसत सज्जत । ए कइयात्तक सपूच पया ॥ ३४ ॥ ६ । योससे
 रस भवसिद्धिय एगिदिएम । नीललेस्सेसु भवसिद्धिक एकेन्द्रियनविये । सततसयं सज्जत । सातमो यतक पूवपयो ॥ ३४ ॥ ० । एवं काण्डलेस्सन्नव

एव काउलस्सतयसिद्धिपुत्रिगिविपुत्रिगि सय ॥ ८ ॥ जहा नत्रसिद्धिपुत्रिगि
चत्तारि सयणि न्नाणियाणि एव श्रुन्नवसिद्धिपुत्रिगि चत्तारि सयाणि न्नाणियवृणाणि, णवर चरिम श्रुधरिम
यज्जा णत्र उहेसगा न्नाणियवृणा सेस तचेव, एव एयाइ धारस एगिदियसेठीसयाइ न्नाणियवृणाइ । सेव न्नेते !
न्नेते । ति जाय त्रिहरइ ॥ एगिदियसेठीसयाइ सम्मत्ताइ ॥ एगिदियसेठिसय चउत्तीस सम्मत्त ॥ ३४ ॥

॥ ३४ ॥ ३ ॥ एव कापोतलइयप्रवसिद्धिपुत्रिगियरपि शतम् ॥ अष्टम इत समाप्तम् ॥ ३४ ॥ ८ ॥ यथा
प्रवसिद्धिपुत्रिगि यत्तारि शतानि प्रवितान्यवमप्रवसिद्धिपुत्रिगियरपि चत्तारि यतानि प्रवितव्यानि णवर चरिमाचरमवर्णा णव उहेसगा मवितव्याः
अप चापेवमत्तानि इगदुक्केन्निपयप्रवितव्यानि प्रवितव्यानि एवम अदत्त । प्रवत्त । इति यावद्विहरति ॥ एकात्रियमेविषयानि समाप्तानि ॥
अत्रियप्रवितव्यानि चतुर्विंशत्तं समाप्तम् ॥ ३४ ॥ ८ ॥

अत्रिय ए गतिविदिसत एष्टमसयस्यत्त । इम चायातसेयो भवसिद्धि एकेदिसयसाते पवि यत्त ए पाठमायतक पूरववा ॥ ३४ ॥ ८ ॥
अथा भवसिद्धिपुत्रिगि चत्तारि सयाचि मवियाचि । किम भवसिद्धिपुत्रिगिसयाते चारियतक कथा । एव अमवसिद्धिपुत्रिगि चत्तारि सयाचि भावियव्याचि ।
इम अमवसिद्धिपुत्रिगिसयात पवि चारियतक कथा । अवर चरिम चरिमवज्जा अवरदुदुयका भावियव्या सेस तचर । एतथावियप चरिम चरिम ए
पानावावर्णाये यत्र अवरदुदुयका कथा मय तिमकोक कथा । एवं एयाइ धारस एगिदियसेठीसयाइ भावियव्याइ । इम एइयारे एकेद्विगि चरियतक
अविया । अवंमते इ ति जाय विहरइ । तद्वति वेमममम् इत्यादि पूर्ववत् वाक्य विचरे । एगिदियसेठिसयाइ सयत्ताइ । एकेद्विगि चरियतक समाप्त
यथा । ए गदिय च ठरस चउत्तीस सयत्त । श्रेयोसमायतक पूरावया ॥ ३४ ॥ ८ ॥

यद्गीर्वाणस्यैवैकविक्रततमा गम्भीरनेहोपम पन्थापप्रथमप्रकाशमपररासवृष्टिमोहायहा ।
तपाश्चक्षित्विनिवितामरुमुकप्रश्नाभिर्पांभयसं वुरीणामनुमावत श्रुतिमिदव्याख्यात्मनेवमया ॥ १ ॥

अतुल्यश्रुते एकत्रियाः महीप्रक्रमेण प्रायः प्रकृपिताः पञ्चत्रिंशे तु तस्य राशिप्रक्रमेण प्रकृप्यन्तस्यैव सम्बन्धुत्वास्य द्वादशावात्तरक्षतस्येव सा
दिसुय-कश्चनते । इत्यादि ॥ इह युग्मशब्देन राशिद्विविधया उच्यते ते च ह्युल्लेका अपि प्रवृत्ति यथा प्राक् प्रकृपिता अत स्तद्व्यवच्छेदाय विधे
यशुञ्जत मशान्ति मशपुमानि ॥ कुरुमुक्ताकुरुमुमेति ० यो राशिः सामयिकत यतुक्रापहारैवा पत्रियमात्र यतुःपयवचितो
प्रत्यपहारसमया अपि यतुष्ठापहारैव यतुःपयवसिता एवावी राशिः कृतयुग्मा २ इत्यभिधीयते अपत्रियमात्रद्वयव्यापेयया तत्समयापेययापेति
द्विधाकृतयुग्मत्वादेव मन्वसापि शब्दार्थी योजनीयः स च क्लिप्त अपन्थतः योक्तव्यात्मक एया हि यतुक्रापहारत यतुरगत्या त्समयाना एव यतुः
सङ्ख्यादिति १ ॥ कुरुमुक्ततर्पणं ॥ यो राशिः प्रतिधमय यतुक्रापहारवा पत्रियमात्र क्लियववसानो जयति तत्समया यतुःपर्यवसिता एवावा

कङ्कण चते ! महाजुम्ना पञ्चता ? गीयमा ! सीलस महाजुम्ना पञ्चता , तजहा—कुरुजुम्ना कुरुजुम्ने कुरु

श्रीपुन्याथाप्येतौकागवदसुतचन्द्रानिर्षुस्मूरियस्यै रादिष्टीरापयाश्वरुचनपतिचिह्नस्यधम्मापनन ।

समीतः पञ्चमाङ्गमप्यतपुषुषतदेवनापानुवाद वीषोऽयश्चिस्त्रियमेवमवचमगुसुबारामचन्द्रैकसिद्धिम् ० १ ॥

कति प्रवत्त ! महाजुम्नानि प्रवत्तानि ? गीतम ! पञ्चस्य महाजुम्नानि प्रवत्तानि तद्यथा—कृतयुग्मकृतयुग्म १ कृतयुग्मज्योः २ कृतयुग्म

वचपीसमेप्रतवे पवेद्विच यचि प्रक्रमे करो मावे प्रकृष्या पेषोसमे ता तेहोच राशिपक्रमेकरो प्रकृषोवेद्वे इसे सबचने बारे यनात्तरगतकनो एपादिमन्
कश्चं मते महाजुम्ना प । जेतका चेममभन् महाजुम्न प्रकृष्या इशी जुस्मय्येकराने राशिद्विवेच कश्चिदे तेच तुल्यत्र पचि हुने जिम पश्चिषा कश्चा एत
कामाटे तेहना ये व्यबच्छेदने पदे क्लियेव कश्चिदे , मोटा क्लिये जुम्न ते महाजुम्न कश्चिदे इ प्र० उत्तर । मायमा साकसमनाशुष्का प त० । इभोतम

रात्रिस्स श्यवहारसमया करुजुम्मा सेत करुजुम्मतेस्सिगे २, जेण रात्रीचउक्काएण श्यवहारेण श्यवहीरमाणे टुप
 ज्ञयसिए जेण तस्स रात्रिस्स श्यवहारसमया करुजुम्मा सेत करुजुम्मा दावरजुम्मा ३, जेण रात्रीचउक्काएण
 श्यवहारेण श्यवहीरमाणे एगपज्जयसिए जेण तस्स रात्रिस्स श्यवहारसमया करुजुम्मा सेत करुजुम्मकलिनं
 ने ४, जेण रात्रीचउक्काएण श्यवहारेण श्यवहीरमाणे चउपज्जयसिए जेण तस्स रात्रिस्स श्यवहारसमया ते

युग्मम् १ यो रात्रियतुक्केनापहारवापत्रियमावक्किपयवसितो य तस्य राधोरपहारसमया स्तपि क्तयुग्मासातस्सारकृतयुग्मप्रयोगः २ यो
 रात्रि यतुक्केनापहारवापत्रियमावो द्विपयवसितो ये तस्य राधोरपहारसमयाः क्तयुग्मासातनार्थम् क्तयुग्महापरयुग्मम् ३ यो रात्रियतुक्
 केनापहारवापत्रियमाव एकपयवसितो ये तस्य राधो रपहारसमयाः क्तयुग्मा साकृतयुग्मकस्योकाः ४ यो रात्रियतुक्केनापहारेवापत्रिय
 मावयतु पयवसिता य तस्य राधोरपहारसमयाख्योआकत्पूजकृतयुग्मम् ५ यो रात्रि यतुक्केनापहारवापत्रियमावत्त्रिपयवसितो ये तस्य

पपहरताववा चारि यपरहे । जेवं तत्पररात्रिय पवहारसमया तेविक्कडुत्था । जेइ तेहरात्रिया पपहारसमय तेपवि क्तयुग्म पतनेते पपहरता चा
 रयमवसे । सतक्कडुत्थावडुत्थये । तेइ क्तयुग्मम् चडिहे । जेवरात्रियवडुत्थयेवं पवहारिवं पवहीरमाणेतिपज्जयसिए । जेइ रात्रियतेचारेने पपहारिक्
 रो पपहरतावकी तीत येपरहे । जव रात्रिय पवहारसमया कडुत्था । जइ तेहरात्रिया पपहारसमय क्तयुग्मम् च पवहारिक्
 पाग २ । विइ क्तयुग्मम् चडिहे । जवं राधोचडुत्थये पवहारिक् पवहीरमाव पुपज्जयसिए । जइ रात्रियते चारिहे । सेतक्कडुत्था त
 यपरहे । जवं तत्पररात्रिय पवहारसमया कडुत्था । जइ तइ रात्रिया पपहारसमय चारिहे । सेत कडुत्था चापरजुम्मा ३ । तेइ क्तयुग्मम् चापर
 यम चडिहे । जेवराधो चउक्काएण पवहारिवं पवहीरमाणे एगपज्जयसिए । तथा जेइ रात्रियते चतप्येने पपहारिक् रो पपहरतावका एव येपरहे । वि
 च तत्पररात्रिय पवहारसमया कडुत्था । जेइ तेहरात्रिया पपहारसमय चारिहे । सेतक्कडुत्थय चडिपागे ४ । तेइ क्तयुग्मम् चआवडुत्थये । जेवराधो

इय ख्योचकस्योन्ने धयोदशादयः द्वापरकृतयुग्मे उधादयः द्वापरश्रीकराशा वेकादशादयो द्वापरकस्योन्ने नवादयः कस्वीअ
 कतयुग्म बतुरादयः कस्योचकस्योन्ने सहादयः कस्योचकस्योन्ने दु पम्बादय इति ॥ कान्तुअ २ एगेवियति ॥ ये एकस्त्रि

ठगे सेत तठगककजुम्मे ५, जेण रासीचउक्काण अयहारेण अयहरीमाणे तिपज्जअसिए जेण तस्स रासिस्स
 अयहारसमया तेठया सेतं तठगतेठगे ६, जेण रासीचउक्काण अयहारेण अयहरीमाणे दुपज्जअसिए जेण
 तस्स रासिस्स अयहारसमया तेठया सेत तठगदाथरजुम्मे ७, जेण रासीचउक्काण अयहारेण अयहरी
 माणे एगपज्जअसिए जेण तस्स रासिस्स अयहारसमया तठया से त तेठगकलिठगे ८, जेण रासीचउक्काण

राक्षेरपहारसमया ख्योअ साण्णअभ्योअ ६ यी राशि अतुक्कनापहारेणापत्रियमाओ द्विपयंबसितो ये तस्य राक्षेरपहारसमयाख्यात्वा
 साण्णअद्वापरयुग्मम् ७ या राशियतुक्कनापहारकापत्रियमाअ एकपयंबसितो य तस्य राक्षेरपहारसमया ख्योअसाण्णोचकस्योअ ८ यो
 अयहारेण अयहरीमाअ अठपयंबसिए १ तथा अइराशियते अतय्ज्ज अयहारेकरो अयहरीमाअ आर अयरेइ । अअ तच्छरासिअ अयहारेण
 मया तथाया । अइ तइराशियते अयहारेसमय अज्ज यतडे तीअइ । अत तथाग अइअअ १ । तेइअअ अतयगमअइये । जेअ रासीचउक्काण अयहारेण
 अयहरीमाअ तिपय्ज्जसिए । अइ राशियते अतुक्क २ नी अयहारेकरी अयहरीमाअ ताअयपरइ । जेअ तच्छरासिअ अयहारेण अयहरी
 राशिया अयहारेणमअ तीअइअ । अत तथाय तेअनी १ । तइ अज्ज २ अइये । अअ रासीचउक्काण अयहारेण अयहरीमाअ
 अतुक्कने अयहारेकरो अयहरीमाअ दाअयपरइ । अअ तच्छरासिअ अयहारेणमअ तेअया । अइ तेइराशिया अयहारेणमअ तीअइये । जेअ राशियते
 य ७ । तइ अथाअ द्वापरकृतयुग्मे । जेअ रासीचउक्काण अयहारेण अयहरीमाअ एगपय्ज्जसिए । अअ राशियते अतुक्क अयहारेकरो अयहरीमाअ
 अयहारेण । अअ तच्छरासिअ अयहारेणमअ तथाया । जेअ तेइराशिया अयहारेणमअ तेतीअइये । अत तथाग अइअअअइये ।

हारिण श्युग्रहीरमणे एगपञ्जायसिण् जेण तस्स राखिस्स श्युग्रहारसमया दावरजुम्मा से तं दावरजुम्मकलिठ
 ने १२, जेग रासीचउक्काण श्युग्रहारेण श्युग्रहीरमाणे चउपञ्जायसिण् जेण तस्स रासिस्स श्युग्रहारसमया
 कलिठुंगा सत कलिठुगक्रुजुम्मे १३, जेण रासीचउक्काण श्युग्रहारण श्युग्रहीरमाण त्तिपञ्जायसिण् जेण तस्स
 राखिस्स श्युग्रहारसमया कलिठुंगा सेत कलिठुगतेठगे १४, जेण रासीचउक्काण श्युग्रहारेण श्युग्रहीरमाणे
 दुपञ्जायसिण् जेण तस्स राखिस्स श्युग्रहारसमया कलिठुंगा सेत कलिठुगदावरजुम्मे १५, जेग रासीचउ

ममाव एकपयवधितो य तस्स राधोरपहारसमया क्वपि द्वापरयुग्मा काङ्गापरयुग्मस्योऽः १२ या राशियत्तुक्केतापहारषापत्रियमावद्यतु।
 पयवधितो य तस्स राधोरपहारसमयाः कक्ष्योऽः काष्ठस्वाश्रुतयुग्मम् १३ यो राशि यत्तुक्केतापहारषापत्रियमावाः एकपयवधिता ये तस्य
 राधोरपहारसमया से कक्ष्याऽः काष्ठस्वाश्रुतयुग्मम् १४ यो राशियत्तुक्केतापहारषापत्रियमावो द्विपयवधितो य तस्य राधोरपहारसमया से
 कक्ष्योऽः काष्ठस्वाश्रुतयुग्मम् १५ यो राशियत्तुक्केतापहारषापत्रियमाव एकपयवधिता ये तस्य राधोरपहारसमया क्वपि कक्ष्याऽः काष्ठ

पपहार करी पपहरतावकी चार श्युग्रहे । अथ तच्छराखिण्य पपहारसमया कलिषागा । अथ तत्र राशिनो पपहारसमय कक्ष्याऽः काष्ठ । सत कलिषा
 न कक्ष्यम् ११ । एतस्य एकपयवधिते तत्र कक्ष्याऽः काष्ठयुग्म कलिषे । खेकरावी चउकरेण पपहारसमये त्तिपञ्जयसिण् । अथ राशियत्ते पतत्र
 पहारिषो पपहरतावकी तोन श्युग्रहे । अथ तच्छराखिण्य पपहारसमया कलिषागा । अथ तत्र राशिनो पपहारसमय एकपयवधिता । सत कलिषागातया
 ती १४ । तत्र कक्ष्याऽः काष्ठ कलिष । खेकरावी चउकरेण पपहारसमये त्तिपञ्जयसिण् । अथ राशियत्ते पतत्रकरी पपहरतावकी
 शय श्युग्रहे । अथ तच्छराखिण्य पपहारसमया कलिषागा । अथ तत्र राशिनो पपहारसमय कक्ष्याऽः काष्ठ । सत कलिषागा द्वावरकक्ष्ये १५ । ते
 च कक्ष्योऽः काष्ठयुग्म कलिषे । खेकरावी चउकरेण पपहारसमये त्तिपञ्जयसिण् । अथ राशियत्ते य तत्रकरी पपहरतावकी पपहरतावकी एक

पावतुकापकारे षतु पपगविता पदपकारसमया य षतुःपर्वषषामा सौकृतयुगकृतपर्मैकेन्द्रिया इत्यर्थं सर्वत्रेति ॥ षड्वा उप्यल्लुहुरस्यसि ॥ उप्यल्लो

कृपाण श्रयदारेण श्रयहीरमाणे एगपञ्जयसिए जेण तस्स रासिस्स श्रयवहारसमया कलिठंगा से त कलिठंगा फलिठंगे १२ । से तण्ठेण जाय कलिठंगकलिठंगे । कळजुमकळजुमएगिदियाण जते । कळउववज्जाति कि णेरडय जहा उप्यल्लुहुंसए तहा उवधानं । तेण जते । जीया एगसमएण केवइया उववज्जाति ? गोयमा ! सोलस या सवेज्जा या श्रसवेज्जा या श्रणता या श्रणता जते । जीया समए सम० पुच्छा , गोयमा ! तेण श्रणता समए सम० श्रयहीरमाणा २ श्रणताहि ठंसपिणीउस्सपिणीहि श्रयवहरिति णोखे

इत्थोत्रकश्योकः १६ ततमार्येन यावत्कल्योबकश्योकः । कृतयुगकृतयुगैकैन्द्रिया मदल्ल ! कुत उत्पद्यन्त कि नैरयिक (प्रवृत्ति) मयात्पयो इत्येके तपोत्याहः । ते जदल्ल ! बीया एकसमये कियत्त उत्पद्यन्त ? गीतम । योरुशवा सङ्कया वाऽसङ्कया वाऽनन्ता वोत्पद्यन्ते । से जदल्ल । बीया समय २ पुच्छा गीतम । ते जनन्ताः समये २ अपत्रियमाणाः २ मन्ताभि इवसपिस्सुरसपिष्वाजिरपत्रियते तैववापत्रिता स्युसुवत्त

यदत्त । अत्र तत्परावित्त पदकारसमया कल्पिमाया । अत्र तेइहायिता अपकारसमय एवकवे । सेतं कलिपीगकलिपीया १६ । तेइ कववाज २ क १६ । येतववृत्त वाच कलिवाग कलिपीया । तवेपदे हेगीतम यावत् कववाज २ एवहाकगे कश्चिय । कळकअ २ एगिदियापभते कपावववज्जाति । अत एवम उववज्जात एवोद्वेइ इमगवन् किवकिको अण्णे १ प्र ७ । कियत्तम अहा उप्यसुसिए तहालववापो । स्यु मारकोबको इत्थावि इहा इत्थारमे यतके वदिमत्तदुदय कथा तिम कवपात इहा पवि कवमा । तेवमते बीया एगसमणं कववया उववज्जाते । तेइ हेमगवन् बीव एकेसमये करी क्वतसा नपणे १ प्र कत्तर । गोयमा साकसवा सवुम्मावा पसुम्मावा उववज्जाता । हेगीतम एते मववा सज्जाता पववा पसुम्माता पववा पल ना अउवे । तेवमते बीया कसए २ पुच्छा १६ । हेमगवन् बीव समये २ अपकारम १ प्र० कत्तर । यावमा तथं पवतासमए २ मववीरमाणा २ प

गा या शृणुतीरगा वा । तेण ज्ञेते ! जीवा किं कण्ठलेस्सा पुच्छा, गोपमा ! कण्ठलेस्सा वा णीललेस्सा वा काउलेस्सा वा तेउलेस्सा या णो सम्महिंठी णो सम्मामिच्छादिठी मिच्छाविठी णो णाणी श्रृखाणी णियम दुश्रृखाणी तजहा—मत्तिश्रृखाणी य णो मणजोगी णो वडजोगी कायजोगी सागा रोयउत्ता वा श्रृगागारायउत्ता वा । तत्तिण ज्ञेते ! जीवाण सरौरा कइवखा जहा उप्पलुद्धेणए ससुत्थपुच्छा,

या कर्मेणा मुदियिनो नो श्रृणुदयिन एका कम्मामुदीरवा ना नदीरक्का; वदनीयापुपासुनीरकावामुदीरवा वा । ते जवन्त । लोवा; किं कण्ठसयः पुच्छा गीतम । कण्ठसयया वा नीलसयया वा कापोतसयया वा तज्जालसयया वा नो सम्महिंठिनो नो सम्महिंठिणादुदित्तो मिच्छा इद्विमा नोच्छानिनो उच्छानिनो निपमाद्यजानित्तसयया—सत्तच्छानिनसय मत्ताच्छानिनसय नोमनोयोगिनो भावायोगिन; साकारो पयोगुक्ता वाऽसाकारोपयोगुक्ता वा । तथा जवन्त । भावाभा शरीरानि कतित्तणानि यपोत्पत्तीगुच्छक सवत्र पुच्छा गीतम । उत्पत्ताहुय

पर्यं यत्तु इत्थं सगपरिवाणे । इमं निचे उत्पत्तवट्टेयकनो परिपाठो यत्तुलम कइवा । सत्तत्ति कय्याचं उच्छं वा यत्तटा । समकारं कम्मनाउच्छोके पवि पववयो नको । इत्थं कय्याच उच्छोरगा वा यच्छोरगा । इत्थं कम्मना उच्छोरकं यवि यत्तुच्छोरकं नकोके । वेदुविक्काकयाच उच्छोरगावा यत्तु दीरमावा । वदनेय यालसा ण कम्मना उच्छोरकं इवे यववा यच्छोरकं इवे । तेचर्भत लोवा वि कइववखा पुच्छा । तत्र वेमगवन् काव यत्तु उत्पत्तयो र म । भावमा कइववववा वा योक्कय्याभा वाउक्कय्यात् तउक्कयावा । वेभोतम कय्यवयो यववा नोक्कय्यो यववा कापातकयो यववा तजाकयो इवे । वा मत्तदिठो वा कय्यामिच्छादिठो मिच्छादिठो । सत्तत्तट्टो नको मिच्छट्टो नको मिच्छट्टो इवे । वापाको यववावे । ज्ञानोत्तको य ज्ञानो इव । विवर्म्मं दुपपकावो त । निवमं हाय यववावो इवे तेक्कवे—माउपकावोव उपपकावोव । सत्तिपज्जानी इत्तपज्जानी । वा मवज्जानी वा वासागे कायत्रायो । नको मत्तासावो नदी कवन्तयोवो कावंबागे इवे । सापायाउक्कयावा यववायाउक्कयावा । साकारापसुत्त वेत्तु यनाकारोपसुत्त इवे ।

देवत्रयं पञ्चाङ्गशतं प्रथम इह च यत्र कृषिपदे उत्पत्तौ वैशकातिदेशः क्रियते त एतत्पञ्चाङ्गपर्यं न खवेदो न प्रलङ्घति ॥ उत्पत्तौ वैशके उत्पत्तौ च

गौयमा ! उप्युद्धे मए ऊमामगात्रा णीसासगात्रा णीउस्सासगा णीसासगात्रा आहारगावा आगाहारगावा
णाथिरया अथिरया णो थिरयाथिरया सकिरिया णा अकिरिया । सतविहयधगात्रा अठविहयधगात्रा
आहारसयाथउत्ताया जाव परिगहसयाथउत्ताया कीहफसाइ जाव लोचकसाहया णो इत्थीअदगा णो परि
सयदगा णपुसगंवेदगात्रा इत्थीअदयधगात्रा णपुसगंवेदयधगावा णोसखी असखी सहदिया णोअणिदिया
क उक्कासत्रलो वा नि घासत्रलो या मोठरथासत्रलो नि घासत्रलो वा उठारका वा उठारका वा मोठिरता अठिरता मोठिरताविरताः
सकिया मोठिकियाः सविषयत्थका वा उठविसयत्थका वा आहारसखीपयुक्ता वा यावत्परिपहसखीपयुक्ता वा कोपफयापिनो यावत्तानक
यापिनो या मोठीयदका मोठुठपयदका नपुसकवदका स्त्रीवदयत्थका वा नपुसकवदत्थका वा नासखीमोठसखिमः सन्निप्रा नैवाभिलि

तमिभ भते लोबारं सरोरा कइत्थका । तेइका देभयभन् लोयला मरोर केतलाबके इव । कइता उव्यसुरेसण सवत्थपुण्णा । किम इव्यारसायतकना प
ठिकाउदइयानेविवे कइता तिम कइयो सगळे कानक इ प्र उ० । मायमा उव्यसुदइमए उमासगावा कोसासगावा । देभोतम किम उव्यसुदइया
नविवे कइता तिम इका पवि कइया उसासयत्त पत्थका नोसासयत्त । वा उव्यासग कोसासगावा पाठारगावा पत्थाकारगावा । नइो उसास
नामानयत्त पाठारक पवि पत्थाकारक पवि । वा विरता अठिरका ो विरयाविरता । नइो वरतो एतावता अठिरतो नइो विरता विरतो ।
सविया को पठारिका । सविपळे पठियनइो । सतविहयधमावा अठविहयधमावा । पाठवउतीन सातविहयधक पत्थका अठविहयधक । पाठ
उव्यासयत्तका जाव परिगहसयाथउत्ताया । पाठारसयाथउत्ताया । पाठवउतीन सातविहयधक पत्थका अठविहयधक । पाठ
यावत्तानकयत्तो । को इत्थीवेदगा को पुरिसवेदगा वपंसगयत्तगावा । नइो आठदत्त नइो पुठयवेदक एतावता अठववेदको इवे । इत्यवेदकयत्तगावा

तेण ज्ञेते । कुरुजुम्भ २ एगिदियातृत्ति कालेन केअचिरहोड ? गोयमा । जहखेग एकू समय उक्कोसिग छ
 णत काल छुणताने तेनप्विगाउस्सप्विणीठे यणस्सठकालो सधहीणजसुड । आहारो जहा उप्पलुहुंमए गउर
 णिआघाएण आइसि वाधाय पठुच्च सियत्तिदिसि सियथउदिसि सेस तहथ ठिइ जहखण

या । त सडल । कुरुजुम्भकालेकेप्विया कासत कियदिरस्सजलि ३ गौतम । कपन्यनेक समयतरुपगालन कालम् उनता उरमप्विय
 वसप्विये वनरपतिकाल सम्बगान तस्सत । आहारा यथात्पलाइअउ मवरं गिआयातन पठुण्ड आयात मतात्य स्यादुक्कउय स्य य
 तादक स्यात्पथदिकेण तयस स्थितिअपन्यनेक समयमुक्कपेता वायिसंत्तवपसइआअ समुत्तसा आदिमानुत्तारो मारवात्तिअएणु

उपम वे इइगावा । जोइइइअउ पयथा तपसअवठवथअ । आसणा यमसा उइदिया वा य उदिया । नओ सजा पसज्जाइ रेअियमजित्ते तडा य
 मअियुउय इत । तेकमत कइलुअ २ णगिदियाथा इकासवाकअचिरहाइ । तउ हेमगवन् कुरुपुरम एके इव कालवकी कतथाकाम । पइइइ १ म उ
 तर । आरमा अउउअ उअ समर उवासअ पथतकाअ । जौतम अउअवका एकसमय उल्लु वकी पअत्ताकाम । पयताथा पासपिथा कथापि ॥ १
 इअसकाभा मइडा अ मअइ । उअत्ताया पइस उकी कइपि को काअउके अतसाकाअ उअअहुदयानदिये उअअअअवने उत्याट विचारमा । तडा य
 वि । आदियिकन कायात्तरउपय सइअ मअने इवा ता उक्केअियेने अअयस व कुम्मअियपवने उत्याटपथिअर तेउ इअयकी पअत्त डोज उअसे त
 वाना ओअअअमा अमंअअका मइअ अउये तउ साअसाठिकता एउे इउनेने वे उत्याटकइता तेउ अअकायिकअ । अइ तअअने पे उअवे तउ उअअअ
 अ अथिवा मइा प रमेााअअ अअत्तामा म तअमअ र अअपि उत्याअअका । पाइ रा अइा उअसुअउमए । प इ र अअम अअअअहुदियानदिये अ
 अ तिम अइ । पवर विअ अउअ अइसि कावाअपअअ सिअतदिसि मिय पअदिसि समतअ । एतका उअय जिअवि त अ उअयमा
 अइओ आयात पाअयाने अइाअिप ताअ दियिमा अइापित् चार दियिमा अइाअित् पाअदियिमा पूअमापर अइना मय तिमओअ अइना मय तिम

स्वीप्ताडो विग्रहिन माय च पृथिवीजायिकादिकायां मरावेवया सवपा सम्प्रति इदं स्वकन्द्रिणायां एतयुग्म २ विशेषाभावा मत्वाडो ऽपि
इत हा च वलुता मता उवात्पद्यन्त तयां योदुत रसमया रम्यया म सम्भाल यथ पाकपद्यादीना मकस्त्रियपू त्पादीं ऽनि पिता ऽनो प्रसभा

एकं समय उक्तासेग या नीस याससहम्साह समुग्र या आदिज्ञा, चक्षारि मारणतिय समुघ्याया तेण समो
हयायि श्रमभीहयायि मरति उहृहा गा जहा उव्वलुहुमए। श्रुह नते। सञ्जपागा जात्र सञ्जतना कळुञ्जना,
एगि देयत्ताए उत्रयणपुष्ठा ? हुता गीयमा। श्रमदृश्युया श्रणतखुन्ना ? इळुजुम्भनहंग एगिदियाण जत।
कठउत्रयज्जति उत्रयाउं तहेय तेण नते। जीया ए। उच्छा, गीयमा। एगूगयीना या सखजा या श्रमखे

प्राता एत समयइता अप्यमयइता अपि यियल उदुर्तना पणात्पसाहुशक। अप नदल। सर्वे प्राजा पायउर्वे सत्याः कृतयुग्मकृतयुग्मेवे
। अत्रयत्पलपूडा । इत गीतम। असलदयवाऽनलललाः १। कृतयममप्याजिकस्त्रिया मदल। युम उापद्यल सत्यादसापेय त नदल। जी
वा एव पुष्ठा गीतम। एकासविशदा सङ्गुया याऽसङ्गुया कलना वात्पद्यस्त शप यथा कृतयुग्म पायदगन्तलत्य २। कृतयमद्वापरयमंग

रोज। ठिगे अचचच एव समय उवासाच वाशेसंवाससङ्कार। स्थिति लक्षययो एवसमय उरकटय । वायावमइस भपता। समयाया याऽनिज्ञा
पनादि मारकतियममायाया तव सम इयावि असमाइयादि मरति। समयात पडिहा वारमारकतियक समय तेकरा तइ मयाडितवथा पकिमरे प
पयाडितवथा पनि मर। उरुइवा यथा उरुपुदुदमंग। उहलतना जिम उत्यमनाम इय रनायातकना पडिहा दुगेगत विवे क्क्षा तिम कड्या। प
इ मम सकपाया वार म इमना। इिय इमलडनू सवपाया कायत् मकलय। उहअप्य २ एगिदियत्त, ए उहअपुला। कृतयुग्म २ एके इवपे उवपना
पू १ म इतर। इना गारना यमा यइवा यजतपुता। इ। शाीस यमअवार यजना यजनावार कडना। उहअम तेपाग एगिदियाव मत क
या उववज्जति उववाभातडेय। कृतयुग्म यवाज एकेदिय वैमममन् विद्यायो कपजे इयादि पूववत् उपपात तिमकाज कड्या। उवमत आवा एग

जाया स्थणता वा उग्रयज्जति सेस जहा कण्डुजुम्मण जाय स्थणतखुप्पी २ । कण्डुजुम्मदायरजुम्मणुगिदिद्या
 ण ज्ञन । कच्छ उग्रयज्जति उग्रयातो तहेय । तेण ज्ञते ! जीवा एगपुच्छा, गोयमा । स्थठारस वा सखेज्जा
 वा स्थमखेज्जा वा स्थणता वा उग्रयज्जति सेस तहेय जाय स्थणतखुप्पी ३ । कण्डुजुम्मकलिङ्गणुगिदिद्याण
 ज्ञने । कच्छ उग्रयाता तहेय परिमाण सत्तरस वा सखेज्जा वा स्थणता वा सेस तहेय जाय
 स्थणतखुप्पी ४ । तेउगकण्डुजुम्मणुगिदिद्याण ज्ञते ! कच्छ उग्रयातो तहेय परिमाण वारस वा सखेज्जा वा
 स्थिया नदत्त । कुल उत्पद्यते उत्पादत्तयेव । ते नदत्त । जीवा एक पुच्छा गौतम । अष्टादश वा सहेया वाऽऽसहेया वाऽऽनत्ता वोत्पद्यस्त
 अय तपेय यावदमत्तत्तव ५ । कण्डुपुग्गसकखीकखिन्त्रिया प्रदत्त । कुल उत्पादत्तयेव, परिमाय सप्तदश वा सहेया वाऽऽसहेया वाऽऽनत्ता वा
 अय तपेय यावदमत्तत्तव ६ । अ्यात्रस्तपुग्गसकखिन्त्रिया नदत्त । कुल उत्पादत्तयेव परिमाय द्वादश वा सहेया वाऽऽसहेया वाऽऽनत्ता वोत्प
 द्यता । तेह हेमवन्नू जीव णवसमये यववा अपवे ६ म उत्तर । गोयमा एगुक्करोधावा सखज्जावा पसखज्जावा पचतावा उग्रयज्जति । हेगौतम
 उगुजीव पचवा खज्जावा पचवा पसख्याता पचवा पनत्ता अपवे ७ । सेसं कच्छा कच्छुत्थाय जाय पचतखुत्ता १ । यय जिम कृतयुग्गमविदे कच्छा तिम
 कच्छा बावन् पनत्तीवार उत्पत्ता । कच्छुत्थ पानत्तुय एमिदिवाचभते कच्छा उग्रयज्जति उग्रयाता तहेय । कृतयुग्ग वापरयुग्ग एके द्वय हेमवन्नू वि
 वावमा पट्टारसवा सखज्जावा पसखज्जावा पचतावा उग्रयज्जति कच्छा । तेक हेमवन्नू जीव णवसमये कच्छा अपवे ६ म ८ ।
 वे गय तिमहीत्र कच्छी । जाय पचतखुत्ता २ । यानत् पनत्तीवार अपत्ता जीव कच्छुत्थ कच्छिभाग एमिदिवाचभते कच्छा उग्रयाता । कृतयुग्ग कच्छी

स्थिया नदत्त । कुल उत्पद्यते उत्पादत्तयेव । ते नदत्त । जीवा एक पुच्छा गौतम । अष्टादश वा सहेया वाऽऽसहेया वाऽऽनत्ता वोत्पद्यस्त
 अय तपेय यावदमत्तत्तव ५ । कण्डुपुग्गसकखीकखिन्त्रिया प्रदत्त । कुल उत्पादत्तयेव, परिमाय सप्तदश वा सहेया वाऽऽसहेया वाऽऽनत्ता वा
 अय तपेय यावदमत्तत्तव ६ । अ्यात्रस्तपुग्गसकखिन्त्रिया नदत्त । कुल उत्पादत्तयेव परिमाय द्वादश वा सहेया वाऽऽसहेया वाऽऽनत्ता वोत्प
 द्यता । तेह हेमवन्नू जीव णवसमये यववा अपवे ६ म उत्तर । गोयमा एगुक्करोधावा सखज्जावा पसखज्जावा पचतावा उग्रयज्जति । हेगौतम
 उगुजीव पचवा खज्जावा पचवा पसख्याता पचवा पनत्ता अपवे ७ । सेसं कच्छा कच्छुत्थाय जाय पचतखुत्ता १ । यय जिम कृतयुग्गमविदे कच्छा तिम
 कच्छा बावन् पनत्तीवार उत्पत्ता । कच्छुत्थ पानत्तुय एमिदिवाचभते कच्छा उग्रयज्जति उग्रयाता तहेय । कृतयुग्ग वापरयुग्ग एके द्वय हेमवन्नू वि
 वावमा पट्टारसवा सखज्जावा पसखज्जावा पचतावा उग्रयज्जति कच्छा । तेक हेमवन्नू जीव णवसमये कच्छा अपवे ६ म ८ ।
 वे गय तिमहीत्र कच्छी । जाय पचतखुत्ता २ । यानत् पनत्तीवार अपत्ता जीव कच्छुत्थ कच्छिभाग एमिदिवाचभते कच्छा उग्रयाता । कृतयुग्ग कच्छी

ध्यसद्योज्ञा वा शृणुतावा उच्यवज्जाति सेस तद्देय जाय शृणुतस्युप्तो ५ । तेतृगतेतृगणुगिदियाण न्ते । कच उच्य
 वज्जाति उच्यवज्जाति तद्देय परिमाण पण्यरस वा सखेज्जा वा शृणुता वा सेस तद्देय जाय शृणुत
 सुप्तो ६ । एव एणसु सीलससु महाजुम्मेसु एक्को गमच परिमाणे णाणत्त तेतृयदावरजुम्मेसु परिमाण

टण्णे सप तपेव पावदनललत्वा ५ । श्रोत्रश्रोत्रेकेन्द्रिया न्नवल । कुल उत्पद्यन्ते उत्पादस्तपेव परिमाणं पच्यदशा वा सङ्केपा वाऽसस्येया
 वाऽनन्ता वा सप तपेव पावदनललत्वाः ६ । एवमेतत्तु पीठयसु महायुम्पु एको गमको नवर परिमाणे नानालं श्रोत्रवृत्तपरयुग्मे परिमा

नायना पञ्च रसवा मयुज्जावा असखेज्जावा पचयावा उच्यवज्जाति ससतरेण जाय पचतसुत्ता १ । ज्योतस पठारे पचया सख्याता पचया असख्याता
 पचया पनन्ता अपजे मय तिमकोच कइवा । वाइत् पनन्तोवार अपया जीव २ । कइवस्य कमिपाग एगिठयाच भत कया उच्यवाया तइव । कूनय
 म कल्याण ऐकेन्द्रिय इमयवन् विहावको अपय इत्वादि तिमकोच कइवा । परिमाण सतरसवा सखेज्जावा असखेज्जावा पचतावा ससतइव जाय
 पचतसुत्ता ३ । परिमाण न्तरे पचवा सख्याता पचवा असख्याता पनन्ता अपजे मय तिमकोच कइवा याइत् पनन्तोवार अपजे ४ । तेषाग कइव
 वा गमिदियाच भत कया उच्यवाया तइव । वाइत् कूनयम एव इव इमयवन् विहावको अपय इत्वादि उच्यवज्जाति तिमकोच कइवा । परिमाण वा
 रसवा मयुज्जावा असखेज्जावा पचतावा सख्याता पचवा असख्याता पचया सख्याता पचया सख्याता पचया सख्याता पचया सख्याता पचया सख्याता
 ता अपजे मय तिमकोच कइवा याइत् पनन्तोवार अपया । तेषाग तेषाग एगिठियाच भत कया उच्यवज्जाति उच्यवापातरे ५ । श्रोत्र एकेन्द्रिय इमय
 वन् विहावको अपय इत्वादि उच्यवज्जाति तिमकोच कइवा पच । परिमाण पचरसवा सखेज्जा वा असखेज्जावा ससतइव जाय पचवज्जाता ६ ।
 परिमाण न्तरे पचवा सख्याता पचवा असख्याता पचवा पनन्ता अपजे मय तिमकोच कइवा याइत् पनन्तोवार अपया । एव एणस सीलस मङ्गल
 मय पञ्चागमपा नवर परिमाण नारत्त । एम एइ सत्ते मइ यम्मेविपे एव गमा जांइवा एतहावियेव परिमाणविपे नानाल कइवा । तेषाव दा

जाया अणता वा उययज्जति सेस जहा कऊजुम्माण जाय अणतसुत्तो २ । कऊजुम्मादायरजुम्माणुगिदिया
 ण नन । कउ उययज्जति उववातो तहेय । तेण नते ! जीवा एगपुच्छा, गोयमा ! अठारस वा सखेजा
 या अम्मरेजा या अणता या उययज्जति सेस तहेय जाय अणतसुत्तो ३ । कऊजुम्माकलिउगणुगिदियाण
 नते । कउ उययता तहेय परिमाण सत्तरस वा सखेजा वा अस्खजा वा अणता वा सेस तहेय जाय
 अणतसुत्तो ४ । तेउगकऊजुम्माणुगिदियाण नते । कउ उयवातो तहेय परिमाण वारस वा सखेजा वा
 न्द्रिया नदत्त । कुत उत्पदाग्ते उत्पादत्तयेव । ते नदत्त । जीवा एव पुच्छा नीतम । अटादह वा सहुंया वाऽसहुंया वाऽमत्ता वोत्पदाग्ते

ईय तपेव पावदमत्तत्तवः ३ । कतपुग्गस्योक्कन्द्रिया नदत्त । कुत उत्पादत्तयेव परिमाय ससव्वावा सहुंया वाऽसहुंया वाऽमत्तावा
 नाय तपेव पायइमत्तत्तवः ४ । स्योमउतपुग्गस्योक्कन्द्रिया नदत्त । कुत उत्पादत्तयेव परिमाय वृदाह वा सहुंया वाऽसहुंया वाऽमत्तावोत्प

दाह । तेह ईमयवन् जीव ऽकसममे वाता अपत्ते १ प्र उत्तर । मायमा एगुक्कोसावा सखजावा पसखजावा पवतावा उववत्तति । हेमीतम
 वववा यावत् पनतीवार अपत्ता पववा पनता अपत्ते । सेसं कदा कइणुयाव जाव पर्वतसुत्ता २ । यय किम कृतमुम्मन्निपे कथो तिम
 ई अपत्त इत्वादि अपपात अिमहीव पुवेकया तिमहीव कववा । तेवमति जीवा एगुववा । कुतपुग्ग वापरपुग्ग एवे द्रव हेमगवन् वि
 गायमा अठारसवा सखजावा पसखेजावा पववावा उववत्तति ससं तहेव । हे नीतम अठारे पववा सखाता पववा पसखाता पववा पनता अप
 ते यय तिमहीव कववी । जाव पर्वतसुत्ता ३ । वावत् पमतीवार अपत्ता जीव कइणुय कइिपाग एणिवियावभते कथा कववाया । कुतपुग्ग कववी

सखेज्जा या श्यसखेज्जा या श्यणता वा उययज्जति १३ । कलिउंगतेउंगेसु सप्त वा सखेज्जा वा श्यसखेज्जा
या श्यणता वा उययज्जति १४ । कलिउंगदाअरजुम्मंसु उ वा सखेज्जा या श्यसखेज्जा वा श्यणता वा उय
यज्जति १५ । कलिउंगकलिउंगगणिवियाण ज्जेते ! कउ उययज्जति उववाउ तहेय परिमाण पच्च वा सखेज्जा
वा श्यसखेज्जा वा श्यणता वा उययज्जति सेस तहेय जाव श्यणतसुत्तो सेव ज्जेते । ज्जेते । ति ३५ ॥ १ ॥

याअज्जावोत्पद्यत १२ । कस्याअरतयुम चत्तारो वा सकयपायाउरकयया वाअज्जावोत्पद्यत १३ । कस्योअरतयुम ससया सकयपायाउरकये
यावाअज्जावोत्पद्यत १४ । कस्योअरतयुमे पट्ठा सकयया वाअरकयया वाअज्जावोत्पद्यते १५ । कस्योअरतयुमेकेम्पिया जदत्त । कुत
उत्पद्यते उत्पातस्येव परिमाच पच्च वा संकयेया वाअरकययावाअज्जावोत्पद्यते हाय तथेव यावदत्तकत्वा १६ । तदेव मदत्त । अत्
त्त । इति २ पच्चविद्वज्जते प्रथमोव्या ॥ ३५ ॥

कवचयेम चत्तारिवा सखेज्जाया पचताया कवचव्यति १३ । कस्याअरतयुम ससया सकयपायाउरकये
यावाअज्जावोत्पद्यत १४ । कस्योअरतयुमे पट्ठा सकयया वाअरकयया वाअज्जावोत्पद्यते १५ । कस्योअरतयुमेकेम्पिया जदत्त । कुत
उत्पद्यते उत्पातस्येव परिमाच पच्च वा संकयेया वाअरकययावाअज्जावोत्पद्यते हाय तथेव यावदत्तकत्वा १६ । तदेव मदत्त । अत्
त्त । इति २ पच्चविद्वज्जते प्रथमोव्या ॥ ३५ ॥

कवचयेम चत्तारिवा सखेज्जाया पचताया कवचव्यति १३ । कस्याअरतयुम ससया सकयपायाउरकये
यावाअज्जावोत्पद्यत १४ । कस्योअरतयुमे पट्ठा सकयया वाअरकयया वाअज्जावोत्पद्यते १५ । कस्योअरतयुमेकेम्पिया जदत्त । कुत
उत्पद्यते उत्पातस्येव परिमाच पच्च वा संकयेया वाअरकययावाअज्जावोत्पद्यते हाय तथेव यावदत्तकत्वा १६ । तदेव मदत्त । अत्
त्त । इति २ पच्चविद्वज्जते प्रथमोव्या ॥ ३५ ॥

रणपरपत्पेक्षया मष्टती उक्ता नूत् इह तु प्रथमसमयोत्पत्त्यर्थेन साक्षयेति, भाषात्वं एव मत्यान्वयि क्षापियो स्मानीति ॥ ३५ ॥ २ ॥ ५ वलीयो

णो उदीरगा अणुदीरगा, णो उस्सासगा णो गिस्सासगा णो उस्सासणिससासगा । सत्तव्हियहयधगा वा णो
अठ्ठत्रियहयधगा वा । तेण जत्ते । पठमसमयककुजुम्भ २ एगिविया सि कालत्त केवचिर होइ ? गोयमा !
एक्का समय एव ठितीएथि, समुग्घाया अग्घादिष्ठा दीच्छि । समोहया ण पुच्छिजाति उव्वहणा ण पुच्छिज्जइ
सेस तहेय ससु गिरयसेस सीलससुथि गमएसु जात्र अणुतसुखो । सेव जत्ते २ ! सि ॥ ३५ ॥ २ ॥

सुखा णो उच्छामन्निःशासकाः । ससविपत्तपक्कावा णोऽऽवधिचयत्थकावा । ते प्रवत्स ! प्रथमसमयकृतपुग्गमकृतपुग्गेक्किवुया इति काससः किय
धिरत्तवत्ति ? गीतम । एक समयएव स्थितावपि सुसुम्हाती धाविमो द्वी समयएता न पुच्छनीयाः धट्टर्तना न पुच्छनीया सर्वे तथैव सर्व
निरयत्तप पीकालापि गमकपु यावदमत्ताकत्वा । तदेव प्रवत्त ! प्रवत्त ! इति ॥ पचत्रियशब्दते द्वितीयाः ५ ३५ ॥ २ ॥ ५

रगा वा उक्तासगा वा विस्वासमा वा उक्तासन्निष्ठाधया । पाककाना उदीरक णो एतावता अणुदीरकत्वे णो उक्तासवगत णो निष्पासवगत न
हो उक्तासन्निष्ठासवगत । सत्तविय उक्तावा अट्टदिउक्तावाया । सात्तमत्ता उक्क पाककत्तीने पचिणो पाठकमत्ता उक्कक । तत्तमत पठनसमय क
इत्थ २ पणिंपाति कासपा कवचिरएत्त । तेह उभयवत्तु प्रथमसमय उततुग्ग २ एक्किव कालकको केतसाहाय इवे । गायमा एकसमय एव ठिरेए
वि । उभोतम एकसमय इम स्मित्तमविये पचि कइवा । समग्घाया पाविष्ठा दापि समाइया व पुच्छिज्जा उक्कइत्ता व पुच्छिज्जए सेसइत्त । समइत्त
पट्टिक्का दाग कइवा समाइया न पूज्जा पचमभक्कको कइत्तना नपूज्जा येय तिसकोक कइवा । सव विरयसेस सामभुवि गमपस जाव पचत्तइत्ता ।
सव निरयत्तपपे भालो पचि तमानविये वावत्तु पत्तगोवार कपणा । सवभते इ ति । तइत्ति उभयवत्तु इत्थाटि पूर्ववत् ३५ ॥ २ ॥ ३५
पठमसमय अट्टतुग्ग एगिदिवाच भंते कथा उक्कवत्ति । प्रथम कइता प्रथमसमयवत्ति समव उक्ताने एक्किवपेरे कपणाजे शाय चादिसमय तेहो

विक्रमोय तप इत्यन्ते, तदपेक्ष एव मनुजः पारमार्थिकोऽनन्तानां प्रतिबन्धं तेषूपपादाविवृतिः पञ्चत्रिंशद्विंशते प्रथमः ॥ ३३ ॥
 पय द्वितीय एव-पदमसमपकठजुम्भ २ यमिद्विपत्ति ॥ ० केन्द्रियत्वमोत्यनौ प्रथमः समयो यथा ते तथा त च कृत्युत्पन्नकृत्युमाद्यति प्रथमसमय
 कृत्युत्पन्नकृत्युमा ते च तं पकन्द्रिया इति इमाका अत एव ॥ मोलसद्युतोति ॥ पीठयकत्वः पूर्वोक्ता श्वोकाशरान्निदानाभिव्यक्त्यर्थः ॥ ताद्य
 ता इति ० पूर्वोक्तस्य विसरत्त्वस्यापानि प पूर्वोक्तापाना सा कश्चि इत्यसमसयोत्पन्नानां न सुसवन्तीति क्त्वा तत्राकाशमा एते द्वेषक याद

पदमसमयकठजुम्भ २ एगिदियाण नते ! कत्र उथयकृति ? गीयमा ! तहेय एव अहेय पठमो उद्देशुते तहेय
 सीलमसुशी यित्तिउवि जाणियसो तहेय सधं यत्र इमानि दुस गागस्रानि हेगाहणा जहखेण श्यगुलस्स
 श्युसरेजाइजाग उक्खीसेगिय श्यगुलस्स श्युसखेज्जइजाग, श्याउयकम्मस्स णी यथगा श्यथगा, श्याउयस्स

तयैय यपेव प्रथमाद्वाक्यस्यैव पीठयकत्वः द्वितीयेति अचित्तस्य सायैव सर्वं तत्र इमानि दृश्य गानास्थानि अथगाइना जपत्यमाहुसस्या
 सङ्घेय तादयमुत्कथयैवापि अमुसस्याधुय प्राग । आपु कस्योऽवत्यका सीयत्थका । आपुय उदीरका अदुदीरकाः । नो उक्कासका नो नि'या
 ति । प्रथमसमय तदोत्र अतनुम २ ते प्रथमसमय अतनुम २ उक्खीसे इमसदन् किर्हाइको अपने २ म उतर । गोइमा तहेय एव अइव पठना
 इद्वेसया तहेय सामसयता वितिपानि भावियका तहेय सध । हेगौदन् तिमडोत्र इम किमडोत्र एविका उदुदयानविपे कइया तिमडोत्र सासेवार
 बोधा उद्देश्यो पवि कइवा तिमडोत्र मगाइ प्रतीत यावैटागि मेइपते पासणेने । अवर इमानि दृश्य आबत्तादि यागाइका । एतकाविद्यय दग्गमे
 दइरी कइवा तिहा पवयाइना पइकाउदुदयानविपे वाकरवभस्यतामां पपवावे माटीकडो इतो इहा ता प्रथमसमय अपनामाटे । अइएव श्यगुल
 मपमसुच्छाभाग इकानेवनि श्यगुलस्य अमसुच्छाभाग । अथमसको अगुलना पसकव पसामान कइवा तत्र उक्खइकको पवि श्यगुलना पसकवातमा
 भाग कइवा। पाठइकस्य वा बदगा बदगा । पाहुकसना इत्यइकको प्रथमसमय म टे एतकामाटे पवमइव तथा । पाठइक वा उदीरगा अमुता

कोदुष्टबाधे तथा दवागनात्वा मृच्छान्तीनापि तानि तथैव समानस्वरूपत्वा तत्प्रथमसमयपरमसमयात् य पुन रिष्टे विशीय सौ वक्ष्यमित्युमाह - नवर
 इवा न सर्वव्यक्ततादि ॥ दवीत्याह नैवेकन्द्रिययु तेजोसधया प्रवर्तति नभेड दवीत्याह सभयवतीति तेजालेखया एवेन्द्रिया न पुरुषात्मा इति ।
 ॥ ३३ ॥ ४ ॥ पञ्चमसु-अपरमसमयकळजुम्भ २ एगिदिपति ४ न विद्यते परमसमय कळसङ्को यथा त अपरमसमया सा च ते कृतयुग्म

तेउल्लेस्वा ण पुच्छति सेस तहेव सेव ज्ञते । जंत । त्ति ॥ ३५ ॥ ४ ॥ अश्वरिमसमयकळजुम्भ २
 एगिदियाण ज्ञते ! कउ उग्रज्जाति जहा अश्वरिमसमयउहेसो तहेय गिरवसेसो ज्ञागियहो सेव ज्ञते ।
 जते । त्ति ॥ ३५ ॥ ५ ॥ पठमपठमसमयकळजुम्भएगिदियाण ज्ञते ! कउ उग्रज्जाति जहा पठमस

उहेसको नवर इवा मोरपद्यन्ते तजोसधया न पुच्छन्त अय तथैव तदेव प्रवल्त । प्रवल्त । इति ॥ पञ्चमसमय कळजुम्भ ॥ ३५ ० ४ ॥
 अपरमसमयकळजुम्भतयुग्मेकन्द्रिया प्रवल्त । कुत उरपद्यन्त यथा प्रथमसमयोदुष्टसाधेव निरवग्रयो प्रखितव्य सादय प्रवल्त । प्रवल्त । इति ॥

दवागनात्सकथा इहा पचि तेइ तिमज्ज कडवा प्रथमसमय पने परमसमयत समान स्वरूपयवीचको यनीज इहा विग्रयेके ते दसाउहे—इउमे ज्ञाजने
 करो एवेन्द्रियन निये तेजाकथा इवे त इहा देवने कथादमसभने ते माटे तेजाकथा एकद्विय न पूसवा इति शय तिमझीज कडवा । सब भते २ ति ।
 तइति इममभन् इत्यादि पूसवत् ॥ ३५ ॥ ४ ॥ पञ्चरिमसमयकळजुम्भ २ एगिदियाक भते कथा उग्रज्जाति । नहो ज्ञे परमसमय कळर
 नपच कथाने त पच एम तडोस कृतयुग्म २ संख्याविशय एके त्रय इमगबन् विहावको जपने इत्यादि । अहा अपठमसमयकळदेवा तहेव विरवसे
 सा भावियत्वा । तिम पपचमसमय उद्वयानेदिये कथा तिमझीज निविशयपचे कडवा । सेवभते २ ति । तइति इमगबन् इत्यादि पूसवत् । ५
 पठम २ समय कळज्जय एगिदियाक भते कथा उग्रज्जाति । एवेन्द्रिय उत्यादनेदिये प्रथमसमय वागबको प्रथम बहो प्रथमसमय कृतयुग्म कृतयुग्म
 पनुभूत तजाने एवेन्द्रियन ते प्रथम प्रथमसमय कृतयुग्म २ एवेन्द्रिय हेममभन् विशीयको जपने इत्यादि । अहा पठमसमय उद्वदनया तहेव विरवसे

इहाके तु ० अष्टमसमयकठजुम्भ २ एगिदिपति ३ इहाप्रथम समयो मेया भकन्त्रियखेभोत्वकानां व्यादयः समया विपद्य य पूर्ववत् एतेष यथा
 सामान्यैकन्त्रिया साया प्रवलीत्यत एवोक्त-एवो कथा पठमवदेसी इत्यादीति ३ ३५ ॥ ३ ॥ अतुर्थे तु चरिमसमयकठजुम्भ २ एगिदिपति ॥
 इह चरिमसमयादनेकन्त्रियाकां परवसमयो विकणितः स अष्टमसमयस्य तत्र च बलमाना अष्टमसमया इत्येया य सतयुगसकतयुग्मा
 य एकाद्व्या को तथा ० एव अथा पठमसमय एवुवर्ति ० यथा प्रथमसमयैकन्त्रियादेशक साया चरिमसमयैकन्त्रियोद्वयकोपे वाच्य सात्रि-बोपि

अष्टमसमयकठजुम्भएगिदियाण जते ! कठ उचयज्जति एसी जहा पठमुदेसो सोलसहित्रि जुम्भेसु तहेव
 णयवो जाय कलिठंगकलिठंगसाए जाय अणतसुप्तो सेव जते २ त्ति ॥ ३५ ॥ ३ ॥ चरिमसम
 यकठजुम्भ २ एगिदिपति जते ! कठ उचयज्जति एव जहेव पठमसमयउदेसठे णवर देवा न उचयज्जति ,

पमसमयकतयुग्मैकेन्द्रिया प्रदत्त । कुल सरपदागत एयो यथा प्रथमोदेशः वीळणसु युग्मपु तपोष घालणो पावत्कस्योक्कल्याजतया यावद्वनम
 नृत्य साश्य प्रदत्त । प्रदत्त । इति ३ पचविद्यसुते वृत्तयोः ० ३५ ॥ ३ ॥ चरिमसमयकतयुग्मैकेन्द्रिया प्रदत्त । कुल सरपदाग्ने १

अ जतवम २ एकेन्द्रिक प्रभागान् बिहवाको कपज इत्यादि । एवो जहा पठमादुदेशा साहसत्रिदि ककामु तहेव शिव्या । एव बिम सामान्यकरो एवे
 द्विपकथा तिम एव पचि कठवा सावाट सम्यक्त्रिदि पचि तिमकोक कठवा । याव कलिपोग कलिधामताए चाय पचतकता । वायत् कल्याक कला
 जयवे यावत् पनरपोवार कपना । सेवमते २ ति । तत्रति प्रेममनन् तुळकथा ते सर्व सन्धे २ ५ ॥ २ ॥ चरिमसमय कठकवा २ एगिदिया
 भते कथा उचयज्जति । इहा चरिमसमयस्येवो एकेन्द्रियके सरपदागत विचारो ते इपरभवर्ता याज्याकको पत्रिया कोक सखयने बिदे वलमान त
 चरिमसमय सवराये करो जूतयमवृत्तयुग्म एकेन्द्रि प्रेमम वन् तेव बिहवाको कपजे । एव अष्टमसमयकठकथा एवर देवा क एवज्जति , तेवो
 का च पुञ्जति सेव तहेव । इम विम प्रथमसमय एकेन्द्रिक उदेयस्य मचि कठवा तिहा वीचिक उदुदेयस्य त्रयेवावे

बोधैश्वर्यायैक्या यज्ञानामात्मा म्युक्तामीह्यापि तानि तपीव समानस्वरूपत्वा शरप्रथमसमयपरमसमयाणा य पुन रिहै विशेषेण सौ वशयितुमाह-मवर
 इवा न स्ववज्जतीत्यादि ५ देवोत्याद मैकेन्द्रिययु तेजोसद्यया प्रवति नपेह दवोत्याव सम्भवतीति तेजोलेहया एकेन्द्रिया न पुरस्कृत इति ।
 ५ ३५ ५ ५ पञ्चमसु-अवरपरसमयककुम्भ २ एगिदियमि ५ न चिद्यते परमसमय उत्कलकषो यपां त अवरमसमया से च तै कृतयुगम

तेउलेस्सा ण पुच्छति सेस तहेव सेव जते । जंत । त्ति ५ ३५ ॥ ४ ॥ अचरिमसमयककुम्भ २
 एगिंदियाण जते । कठ उययज्जाति जहा अ्यपठमसमयउद्वेसो तहेय णिरयसेसो ज्ञाणियव्ही सेव जते ।
 जते । सि ५ ३५ ॥ ५ ॥ पठमपठमसमयककुम्भएगिंदियाणं जते ! कठ उवयज्जाति जहा पठमस

उद्वेजका मवर दवा नीरपद्यन्ते तेजोलेहया न पुच्छन्ते होप तथैव तद्व जदत्त । इति ५ पचत्रियञ्चते वपुषः ५ ३५ ॥ ४ ५
 अवरमसमयककुम्भतपुग्मजतपुग्मेकत्रियया जदत्त । कुत उत्पद्यन्त यया प्रथमसमयोद्दृशस्यैव निरवक्षेपो प्रखितव्य इद्व जदत्त । इति ५

इयानामालक्या इहा यदि तेह तिमज्ज अहवा प्रथमसमय पने अरमसमवन समान स्वरूपपरीवकी यकोल इहा जियेपत्ते ते दखात्तेहे—इने ज्ञाने
 बरो एकेन्द्रियन विषे तेजासेया दुवे त इहा देवने उरवारहनसभवे ते माटे तेकाद्यया पकाद्रव न पूछया इति शय तिमज्जोव अहवा । सब भते र ति ।
 तद्वति इभयवन् इत्यादि पूर्वेषु ५ ३५ ५ ५ पचदिमसमयककुम्भ २ एगिदिबाव भते अथा उदवच्छति । तयो ह्ये अरमसमय उत्तर
 कथव ज्ञाने त पच रम तहीन कृतयुगम २ सेक्याविद्यप एके द्रुय इमगवन् विहावकी अपले इत्यादि । अहा अपठमसमयउद्वेसा तथैव विरवसे
 वा भावियन्ता । अिम अपचमसमय उद्वेद्यानेविषे अद्या तिमज्जोका नविशयपदे अहवा । सेवभते र ति । तद्वति इमगवन् इत्यादि पूर्वेषु । ५
 पठम २ समय अहजन्त एगिदिबाव भते अथा उदवच्छात । एकेन्द्रिय उत्पादनेविषे प्रथमसमय शायवकी प्रथम बहो प्रथमसमय कृतयुगम कृतयुगम
 पजुभूति तज्ञाने एकेन्द्रियन ते मवन प्रथमसमय अगयुगम २ एकेन्द्रिय इभयवन् निवशियकी उपले इत्यादि । अहा पठममय उद्वेदनया तद्व विरवसे

ज्ञानमैकत्रियायति समास ० ३५ ० ५ ० पठे तु-पठम २ समपठजुम्भ २ धर्मिष्ठियसि ॥ एकेन्द्रियोत्पादस्य प्रथमसमययोगा यो प्रथ
 माः प्रथमस्य समस्य कृतपुनः २ त्वानुजुते येषा मेकत्रियाया ते प्रथम २ समपठतपुनःकृतपुनैकत्रिया ॥ ३५ ॥ ६ ॥
 अत्रमे त-पठमपठमसमयकजुम्भ २ एगिठियसि ॥ प्रथमा सापेव याऽ प्रथम ए समय कृतपुनः २ त्वानुजुते येषा मेकत्रियाया ते प्रथमाऽप्र
 थमसमयकृतपुनैकत्रिया इव च एकत्रियात्पोरपाः प्रथमसमयवसित्व ताया यद्विबधितपठुगुजुते रप्रथमसमयवसित्व त एवाप्रथमसमयवसित्व

मयउद्देसन् तदेव गिरयमस सेत्रं जते । जते । सि जाय त्रिहरड ॥ ३५ ॥ ६ ॥ पठमस्यपठम
 समयकजुम्भ २ एगिविद्याण जते ! कन् उवत्रज्जति जहा पठमसमयउद्देसन् तदेव ज्ञानियस्यो सेव जते ।
 जते । सि ॥ ३५ ॥ ७ ॥ पठमस्यरिमसमयकजुम्भ २ एगिविद्याण जते ! कन् उवत्रज्जति जहा

पचात्रशाब्दत पचम ॥ ३५ ॥ ५ ॥ प्रथमप्रथमसमयकजुम्भपुनैकत्रिया जदत्त । जुत एरपद्यन्त यथा प्रथमसमयाद्देव ॥ एतेचैव
 निरवद्यव तदेव जदत्त । जति ॥ पावद्विरति ॥ पंचविंशच्छत यथा ॥ ३५ ॥ ६ ॥ प्रथमाप्रथमसमयकृतपुनःकृतपुनैकत्रिया
 जदत्त । जुत एरपद्यन्ते यथा प्रथमसमयोद्देवकृतस्यैव जदत्त । जति ॥ पचविंशच्छते यथा ॥ ३५ ॥ ७ ॥
 च । जिन प्रथमसमय उद्देव्यानेविवे कञ्जा तिमश्रीव समस्तपदे कचयो । सेव भते २ ति जाय विहर । तद्वति जमगबन् तुल्येकया ते सव सत्यजे इत्य
 दि यावन् विपरे ॥ ६ ॥ पठम पठमसमय कृतपुनः २ एगिठिया ॥ भते कया कचच्छति । एकेन्द्रिय जत्यादने प्रथमसमय पागदको प्रथम व
 को पचमसमय जतपुनः २ त्व एतन्नि कच एकेन्द्रियासि प्रथम पचमसमय कृतपुनः २ एगिठिया ॥ भते कया कचच्छति । एकेन्द्रिय जत्यादने प्रथमसमय पागदको प्रथम व
 चित कज्यानुमतिने पचमसमय कृतपुनः २ एगिठिया ॥ भते कया कचच्छति । एकेन्द्रिय जत्यादने प्रथमसमय पागदको प्रथम व
 तवउद्देवया तदेव माचिख्या । जिन प्रथमसमय उद्देव्यानेविवे कञ्जा तिमश्रीव कचयो । सेव भते २ ति । तद्वति जमगबन् इत्यादि पुनः ॥ ०

नी ता मायित्यस्यैवेय मेव मुतरत्रापीति ॥ ३५ ०

१

॥ अहमे तु-पठमपरिमसमयकहजुम्भ २ एगिदिपति प्रथमा ह्य से

विश्वपितृसङ्गानुनूत प्रथमसमयवतित्या चरमसमया ह्य मरुत्समयवतिता परिघाटस्या इति प्रथमपरमसमया हो च त कृतपुग्मकृतयामैकविद्रया

८

वति विपद ॥ ३५ ० ॥ नवम तु-पठमपरिमसमयकहजुम्भ २ एगिदिपति ४ प्रथमा कायेव चरमसमया इत्यकृत्वि

वीरवादापकया प्रथमसमयवतिता इह विवक्षिता धरमत्वाभिपपस्य तेषु विद्यमा तथा २ऽऽव्या ११ द्वितीयोद्घाटकोत्तमा सवगाहनादीनां यदिए

**चरिमुद्देशेन तद्देशे गिरवसेस सेय जने । जंते ! सि ॥ ३५ ॥ ८ ॥ पठमश्चरिमसमयकहजुम्भ २ एगिदि
याग जंते ! कन्त उवयज्जाति जहा पठमुद्देशेन तद्देशे गिरवसेस सेयं जतर ! सि जाव त्रिहरह ३५ ॥ ९ ॥**

प्रथमपरिमसमयकृतपुग्मकृतपुग्मेकन्त्रिया जदन्त । कुत उत्पद्यन्त यथा चरमोद्देशकस्यैव निरवसाय तद्वन्न सन्त । इति ० पञ्चविंश

८

ज्जाते ऽष्टमोद्देश ॥ ३५ ॥ ८ ॥ प्रथमापरिमसमयकृतपुग्मकृतपुग्मेकन्त्रिया जदन्त । कुत उत्पद्यन्त यथा प्रथमोद्देशकस्यैव निरव

९

जाय तद्वन्न जदन्त २ । इति यावद्विहरति ॥ ३५ ॥ ९ ॥ चरमपरिमसमयकृतपुग्मेकन्त्रिया जदन्त । कुत उत्पद्यन्ते यथा पतुर्घोद्विषक

९

पठमपरिमसमय कहजुम्भ २ एगिदिपति ४ भत कथा उवयज्जाति । प्रथम त विव क्षत सख्यानुभूतमे प्रथमसमय वतिपचायको यने चरिमसमय वति

परय टस्य गयम तस्य तदीक कृ यम २ एते द्वय द्वेभगवन् विवक्षिता उ-जे जिन चरिमउद्देशान विवे कथा तिमकोक निविद्यय कटवा । सव

भरी २ ति । तद्वति २ । १७ ॥ ८ ॥ कन्त पठमसमय कहजुम्भ २ एगिदिपति ४ मत् कथा उवयज्जाति कथा पठमउद्देशमया तद्देशे वि

रवयसं । पठम तिमशोक पठमसमय ता ० क्वेद्विह इत्याह ४ एते ये प्रथमसमय ४ ११ ॥ ११ ॥ इति विवक्षित चरमत्वाभिपपस्य तद्देशेविषे विद्यमानपचायको य

न्याया वे कःपुद्देश्ये कथा यवनाहनादि रने क इति समयपची कथा तजद्वय त प्रथम चरमसमय कृतपुग्म एवोद्देश्य द्वेभगवन् विवक्षितको जपजे इत्या

दिविम परिधाकपुरयातविषे कथा तिमकोक निविद्ययपपचे कटवा । सुवभत २ ति जाव विहरह । तद्वति द्वेभगवन् इत्यादि यापन् विवरे ॥ ८

९

९

९

समस्त मुक्त तवस्था तत कर्मधारयः अप्यं तु तथैव ॥ ३५ ॥
 चरमा य ते विवक्षितसुदुर्मुक्त परमसमयवचिता चरमसमया य प्रागुक्तशरूपा इति चरमसमयाः अप्यं तु प्राग्बत् ॥ ३५ ॥ १० ॥

चरिम २ समयकञ्जुम्नएगिद्रियाण जते ! कठ उत्रयज्जाति जहा चउत्थो उद्वेसठ तद्देव सेव जते २ । स्त्रि ॥
 ३५ ॥ १० ॥ चरिमश्चरिमसमयकञ्जुम्न २ एगिद्रियाण जते ! कठ उत्रयज्जाति जहा पठ
 मुद्वेसठ तद्देव गिरवसस सेव जते ! जते ! स्त्रि जाय त्रिहरइ ॥ ३५ ॥ ११ ॥ एव एगुण कमेण
 एङ्कारस उद्वेसगा पठमो ततित पथमठ य सरिसगमया सेसा स्थठ सरिसा णवर चउत्थे स्थठमे दसमे देवो

सापेव तवव नदन्त २ । इति ० पञ्चत्रिंशच्चते दशमः ॥ ३५ ॥ १० ॥ चरमाचरमसमयकठपुगमकठपुग्मिञ्चित्रिया प्रदत्त । कुत उत्य
 धागते यथा प्रथमोदुच्छकत्तपेव निरवग्रथ तद्वर् नदन्त २ । इति ० ३५ ॥ ११ ॥ एकमेतत्त कमेदेवाइच्छादुच्छाः प्रथमस्वृतीयः पञ्च

चरिमसमय कठकथ एगिद्रियाच भते कथा कवकत्ति जहा चउत्था चद्वेसथा तदेव । चरिम ते विवक्षित सप्यागुभूतच चरिमसमस वसितराधको

चरमसमस ते पूषीक्यस्वप इति चरमसमस कृतनुम्न २ इकेद्रिय हेमगबन् विहावको छपवे इत्थादि विम षीवाचदुदेयाने विपे कञ्जा तिमकोक कड

वा । सेवमते २ ति । तद्वति हेमगबन् १ ॥ चरिम चचरिमसमस कठकथ २ एमिवियाच मते कथा कवकत्ति जहा पठमठमपो तदे

च चिरवसम । चरिम तिमकोक चचरिम चचरिमसमस त पूषीक्य कुत्तियको एकेद्रिय इत्याठपपचावे मबमसमस वती जेइ ते चरिम चचरिम तेवो

कठतनुम्न एकेद्रिय इमगबन् विहावको छपवे इत्थादि विम पडिन्वाचदुदेयानेविपे कञ्जा तिमकोक निविग्रय कडवा । सेवमते २ ति जाव विचरइ ।

तद्वति हेमगबन् यावव विचरे १ ॥ १ ॥ एव पठक कमेचं एङ्कारस चकुठसमा पठमो तश्चा पथमचाव सरिसगमगा सेमा चउत्थरिसा । इम

रदे पमुकमेवरो इत्यारेठदुदमा कञ्जा ते ठदुदेयकगा स्वकप निर्हारवने पवे कदेवे—पडिशा षीत्रा पथमा ए तील सरोखायमा जाववा तेविम प

६

एकावशी तु-हरिसचरितमसपककजुम्भ २ यमिन्दियसि ॥ चरमा कोपेव अचरमसमया य प्रागुक्तयुक्ते रञ्जिप्रयोत्पादापेक्षया प्रथमसमयवर्तिनी
 ये ते चरमाऽचरमसमया को च ते कृतपुग्मकृतपुग्मैकेन्द्रिया वेति विद्यः ॥ ३५ ॥

११

पठमो षष्ठो पञ्चमो य धरिसमसति ॥ अथ यतः प्रथमापेक्षया द्वितीय यानि मानास्वा व्यङ्ग्याङ्गनादीनि यथा प्रवर्ति न तास्य तद्विति ॥ समा
 अचरिसगमसति ॥ द्वितीयचतुर्थपञ्चादयः परस्परव सवृङ्गणमाः पूर्वोक्तयो विसरसगमा द्वितीयसमानगमा इत्यथ विज्ञाप्यत्वाच्च-अथर चउटवे

ण उवयज्जाति , तेउलेस्सा णत्थि ॥ पठम एगिदियमहाजुम्भसयं सम्मस ॥ १ ॥ करहलेस्सक
 रुजुम्भ २ एगिदियाण ज्ञते । कउ उवयज्जाति ? गोयमा ! उवयाठ तहेव एव जहा ठहियउदेसए णवर
 इम णाणस तेण ज्ञते । जीवा करहलेस्सा ? इता करहलेस्सा । तेण ज्ञते ! करहलेस्सा कऊजुम्भा २ एगि

मव सवृङ्गणमाःशया अष्टौ सवृङ्गा मवर चतुर्थऽष्टम षष्ठमे षडो नास्पद्यते तथोलोभया भास्ति ॥ प्रथममेकेन्द्रिय मङ्गायुग्मगत समाप्तम् ॥ १ ॥
 कल्पस्यरकृतपुग्मकृतपुग्मैकेन्द्रिया प्रदत्ता । कुत उत्पद्यन्ते ? नीतम । उपपातस्तथैव एव यथीपिञ्चोद्भूतक मथरमिद्व कानात्व-ते प्रदत्त ।

द्विकानो पपेचये बीजे जेव नानात्व प्रवनाङ्गनादिक इयद्वे तेव ऽङ्गानेविते नञो तेमाट येप बीजा बीवा जहा पादिदा ए पाठउद्वय्या सरोखा
 पूर्वोक्तको विसयव इतावता बीजा सरोखा इत्यव नञो विग्रह अङ्गो-अथर चउटवे-अथर चउटवे देवा च उवयज्जाति तउल्लङ्घ्यात्थि । एतकाविगयेप
 बीजे पाठमे इयमे देव नउपव तेमाट तेकासङ्गा नञो । पठम एमिदिय मङ्गाजुम्भसय सङ्गाण ३ प्रथम एकेन्द्रो मङ्गायुग्म मयव समाप्त ॥ अचरहेस्य व
 उजुम्भ २ एमिदिवाच मते अथा उवयज्जाति । अचरहेयो कुववुग्म २ एकेन्द्रिव हेमगवन् विज्ञावको अपवे ३ प्र उतर । म उमा उववापी तइव एव
 अहा पादिउद्वेदेष । इथीतम उपपात तिमञ्चोव अङ्गवा इम विमङ्गाव योविउद्वेदयानविते कथा तिमञ्चोम अङ्गवा । अथर रम वाचत तचभते
 बीवा अचरहेस्य । एतकाविगयेप एव मेव अङ्गवा तेव हेमगवन् चोव कुण्डलेयो ६ प्र उतर । इता गायमा अचरहेस्य । शीगीतम कण्डलेयो । तेव

छेस्त्रि एक्कारस उद्देसगा त्राणियक्षा, पढमी ततिठ पचमी य सरिसगमगा, सेसा स्थुठयि सरिसगमगा
 णयर चउत्यठदसमेसु उयवाठ गाल्य देत्रस्स सेव जते । जते । सि ॥ पगतीसइमे सए वितियएगिदिय
 महाजुम्मसय ॥ ३५ ॥ २ ॥ एव णील्लेस्से हियि सय कयहलेस्ससयसरिस एक्कारसउद्देसगा
 तेहेव सेव जते । जते । सि ॥ ३५ ॥ ततिथं एगिवियमहाजुम्मसय सम्मस ॥ ३ ॥ एव काउ
 छस्सेहित्रिसय कयहलेस्ससयसरिसं सेव जते ! जत । सि ॥ ३५ ॥ चउत्य एगिदियमहाजुम्मसय ॥ ४ ॥

प्रकृता कथाकृष्णलक्ष्मणपि एकादशोद्देश्यानां नाचिंतय्या प्रथमस्तृतीयः पञ्चमसु सदृशागमकाः अथा षष्ठाथपि सदृशागमका नवरं बहुयुयसु
 इन्द्राभोगकपूरपादां नासि देवस्य तद्व प्रदत्त २ । इति ॥ पञ्चत्रिंशच्छत द्विंशत्यैकत्रिंशु महायुग्मप्रथमम् ॥ ३५ ॥ २ ॥ अयं नील
 लक्ष्मिरेपिप्रत कृष्णलक्ष्मणतसुवृथमकादशोद्देश्याकालौच तदेव प्रदत्त २ । इति ॥ पञ्चत्रिंशच्छत तृतीयमकान्द्रिय महायुग्मप्रथमम् ॥ ३५ ॥ ३ ॥
 एव कापीतसर्पैरपि अत कृष्णलक्ष्मणतसुवृथा तद्व प्रदत्त । इति ॥ पञ्चत्रिंशच्छत चतुर्थमकान्द्रिय महायुग्मगत ॥ ३५ ॥ ४ ॥

वि एकारसउद्देसगा भाचिंतय्या । तिम कृष्णसंयोगा पचि इय्यारेउद्देसगा कइवा । पठमा तएषा एवमाथ सरिसगमगा सेसा षड्वि सरिसगमगा ।
 तिष्ठां पदिना चोजा पयमा ए तीन सरोखाउद्देसगा खीचवा यव पाठए पचि एकसरोखा उद्देसगा कइवा । पवर चउत्यठ दसमेस उक्कवाथा वस्यि दे
 वध । यतनाचियेय चीव छउद्देसगे एतीनविपे उवपात नही देवना । सेवभते २ ति । तइति जमगवन् पचतीसएममण वितिय एगिटिय मङ्गलस्य
 सर्वा । वितिव ण्येद्री महायुग्म यतव पूराववा ॥ ३५ ॥ २ ॥ एव चोसलोखेद्वि सव कयहलेस्स सयसरिस एक्कारसउद्देसगा तइव ।
 एम नीलसेयोषवाते पचि यतव कृष्णसंयोगे यतकसरोखा इय्यारेउद्देसगा तिमकोज कइवा । सयभते २ ति । तइति जेमगवन् इत्वादि पूववत् ॥ तइय
 एगिदिय महाजुम्मसयं सयत ॥ एके द्वय महायुग्मप्रथम तीसरा पूराववा ॥ २ ॥ एव काउतरसेद्वि सय कयहलेस्ससयसरिसं । एम कापात

नयमिच्छियकुरुजुम्भ २ एगिदियाण नते । कते उवयज्जति जहा वेहियसय गतर एक्कारसवि उहेसएसु ,
 अह नते ! सवपाणा जाय सवससा नवसिच्छियकुरुजुम्भ २ एगिदियहाए उवयखापुष्ठा ? गीयमा । गो
 इणठे समठे नस तदेय सेव नते । नते ॥ सि ॥ पचम एगिदियसय महाजुम्भ सम्मत्त ॥ ३७ ॥ ८ ॥

प्रथासद्विबलतपुमगमभ्युम्भैकन्त्रिया प्रवत्त । कुत उत्पद्यते यथीपिबद्धत मवर मकादमा प्युहसकेयु । अथ प्रवत्त । सर्वे माणा यावरसर्वे सत्वा
 प्रवसिद्विककृतपुमकृतपुमैकन्त्रियतयोत्यजपूर्वा ? नीतम । नायमपठमयः अप तथैव तद्व प्रवत्त । नवत्त । इति ॥ पन्थाग्रशाब्धत पच
 ममकन्त्रिय महापुमयत समाप्तम् ॥ ३५ ॥ ५ ॥ कण्ठलेखलमासिद्धिककृतपुमकृतपुमैकन्त्रिया प्रवत्त । कुल उत्पद्यन्त एव
 कण्ठलेखलमासिद्धिकैकन्त्रियैरपि अत द्वितीय अत कण्ठलेखलतत्त्वम् अविततव्यम् तद्व प्रवत्त । इति ॥ यष्ट एकन्त्रियमहापयमशा

स्यासदाते पचि यतक कण्ठलेखयो यतकसरोखा कथथा । सेवभते २ ति । तद्वति इभयवन् ॥ चतस्र पन्निदिव महाज्जमसय ॥ योसो एवेदरा मकायम
 यतक पूरापथा ॥ ३ ॥ भवसिद्धिय कण्ठलेख २ एगिदियाकभते कथा उववत्कति ॥ भवसिद्धिय कृतयग्म २ एवेद्विय इभयवन् विवर्थावको अय
 के इत्यादि । अहा यादियमव चर एकारसवि उदुदेसा । किम योपिबयतकनपिे कथा तिमकीव कथना एतन्नात्रिये इत्यारेरे कदुग्यातविये पच
 था । यद्वभते मवपाथा जाव सज्जमत्ता । द्विजे इभयवन् सर्वपाको जावत् पच सत्त । भवसिद्धिय कण्ठलेख २ एगिदियाण ए उववत्तपुष्ठा । भवसिद्धिय
 कृतवगम २ एवेद्वियपने जपना पूर्व इ प्र एतार । नायमा था इवदुममडे सेमतदेय । इयोतम एपथ ममयमथी यव तिमकीव कथयो । सेवभते २ ति ।
 तद्वति इभयवन् ॥ पचमं एगिदियमहाज्जर्णं सवत्त ॥ पचमा एवेद्वीमहावागमयतक पूरापथा ॥ ५ ॥ कण्ठलेखम भवसिद्धिय कण्ठलेख २ एगि
 दियाण भते कथा उववत्कति । नृपसेयो भवसिद्धिय कृतवगम २ एवेद्विय इभयवन् विवर्थावको उपपत्ते । एव कण्ठलेख्य सर्वविद्धिय एगिदिएविवि सय

सय वित्तिय सय कणहलेस्सरिस नाणियसु सेव जते २ । सि ॥ लठ एगिदियमहाजुम्मसय ॥ ३५ ॥ ६ ॥
 णील्लस्सेन्नवसिद्धियएगिदियाहिथि सय सेव जते ! २ सि ॥ सत्तम एगिदियमहाजुम्मसय ॥ ७ ॥
 काउलेस्सेन्नवसिद्धियएगिदियएहिथि तहेय एक्कारस उहेसगसजुप्त सय एव एयाणि चत्तारि जत्रसिद्धियसयाणि
 चउत्तुथि सएसु ससुपाणा जाव उवययणवणा, णो ढणठे समठे सेव जते । जते । सि ॥ अठम एगिदिय
 सय महाजुम्म ॥ ८ ॥ जत्रसिद्धिएहि चत्तारि सयाइ जणियाइ एव अन्नवसिद्धिएहिथि चत्तारि

तम् ॥ ३५ ॥ ६ ॥ नीलसेरपन्नवसिद्धिकेकेन्द्रियेरपि क्षतं तरेव जदत्त । इति ॥ सप्तममेकान्द्रिय महायुग्मस्य समाप्तम्
 ॥ ३५ ॥ ७ ॥ आपोतसेरपन्नवसिद्धिकेकेन्द्रियेरपि तरेवेकादयोदुखकस्युक्तं ज्ञात एवमतानि चत्तारि जत्रसिद्धिकस्यतानि चतुष्टयपि
 क्षतदु सर्वे प्राक्का यावत्सर्वे सत्या उपपन्नपूर्वाः २ नायसर्वे समथ क्षदेवं जदत्त । २ इति ॥ अष्टममेकान्द्रिय महायुग्मस्यतम् ॥ ३५ ॥ ८ ॥

धितिरसय । इमं कृतचतुष्टयो भवसिद्धि एकेन्द्रियस्यते पचि बीजायतक । कश्चकस्यसरिस माधियय । कृष्णसेमाने सराका काचयो । सेवमते २ ति ।
 तद्वति इत्यगन् इत्यादि । अत्र एगिदिय महायुग्मस्यतक अक्षा । ६ । बीकस्येभवसिद्धि एगिदियसिद्धिसक ।
 इमं बीकस्यो भवसिद्धि इकेन्द्रियस्यते पचि यतक अक्षया । सेव भते २ ति । तद्वति केभयवत् इत्यादि । सत्तम एगिदिय महायुग्मस्य । स्यात्तमा
 एकेन्द्रियमहायुग्मस्यतक । ७ । काउलेस्से भवसिद्धि एगिदियसिद्धि तद्वेय एक्कारसकहेदेसय सजुप्त सय । इमं कापोतसेयो भवसिद्धि एकेन्द्रिय
 स्यते पचि तिमको इत्यारकहेदेसक सजुक्त अक्षया । एय एयाणि चत्तारि भवसिद्धि मयाणि । इम एइ चार भवसिद्धि यतक अक्षया । चतुष्टयि
 सयसु सवयाका जाव कश्चकस्युक्ता । चारेरे पचि यतकनेविये सवमायो जावत् उपपत्ता पूरे । या इवहेसमेइ । ए यत्र समथ तयो । सेवमते २ ति । त
 इति इममवन् इत्यादि । अष्टम एगिदियस्य महायुग्म । पाठमा एकेन्द्रो महायुग्मस्यतक । ८ । भवसिद्धिएहि चत्तारिसयाइ भवियाइ । सि

त्यादि । कान्तलेदयाद्यते-अहंकेव एकं समयति । कल्पयत एकसमयाभक्तं सद्गुणैरभ्यस्त्यत एव समय कान्तलेदयैकतयुग्मं । एकेन्द्रिया भवत्येता
 ति । एव चिद्विचिन्ति । कान्तसद्वयावता स्थिति कान्तसद्वयाकाशवदवशेयत्ययः । पञ्चत्रिंशद्वा शत वृत्तितः समाप्तम् । ३५ ।
 व्याप्त्याज्ञतस्यास्यकान्तकट्टं हीकास्त्रिकायेनकशाक्तिपूषिः । मन्दिनैर्भोगवतपश्यताद्वा वृष्ट्याम्यक्तपुत्रमुद्यतोपि । १ ।
 पञ्चत्रिंशद्वातसद्गुणैरेकत्रिंशत्याः प्रकृपिताः पञ्चत्रिंशदुत्तरेव द्वौत्रिंशदाः प्रकृप्यन्त इत्येव सन्वद्वुस्यारयद् भाविभूय-कान्तान्मं । वैदियाकमित्यादि ।

सयाणि लेस्सासजुष्ठाणि ज्ञाणियष्ठाणि, सद्गुणाणा तद्देय णी द्वणठे समठे एव एयाणि वारस एगिविद्य
 महाजुन्मसयाद् नवति, सेय नते ! त्ति । पञ्चतीसद्वम सय सभ्रत्तं ॥ ३५ ॥

नवसिद्धिदेवाचारि श्रुतानि प्रकृतायवममवसिद्धिदैरपि चत्वारि श्रुतानि सद्यय ययुष्ठाणि प्रकृतिय्यानि सर्वे प्राणास्तपैव नापमर्शः सम
 यः एवमेतानि द्वादशैकेन्द्रियमहायुग्मश्रुतानि नवति एवमेव प्रवक्त । इति । पञ्चत्रिंशं शतं समाप्त । ३५ ।

श्रीपून्याचार्यैर्लोकपद्मप्रसूतचन्द्राग्निचैस्सूरिचर्मै र्दक्षिणोरायदादुत्तरश्मयति।सहस्यसम्मायनेन ।

सुक्रीतः पञ्चमाङ्गुप्रपिप्तपुपुष्कतवैवनापापानुवाव श्रीश्रीऽप्यङ्गिस्त्रिमेवमवचनमुखारामचन्द्रासिद्धिम् ॥ १ ॥

म मवमिदिकचयाते वारयतक कक्षा । एवं पमवसिद्धिद्विचि चत्वारि सद्याचि लेखासक्तानिचि भाविस्तथाचि सावपाचा तदेव । इम यमवसिद्धिचि
 सथात पिर चारियतक कक्षासदुक्त कक्षा सवमाचौ खपनाना मय तिमकीक चरवा । चा इच्छममद् । ए यय सममं मद्दी । एवं एयाणि चारम एगि
 दिव महाजनमयाश्च भवति । इम एव चारै एकेश्रीयतक महायुग्मयतक चारै इवे इत्यादि पूर्ववत् । सेवमेते २ ति । तद्वचि नैभागम् । पञ्चतीसद्वमं स
 य सवत्त । पञ्चोसमायतक पुरोदया । ३५ । + ० * ७ * ३ ३ ३
 पञ्चोसमेयतक पञ्चेश्री प्रकृप्यः दिव चोचमे ता महायुग्मेश्रीने जेग्री प्रकृप्ये-कक्षयश्च २ वैर विद्याच मत कथा सववव्यति । छतपुरम २ जेग्री इम

कुरुजुम्भ २ वेहदियाण भते ! कठे उववज्जति, उवथाठे जहा वक्कतीए, परिमाण सोलस वा सखेज्जा या
 स्यसखेज्जा या उववज्जति, स्यग्रहारी जहा उप्पलुहेसए, ठंगाहणा जहखेण स्यगुलस्स स्यसखेज्जाइनाग उक्की
 सेण वारस जीयणाइ एव जहा एगिवियमहाजुम्भाणपठमुहेसए तहेव णयर तिखि लेस्वाठे देवा ण उवव
 ज्जति सम्महिठी वा मिच्छादिठी या णो सम्मामिच्छादिठी वा । णाणी वा स्यखाणी वा । णो मणजोगी यह
 जोगी या कायजोगी या । तण भते । कुरुजुम्भ २ वेहदिया कालठे केवचिर होइ ? गो० । जहखेण एक्कं

कठपुम्भकतपुम्भट्टीन्द्रिया नरत्त । कुत उत्पद्यन्ते उत्पादो यथा व्युत्कान्तौ परिमाद्य योक्तव्या धर्मेया वा उत्पद्यन्त । अपहरारी
 यथात्यलोद्भवश्च अवगाहना अपत्यमानुत्स्यारुद्रुयस्मान् उरुवपतो द्वावश्च योजनानि । एव यथैकान्द्रियमहायुग्माना मध्यमावृत्तयस्तथैव मय
 र तिलोत्सेत्रया देवा नोत्पद्यन्ते सम्यग्दृष्टिर्वा मिथ्यादृष्टिर्वा भो सम्यक्सिद्ध्यावृष्टिर्वा । ज्ञानीवाऽप्राप्ती वा नी मनीयोगी याप्योगी वा का
 मवन् किङ्कीर्त्तको अपन्न इत्यदि । उववापा जहा बहताए परिमाद्य साकसुवा सुखेज्जाया असखेज्जाया उववज्जति । अपपात विम पयवपीना स्युरनी
 तिउपदने विवे कञ्जा तिम कइवा परिमाद्य सासे ययवा सखताता मयवा असवयाता अपपे । अपहरारा जहा उव्वमुद्दसए आमारुवा जइकेव भगु
 कस्य असखेज्जाइमाग उव्वासोव वारसजावकार । अपहरार तिम कइवा परमाइना जइकेवको भगुलना असखयातसो
 माम उरुउरुवको वारे सावन्तो । एव कइवा एगिवियमहाजम्भाय पठमुद्दसए तपेव कवर तिलोत्सेत्रयापा एवा च उववज्जति । इम विम एकेन्द्रिय म
 हायुग्मना पइवा उद्देगानविये कञ्जा तिमकोव एतत्ताविशेष तोनसम्भा भवे पइको देव मज्जपे । पने देवता । उव्वदिठोवा मिच्छादिठोवा वा सव्या
 मिच्छादिठोवा । सम्यग्दृष्टे इवे भवना मिच्छादिठे नइव । वाचोवा पञ्चोवा । प्राणोइव भवना पञ्चानीइवे । पोमवजागी वरलोगी
 वा कायजाचोवा । मनावागी नइवे वपनवायो भवे वाववागी भवे । तेव भते कइकेव २ मर दिवा कावप्याकनपिररार । तइ इभगवन् उववयुग्म २ वे

अथैकं एकं समयति ॥ समयानन्तरं सङ्गान्तरभाषा देयत्विति रपि इतः सर्वं श्रुत्वा सिद्धं साक्षात्परिसमाप्ते नवरं श्रुत्वा रसो ह्यते-वेपथिविज्वल

समयं उक्तीसेण सखज्ज काल, ठिइ जहय्येण एकं समय उक्तीसेण वारस सत्रच्छराइ, श्याहारो णियम
वदिंसि। तियाण समुग्घाया, सेस तहेय जाव अणतखुत्तो एव सोलससुवि जुम्मेषु । वेइविमहाजुम्मसय
पठमो उद्देशो समप्तो ॥ १ ॥ सेय जते । जते ! ति ॥ ३६ ॥ १ ॥ पठमसमयकळजुम्म २

ययोगी वा । ते प्रदत्त । कृतयुग्मकृतयुग्महीग्निय्याः कात्त विपयिहरिस्मबन्ति ? गीतम । अपत्यनेक समयमुत्कृतः सङ्ख्य कात्तम् । स्थितिजे
पत्यनेक समयमुत्कृतो द्वादश सत्तरराशि । आहारो नियमारपन्दिक्कम् त्रय समुद्घाताः अयं तथैव यावदनकात्त यव योऊयस्त्वपि
प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ हीग्नियमहायुग्मसते प्रथमोद्देशः ॥ ३६ ॥ १ ॥ ० प्रथमसमयकृतयुग्मकृतयुग्महीग्निय्या

इन्द्रिय कावयको जेतकीवास इव । यावमा अइत्थेव एवइमर्थ सखायेव सख्य कास । हेगौतम लक्षयवको एवइमर्थ जेमाट समबपजत्तरे सख्याल
रना मावयको जलठट्टको सपराणाबाह । ठिंअइत्थेवं पळसमवं क्कासेव वारस सत्रच्छराइ । स्थिति लक्षयवको एवइसमर्थो लक्षयवको वारे सब
पत्तर इरम । पाहाटा विवयं इदिसि तिणिसमगवाया समतत्थेव । पपत्तर निवमबको अदियिनो पपनाको मांदिहे तेमाटे पडिवा तीजसमुद्घात कइ
वा येव तिमडोव अइवा । जाव पत्ततपुती एवं सातसमवि जुण्णेषु वेइ इव सहावयमर्थ । यावत् चलत्तोवार जपना सोत्तरसुग्मने विवे वेइग्निय म
हायम गतअनेविये सेवभते २ ति । अइति जेममज्ज इत्थादि पुवत्त् ॥ पठमासकुदेसा सख्याता ॥ पडिवाउद्देश्यो ३६ ॥ १ ॥ पठमसमय कइ
अथ २ वेइ इत्थावं भते कथा लववत्त ति । प्रथमसमय कृतयुग्म २ वेइग्निय जेममवत् विवयको जपये । एव अइवा एविंठियमहाज्ज्याव पठमसमव

उद्देश्ये । इम त्रिम एवेन्द्रिय महायुग्म प्रथमसमव उद्देश्येनिये । इव चापत्तर तार सेव् इइवि । इय जानाल अइवा तेजोअ इय इवा पवि
पठमसमय कइ

वेद्विद्यायां ज्ञते ! फल उच्यते । एव जहा एगिदियमहाजुम्माण पठमसमयउद्देशेण दस गाणसाइ ताइचेव
दम इहियि एक्कारसयि इम गाणस-णी मगजोगी णी व्हजोगी कायजोगी । सेस जहा वेद्विद्यायां चैय
पठमुद्देशेण सेय ज्ञते । ज्ञते । ३६ ॥ २ ॥ एव एएगवियि जहा एगिदियमहाजुम्मेसु एक्का
रय उद्देशेण तहेय ज्ञाणियसा गधर चउल्यठठमवसमेसु सम्मसणाणाणि णजस्यति, जहेव एगिदिएसु
पठमी तइय पधमी य एक्कगमा संसा स्यठ एक्कगमा ॥ पठम वेद्विद्यमहाजुम्मसय सम्मस ॥ ३६ ॥ १ ॥

नो मनायागी नो वाग्याया काययागी ज्ञप यथा वेद्विद्यायां चैय प्रथमोद्देश (यथोक्त तयाद्यापि वाच्यम्) तदेव प्रदत्त । इति
० ३६ ॥ २ ॥ एवमन्तम ज्ञमस्यापि यथैकग्रिपमहापुग्मवेकादयोदेशकास्तथैय ज्ञचित्तव्या नवर चतुषपष्टाष्टमवसमेसु सम्मसणा
नानि न प्रस्यन्त यथैकग्रिपयु प्रथम स्तुतीयः पञ्चमयेत एकगमाः शेषा षट्ठा वेकगमाः ॥ प्रथम द्विग्रिपमहापुग्मज्ञत समाप्तम् ॥ ३६ ॥

मातास्य चकवा । एकारनदिहमे चाकत । इगारमा एव नामात् । वामचक्रागो वायवागो वायवागो वायवागो वायवागो
इरे । नमे जहा वेद्विद्यायां चैय पठमउद्देशेण । येप ज्ञिम वेद्विग्रियनाक नियये पद्विशाठठेगानेनिये चक्रा तिम चकवा । सेवभते २ ति । तइति
इममवन् इत्थादि । एवं एवचि जहा एगिदिय महाजुम्मेसु एकारसउद्देशेण तहेव भावियसा । इम एव पचि ज्ञिम एवेद्विय महाजुम्मेनिये इत्या
रे उद्देशेण ज्ञया तिमश्रीक चकवा । चर चउल्यठठम वसमेसु सस्यतवाचि च मस्यति । एतत्तावियेय चोवा चक्रा चाठमा उद्यमानविये सस्य
ज पने ज्ञान ए मचकवा । जज्ञव पद्विदियेसु पठमातइयपचमाय एक्कगमा संसा चउएकगमा । ज्ञिमश्रीक एवेद्वियमविये पद्विशा षोणी पचमा ए एवस
रोणा गमा वाचवा येप चाठ एवचरीणा गमा वाचवा ॥ पठम वेद्विद्य महाजुम्मसय सम्मस ॥ प्रथम वेद्विग्रिय महाजुम्मगतक पूरायया ॥ १

फलहेस्मककजुम्भर वेङ्गद्वियाण जते ! कष्ट उवयञ्जाति एवचेत्र कणहलेस्सेसुधि एक्कारस उहेसगसजुप्त सय ॥
 गयर लेस्मा सचिठणा ठिई जहा एगिद्वियकणहलेस्साण ॥ वितिय वेङ्गद्वियसय ॥ ३६ ॥ २ ॥
 एव गील्लेस्सेहिधि सय ॥ सत सतिय ॥ ३६ ॥ ६ ॥ एव काउलेस्सेहिधिय सय ॥ चउल्य ॥ ८ ॥
 जवसिद्धियककजुम्भर वेङ्गद्वियाण जते ! एव जयसिद्धियात्रि चप्पारि तेणेव पुह्वगमएण जेतत्था गयर सव्व

१ ० कृष्णसहस्रपक्षतपुगमकतपुगमहीन्द्रिया नदत्त । कुत उत्पद्यन्ते एव वैय कृष्णशेषपद्यपि एकावयोद्गुगकषपुष्प शत नवर लक्षया
 सतिष्ठमा स्थिति यथैवेन्द्रियकृष्णसहस्रपानाम् ॥ पदत्रिगच्छते द्वितीय हीन्द्रियमहापुगमशतम् ॥ ३६ ॥ २ ॥ एव नीलसशरियरपि य
 तम् ॥ पदत्रिसञ्चत तृतीय हीन्द्रियमहापुगमशतम् ॥ ३६ ॥ ३ ॥ एव कापोतसशरियरपि ज्ञातम् ॥ पदत्रिगच्छते चतुर्थ हीन्द्रियम
 हापुगमशतम् ॥ ३६ ॥ ४ ॥ प्रवसिद्धिककृत्तपुगमकतपुगमहीन्द्रिया नदत्त । एव प्रवसिद्धिका अपि चत्वार सानेव पूव्वगमकत

कषपक्ष मा कषकम्भ २ वेङ्ग द्वियाण भते कपाठकच्छति पर्वकष । कषकषयो कततुगम वेङ्गिद्रिय हेमगवन् किराबको कपत्रे इत्थादि इमहोच्च निपये । कषक
 कषसेरुवि एक्कारस कषुदेसग सखत्तं सय । कृष्णसहस्रानविये पवि इत्थारेकदुदगा सङ्गुगतक कषको । यवर लेप्था सचिठुवाठितो कषा एगिठिय कषक
 सखा । पतकावियय सखा । सचिठुवा रक्षको २ पल क्किति ३ बिम एवेन्द्रिय कृष्णलयीगतभी विये कषा तिम कषवा ॥ वितिय वेङ्गद्वियसय दू
 मरा वेङ्गद्वीगतक ॥ २ ॥ एव कोककच्छवि सव सत तदयं ३ इम मोककोयोसवात पवि यतक कषवा यतक तीमरा ॥ ३ ॥ एव
 काकषेरसचिठि सर्वं पकरक ३ इम कापातलेप्थासघाते पवि यतक कोवा कषवा ॥ ४ ॥ मर्कमियककजुम्भ २ वेङ्गद्वियाण भते एवं भवमिदि
 वानि यत्तारि तेवेव पुव्वगमपव वेय्या यवर सखपाया । मवसिद्धिक जूततुगम २ वेङ्गिद्रिय हेमगवन् इत्थादि पूव्वगम् इम भवसिद्धिक पवि चार ति
 बिहोच्च पूव्व नमेकरी कषुदया क्किया इतकावियय सवमाको कपता । वाइकषसमदु सेरं तदेव धाद्वियसयावि यत्तारि । एपर्वं ससय मञ्जी गेप ति

पाणा णो दृण्ठे समठे सेस तेहेय, ठहियसयाणि चप्पारि सेव जते ! जते ! सि ॥ लत्तीसठमसए अ्ठम
सय सम्मस ॥ ३६ ॥ ८ ॥ जहा जयसिद्धियसयाणि चप्पारि एव अ्ठमसिद्धियसयाणि
चत्तारि जाणियत्थाणि णयर सम्मत्तणाणाणिसद्धहा णस्यि सेस तचंय, एव एयाणि वारस वेइदियमहा
जुम्मसयाणि जयति सेव जत । जते ! सि ॥ वेइदियमहाजुम्मसया सम्मत्ता ॥ लत्तीसठम महाजुम्मसय

प्राप्तया नवर सर्वे प्राणा भागमघः समर्प्यः ह्यय तेष्वेकीपिकञ्जतानि चत्वारि तद्वय प्रदत्त । इति ॥ पट्त्रिंशत्सुते ७८९म द्वीन्द्रियमहा
युग्मज्ञानम् ॥ ३६ ॥ ८ ॥ यथा प्रवसिद्धिकञ्जतानि चत्वार्येव मज्जवसिद्धिकञ्जतानि चत्वारि ज्ञचित्तव्यानि मवर सम्यक्ज्ञानागानि
सवथा न वल्लि क्षेपं तेष्वेव, एवमतानि द्वादश द्वीन्द्रियमहायुग्मज्ञतानि प्रवन्ति तेष्वेव प्रदत्त । इति ॥ द्वीन्द्रियमहायुग्मज्ञतानि
समाप्तानि ॥ पट्त्रिंशत् ज्ञान समाप्तम् ॥ ३६ ॥ ८ ॥

भीमसौंकागबये, सर्वसूतपञ्चान्निपातकृतितव्यैः । रायबहादुरचनपति चिह्नस्यार्थनाम्निनयात् ॥ ८
आद्यापितोऽनुवाद, प्रवचनगुरुरासपञ्चगण्डिकाशौ । सद्योदयनरचितो प्रज्ञासमुच्चितोऽवरीवर्ति ॥ ८ ॥

महोच्च लक्ष्मी योधिचयतक चार तिस । सेव भते २ ति । तद्वत्ति हेमभवत् ॥ लत्तीसठमसए पठ्ठम वय सव्यस ॥ लक्ष्मीसमा यतवना पाठना यतक
पूराधया ॥ ८ ॥ लक्ष्मा मभवसिद्धियसवाचि पत्तारि । जिन मभवसिद्धिजना यतक चारकञ्जा । एव चमभवसिद्धियसयाचि चत्तारि भावियव्याचि ।
इम पमभवसिद्धिकयतक चार लक्ष्मा । नवर सम्यक्तथावाचि सम्यक्ज्ञानस्यि सेस तचय । एतसोविशेष्य सम्यक्ज्ञतथा प्राग सवथा नको शेष्य तिमको लक्ष्मा
०३ पञ्चाचि वारस यद्विद्य महाअक्षयसवाचि भवति । इम एव चारैयतक योऽन्द्रिय महायुग्म यतक बुदे । सेवभते २ ति । तद्वत्ति हेमभवत् इत्यादि ।
वेदद्वियमहाजुम्पसया सम्पत्ता ॥ ब्रह्मिन्दिय महायुग्मयतक समाप्तवथा ॥ लत्तीसठमहाजुम्पसय सम्पत् ॥ ए लक्ष्मीसमा यतक पूषवथा ॥ ३६

सम्प्रप्त ॥ ३६ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

कुरुजुम्भ २ तेइदियाण भते । कनु उवयज्जति एव तेइदिएसुवि चारस सया फायहा , वेइदियसयसरिसा
णयर उगाहणा जहणेण अगुलस्स अुसखेज्जज्जाग उक्कोसण त्तिया गाउयाइ । ठिई जहणेण एक्की समय
उक्कोसण एगुणयणराइदियाइ सेसं तहेय सव जते ! जते ! त्ति ॥ तेइदियमहाजुम्भसया सम्महा ॥ सत्तती

अणसुमकतपुम्भश्रीश्रिया प्रदत्त । कुत सत्यग्रस्ते एव श्रीश्रियवपि हादसा ज्ञातानि कर्तव्यानि द्वीश्रियगतसदृशानि नवरसवगाहना अपन्येता
द्रुतस्वामपुत्रेय नागमुत्कर्षक कोट्यत्रपम । स्थिति अपप्यमेक समयसुरकपेत एकोमपपन्नादशाश्रिविवाणि ह्यप तथैव तदय प्रदत्त । प्रदत्त ।
इति ॥ श्रीश्रियमहापुम्भ गतानि ममाप्तानि ॥ समन्विश ज्ञात समाप्तम् ॥ ३७ ॥ ॥ ॥

श्रीपुन्यामृतचन्द्रगुरिनिरुपादिष्टमलौकापिपे मेरुत्साचरदशवद्भगवतीधुयस्वस्त्वान्धिया ।

रवामीपनरामचन्द्रगणिकुण्डयवसरजुवता प्रापीदप्ररुतकृत पमपतेपुश्रीपतेःप्राथमेः ॥ १ ॥

अथकन्य २ तेर दिवाच भते अथा उवयव्यति । कुतयुग्म २ तेइश्रिय हेभगवन् किडावको जपजे । एवं तेर दिएसुवि चारससवा कायन्ना । कुतयुग्म २
तराश्रिय हेभगवन् किडावको अथत्रै इम तेःश्रियकनविये चारे चारेयतक कडवा । वेरिदिसव सारिसा चरर पागाहवा अथचच भगुसस्य पसखेज्ज
भामं । चाश्रिय गतकनरीया पतनाविमेष पवगाहना जपन्वको भगुसना पसज्जातमाभाग । कडासेच तिचि माउयाइ । कट्टकट्टवकी तीज गाउ
नो । ठिइकडकच पडममय कडामेच पगुवककरा इदिवाइ मेम तडेव । स्थिति अथयसको एकसमय कट्टकट्टवकी कगुवपवास टिनको भय तिमकी
इ कडवा । मेरु भते र ति । तइति हेभगवन् ॥ तारादिप महाअथसया सज्जता ॥ तेःश्रिय महाजुम्भयतक पूरावया ॥ सत्ततीसरम सय सज्जत । से
नाममायतक पूरावया ॥ ३७ ॥ १ ० १ ० १ ०

कञ्जुम्भ २ अक्षयिणीविद्यायां जते । कठ उत्रयज्जति जहा वेहद्वियाण तहेत्र अक्षयिणीसुत्रि यारस सया
 कायद्या णयर उंगाहणा अहस्येण अगुलस्स अक्षयिणीसहस्स, उक्कोसेण जोअणसहस्स, सच्चिठणा जहस्येण
 पुक्क समय, उक्कोसेण पुअकोरुपज्जत्त । ठिइ जहस्येण पुक्क समय, उक्कोसेण पुअकोरुणी संस वेहद्वियाण ।
 सेव जते ! जते ! सि ॥ अक्षयिणीविद्यायमहाजुम्भसया सम्मत्ता ॥ एगूणयालीसडम सय सम्मत्त ॥ ३९ ॥

स्येनाहुस्सासुहुर्यं प्रागमुत्कर्षतीत्येवमसहस्रं सतिष्ठता अपत्यनेन समयमुत्कपतः पूर्वकारणीपुष्याम् स्थितिर्येषम्यनेक समयमुत्कपतः पूर्वं
 कारी अथ द्वीन्द्रियावां (यथोक्त तथा वाच्य) तदेव प्रकृत । अथ । इति ॥ अथस्त्रियम्बन्धियमहापुण्यतानि समासानि ॥ एकोन वात्या
 रिक्त अत समासम् ॥ इदं ॥ ॥ ॥ ॥

भीषणमाहुषूबा त्रिवेदापापानुवाववोचोयम् । श्रीरामचन्द्रयज्जिना निबिन्ध्योचितश्रुतमीतः ॥ १ ॥

कृतपुण्यकृतपुण्यसञ्चिपञ्चिद्वया प्रकृत । कुत सत्यपान्ते इत्यावश्यतसुमपि गतिपु सङ्केयवर्षोपुष्पासङ्कृतवर्षोयुक्त पर्योसकापर्यासकेपु च न ह्या

मार्गं कदाचैव आपचसङ्क । एतकाविशय चरगाहना अथवयको श्रेणुवना अथकवातमामाग कटकृष्टयको याजजसङ्क । एविवृता कृष्टेय एवसमय
 कदाचैव पुण्यकादिपदुत्त । एवना अथवयको एवसमक कटकृष्टयको पुष्पादि पुष्पा । ठिंकाकृष्टयं एवसमक कदाचैव पुष्पाको संस वेहद्वियाय ।
 किंति अथगजको एवसमय कटकृष्टयको पूर्वकाको यत्र किम इन्द्रियने कथा विम कथना । सब भेते २ नि । तद्विनि जमयवन् इत्यादि पूर्ववत् ॥
 एवयो पचिद्विद महाअथमया सञ्जता ॥ एवयो पचिद्विद महाहुम्भयतक सपुं कथा ॥ एगूणयालीसडसमय अथत्त ॥ कनताकोसमो मतक पूरा
 वना ॥ इदं ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

अथपुत्र २ सच्चिपचिद्विवाचं भंति कथो अथवयति । कुतसुम्भ २ सञ्चोपचिद्विद इमगवन् विद्विवाचो अथवे । एववापो अथसच्चि गरसु सञ्चैवनासावय

व्याव उपरर्षं पतनीचं भंपगा वा द्रवंपगा वति ॥ इह वेदनीयस्य बन्धविधिं विच्छेदेव वक्ष्यतीतिहत्वा वेदनीयवर्त्माना मित्युक्तं, तत्रप्रयोगान्त
 भीष्वाद्य सप्ताना मन्वन्त्या एव श्रेयाणु यथाधन्वर्त्तन्त्या प्रवल्तीति ॥ ययिञ्जस्स यथा नी यर्षयगति ॥ केवसित्वा दारा स्वर्वेचि सव्यि
 पन्वेन्द्रिया से च वेदनीयस्य बन्धका एव भावयन्त्या ॥ मोहृच्छिञ्जस्स वेपगा वा अवेपगा वति ॥ मोहृच्छिञ्जस्स वेदकाः सूक्ष्मसम्परापीता अवेदका

कर्तुजुम्भरं सशियपधिद्वियाण भते ! कर्तु उयवज्जाति उयवात्तं चतसृचि गर्हंसु सखेज्जवासाउयथ्यसखेज्जवासाउय
 पज्जाता अ्यपज्जात्तपुसु य गकठेचि पक्रिसेहो जाय अ्युत्तरयिमाणति, परिमाण अ्यवहारो उगगाहणा जहा अ्यस
 शियपधिद्वियाण वेदणिज्जयज्जाप सत्तरहं कम्मप्यगन्ठाण यथगा वा अ्ययधगा वा, वेदणिज्जस्स यथगा णो
 अ्ययधगा, मोहृच्छिञ्जस्स वेदगा वा अ्यवेदगा वा अ्यवेदगा वा अ्यवेदगा वा अ्यवेदगा वा

पि विमतिवेयो याववपुचरविमानानीति । परिमाय अपहारो, उगगाहणा, यथाऽसस्त्रियन्त्रिपाष्ठा वदनीयवर्त्मानो सप्ताना कम्मप्रकृति
 भां ययका वाऽबन्धकावा, वेदनीयस्य बन्धका भैवायन्त्याः मोहृच्छिञ्जस्स वेदका वाऽवेदका वा श्रेयाणा सप्तानामपि वेदका नो अवेदकाः

पयस्यबावाह्व । उपपात जिम चारे नतिनेविये खांवा सख्यातवर्षायप । पज्जाता अपज्जातवर्षायप च अथापि पठिसका जाय थ
 सुत्तरविमावति । पर्वीतक अपवर्षीतक पङ्कनीविये तर्ही किङ्को नियेय सायण् अपुत्तरविमाग पतसाजगे कङ्को । परिमाय पङ्कहारो भागाहवा जहा
 ययधिर्षिद्विवाच वेदविच्छयव्याचं सत्तरहं कम्मपगहोच वधमावा अंधमावा येयविज्जस्य वधगा भावयधगा । परिमाय अपहार यदनाहना जिम
 ययधो पवेन्द्रिबनेविये वेदनीयवर्त्मानि सात कम्मप्रकृतिना ययका ययका ययका वेदनीयवर्त्मानो अययेकरो अययेकरो वेदनीयवर्त्मानो तिहा
 उपपातमाय पादिदेरे घातना अययवकीज श्रेय ता यथा अभवन्त्यव पुवे केवलोपधांको जिमठ सव पधि पवेन्द्रिव तेव वेदनीयना बन्धकत्वे पधि
 ययवन्त्यव तर्ही । भावविच्छय वधरेवा पबुधरेवा सेसाव सतपचवि वधरे वा पबुधरे वासय मोहवन्त्यव वरीरगा वा पबुधरेवा सेसाव क्यवइवि एवो

नु उपगान्तोपादयः ऽ मेराचं मत्तइद्वि वेपगा नो अयपगति ऽ ये किलोपजान्तोऽद्वयः सक्तिपचेन्द्रिया सौ सप्तमामपि वेदका नो अश्व
 काः अगिन पय चतसृकां यदका अयति तचन्द्रियव्यापारतोत्तवन न पम्बन्धिया इति ऽ वायाययगा या असायावेयगावपि ऽ सत्वियपम्बन्धि

अनायायंदगा या, मोहनिहस्तस्व उदइ या अणुदइ या सेसाण सप्तएह्वि उदयी णोअणुदइ । णामस्स
 गीपम्स य उदीरगा णो अणुदीरगा सेसाण तएह्वि उदीरगा या अणुदीरगा या, कएहलेस्सा या जाय
 सुक्कलेस्सा या, सम्मादिठी या मिच्छादिठी या, णाणी या अणुयाणी या, मणजोगी

यातापदका या अनातावेदका वा माहनापस्वादयिनो वा ऽमुद्वयिनो वा अयाका सप्तमामपि अद्विना नेवानुद्वयिनः तन्नी गोब्रह्म
 वोदारका या नेयानुदीरका या अयाको यकामप्यदीरका याऽनुदीरका या अयसेइया वा याअणुदइरगाया सम्मयद्विणो या मिथ्याद्वि
 णोया अय्यन्ध्रियाद्विणो वा चानी वाऽअ्यामी वा मनोयोगिनो वा काययोगिनो वा ' उपयोगो वषादिक वच्छासका
 रथावा अदीरगाया । माहनीयता अइ- पयवा अदइरं तिष्ठा सुअसपरायपर्यन्त त अइरं अने उपयान्त माहादिक अणुदइ यप साताना अइर
 पवि नही अणुद्वी एतकाविज्य वेदवा ते अणुद्वेकरी अदीरका अरचेकरी अदयपाम्माना मोगववा तथा अद्वय ते अणुद्वेने वावाता नाम गावना
 अदीरक पवि अणुदीरक नही नाम याच अकयायपरंत अग्रोपचेन्द्रिय अगलार पवि अदीरक इवे पवि अणुदीरक नही यप अयभा अदीरक पवि इव
 त यप अना अिम संभवे अदीरक अणुदीरक अिम अणुदीरकानिचिं अिम अइवे-अणुद्वेकरी अमवे पाठकम अदारे याअजातो योप आठको अते
 याअगारकी मातकम अदीरे अयसत्ताणि यामिसे वाएणुअठवे वेदको वाअकारकीन अकमने अदीरे तथा अकामसपराय अइको यावको योतानावा
 यना योपववा माहनीय वेदकोय पाठको अकी पयकम अदीरे अयमातमावे पवि अइ पइ पवने अदीरे योपमीअ अयाव योप यावको पातानाकाकना ये
 पववा नाम योप अदीरे तेरमे अयाभी पवि नाम गावने अयोगी अदीरक अणुदीरक पविइवे । अइरकेखाया याव सुअलेखाया । अय्यवेखाये इवे वा

पाया नवस्वरूपत्वात् ॥ मोहबिन्दुस्त्व सर्वयी वा अद्भुदयी वति ॥ तत्र सूक्ष्मसम्परायात्ता मोहनीपत्यो वयिन' । उपशान्तमोहादय शस्वमुदयिना
 यथाच सप्तबह्वीत्यदि ॥ प्रात्यन् मवर-यदकत्वा मुकमवाकरकेन बोदयागतात्ता मनुभवत उदय स्वमुकमागततामामिति ॥ नामस्व गोपस्व
 य उदीरगा मो अद्भुदीरगात् ॥ नामगात्रयो रकपायात्ताः सल्लिप्यन्त्रियाः सर्वेप्युदीरकाः ॥ सेसाच अरहवि उदीरगा वति ॥ अयाका पया म
 पि यथासम्भव मुदीरका दानुदीरका य यतोय मुदीरकावितिः प्रमताता सामान्यता एतासा मावसिवा वष्टपायुक्तास्तु तयथायुक्त्वसतामा सुदी

वा वहजोगी वा कायजोगी वा, उवर्तंगो वसमादी उस्वासगा श्याहारगा य जहा एगिदियाण, विरया
 वा श्चिदिरया वा विरयाविरया य, सकिरिया जो श्चिकिरिया । तेण नते ! जीया कि सत्तविहयधगा वा
 श्चिहयधगा वा त्तिहयधगा वा एगविहयधगा वा ? गीयमा ! सत्तविहयधगा वा जाय एगविह

आहारकाय यथेकत्रियाः विरता वाऽविरता वा विरताविरता वा सक्रिया नाक्रियाः । ते प्रवन्त । जीवाः कि सत्तविपवधकावाऽष्टविप
 वयका वा पट्टिपमयका वा एकविपवधका वा ? मौवम । सत्तविपवधका वा पावदकविबन्धका वा । ते प्रवन्त । जीवाः क्षिमाहारसञ्चोप

नत् मुक्त्वेषाये परि बुभ । सप्तविहोवा मिच्छविहोवा सप्तामिच्छविहोवा । सम्यग्दष्टो पबिद्वे मिच्छदष्टो पबिद्वे । पाबोवा अ
 पाबोवा । प्रातो पबिद्वे अत्रानो पबिद्वे । मन्वागोवा वरवागोवा कावकागोवा । मनोमानी पबिद्वे वचनबोगो पबिद्वे वायबोगो पबिद्वे ।
 अत्रपागा वचमादो रकपायपा । उपयाग वर्षादिब षष्ठासवन्त । पाकारगाव सत्ता पगिक्रियाच विरयावा अविरयावा विरयाविरयाव सकि
 रिया वा अक्रिया । पाकारव पतता क्षिप्त एवेकका तिस विरतो पबिद्वे अविरतो पबिद्वे विरताविरतो पबिद्वे सक्रिय पबिद्वे
 नही सक्रिय । तेर्बन्ते जोवा कि सत्तविहयधगावा अविहयधगावा एगविहयधगावा । तेच तेममवन् जीव स्तू सातमकारि बर्मना य
 अत्र यथा पाठमकारना बग्धव पदवा अमकारना बग्धव पयवा एकमकारना बग्धव ए०म उत्तर । गावमा सत्तविहयधगावा आप एगविहयध

रखाः प्रमत्तादयस्तु ब्रह्मरो वेदनीयायुवर्जानो यस्तान्, तथा सूर्यसम्पराया आद्यसिकायां स्वाध्यायाः श्रेयायां मोहनीयवेदनीयायुवर्जाना यन्मामपि उपशास्त्रमोहा लुप्तकृपाणां पञ्चामासव क्षीयकपायाः पुनः स्वाध्याया आवृत्तिनाया ह्येपाया नामनोदयोरेव सयामिनोव्येतयो रवायोति

यथगा या । तण जते ! जीवा किं श्याहारसंखीयउज्ञा जाव परिगहसंखीयउज्ञा णोसखीयउज्ञा ? गीय मा ! श्याहारसंखीयउज्ञा जाव णोसखीयउज्ञा सख पुच्छा ज्ञाणियज्ञा । कोहकसायी जाव लोचकसाई वा श्यकसायी वा । इत्यीवेदगा वा पुरिसवेदगा वा णपुसगेवेदगा वा श्यवेदगा वा । इत्यिवेदयधगा वा पु रिसवेदयधगा वा णपुसगेवेदयधगा वा श्यधगा वा, संखी णो श्यसखी, सहदिया णो श्यणिविया, सचि

युक्ता यावत्परिग्रहसंखीययुक्ता मोसंखीययुक्ताः ? गीतम ! आहारसंखीययुक्ता यावत्संखीययुक्ताः सर्वा पुष्का प्रखितव्या कोचकपा यिनो यावत्सामकपायिनो वाऽकपायिनो वाऽविदेका वा पुरुपवेदका वा मपुसकवेदका वाऽब्रह्मकावा खीवेदवन्धकावा पुरुपवेदवन्धकावा मपुसकवेदवन्धका वाऽजन्धका वा । खलिनो मासम्भिनः सेम्भिया नामिम्भियाः सतिष्ठना जपम्येनेकं समपनुस्वपतः सागरापमद्वयतपुष्कान्

मावा । ऐथीतम सातप्रकारना बगध पचिपुने एम यावत् एव प्रकारना बन्धक पचिपुने । तेचभते कोवा किं पाहारसंखीयउज्ञा जाव परिग्रहसंखी यउज्ञा यो मकारउज्ञा । तेह ऐमगरन् वीव च्चू पाहाऽसंखीययुक्त इत्यादि यावत् परिग्रहसंखीययुक्त तथा ना संघापसुख इ म उतर । गीयमा य आरककाउज्ञा जाव चां स्यावउज्ञा सख पुष्का भावितव्या । ऐथीतम पाहारसंघापसुख इत्यादि यावत् मोसंघापसुख एम संगकोरो पुरखा जावको वाहकसायो जाव लोचकसायो वा चकसायो वा । आहकपायो यावत् सामकपायो यावत् साभकपायो पयवा पचपाको । इत्यीवेदगावा पुरिसवेदगावा च्चपुसवेदगावा च्चवेदगावा । स्यावेदक पयवा पुरिसवेदक मपुसकवेदक इवे पयवा च्चवेदकइवे । इत्यीवद्वेदगावा पुरिसवेदयधगावा च्चपुसवेदयधगावा च्चवेदयगावा स्यावेदयधक पयवा पुरिसवेदयधक मपुसकवेदयधक पयवा च्चवेदक । सर्को आचसको सहदिया चापर्वदिया । सखीपुने मखी पसखी सहदिक्र बुदे

न इत्त्वमुदीरका एवेति । सचिद्वत्त्वा अद्वैत एवक समयति । इत्त्वमुत्स २ सचिद्वत्त्वैन्निप्रियाका सप्रत्येनावस्थिति रोक समय समयानन्तर सङ्गाभर
 सङ्गावात् । सङ्गावेवं सागरोवमसयपुहस साहरेगति ० मत इतःपरं सचिद्वत्त्वैन्निप्रिया न प्रवत्येवेति ० अ समयान्याया आशङ्कनति ० सचिद्वत्त्वैन्नि
 याका माद्याः पठेव समुद्राता नवन्ति, सप्तसक्तु वेचलिनमेव तेना निन्निप्रिया इति । कृष्णरश्याद्धते-सङ्कोचय लेनीय सागरोवमात्र यतोमुद्रुत

ठणा जहृखेण एक्कं समय उक्कोसेण सागरोवमसयपुहस सातिरेग, स्याहारी तहेव जाव णियम व्ढिंसि,
 ठिइ जहृखेण एक्कं समयं उक्कोसेण तेहीस सागरोवमाइ । व्ढ समुघाया स्यादिविगगा मारणतियसमुघाएण
 समोहयावि मरति स्यसमोहयावि मरति । उव्हणा जहेव उवधाए ण कत्यइ पट्टिसेहो जाव स्युण्णरवि

सातिरेवं आहारस्यैव यावन्नियमास्यक्विक स्विति संप्रत्येक समयमूत्त्वपत्तकपक्किआसामरोपमाचि यत्समुद्राता आदिमाः मारणा
 न्निबसमुद्रातेन समवहता अपि वियत्ते अचमवहता अपि वियत्ते उव्हतना यथैवोत्पादो न ह्यापि प्रतिवेधो यावत्समुत्तरविमानमिति ।

नही पभिमिद्र । सचिद्वत्त्वा अद्वैतं इत्त्वसमय उक्कोचं सागरोवमसयपुहस साहरेम । अतस्तुम् २ सप्रोपपेद्रिजन पवक्किति अत्यवत्तो एवसमवते प
 नकर सप्ताकारना सङ्गावत्त्वो उरकटवत्त्वो साभरापम यतएवत्त्वुल सातिरेक वेदमको एववत्त्वो योयचि सप्रोपपेद्रिव नपुवे । आहारा तडेव जाव वि
 यम इदिचि । आहार तिमहोव अह्यो यावत् निवमवत्त्वो इदियिनो इवे । ठिर अद्वैत एवसमय उक्कोसेव तेतोव सागरोवमाइ अयमुववाया या
 दिवसा । स्विति अचमवत्त्वो एवसमवत्त्वो उरकटवत्त्वो तेतोव सागरोपमनो अचमहता हुवे पट्टिआ सातमो वेदकोने हुवे तेए अन्निद्रियेने हुवे । मारए
 निबसमवाएए समोहयावि अरति अचमोहयावि मरति । मारणातिबसमुद्रातेकरो समोहिवत्त्वका पचि अरे अचमाहितवका पचि मरे । उवहवा ण
 वेव । उव्हतना विम उपपात अट्टो तिम अह्यो । अ अत्यइ पट्टिसुक्कीका जाव अचुत्तरविमानमिति । अट्टो किव्हारं पचि प्रतिवेध बावत् पट्टातरविमा
 न इति । अचभते उवपावा जाव पचंतपुपो एव ताएवुवि कुवेसु माचियव । जाप अचतछता । दिवे हेमसवत्त्व सबम्राणी यावत् अगत्तोबार छपना

माणासि । ग्रह जते ! सङ्ख्याणा जाव स्थणतखुत्तो एय सीलससुधि जुम्मेसु जाणियसु जाय स्थणतखुत्तो
 णयरं परिमाण जहा येइदिया सेय जते ! जते ! सि ॥ ४० ॥ १ ॥ पठमसमयकरुजुम्म २
 सणियपचिदियाण जते ! कउ उयवाठ परिमाण स्याहारो जहा एएसि चैव पठमो उद्देसए, उंगाहणा यधो
 येदो येदणा उदयी उदीरगाय जहा येइदियाण पठमसयाण तहेय करहलेस्सा वा जाय सुक्कलेस्सा वा सेस
 जहा येइदियाण पठमसमहयाण जाय स्थणतखुत्तो णवर इत्थियेदगा वा पुरिसवेदगा वा णपुसगवेदगा

षय प्रदत्त । धर्यं प्राणा यावदन्तकत्व यथं पीठशुक्लपि युम्मेसु प्रकितव्य यावदन्तकत्वो नवर परिमात्र यथा द्वीन्द्रिया एतदेव प्रदत्त ।
 प्रदत्त । इति ॥ अस्वारिण श्रुते प्रथमोद्देशः ॥ ४० ॥ १ ॥ प्रथमसमयकरुजुम्मसंख्यपञ्चेन्द्रिया प्रदत्त । कुतः ? अत्यादौ परि
 मात्र आहारो यथैतत्पामव च प्रथमोद्देशः उवगाहना अन्त्यो वेदो वेदो इत्येव उदीरकाय यथा द्वीन्द्रियाश्च प्रथमशते तथैव कृष्णलक्षणा वा
 यावच्छ्रुतेदयाया अर्प यथा द्वीन्द्रियाश्च प्रथमसामयिकानां यावदन्तकत्वो नवर स्त्रीवेदका वा पुसपवेदका वा णपुसकवेदका वा सञ्चि

रम सासं पचि कुम्भत्रिविधे खांवेवो यावत् पञ्चोत्तार उपना । एवर परिमात्रं अथा वेद दिया । एतसाविशेष परिमात्रं किम वेदन्द्रियमेव ज्ञा तिम
 कश्चा । खेर्भन्ते २ ति । तद्वति हेमयवत् इत्यादि पूर्ववत् ॥ १ ॥ पठमसमयकरुजुम्म २ सखियचिदियाव भते कथो उपवाधो ।
 प्रथमसमय उतकुम्भ २ समीपेवेन्द्रिय हेमगवन् किश्चिद्वो उपजे । परिमात्रं आहारो अथा एयसि एव पठमोकरुदिसए । परिमात्रं आहारं किम
 एवमात्रं जिये पश्चिदाहर्दन्त्या कश्चा तिम कश्चो । योगादथा कथो वेदो वेदका उदयो उदीरगाय अथा वेद दियाच पठमसवाव तथैव । एवगाहना
 एव वेद वेदना उदयो उदीरक किम वेदश्रीना पश्चिदायतनत्रिविधे कश्चा तिमशोक कश्चा । कश्चिच्छावा जाव सुक्कलेस्सावा । कश्चिद्वो यावत् युक्कले
 मो पुवे । वेसं अथा वेद दियाच पठमसमहयाच आर पश्चात्पुना । येप किम वेदश्रीमवम सामयिकने कश्चा तिम कश्चो यावत् पञ्चोत्तार उपना ।

वा सखिणी श्रुसखिणी सेस तहेव एव सोलससुवि जुम्मेसु परिमाणं तहेन सेव जते । जते । त्ति ॥ एव
 एत्यत्रि एक्कारस उद्देसगा तहेव, पठमो तहेन पचमो य सरिसगमगा सेसा श्रुठयि सरिसगमगा, चउल्य
 उठठमवसेमेसु णाल्य त्रिसेसो कोइवि, सेव जते । जते । त्ति ॥ ४० ॥ पठम पंचिदियमहाजुम्मेसयं सम्मस
 ॥ १ ॥ कखलेस्सककजुम्मे २ सखिपचिदियाण जत । कउ उव० तहेव पठमुद्देसउ सखीण णवर

मो उवस्मिन्नः इयं तयैवैवं पोककण्ठस्यपि युग्मेपु परिमाणं तयैव जदत्त । जदत्त । इति । एवमत्रापि एकावशोदुयसास्यैव प्रथम रय
 तीयः पचमय सदृशमन्त्राद्वा द्वीया अष्टावपि सदृशमन्त्राः चतुष्पष्टाष्टमवसेमेपु नास्ति विधापः कोपि तदेव जदत्त । जदत्त । इति ॥ प्रथ
 म पचमान्त्रय महायुग्मजतं समास चत्वारिंशोऽंश ॥ ४० ॥ १ ॥ कखलवयकतयुग्मकतयुग्मसञ्ज्ञिपञ्चमिन्द्रिया जदत्त । कुल सत्य
 ज्ञान तयैव (यथा) प्रथमोद्देशके सञ्ज्ञिमां मवर बन्वो वेव उवय उदीरका साश्या बन्वसञ्ज्ञाकपायवदन्व्याका एत यथा द्वीमिन्द्रियाका कण्ठले

बवर इतिरवगावा पुरिसवेदमावा नपुसगवेदगावा । एतन्वाविमिये लोवेदक यववा नपसकवदक जव । सखिषा सखिषा सुसत
 जव । ससो अससो यप तिमहोव वजवा । एवं सालसुवि सुयेमु परिमाणं तहेव । इम सासेर बुम्मानविये परिमां तिमहोव वजवा । सेवमे २ त्ति ।
 तद्वति इममवन् इत्यादि । एव एत्वत्रि एककारस उद्देशसा तहेव । इम इहा पचि इत्यरेकद्वया कइवा तिमहोव । पठमा तदया पचमाव सखि
 मगमगा सेसा अइविसरिसगमगा । पचिषा चोका पचमा ए तोनसरोखा उद्देश्या कइवा श्रेय पाठे ई एकसरोखा उद्देश्या कइवा । चइत्तसइमइस
 मस चत्ति त्रिसेसा कोविदि । चोका कइया पाठमा इयमा एकानेविये महीविमिये काइ पचि । तद्वति त्रिभगवन् ३ पठम पचिदक मका
 एव सय सख्यत ३ प्रथम पचेश्चिब मकाबुमयतक पूरावसा ॥ ४ ॥ १ ॥ कखलवय कककम २ सखिपचिदियाव भत कया उववापा
 तहेव पठनद्वसपा सखीप । कखलेयो जतयुग्म २ सखीपचेश्चिब वाक्कासंइति, तिमगवन् विहावी जयणे इत्यादि तिमहोव पचिषा उद्देश्याने विप

मनुश्चिंशदति ॥ इत्वं रूपान्तेश्यायस्वानं सप्तमपचिष्युस्करुषिचिति पृथक्प्रवपपत्तशक्तिग रूपान्तेश्यापरिबामसामप्रित्येति भीसलेश्यायान्ते-उक्तोशेष

अथो येन उदयी उदीरणा ऐस्सथयगसया रुसायवेदयधगा एयाणि जहा वेडद्वियाण, करहलेस्साण वेदी त्तिथिही ध्ययेदगा णत्थि, सचिठणा जहयोण एक सभय उक्कोसेण तेत्तीस सागरोयमाइ ध्यतोमुकासमप्र हियाइ । एथ ठिठएवि गवर ठिठए ध्यतोमुकासमप्रहियाइ ण जयाति सेस जहा एएसि चैव पठमुद्देसए जाय ध्यणतखुत्तो, एथ सीउससुयि जुम्मेसु सेव जते ! ति ॥ २ ॥ पठमसमयकराह

इयासा पदत्तिपियोऽवेदभा मसन्ति सन्तिष्ठता अपत्यनेक समपुट्टयत्तत्पयिक्करसागरोपमादि अन्तमुद्दत्तोपिकानि । एष स्थिताषपि भग्ग स्थितो अन्तमुद्दत्तोपिकानि न प्रत्यन्ते क्षयं यथा एतयो वैव प्रथमोद्देशे यावदमत्तकत्वाः यय पाठशास्त्रपि युग्मेपु तदव प्रवत्त । प्रवत्त ! इति ॥ आस्वारियात्तान्तगत पम्भन्त्रिय मध्यायुग्मज्ञते द्वितीयादेशः ॥ ४० ॥ २ ॥ प्रथमसमयकराजस्यपठयुग्मसकृतयुग्म

मत्तान कक्षा तिम । एवर वेधा वेधा उदयो उदीरणा उद्यच्छकग सखकसाय वरबंधना एयावि कक्षा वेद दियाव । एतत्ताविगप यथ वेदभा उदयो उदीर णाः वेद्याकथक मत्ता कपाय वेदने कथक पञ्च जिम वेदगिद्वयने कक्षा तिम । कथकलेखाच वेदो तिविधा यवदगा अत्ति । अयुग्मेगाने वेद तानेरा जे पत्रेण अहो । सचिठना अहकथं एहममय कक्षासेव तेत्तीस सागरावमार अतामहत्तमप्रहियाइ एव ठिठएवि । सचिठना अहकथवको एहसमय उदय उदयो तेत्तीसमायरापम अन्तमुद्दत्त पचिब अयुग्मेगानो अयवत्तान सातमोपुविदोने विषे उदयुद्दत्तिति तेत्तीसमागर अन्तमुद्दत्त पचिब ते पाळिना भय ना इम स्थितिनविषे पचि कपुवा । एवर ठिठएवि अतामहत्त मप्रहियाइ च भवति । एतत्ताविगप स्थितिनविषे पूं भवसवयो अन्तमुद्दत्त पचिका न इहना । मेम अहा एदसि येन पठमद्वयेसए आर अचत्तएत्ता एव सावससुवि अयेसु । येष जिम एहनाअ निषे पचिभाउदुद्दगानेविषे कक्षा तिम कथ भा वावत्त पनत्तोवार अयता इम सान्नेरं जुग्मनेविषे पाच कथवा । उवभते २ ति । तदत्ति हेभागवत्त इत्यादि पूववत्त ॥ २ ॥ पठमसम

इमसागरीयमाइ पलिमुयमसइ अयउेज्जइतागमअपियाइति ॥ पचमपुयिध्या उपरितनप्रकटे वषागरीयमायि पस्योपमासहुपयजागायिका स्या
 युसम्भवति नीलसदया च तत्र स्या इत उक्त-उक्तेषुमिस्यादि ० यथेइ माकमनवालिमात्तमुंइले तत्पस्योपमासहुपयजागे प्रविष्टमिति न जये

उेस्स कळजुम्मइ सण्णिपच्चिवियाण जते । कजु उव० पठमसमयउद्वेसए तहेव णिरवसेस णयर तेण जते !
 जीया करहलेरसा ? हता करहलेस्सा चस तहेव, एव सोलससुयि जुम्मेसु सेव जते । जते ! त्ति, एव एणुयि
 । एक्कारसउद्वेसगा करहलेस्ससए पठमततियपचमा सरिसगमगा सेसा अठयि सरिसगमा सेव जते । जते ।
 ति ॥ यित्तिय सय सम्मत्त ॥ २ ॥ एव णीललेस्तेसुयि सय णयर सच्चिठगा जहणेण एक्क समय

सच्चिपवेन्द्रिया प्रदत्त । कुत उत्पद्यते प्रथमसमयोद्वेक्षणे तथैव निरवशेष मवर त प्रदत्त । जीवा कृष्णलक्षणाः ? इत्त कृष्णलक्षणा इप त
 पवेवं पीलमस्यपि युग्मेपु तदेव प्रदत्त । इति, एकमतपि एकादयोद्वेक्षका कृष्णलक्षणाजते प्रथमतृतीयपचमाः सदृशगमकाः शोषा
 शयायपि सदृशगमाः तदेव प्रदत्त । प्रदत्त । इति ॥ द्वितीयं यत् समाप्तम् ॥ २ ॥ एव नीलसेइयस्यपि यत् मवर सत्तिष्ठता

अवश्यं अवश्यं इ सच्चिपच्चिद्विद्याय भते कथा सवव्यति । प्रथमसमयं मूलश्लेषो वृत्तद्वयम् २ सञ्चोपवेन्द्रिय वेमगबन् विज्ञाश्लेषो लपव । पठमसमय
 उद्वेसए तदेव विरवसस । त्विम प्रथमसमय उद्वेसयानेविये कथा तिमश्लेष निर्विगोपपसे कथा । मवर तेवमते जीवा कथइयेसा । एतन्निविगोप तेइ
 वेमगबन् श्रीर वृष्णवेगो इ प्र उतर । इता कथइसासा सेसतहेव । इतीतस कृष्णश्लेषो कथा गेव तिमश्लेष कथा । एव सोलससुयि जुम्मेस । इम
 याने उद्वेगान विपे कथा । सेकते २ ति । तइति वेमगबन् । एव एपवि एकारस उद्वेसगा । इम एइ पचि इत्यारे उद्वेसगा । कथइयेसा । पठम
 तइय पंचमा सरिमसमया सवा पइवि सरिसगमा । कथवेगो यतकनेविये पइसा बोला पंचमा ए सरोसागमा कथा यत् पाठ पचि मरोसागमा
 कथा । सेवभते इ ति । तइति इमगबन् रत्वादि पूववत् ॥ वित्तियसय सव्यत् । दूस्सरायतक पूरोवथा । २ ॥ एव बीरवेरसेसुयि सव

शोक्तं नव मन्यन्नापि ॥ तिसु उद्देशवसुति ० प्रथमवृत्तीयपञ्चमयित्ति, कापोत्सवेषयाशते-उक्तीसंब तित्ति सागरीयमाधुं पलिष्ठमस्स अससेण्णार

उक्तीमेण दस सागरीयमाइ पलिष्ठमस्स अस्सखेज्जाइनागमझ्हियाइ । एव ठिइएवि, एव तिसु उद्देशएसु
 संसें तहेय संय जते । जत । त्ति ॥ ततिय संय समत्त ॥ ३ ॥ एव काउलेस्संसय पि णवर
 सचिठणा जहयणेण एक्का समय उक्तीसंण तित्ति सागरीयमाइ पलिष्ठमस्स अस्सखेज्जाइनागमझ्हियाइ ,

अपव्यामेक समयपुरकपतो दश सागरीयमावि पस्सोपमस्यासुपुयजागापिकाति, एवं स्थितावपि, एवं त्रियु उद्देशकपु शोप तथैव तथैव नद
 न् । नदत्त । इति ॥ वृतीय अंतं समाप्तम् ० ४० ॥ ३ ० एव कापोत्सवेषयाशतमपि णवर सतिष्ठना अपम्यनैक समयमुत्कपत
 तीवि सागरीयमावि पस्सापमासुपुयजागापिकाति एवं स्थितावपि एवं त्रियु उद्देशकपु शोप तथैव तथैव नदत्त । इति ॥ चतुथ

बदरं मचिठुवा । इम मोक्षसावान्निवै पवि मतत्त कइवा पतकाविग्रय अयस्सान । कइसेवं एअसमर उक्तीसंब दस सामरावमार पविथावमच्छ पस
 पुत्रइभाम मध्विदियार एव ठिइएवि एव तिसु उद्देशकपु संसतसेय । कवत्तको एअसमय उरकुट्टको एअसमय वय सागरापम पस्सापमनो पस
 व्यातमाभाम पविइ तेबिड पबसोदियीन अपरिसे पावते दय सागरापम पस्सापम पसस्सेवभाग पविइ थाऊसा सथैवे तिइी नोसंसेया इव ती
 माट उरकुट्टको इमा कइवा कइ ईका एवभवा कइका अंतमुइत्त तं पक्कापम पसस्सव ३ भागनेविपे पैठा तेमाटे मरै इरी न कइवा इम पनरैसानके
 पवि कइवा इम स्थित्तिविये पवि कइवा इम तीनेइ उद्देशेयानेविये कइवा येप तिमकोअ कइवी । संभत्त २ त्ति । तइत्ति वेभमदत्त तुलेकइवा ते संय
 पससे ३ तइय संयं समत्त । शीसरायत्तक पूरावया । ३ ॥ एव कापोत्सवसरीपि । इम कापातसेमोगतक पवि कइवा । कवर सचिठुवा
 कइववं पइदमयं कइसेवं तित्ति सागरीयमाइ । पतसोविसेय सचिठुवा अपत्तको एअसमय उरकुट्टको तीन सागरापम । पविथावमच्छ पसस्सव
 रभाड मध्विदियार । पस्सापम पसस्सावमाय पविइ ते शोकोइविने अयत्ति काववा । एवठिइएवि एवं तिसुविउद्देशकपु संसत

प्रागमन्नादियादिति ॥ यदुक्तं तद्वीक्षामदेवपरमापुराप्रित्यत्यवधेय । पट्टलेइमाक्षते-उक्तीसेव इत्यदि ॥ तु यदुक्तं तद्वीक्षामलोकादेवा

एव ठिइएयि, एव तिसुवि उहेसएसु सेस तहेव, सेव जते ! जते ! सि ॥ चउत्य सय सम्भस ॥ ४ ॥
एत्र तेउलेस्सविसयं णवर सचिठणा जहणेण एक्कं समय उक्तीसेण वी सागरोवमाइ पलिउयमस्स अ्सखे
जाइजागमम्वहियाइ । एय ठिईएयि णवर णो सखीवउत्ता, एव तिसुत्रि गमएसु सेव जते ! जते ! ति ॥
पचम सय ॥ ५ ॥ जहा तेउलेस्सासत तहा पम्हलेस्ससयपि णवर सचिठणा जहणेण एक्का

ज्ञते वमासम ॥ ४० ॥ ४ ॥ एवं तेकोसेशयाइतमपि नवर सतिष्ठना अपत्येनेकं समयमुत्कपतो व सागरोपमे पस्पोपमस्यासहे
यजागापिक एव स्थितावापि नवर णो सखीवपुत्ता एव अिद्वपि गमणेपु तदेव जदत्त । इति ॥ पम्भम ज्ञत ॥ ४० ॥ ५ ॥
यथा तेजोसवपाक्षत तथा पट्टलेइपाक्षतमपि नवर सक्तिष्ठना अपत्येनेकं समयमुत्कपतो इय सागरोपमास्यत्तमुद्भूतपिक्कामि, एव स्थिताय
जेव । इम स्थितिनेविये पयि कइवा इम ठोनें उदुदेयानेविये कइवा येय तिमहीज कइवी । सेवमते र ति । तइति वेभगवम् ॥ वधटवसव सम्भतं ।
योवायतक पूरावो ॥ ४ ॥ एव तेउलेस्सविसव नवर सचिठणा । इम तेउलेस्सविसव नवर सचिठणा । इम तेउलेस्सविसव नवर सचिठणा । इम
इवेण एवंसमयं उक्तीसेव दासागरावमाइ पक्किपावसखु वसखुसइभाम समइशार एव ठिईएयि । अयम्यवको एअसमव धट्टवुसवको दाय सागरो
पम पस्सापम पयज्जातभाग पक्कि तेव इमानदेव उस्सुट पाकया प्रतेपायधोने कइया इम क्कितिकनेविये पयि कइवा । नवर साउणीवउत्ता एव ति
सुविगमवसु । इतक्कावियव मासप्रापयुत्त साहुणी यपेवति इम तोनेइं पयि यमानेविये कइवी । सेवमते र ति । तइति वेभगवम् इत्थादि । पचम
सयं सम्भत ॥ वीवमायतक पूरावो ॥ ५ ॥ कइवा तेउलेस्सासत तहा पम्हलेस्ससवपि नवर सचिठणा । इम तेउलेस्सासत तहा
कइया तिम वसखया यतक पयि कइवा एतक्कावियेव सचिठणा । जइवेण एअसमयं उक्तीसेव इवसागरावमाइ यतानुत्त नभइवइव एव ठिई

पुराहित्य तिमन्तस्य तत्र हि पट्टनसहयोगायुपप्रत्यन्तमुद्गुहं च प्राञ्जनमयावसाववर्त्तते । शुक्लसेवयाद्यते-शुचिष्ठका विद्वय जहा फण्डरेरसस
 पति ० ग्रयन्निशारसागरोपमानि सात्तमुद्गुहानि शुक्लमयावस्थान मित्यथ; एतच्च पूर्वप्रधांत्यान्तमुद्गुहममृतरायु द्यादित्ये त्ययवेय स्थितिं स्तु
 ग्रयन्निशारसागरोपमाणीति ० नवरं सुक्लसाय उक्तीसकं एकतीस सापरोवमाइं अतोमुद्गुहमस्रिययाइति ० यदुक्तं तदुपरितनयैययस्वमाश्रित्यपि

समय उक्तीसेण दस सागरोयमाइ स्थतीमुञ्जसमझियाइ पृथ ठिईएवि णयर स्थतीमुञ्जस ण नञ्छति सेस
 तहेय । एत एएसु पचसु सएसु २ जहा करहलस्वसए गमउ तहा णेतथी जाय स्थणतसुथी सेव नते !
 नते ! ति ॥ तठ सये समस ॥ ६ ॥ सुक्कलेस्वसय जहा उहिहयसस णयर सच्चिठणा ठिईय
 जहा फण्डलेस्वसए सेस तहेय जाव स्थणतसुथी सेव नते ! ति ॥ सप्तम सय समस ॥ ७ ॥

पि नवर मत्तमुद्गुहं न प्रस्यते इय तपेव एवमेतदु पचसु अतेपु यथा कण्ठसेपाशतममवसाया घातव्यो यावदमस्तकलसादेव नदस्त ।
 नदस्त । इति ॥ सप्तम इत समाप्तम ० ४० ० १ ॥ नवविंशतिः कवयुगमकतपुत्रमसच्छिपचेन्द्रिया नदस्त । पुनरुत्पद्यन्ते यथा

यदि । अथशवको एकसमय वरुडयको दसममरापम यगर्तुईन पबिच तेबिस पवमा नञ्जताया देवसाव देवता पाऊखा प्रते पायवोने वञ्चो वि
 हो पप्रजेयये पतनाय पाऊखा इवे यगर्तुईन ते पूववत् धेतना इम क्किति पधि काचवो । नवर अतीमइत च मक्कति संसंतहेव । एतकोविद्येय पूव
 मवमवो यगर्तुईन न कइवा ग्रेय तिमहोक् कइवो । एवं एएसु पचस सण्णु जहा कइकससए ममया तहा वेयव्या जाव पवंतखता । इम एय प
 चमीयतकनेविसे भिम कृष्णेन यतकनेविसे गमी तिम काचिवा यावत् चकतीवार खठना । सेवभते १ ति । तइति हेमगवन् इत्वादि ३ कइ सयं स
 यत्तं ॥ इशायातव ममस ॥ ४ ॥ सुक्कलेस्वस जहा सोइव सयं । मुक्कलेयो यतक बिम थोचिचयतक तिम । नवर सच्चिठणा ठिईय
 यहा कइनेरससए सेस तहेय जाव पचतसुत्ता । एतकीविद्येय पवसान् क्किति भिम कृष्णेगो यतकनेविसे कइो तिम कइवो एतसे तेथीससागरो

नयसिद्धिककजुम्भ २ सखिपचिदियाण जते ! कठ उववज्जाति जहा पढम सखिसुत तथा गेत्तव्व, नवसि
 द्धियाञ्जिजाणेण गवर सवुपाणा णो इण्ठे समठे सेस तचेव सेव जते । जते । सि ॥ अठम सय ॥ ८ ॥
 करहलेस्सन्नवसिद्धिककजुम्भ २ सखिपचिदियाण जत । कठ उववज्जाति एव एएण अञ्जिलानेण जहा चिदि
 यकरहलेस्ससय सेव जते ! जत । सि ॥ णवम सय ॥ ९ ॥ एव णीलहेस्सन्नवसिद्धिएणि सय

मयम सखिसुतं तथा धातव्व नवसिद्धिकाप्रिलापन गवर सर्वे प्राक्का नायमयः समयः सोप तथेय तदेव जदन्त ! जदन्त । इति ॥ ४० ॥
 ८ ॥ क्तलवयनवसिद्धिककतपुम्मकतपुम्मसखिपचिदियाण जदन्त । कुत सत्पण्णे एवमतनाप्रिलापन यथीचिककजुम्भयासुत
 तदेव जदन्त । जदन्त । इति ॥ ४० ॥ ८ ॥ एव नीलसयनयसिद्धिककतमपि तदेव जदन्त ! जदन्त । इति ॥ ४० ॥ ९० ॥

पम पठतसुवूर्त्तं पचिक एतथाविशय गच्छेत्प्राक्का पवज्जात एव पूवमव चत्थ पग्गुत्त पने पठुत्तरासु पाययोमे जायथा स्थिति ततोससागरना जाय
 थो । सवमते २ ति । तद्वति इभगवन् इत्थादि । सतमसय सवण । सातनागतव पूरावया । ० । भवसिद्धिय कडजस्य २ सखिपचि
 दियाच भते कथा उववज्जाति । भवसिद्धिक जूतकुम्म २ सखीपचिदिय इभगवन् विहावको जपजे इत्थादि । सहा पठम सखिसुत तथा वेवक । भिस प
 डिभा नसागतव कथा विम जायथा । भवसिद्धियाभिलाषेच चर सवपाया । भवसिद्धिच भाषायेकरो एतथाविशय सवमाको जपना । वाउपुसमदु
 मम तचेव । ० एव समव नहो श्रेय तिमहोच कइवा । सवमते २ ति । तद्वति इभगवन् इत्थादि । पठमसय सवण । पाठमागतव पूरावया । ८
 कडजस्य भवामदिक कडजस्य २ सखिपचिदियाच मत कथा उववज्जाति । कडजस्यो भवसिद्धिच उतहुम्म २ सखीपचिदिय इभगवन् विहावको जपजे ।
 ० एव एव पभिलाषेच कथा पाचिक कडजस्यसय । इम इत्थे पभिलाषेकरो विम भौविक कडजस्योगतवने विपे कइतो तिम कइवा । सवमते २ ति ।
 तद्वति इभगवन् । पठमसय सवण । नवनागतव पूरावया । ८ । एव शोससेक भवसिद्धिएव सव । इम नोससयो भवसिद्धिकनविपे पचि

सेव ज्ञते । ज्ञते । सि ॥ दसम सय ॥ १० ॥ एव जहा ठहियाणि सखिपथिदियाणि सप्त
 सयाणि ज्ञाणियाणि एव ज्ञयसिद्धिएहिधि सप्त सयाणि कायस्थाणि णवर सप्तसुत्रिय सएसु सप्तपाणा जाव
 णो इणठे समठे सस तंधेय, सेव ज्ञते २ । सि ॥ ज्ञवसिद्धियसया सम्मत्ता ॥ चउद्वसम सय सम्मत्त ॥ ११ ॥
 धृजवसिद्धियकरुजुम्मा २ सखिपथिठियाण ज्ञते । कठ उववज्जाति उयवान् तहेव छणुत्तरयिमाणवज्जातो,
 परिमाण स्याहारी उच्चत्त यधो वेवो वेदण उवठ उदीरणा य जहा करहलेस्ससए करहलेस्सावा जाव सु

एव यथोपिकाणि सप्त सखिपथिद्विन्दिय ज्ञतानि प्रविताव्यव ज्ञवसिद्धिकेरपि सप्त ज्ञतानि कर्तव्यानि णवर सप्तस्वपि ज्ञतपु सव प्राक्का याव
 व्यायमय समयः क्षयं तथैव तद्व प्रदत्त । जदत्त । इति ॥ ज्ञवसिद्धिकर्माणि समाप्तानि ॥ चतुदशम ज्ञत समाप्तम् ॥ ४० ॥ १४ ॥

गतक कइवा । सबमत २ ति । तइति जेमयवन् । दसमसय ३ इयमागतक पूराइवा । १ ॥ एव जहा प्राइवापि सखिपथिदियाणि सप्त
 मवाणि मविवाणि । इम ज्ञिम थोपिइ सत्रीपवेद्विज्जा सातयवक कइवा । एव मवसिद्धिगइदि सप्तसयाणि कायस्थाणि । इम भवसिद्धिकसवाते प
 वि सातमतक कइवा । षडर सप्तसुत्रिय सएस सप्तपाणा । एतत्ताविशेष सातेइ ज्ञतकनेविषे सप्तपाथो पूरे ज्ञपना । जाव चाइएइसमइसेसतयव । याव
 ए एव समय महो मय तिमहोस कइवा । सेवमते २ ति । तइति जेमगवन् इत्यादि । भवसिद्धिजगतक सपू ३ षडसम सय सख्यत । षडदइमा
 गतक पूरोवयो ३ १४ ॥ यमवसिद्धिय कइज्जस २ सखिपथिदियाण भते कथा उववज्जाति कइवाया तइए । यमवसिद्धिक ज्ञतपुस २ से
 प्रोपवेद्विइ जेमववन् विहाइवो ज्ञपले उपपात तिमहोस कइवा । पञ्चतरविमाकवज्जा परिमाये पाइ।राउकल कथो वेवा वेवक कइया कइोरकाव
 जहा कइज्जेजसए । चतुदशिमाम कर्त्तनि परिमाय पाइर कइपथो सव वेद वेदवा कइव कइोरका ज्ञिम ज्ञवसेयोगतकने विषे कर्त्ता तिम कइ
 वा । कइवेवेवाया ज्ञार पुइकवजाया । कइवेवो वावए गुइवेवो । कावकविहो भिक्खविहो थोपकाणिक्खविहो । कथी कइवकइती भिक्ख कइती कथी भि

क्लेशस्वाधा णी सम्मद्विठी मिच्छद्विठी णी सम्मामिच्छद्विठी णी णाणी स्थ्याणी एवं जहा करहलेस्ससए
 णयरं णी थिरया स्थिरया णोविरया २, सचिठणा ठिईय जहा उहियउईसए, समुग्घाया स्थ्यादिस्रगा
 पच उघ्हणा तहेय स्थुत्तरयिमागयञ्ज सव्वपाणा णी इणठे समठे सेस जहा करहलेस्ससए जाव स्थुणत
 सुत्तो, एव सोलससुवि करुजुम्मे सेव जत ! जते ! सि ॥ १ ॥ पढमसमयस्थुत्तत्रसिद्धियकरु

अतवसिद्धिक्कहतपुग्गहत्तपुग्गसञ्चिपञ्चेत्थिया प्रदत्त । कुत्त उत्पद्यत्ते उत्पारक्तयेवामुत्तरविमानवक्ख, परिमावमाहार उपत्त वत्थोवेदो
 वदममुवय उदीरवा च यथा रूपालेइयाइते रूपालया वा यावच्छुक्कसराया वा णो सम्यवृत्तिभोमिध्यादृष्टिम भोसमम्यसिध्यावृष्टिमः, भावा
 निमीऽपानि एवं यथा रूपसश्याइते मयरं भोविरता चविरता भोविरताविरता स्थितिय ययीपिकोदेइक समुहाता वा
 रिमाः पच्च उद्वत्तना तयेवानुत्तरविमानवक्ख सर्वे प्राजा नापसयः समर्थः, ओप यथा रूपालेइयाइते यावत्तल्लत्त, एवं योक्कअस्सपि क्त
 पुग्गपु, तद्वत् प्रदत्त । इति ॥ १ ॥ प्रथमसमया ऽतवसिद्धिक्कहतपुग्गहत्तपुग्गसञ्चिपञ्चेत्थिया प्रदत्त । कुत्त उत्पद्यत्ते
 यथा सन्निभानं प्रथमयोदेइक तयेव मयरं सम्यक्क सम्यसिध्यात्त प्रापच्च सवच्च नासि छेप तयेव तदेव प्रदत्त । इति ॥ एवमत्रा

तद्वत् । भावाचो पचाचो एव जहा कचइल्लेअसए । महीपानो पत्रानोइवे इम ज्जिम क्खुत्थेयोयतत्तने विपे कच्चो तिम कइवो । चर बोविरवा च
 विरया बोविरया २ सचिठवा । एतत्तविमय मही विरतो चविरतो इवे मही विरताविरतो एइवा तया । ठिईय जहा पाठिवउईसए । स्थिति ज्जिम
 पोयिउउदेगानेविपे कच्चा तिम कइवो । समग्घाया पादिस्रगा पच उव्वहवा तइव । समहात पदिसा पच कइवा उद्वत्तना तिमइोक्क । चत्तवि
 मावच्च उव्वपावा । पपुत्तरविमान वरुत्तिम सवमाचो अणना इतिमत्त उत्तर । वाइउउमठे सेस जहा कचइल्लेअसए जाव पवंतत्तुतो । एवच समस
 मही मेप ज्जिम कचअनेगोयतत्तने विपे कच्चा तिम कइवो यावत् पचत्तोवार अणना । एवं सावससुवि कइत्तुत्थे । इम सावेइ कूपपि वसुग्गनेविपे कइवा ।

जुम्भ २ सखिपचिदियाण जते ! कउ उवयज्जति जहा सणीण पठमसमयउद्वेसए तहेव णवर सम्मसु सम्मा
 मिच्छस णाण च सवृत्य णलिय सेस तहेय सेय जते ! जते ! सि ॥ २ ॥ एव एत्यधि एक्कारस
 उद्वेसगा कायघा, पठमतहयपचमा एक्कारमा सेसा थ्थयि एक्कारमा । पठम थ्थनवसिद्धिय महाजुम्भसय
 सम्मस ॥ पणरसम सय सम्मस ॥ १५ ॥ करहलेस्सथ्थनवसिद्धियकऊजुम्भ २ सखिपचिदियाण
 जते ! कउ उवयज्जति जहा एणसि चैव उहियसए तहा करहलेस्ससयपि । णवर तेण जते ! जीवा करह

पि एकादगोदुग्गाः कतप्याः प्रथम तृतीय पञ्चम षोडशमाः स्या आष्टावक्रगमाः ० प्रथमनवसिद्धिककृतपुमस्यतं समासम् ०
 पचण्णम शत समासम् ० ११ ॥ रुज्जलेरयाजवसिद्धिककृतपुमकतयुमस्यजिपपञ्चान्त्रिया नदत्त । कुल उत्पद्यते यद्येतपासेवी

येभते २ ति । तद्वति वभगवन् इत्यादि पूर्ववत् । १ ॥ पठमसमस पभवसिद्धि ककृतुमा २ । प्रथमसमस पभवसिद्धि ककृतुमा २ ।
 ननिर्पचिद्विवाभ भतकया उद्वेसजति । सप्रोपेद्विप केमगवन् विद्विधी उपपत्ते । कथा सखी पठमसमसककृतुस ० तद्वेव । किम सप्रो प्रथमसमस ककृदे
 गावसि कथा तिमशो ज निविशेवपके ककथा । णवर सभत सप्यामिस्थत कावप । सख्यतपत्ति सेसतयेव । एतत्ताविशिय सम्मज मिश्रान ए सवव
 नशो मय तिमशो ककथा । मभते २ ति । तद्वति वेभयवन् इत्यादि ॥ २ ॥ एवं एतानि एक्कारस ककृतुसगा कायज्या । इम इर्हा प
 वि इत्यारे ककृतुगा ककथा । पठम तदयपचमा एक्कारमा ससा पङ्क्तिएक्कारमा । पङ्क्ति बोधा पचमा ० एक्कारसोखागमा शेषाठेइ यवि एक्कारसोखा ग
 मा त्रिधा । पठम पभवसिद्धि । ए पङ्क्ति पभवसिद्धि ॥ महाजुम्भसय सख्यत ॥ पणरसमसय सख्यत ॥ पणरसागतक
 प्रायया ॥ १५ ॥ ककृतुस पभवसिद्धि ककृतुमा २ सखिपचिदियाभते कथा ककृतुसति । कथ्यतयो पभवसिद्धि ककृतुस २ केमग
 वन् सप्रोपेद्विप विद्विधी उपपत्ते । कथा एवसिद्धि पचिद्विवाभ भतकया ककृतुसगा बोधिवचयतककथये कथा तिम कथ्यकेगो ग

लेस्सा ? हता करहलेस्सा, ठिई सचिठणा य जहा करहलेस्ससए, सेस तचेव सेवं जते ! २ छि ॥ यिति
यं स्थनधसिद्धियमहाजुम्भसय ॥ ६० ॥ सीलससम सयं सम्मत्त ॥ १६

उ सया कायसा जहा करहलेस्ससय णवर सचिठणा ठिती य जहेव ठेहियसए तहेव जाणियसा णवर
सुक्कलेस्साए उक्कीसेण एक्कासीस सागरोबमाइ स्थतोमुज्जसमझहिहाइ, ठिती एव चेष णवर स्थतोमुज्जतो
णत्थि जहयाग तहेव सव्वत्य सम्मत्त पाणाणि णत्थि, विरयी विरयात्रियी स्थुत्तरविमाणोववत्ति एया

पिके छते तथा बृज्जसेइपासुत्तमपि नवर ते जवत्त । जीवाः बृज्जलक्षया स्थितिः सुन्निष्ठना च यथा कज्जलेइयासते
क्षयं तथैव तथैव नदत्त । नदत्त । इति ॥ वित्तीयमन्नवसिद्धिकमहायुग्ममहात्त समाप्तम् ॥ योऽथमं छतं समाप्तम् ॥ ४० ॥ १६

एव परतत्तएणात्तिः पट् धुत्तानि कत्तव्यानि यथा कज्जलेइपासुत्तम् नवर सुन्निष्ठना स्थितिय यथेवीचिच्छुत्त तथैव ज्जित्तव्या नवर सुत्तले

तकन्नविपे पचि कज्जगा । यवर तेवभते जीवा कज्जससा इता कज्जसरसा । एतथाविशय तेइ हेमगवन् कोव सु कृत्तुत्तयो १ म उत्तर इगौतम क
१३४गो । ठिइ सचिठियाव जहा कज्जसेरससए सेसतव । स्थिति सचिठिया विम कज्जसेयोगतकने विपे कज्जा तिम कज्जवा ग्रंय तिमसोव । सेभरते २
ति । तज्जति सेभयवन् इत्थादि ३ वित्तियं पमवसिद्धियमहाज्जससय । बीको पमव्यसिद्धिब महाहुमगतक ज्जो तिम कज्जवा ३ सोससमसय सस्यत्त ३
सावमागतक पूराधया ४ १६ ॥ एव ज्जि सरसादि लमवा कायन्वा जहा कज्जसेरससय । इम ज्जसेसासवाते ज्जयतक कज्जवा विम क
१३४गोगतकने विपे कज्जा । यवरं सचिठिया ठिंय ज्जेष पाचिससए तहेव माचियन्वा यवर मुक्कसेरसाप । एतत्ताविशेय सचिठिया स्थिति विम पौवि
कयतकने विपे तिमसोव कज्जवा एतथाविशेय गुज्जसेसातेविपे । उक्कासेच एक्कतोस सागरोबमाइ यतोमुत्त मझहिहाइ ठिइ एवसेव । उत्तकृत्तयको इव
बीस सागरोपम पत्तमुत्त पचिक ते नवसे गेवयक पात्रयने कज्जा विवा देवना एतसाव पात्रसा घने गुत्तसेसा पचिठुवे पमव्य उत्तकृत्तवको तिज्जा

णि गत्व मनुष्याणा णो इण्ठे समठे, सेव जते ! २ ति । एवं एयाणि सप्त ध्वनवसिद्धियसयाणि महा
 जुम्भमयाणि जयति २, एव एयाणि एकवीस सयिमहाजुम्भसयाणि सव्याणि एकवीसोत्तिमहाजुम्भसया स
 म्भसा ॥ चत्ताडीसइम सय सम्भस ॥ ४० ॥ ॥

इयायायाकयंत पञ्चविंशतशरीरपमस्यत्नयुद्धतीपिक्कानि स्थिति रय केव लवरपत्तमुद्धते नासि अयमाव तपेव सयत्र सम्पदां खानानि मा
 णिा विरली विरताविरली अनुवरविमानीपपति रत नाति । सर्वे प्राणा नापमसं; समर्थस्वदव अयत्न । इति । एताति सप्तप्रव
 निरुिकयतामि महायुगपतामि प्रवति २ प्रथमतान्येवविस्वति महायुगपतामि एकात्रीति महायुगपतामि समासामि ० बस्वारिद्य
 ज्ञातं समासम् ॥ ४० ॥ ॥

श्रीपुन्याचार्यलोकान्गकदयतकम्प्रादिसिस्मृरिचम्मे ररदिटोरपवाहादुरधतपतिचिष्टस्यसम्प्रायेनेन ।
 सत्रीतः पञ्चमाङ्गमयितपुनतदयनायातुवाद्: सीपोऽप्यक्षिस्वियेवमवचनगुठकारामकट्टेकसिद्धिम् ॥ १ ॥

अ छपने इवपने पत्तमुद्धते ० प्रभर पत्तय कोचको स्थिति इसकोक । अवर चंतामुद्धता चति । एतकाविग्रय पत्तमुद्धतं नकडको । अकपगतइव ।
 अयग्रहको तिमकोक कडवा । सकय सभ्यत वाबावि चति । सगनेई सम्पदा मवा ज्ञान नको पमपयवाचको । विरयो विरवा; विरयो अकुतरविमा
 वावति एयावि चति सम्पयावा । विरतो विरतरविरतो अनुतरविमाने छपवको एतायावक नकडवा सुवमाचो छपया । जोऽकडिभेइ । एचये समने
 रते । सर्वभने र ति । तइति केअववन् इत्यादि । एव एयावि एत पमवसिद्धिसयापि महा; कुषमवावि सर्वति २ । इम एव सात अमवसिद्धिक्क मत
 । अहादुपमगतक पूरे । एवं एयावि एवकोच सजिनहातुपययावि । इम एव इककोच सवो मकायुग्मगतक कवा । सक्वावि एकासीति महाकुपय
 । अकया ॥ अगयाद इत्यासी महायुगपतक सपुनकया ॥ असाकोसइससय एकस । वासीधमाप्रवच पूरोकया ॥ ४ ॥

कति
प्यते
षयो

एषमु
रय या
दत्ता ।

वदन्त रासाञ्ज्वा प । अतथा अभगवन् रागिसुम्न प्रकृष्या गुम्नयव्य युगलवाचक पदिच्छ गिवारे षड् इहा रानियन्दिबरो विगेविये तिबार रागि
रुप गुम्न पविनही दितीय कपरायि युग्म इ म उत्तर । गायना वतारारासी जन्मा प त । हे तैतम वारिरागि युग्म कथा त कश्चै—कञ्जुके
त्राय कलिपामे । अतयम यावत् कल्या । सकेकृष मते एववुषा वतारिरासी कथा प त वाव कलिपामे । ते एपये हेभगवन् इम कथा वार
रागिगम प्रकृष्या तेकश्चै—इत्यादि यावत् कल्या । गायना कपरारासी वरुषएष पवहारप पवहीरमाये अरुपल्लवसि । हे तैतम जेह रागि चतु
अपपहरेबरो अपहरतावकां चार पयवसित हुने । सेत रासीकुष्य कञ्जुके । तेह रागियगम अतयुग्म कश्चिये । एव काव जष रासीवरुषएष प
इरिप पवहीरमाये एमपल्लवसिण । इम वायत् जह रागि चतुके अपहरेबरो अपहरतावकां एकपयवसित हुने । सेतरासीकथ्य कलिपामे । तेह
रागिसुग्म कल्या कश्चिये । सेतेकृष जाव कलिपामे । ते तेकेपये यावत् कल्या कश्चिये । रासीकुष्य कञ्जुके अपहरतावकां एववुषा चार
म अतयुग्म नारको हेमगवन् विहायको उपजे । उववाया कथावकतोए । उपपात विम पञ्चवचाना कृतकान्तिपदे कथा तिम कश्चवा । तेचमने जो

मन्त्रस्य तत्र हि देवानां मतावधवायुः शुक्लसेइया च प्रवत्यप्रव्याद्योरुत्कपत सन्निव दवतयो त्यद्यस्ते, न तु परठोप्यन्तमुद्गते च पूवजवाधवायुस्य
 म्बन्धीति च एकत्वारिभे इते-रासीनुत्सति च युग्मस्यद्वौ युगसवाचको प्यसि अतो सावित्र राशिशाब्दन विशिष्यते ततो राशिद्वयादि युग्मा
 नि मसु द्वितयक्यासीति राशिपुष्पाणि राशिनुत्सकसुत्सवरइयति च राशिपुष्पाणां नदभूतेन कृतपुष्पत य प्रमिता स राशिपुष्पकृतपुष्पा स

णेरद्वयाण जते । कनु उवयज्जाति उववाच जहा यक्तीए, तेण जते । जीवा एगसमद्वएण केयद्वया उवव
 ज्जाति ? गीयमा ! चत्तारि या अथवा वारस वा सोलस वा सखेज्जा वा अयज्जाति, तेण
 जते । जीवा कि सतर उवयज्जाति गिरतर उवयज्जाति ? गीयमा ! सतरपि उवयज्जाति गिरतरपि उवव

कृत उत्पद्यन्त इत्यादौ यथा व्युत्क्रान्तिर्बे ते नदत्त । जीवा एकसमयस क्षिपन्त उत्पद्यते ? गीतम । चत्तारो वाऽष्टौवा हादस्रवा योऽथ
 वा सङ्घा वाऽऽसङ्घेया बीत्पद्यते ते नदत्त । जीवाः सान्तरमुत्पद्यन्ते निरन्तरमुत्पद्यन्ते ? गीतम । साक्षरमप्युत्पद्यन्त निरन्तरमप्युत्पद्यन्ते
 सान्तरमुत्पद्यमाना अप्यनैकं समयमुत्कर्मतोऽसख्येयास्रमयान्तर कृत्वोत्पद्यन्ते निरन्तरमुत्पद्यमाना अप्यन्य द्वे समय उत्कर्मतोऽसख्येयाः

वा एवसमाश्रयं कथयति । तेन हेमकन्तु जीव एकसमये केतवा अप्येव च उत्तर । भायमा चत्तारिवा चद्वया भारतवा सामसवा स
 खेज्जाया असखेज्जाया अववज्जाति । हेगीतम चार अथवा चाठ अथवा साक्षे अथवा सख्याता अथवा असख्याता अप्येव । तेभभते जीवा कि
 सतर अववज्जाति चिरतर अववज्जाति । तेन हेमकन्तु जीव स्रं सान्तर अप्येव निरन्तर अप्येव च उत्तर । गीयमा सतरपि अववज्जाति चिरतरपि च
 ववज्जाति सतर अववज्जातमाथा । हेगीतम चत्तारसहित पथि अप्येव निरतर पथि अप्येव सान्तर अप्येव चत्तार । अद्वैतच उत्कर्मत अक्षेज्जासम
 वा पतर अथ अववज्जाति चिरतरं अथवज्जातमाथा । अववज्जाती एवसमव उत्कर्मत अक्षेज्जासमव अक्षेज्जासम
 येव दासमवा अक्षेज्जा असवा असखेज्जा सतवा असखेज्जा येवसमये चिरद्वियं चिरतर अववज्जाति । अववज्जाती दोयसमय उत्कर्मतजी असख्यातासमय असखेज्जासम

च त मेरयिका प्रतिधमासी ७८ की ॥ बहुसमयमित्यादि ॥ परत्रय मेक्षाये ॥ आत्मन सम्बन्धि यक्षी यक्षीहेतुत्वा द्वाभः समयस
 आत्मयथा स्तेन ॥ चापञ्चसठवर्तीवितितित ॥ आत्मयथा आत्मयुपम सुपनीकस्याभयानि विवचनीत्यथः ॥ इह च त्रर्वेया मेवा स्थाय्यवैवोत्पत्ति इत्य
 ती सर्वेया मप्यविरतत्वाविति, इह च श्रवपरिमाह मित भाष्यानि द्वात्रिंशच्छ्रुता न्यविद्यमानावात्तरुतानि, त्रयंश्रुत्यादियुतु सप्तसु प्रत्येक

ज्ञाति सतर उद्यवज्जमाणा जहृष्येण एकसमय उक्कोसेण अस्खेजासमया अंतर कठ उद्यवज्जाति, गिरतर
 उद्यवज्जमाणा जहृष्येण दो समया उक्कोसेण अस्खेजा समया अणुसमय अश्विरिहिय गिरतर उद्यवज्जाति,
 तेण त्रते । जीवा ज समय करुजुम्मा त समय तेरंगा त समय करुजुम्मा ? णो इणठे

समया अनुसमयमविरहित गिरतरमुत्पद्यते । ते वदन्त । जीवा यस्मिन्समये कृतयुग्मा क्स्मिन्समये श्लोकाः यस्मिन्समये श्लोका स्तस्मि
 श्वसने कृतयुग्माः ? नायमर्थे समयः । यस्मिन्समये कृतयुग्मा क्स्मिन्समये द्वापरयुग्मा यस्मिन्समये द्वापरयुग्मा क्स्मिन्समये कृतयुग्माः ?
 नायमर्थः समयः । यस्मिन्समये कृतयुग्माक्स्मिन्समये क्स्वोकाः यस्मिन्समये कृतयुग्माः ? नायमर्थः समयः । ते

पविरहित गिरतर अपजे । तत्रभत जीवा ज समय क्स्वोका त समस क्स्वोका त समस कृतयुग्म ते समस क्स्वोका इवे । असमस ते
 पाया तसमस क्स्वोका । असमसे श्लोक तसमसे कृतयुग्म इवे । आश्चर्यसमसे । ए पर्ये समस मही । असमसे क्स्वोका तसमये द्वापरयुग्मा । जे समसे
 कृतयुग्म तसमये द्वापरयुग्मा तसमसे क्स्वोका । असमये द्वापरयुग्म तसमसे कृतयुग्म इवे । आश्चर्यसमसे । ए पर्ये समस
 मही असमसे क्स्वोका तसमये क्स्वोका । असमये कृतयुग्म तसमसे क्स्वोका इवे । असमये क्स्वोका तसमसे क्स्वोका । असमये क्स्वोका
 कृतयुग्म इवे । आश्चर्यसमसे । ए पर्ये समस मही । तेचभते जीवा क्स्वोका उद्यवज्जाति । तेच इमगबन् जीव क्स्मिन् अपजे इ प्र उत्तर । यावमा सेकडा
 चामर पत्रए पत्रमासे एव जहा उद्यवज्जाति ज्ञात चापरत्यभानेच उद्यवज्जाति । तेभोतस तेयवानामे प्रवच प्रवमान इत्यादि इम जिन उपपातयतक

समठे । ज समय करुजुम्मा त समय टाथरजुम्मा , ज समय दात्ररजुम्मा त समय करुजुम्मा ? णो इणठे
 समठे । ज समय करुजुम्मा त समय कलिउंगा , ज समय कलिउंगा त समय करुजुम्मा ? णो इणठे समठे ,
 तेण नने । जीया कह उययज्जति ? गोयमा ! ते जहागामए पवए पयमाणे एव जहा उवथायसए जाव
 णो परप्पत्तंगेण उययज्जति । तण जते । जीया कि थ्यायजंसण उवयज्जति थ्यायजंसण उवयज्जति ? गो० ।

तरुण नाथा कपुत्तुत्तुग्गे ? गीतम । अय यथा माम प्रवक्तुः प्रथमानं यय यथीपपातगत यावन्नैव परप्रयोगशोत्सुगत । ते नदन्त । कीवा ।
 विद्यात्मवर्णात्सुगत आत्मापदासात्सुगत ? गीतम । नो आत्मपदसात्सुगत आत्मनाऽयदाशोत्सुगत यद्यात्मनोऽयदाशोत्सुगते किमा
 त्पदाशोपनायमि आत्मनोऽपत्तुशोपनीयमि ? गीतम । नो आत्मपदाशोपनीयमि आत्मापदाशोपनीयमि , यद्यात्मापदाशोपनीयमि किं ए
 न्निवे श्या । मि अत्रया यावत् नशो पदाशोशरो जपजे । तेनभते कोवा कि पायत्रमेव उवयज्जति पायत्रमेव उवयज्जति । तेन उवयज्जत्तु नोत्र स्तू
 नामत्र मयम तिवेकरो उपजे पयथा पमयमेकरो उपज इ म उतर । मायमा वा पायत्रमेव उवयज्जति । इगीतम उयमेकरो नजपजे एतावता ।
 दाः उवयज्जति । पमयमेकरो जपजे । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । आ पमयमेकरो जपजे । कि पायत्रमेव उवयज्जति । स्तू पापये जसेव
 ए उवयज्जति । पायत्रमेव उवयज्जति । पयथा पापये पमयमेकरो उपजोवे इ म उतर । मायमा वा पायत्रमेव उवयज्जति पायत्रमेव उवयज्जति ।
 इगीतम पापत्रमेकरो उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति ।
 अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति ।
 अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति ।
 अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति । अ इ पायत्रमेव उवयज्जति ।

मवात्तरगतानि द्वादश चत्वारिंशत् स्वेकविंशति रेकचत्वारिंशो तु नास्त्यवात्तरशात् भेदेया च सर्वेया भीक्षने ऽसृष्टिशादचिक्र शातानां शात शव

णो श्यायजनेण उधवज्जाति श्यायश्चजसेण उधवज्जाति कि श्यायजस उध
जीवति श्यायश्चजस उधजीवति ? गीयमा ! णो श्यायजस उधजीवति श्यायश्चजस उधजीवति, जदि श्या
यश्चजस उधजीवति कि सलेस्सा श्लेस्सा ? गीयमा ! सलेस्सा णो श्लेस्सा । जदि सलेस्सा कि सकि
रिया श्लिकिरिया ? गीयमा ! सकिरिया णो श्लिकिरिया, जदि सकिरिया तेणय न्नयग्गहणेण चिज्जति

सवया सलवया ? गौतम ! सलवया णो प्रसेवयाः वि सकिया यकिया ? गौतम ! सकिया णो सकिया यदि सकिया
सोनेय सवग्रहयन धरस्यन्ति यावदन्त कुवन्ति ? नायमप समयः । रात्रिभूतयुष्मासुरकुमारो प्रदत्त । कुत उत्पद्यन्त यथैव नैरयिका सलवेव
निरवन्नप एव यावत्पच्यन्तिप्रयतिपयोनिक्का सवर वमस्पतिष्वायिका यावदसङ्केया याऽमस्ता वोत्पद्यन्ते श्रेय तथैव । मनुष्याप्येव यैव याव
द्यो आत्मपशसोत्पद्यन्त आत्मना ऽपशसोत्पद्यन्ते यदि आत्मन अपशसोत्पद्यन्ते किमात्मपशसोपजीवन्ति आत्मनोऽपशसापजीयन्ति ? णो

सुरकुमाराप भते कथा उधवज्जाति । रात्रिभूतस उधदुस्स पसुरकुमारो भेभवसम् किश्रायको सपण्णे । जशेव वेरइया तथेव विरयसेस । जिमहोउ नार
को कथा तिमहोउ भिविगेयपचे कइया । एव जाव पचिदिय तिरिस्सकाविद्या सवर वपच्छइकाइया जाव पसच्छइकाइया पचतावा उधवज्जाति सेसत
पथ । इम यावत् पचे देव तियइकानिक्कन्ते कइया पतकाविसेय वनस्यतोकायिक यावत् सज्जाता पसज्जाता भनन्ता सपण्णे यिप तिमहोउ कइया ।
मपय्यात्रि पचवेर जाव वा भावजसेव उधवज्जाति पायपजसव उधवज्जाति । मनुष्य पचि इमहोउ कइया यावत् नहो चाम्मकसेकरो सपण्णे पाजप
पसेकरो सपण्णे । अर पायपजसवे उधवज्जाति । जा चाम्मपचयेकरो सपण्णे ता । किं पायजस उधवज्जाति पायपजस उधवज्जाति । ता स्यु पाजव
गेकरो सोवे पाजपचयेकरो सपण्णे देर प्र उतर । गायमा भावजसपि उधवज्जाति पायपजसपि उधवज्जाति । ते णोतम चाम्मपचयेकरो यचि सपजो

त्येन मुद्राङ्गपरिमाणमपि मर्धे आगमबसोऽस्यावसेय, तपोकोनविद्यतिः शतानि पञ्चविंशत्यधिकानितीति । इह शरीरेषु क्लिपरस्त्रपियुक्तिकां विहितस्य

जाय शून्यकरेति ? णो इण्ठे समठे । रासीकऊजुमश्रुसुरकुमाराण नते ! कठे उत्रवज्जाति जहेय णेरइया
तहेय णिरयमेस एय जाय पचिदियतिरिस्कजोणिया णवर वणस्सहकाइया जाय श्रुसखेज्जा या श्रुणता
या उत्रवज्जाति, सेस तचेय मणुस्सायि एय खेव जाव णो श्रायजसेण उत्रवज्जाति श्रायश्रुजसेण उत्रवज्जाति,
जइ श्रायश्रुजसेण उत्रवज्जाति कि श्रायजस उत्रजीवति श्रायश्रुजस उत्रजीवति ? गीयमा ! श्रायजसपि
उत्रजीयंति, श्राय श्रुजसपि उत्रजजीवति जइ श्रायजस उत्रजीवति कि सलेस्सा श्रुलेस्सा ? गीयमा ।

तम । यामपयथाप्युपजीयन्ति आत्मनो ऽप्यसुखाप्युपजीवन्ति यद्यात्मनोऽप्यसुखोपजीवन्ति किं सलक्षणा अलक्षणाः ? गीतम । सलक्षणा अपि
अलक्षणा अपि । यद्यनक्षणाः किं सक्रिया सक्रियाः ? गीतम । नोसक्रिया सक्रियाः । यदि अक्रियास्तनैव प्रत्यक्षण सत्स्यन्ति यावदन्त
कुर्वन्ति ? इत्त यावदन्त कुर्वन्ति । यदि सलक्षणाः किं सक्रिया सक्रियाः ? गीतम । सक्रिया नोऽक्रियाः यदि सक्रिया स्तनैव प्रत्यक्षण

ये पापपपयेवरो पचि इपजीवे । अह पायजस उत्रजीवति किं सलेष्सा पलेष्सा । ओ आत्मययेवरो उत्रजीवे एं सलेयो इवे पयवा पलेयो इवे इ प्र
उत्तर । यायमा सलेष्सादि पमेष्सादि । हेभोतम सलेयो पचि इवे पलेयो पचि इवे । अदि पलेष्सा किं सक्रिया पचिरिया । ओ पलेयोइवे एं स
क्रिये पचिइवे इ प्र उत्तर । यायमा ओसक्रिरिया पचिरिया । हेभोतम नहो सक्रिय सक्रियहे । अदि पचिरिया तेवेव भवन्त्येव सिक्रिति जा
प्रपतकरेति । जा पचिरियेता तिचिइज मवन्त्येवरो सोभे यावत् प्रपतकरे इ प्र उत्तर । इता सिक्रिय जाव प्रपतकरे इ प्र उत्तर । मोक्षमा सक्रिरिया ओपचि
पगत करे । अदि मसेष्सा किं सक्रिरिया पचिरिया । ओ सलेयोइवे तो एं सक्रियहे पयवा पचिइवे इ प्र उत्तर । मोक्षमा सक्रिरिया ओपचि
रिया । हेभोतम सक्रियहे पचि पचिइव नहो । अदि सक्रिरिया तेवेव भवन्त्येव सिक्रिय जाव प्रपतकरे इ प्र उत्तर । ओ सक्रियहे ता तिचिइज मवन्त्येवरो

सलेस्सायि श्येलेस्सा कि सकिरिया श्यकिरिया ? गीयमा ! णो सकिरिया श्यकिरिया ।
 जादि श्यकिरिया तणेव नयगगहणेण सिज्जति जाय श्यत करेति ? हुता सिज्जति जाय श्यत करेति, जादि
 मलेस्सा कि सकिरिया श्यकिरिया ? गीयमा ! सकिरिया णो श्यकिरिया, जादि सकिरिया तणेव नयगग
 हणेण सिज्जति जाय श्यत करेति ? गीयमा ! श्येगइया तणेय नयगगहणेण सिज्जति जाय श्यत करेति,
 श्येगइया णो तणेय नयगगहणेण सिज्जति जाय श्यत करेति, जादि श्यायश्यजस उवजीयति कि सलेस्सा
 श्येस्सा ? गीयमा ! सलेस्सा णो श्येस्सा, जइ सलेस्सा कि सकिरिया श्यकिरिया ? गीयमा ! सकि
 रिया णो श्यकिरिया, जइ सकिरिया तणेय नयगगहणेण सिज्जति जाय श्यत करेति ? णो इणठे समठे वा

भरयन्ति यावदगत कुयन्ति ? गीतम । सम्येक कवन तनेव नवप्रइवन सरस्यन्ति यावदगत कुयन्ति, केवन नो तेनेव नवप्रइवेन सरस्यन्ति
 यावदगत कुयन्ति । यथात्मयशोपजीयन्ति कि सतरया अतयया ? गीतम । सतयया नो अतयया ! यदि सतयया किं सक्किया अक्किया ?
 गीतम । सक्किया नो अक्किया ! यदि सक्कियासमेव नवप्रइवन सरस्यन्ति यावदन्तं कुयन्ति ? भायमय्ये ! समय्ये ! वामव्यत्तरन्योति फवेमानिका

सोभे यावत् पग्गंकरे । मायमा अत्तेगया तेचेव मवकइचेव सिग्गइ आव पग्गंकरे । इभोतम केतसाएव तिचिइओ भवगुइचेवरो सोभे यावत् प
 ३५८ । परवेमावा चातवेव मवमइवन सिग्गइ आव पग्गंकरे । केतसाएव नइओ तिचिइओ भवगुइचेवरो सोभे यावत् पग्गंकरे । अत्ति पायपजसं
 नवओवति विंभयेया पसळा । आ पापचे पसयमे उपकोवे ताएू सवेयो पववा पवेयोइवे ४ प उत्तर । गायमा सखळा बोपसळा । वेगीतम
 यमयो इवे पवेयो नइओ । अइ ससया कि सकिरिया पकिरिया । आ ससयोइवे ताएू सक्कियइवे पववा अक्कियइवे । ४ प्र० उत्तर । गावमा सकि
 या चापकिरिया । वेभोतम पकिरइवे नइओ अक्किय । अइ सकिरिया तेचेव मवमइचेव सिज्जति आव पग्गंकरेति । आ सक्कियइवे ता तिचिइओ भव

णमतरजोडिसियेमाणिया जहा णेरड्या सेव जते । जते । त्ति ॥ इगुडीसइमसयस्स पठमी उद्वेसो सम्मत्तो
 ६१ ॥ १ ॥ रासीजुम्भतेउंगणेरड्याण जते ! कछे उवज्जाति एवचेय उद्वेसउे चाणियव्वी णवर
 परिमाण त्तिणि या सत्त या एक्कारस या पखरस या सखेज्जा या थ्सखेज्जा वा उववज्जाति, सतर तहेय ।
 तण जत । जीया ज समय तनुया त समय ककजुम्मा, ज समय ककजुम्मा त समय तेउंगा ? णी इणठे
 समठे । ज समय तेउंगा त समय दाउरजुम्मा, ज समय दाउरजुम्मा त समय तेउया ? णी इणठे समठे ।

पया भेरयिका जदय जदल । इति ॥ एकवत्थारिसे जते मथमोद्वेकः ॥ ४१ ॥ १ ॥ रासियुग्मस्योअभेरयिका जदल । कुल
 उत्पद्यन्ते यत्र पैवोद्वेकाको अखितथ्यो भवरं परिभाष ज्यो वा सप्तवा एकादश वा पञ्चदश वा संदीया वाऽसंख्यपावोत्पद्यन्ते सात्तर तथैव ।
 त नान्त । जीवा यन्मिगुमपय त्र्योज्ञा सास्मिगुमपय इतयुग्माः यस्मिगुमपय इतयुग्मास्तस्मिगुमपये स्त्र्योज्ञाः ? भायमपः सुमपः । यस्मिगुमपये
 त्र्याज्ञासास्मिगुमपय द्वापरयुग्मास्तस्मिगुमपये स्त्र्योज्ञा ? भायमपः सुमपः । एव सास्त्र्योज्ञेनापि सुस श्लेष तथैव याव
 गुद्वेवरा मोभे यावत् पगतवरे । वाशब्दसुमपे । एवव सुमप नहो । वावर्भतरत्रारसिय वेमाभिया अज्ञा वेरइया । वागस्यत्तर ल्यातिपी वेमानिक
 क्रिम भारकोबद्या तिम कइया । येवमत र ति । तइति वेभनवन् इत्यादि ॥ इयुखोमइमसवन् पठना उद्वेसो सत्ता ॥ एकतासोसमा यतञ्जना प
 पडियाउद्वेया पूराअया ॥ १ ॥ रामोअत्तेपोय । रात्रियुग्म इवाइ । वेरइयाव भंते अया उववज्जाति एवंवेव उद्वेसुपो माभियत्वा ।
 भारको वेभनवन् बिज्जावकी अण्णे इमोअ उद्वेगो कइया । अवरं परिनाअ तिज्जिवा सतया एकारसया पखरसया उखत्तावा पसखेज्जावा उवव
 ज्जाति मतर तहेय । पतन्नाभियेप परिमांअ तोअ पत्तया सात पत्तया इय्यारे पत्तया पत्तया एकारसया पखरसया उखत्तावा पसखेज्जावा उवव
 तअभंते जीया अमयं तेपाया तं अमयं कइजुम्मा, अमय अउजुम्मा तसमय तेपोया । तेइ वेमनवन् जीव अंसमवे इवोअ तेसमये अतनुम्स पुवे जेस

एव कलिष्ठेणै णाथि सम सेसं तचेत्र जाव वेमाणिया णवर उववाठं सखेसिं जहा वक्कतीए । सेव न्ते !
 न्ते ! ति ॥ ४१ ॥ २ ॥ राचीजुम्मदावरजुम्मणेरद्वयाण न्ते कठ उववजाति एवचेव उद्वेसठं णवर
 परिमाण वीया वना दसवा सखेजा वा स्यसखेजा वा उववजाति, सवेही, तेण न्ते ! जीवा ज समय
 दायरजुम्मा त समय कळजुम्मा, ज समय कळजुम्मा त समय दायरजुम्मा ? णो इणठे समठे । एव तेथ्यो

द्विमानिका नवरमुपपात- सर्वेषां यथा स्युत्क्रान्तिक तदेव न्वन्त । इति ॥ ४१ ॥ २ ॥ राक्षियुग्मदापरयुग्मनैरयिका न्व
 त् । इत उत्पद्यन्त एव वैवोद्वृत्तको नवर परिमाण द्वीवा पद्वा दयवा सस्येया वाऽऽस्येयावोत्पद्यन्ते सम्बेपस्तस्येव ते न्वन्त । जीवा
 पस्मिन्समय दापरयुग्मा क्तस्मिन्समय इत्तयुग्माः पस्मिन्समये क्तयुग्मास्तस्मिन्समय दापरयुग्माः ? नायमर्थः समर्थः । एव श्योबेनापि
 सम । एव क्तस्योबेनापि सम शोपं यथा प्रथमोद्वेद्यके यावद्विमानिका क्तदेवं न्वन्त । इति ॥ ४१ ॥ ३ ॥ राक्षियुग्म

मये क्तजुम्माइवे तेसमये श्वाकइवे । वाऽऽस्येयसमइ । ए थव समव न्हो । असमय तथावा तसमय दावरअथा । जे समये श्वाक तेसमये दापरयुग्मा ।
 असमय दावरअथा तसमय तथावा । जेसमये दापरयुग्म तेसमये श्वाक । वाऽऽस्येयसमइ । एथर्थ समर्थ न्हो । एवं क्तसिधाग वविसमं ससतवव काव
 वमाचियावं नवरं उववाथा सव्वसिं अहा न्हतोए । इम क्तोअसवाते पचि अहावा शोप तिमहोअ अहावो यावत् वैमानिकसमये अहावो एतकोविशिय
 कपपात सवनेविषे अहावा जिन स्यत्क्रान्तिकपदने विषे कथा तिम अहावो । सेवमते २ ति । तइति हेमगवत् इत्थादि ॥ ४१ ॥ २ ॥ रा
 शीअथ दावरअथ वेरथाव भंत अथो उववज्जति एवचेव उद्वेसठं । राक्षियुग्म दापरयुग्म नारको सेमगवन् विहावको अपजे इमहोअ उद्वेयो
 अहावा । नवर परिमाणं दाना अहा दसवा सखजावा पसखजावा उववज्जति सवेही । एतथाविशिय परिमाणं टीय पववा त थववा इय थववा स
 खजावा पववा पसख्याता अपजे सवेव पचि विचारी अहावा । तेवमते शीवा असमय दावरअथा तसमय अहावुथा तसमय दावर

एणयि सम । एवं कलिठगीणयि सम, सेस जहा पठमुद्देशए जाव वेमाणिया । सेव जते ! जते ! सि ॥
 १ ॥ ३ ॥ रासीजुम्मकलिठगीणेरइयाण जते ! कठ उववज्जति एववेव जतर परिमाण
 एक्की या पंच या णय वा तेरस वा सखेज्जा या अ्यसखेज्जा या उयवज्जति, संवेही, सेण जते ! जीया
 ज समय कलिठगा त समय करुजुम्मा ज समय करुजुम्मा त समय कलिठगा ? णो इणठे समठे । एवं

अस्योत्रमैरयिवा नदत्त । कुत इत्यद्यने एय वैव नवर परिमात्र एको वा पच वा नव वा त्रयोदश वा सस्मेया वाऽसस्मीयावोत्पद्यन्त सवे
 पो वाप्य ते नदत्त । जीवा यस्मिन्समये कस्योत्रा स्तस्मिन्समये कृतपुग्गाः, यस्मिन्समये कृतपुग्गाः, यस्मिन्समये कृतपुग्गाः ? नापमयेः
 नृया । तद इभगवन् जीव जे समयेवापरपुग्ग ते समये कृतयग्ग अ समये कृतयग्ग ते समये वापरपुग्ग नृवे । ओरवठे समठे । एवं समय नही । ए
 य तेयाए अत्रिमम एवं कनियाए अत्रिममे सेन कथा पठमुद्देशए जाव वेमात्रिया । इम जयाअसघाते पचि कइयो इम कज्जाअसघाते पचि कइवा जेप
 विम पडिजाअदृशेयानेविये कथा तिम कइवा यावत् वेमानिक इति । सर्वमते २ ति । तइति हेमभवन् इति ॥ ४१ ॥ ३ ॥ रासीजुम्य
 कनियाए अरइवाअभते कथा उववज्जति पवयेव । रायियुग्ग कथ्याअ नारको हेमगवन् विडिअको अपजे इमहीअ । अवर परिमात्र एकावा पंचवा
 अरवा तेरसवा संखेज्जावा पसुअज्जावा उववज्जति पवयेव । एतकीवियेय परिमात्र एअ पववा पांच पववा नव पववा तेरे पववा सज्जाता पववा
 पमव्याता अपजे संवेवअइयो । तेअभते जीवा असमय कतिथीगा तंसमय कइअथा असमय कइजुथा तसमय कनियामा । तेइ हेमभवन् जीव जेसम
 ये कथ्याअ तेसमये कृतयग्ग जेसमये कृतयग्ग तेसमये कथ्याअ । ओरवठे समठे । इयव समय नही यअनरी । एवं तेयाएअत्रिममेदावरअक्याअत्रिया
 मं सेव कथा पठमदृशए एवं जाव वेमात्रिया । इम अवाअसघाते पचि कइयो । इम वापरपुग्गसघाते पचि कइवा जेप विम पडिजाअदृशेयाने वि
 ये कथा तिम कइवा इम यावत् वेमानिकसगे कइवा । एवंमते २ ति तइति हेमभवन् इत्यादि ॥ ४१ ॥ ४ ॥ अरवठेवाओजुम्य अउ

तेषु गेणवि सम, दाशरजुम्मानवि सम, सेस जहा पठमुद्देशे । एव जाव वेमाणिया । सेव जतेर ! सि ॥ ४१ ॥

४ ॥ कयहलेस्वरासीजुम्मककजुम्मणेरइयाण जते ! कठ उववज्जति उवथाउ जहा धूमप्यजाए सेस जहा पठमुद्देशे । असुरकुमाराण तहेव एव जाय वाणमतराण । मणुस्साणवि जहेव जेरइयाण । आयश्चजस उवजीवति, अलेस्सा अकारिया तेणेव जवगहणेण सिज्जति, एव ण ज्ञाणियव्व सेस जहा पठमुद्देशे सेव जतेर ! सि ॥ ४१ ॥ ५ ॥ कयहलेस्सतेयोएहिवि एवचेय उद्देशे सेव जतेर !

समयः । एवं प्रीजतापि सम । द्वापरयुगमनापि सम । येषं यथा प्रथमोद्देशे । एव यावद्देमानिका सादेव जवत्त । जवत्त ! इति ॥ ४१ ॥

४ ॥ कथमसमराशियुम्मकतयुगमनैरपिका जवत्त । कुत उत्पद्यन्ते उत्पादो यथा धूमज्जायां ज्ञेय यथा प्रथमोद्देशके । असुरकुमाराणां तर्षवैवं यावद्दामव्यन्तराणाम् । मनुज्याणामपि यथैव नैरपिकाणाम् । आत्मायस्वशोपशीवन्ति, यत्तेइया, यत्तियासेनेव जवपइजेम स्वेरस्सति एवं जज्जितव्वम् ज्ञेयं यथा प्रथमोद्देशके तथैवं जवत्त ! इति ॥ ४१ ॥ ५ ॥ कथमसमराशियुम्मकतयुगमनैरपिका जवत्त । इति ॥ ४१ ॥

युष्म चेरइवाकभते कथो कववत्तति । अन्वयेयो रामीमुस अतमुस मारको हेममवत् बिजावो जपन्ते । उववापा जहा धूमवभाए सेव जहा पठमुद्देशे । जपयात विम धूमममाने कथो विम कइवा येव विम पडिक्काकट्टेगानेविये कथो । असुरकुमाराणं तथेव एव जाव वाजमतारावे मवुष्ठाव वि कइव चेरइवाथ पावपलस उवकोवंति । पवरकुमारको अविजार कइवा तिम कइवा इम यावत् पागल्लत्तत्ते मरुत्तने पवि विमकीव मारकोने कइवा तिम कइवो पसइमेकरो उपकोने । पलेळा अकिरिवा तेजेव मयगइजेव सिस्संति एव च माविस्सं । पसेयो अक्खि तिविणीव ममइजेव रो सीमे इम न कइवो । जेउं जहा पठमुद्देशे । येव विम पडिक्का कट्टेयामविये कथो तिम कइवो । सेवभते २ ति । तइत्ति वेमयवन् इत्था दि ॥ ४१ ॥ ५ ॥ कयहलेस्स तेयाएहिवि इववप कट्टेइवयो । कुण्डसेयो इवाकसवाते पवि इमकीव कट्टेइयो कइवो । सेवभते २ ति ।

स्ति ॥ ११ ॥ ६ ॥ करहलेस्सदायरजुम्मेहिवि एवचेव उद्वेसत्तं सेवं जते २ । सि ॥ ४१ ॥ ७ ॥
 करहलेस्सकलिनुगेहियि एयचय उद्वेसत्तं परिमाण सवेही य जहा ठहिएसु उद्वेसएसु । सेव जते ! जते !
 सि ॥ ४१ ॥ ८ ॥ जहा करहलेस्सेहि एय णीललेस्सेहि चत्तारि उद्वेसगा जाणियहा णिरय
 सेसा णवर णेरइयाण उयवात्तं जहा वालुयप्पजाए । सेस जते २ ! सि ॥ ४१ ॥ १२ ॥

ज्ञादय जदत्त । इति ० ४१ ० ६ ० छापलेइयद्वापरयुग्मेरप्यव वेवोद्दिक्क सखेवं जदत्त । इति ० ४१ ० ७ ०
 काननइपत्त्वोत्रैरप्येव वेवोद्दिक्कः परिमाणं सम्येपद्य यणीयिकपूद्दुग्कपु तदेवं मदत्त । इति ० ४१ ० ८ ० यथा रूपजते
 एते सया मोत्तसयै रपि चत्तार उद्वेसगा निरवघोया मवरं नैरपिकावामुत्पादे यथा वालुकाप्रजायां शीयं सद्यैव सद्यव जदत्त ।
 तद्वति हेमगवन् ॥ ४१ ॥ ६ ॥ कबडसेख हावरजपोडिवि एवंचे उद्वेसया । कृष्णसेयो हापरयुग्मसवाते पवि इमहीज उद्वेयो कड
 वो । सेवमते २ ति । तद्वति हेमगवन् इत्यादि ॥ ४१ ॥ ७ ॥ कबडसेख कडिपागेडिवि एवंचे उद्वेसया । कृष्णसेयो कडयोक्कसवाते
 पवि इमहीज उद्वेया कडयो । परिमाणं सेवोय खडा पाडिडुमु उद्वेसयसु । परिमाणं सेव विम पोविक्कड्वेयाने बिये कड्यो तिम कडवा । से
 वमते २ ति । तद्वति हेमगवन् इत्यादि ॥ ४१ ॥ ८ ॥ कडा कबडसेख एवं बोसखेरसेखि चत्तारि उद्वेसगा भाणियहा । विमवु
 पवेयोपपाते इम मोत्तसयोसवाते पवि चारउद्वेया कडवा । चिरवसेसा चवर चारउद्वेया उववापो कडा चालुयप्यमाए सेसंतचेव । निर्वियेपपेए एत
 वाविसेव नारकोना उपपास विम वालुकाप्रमाणे कडवो येव विमहीज कडयो । सेवमते २ ति । तद्वति हेमगवन् ॥ ४१ ॥ ९ ॥ कडा
 उनेवोडवि एवंचे चत्तारिउद्वेसगा वायथा । चापातठोयोसवाते पवि इमहीज चारउद्वेया कडवा । चवर चेरउद्वेया कडवा रसवप्यमाए
 वमंतचेव । एतकापियेव नारको उपपात विम एतप्रभानेविये कड्या तिम कडवो येव विमहीज कडवो । सेवमते २ ति । तद्वति हेमगवन् इत्या

काउलेस्वेहियि एयचेय चत्तारि उद्देसगा कायद्या णयर णेरइयाण उयवाउं जहा रयणप्यन्नाए सेस तचेय
 सेयं नते २ । ति ॥ ४१ ॥ १६ ॥ तेउलेस्सरासीजुम्मकजुम्मअसुरकुमाराण नते ! कउ उयय
 जाति एयचेय णयर जेसु तेउलेस्सा अल्यि तेसु नाणियह एय एणयि कण्हलेस्ससरिसा चत्तारि उद्देसगा
 कायद्या सेय नते २ । ति ॥ ४१ ॥ २० ॥ एय पम्हलेस्साएयि चत्तारि उद्देसगा कायद्या ।
 पचिदियतिरिस्कजीणिया मणुस्सा वेमाणियाण एणसि पम्हलेस्सा सेसाण गाल्यि सेय नते ! नते ! ति ॥

१२ ॥ कापोतलमयेरप्यय चैय चत्तार उद्देसगाः कात्तव्याः नयर नैरपिकावा सुत्वावो यथा रत्नप्रमाया घोष
 तपेय तदय नदत्त । नदत्त । इति ॥ ४१ ॥ १६ ॥ तेओत्तयपरायियुगमरुतयुगमासुरकुमारा नदत्त । कुत सत्यद्यत्ते एय चैय नवर
 यय तज्जासय्यासि तपु नत्तितय्यमयमसपि रुणालयसवृयायत्तार उद्देसगाः कात्तव्याः सुवेय नदत्त । नदत्त । इति ॥ ४१ ॥ २० ॥
 एवं पट्टनवदपायामपि चत्तार उद्देसगाः कात्तव्याः । पञ्चन्द्रियतिर्येत्थोत्तिका मनुष्या वेमाणिका यत्तया पट्टलेदया शपाखा नास्ति तदव नव
 त्त । मत्ता । इति ॥ ४१ ॥ २४ ॥ यथा पट्टलेदयाया तथा शुक्रलवयाया चत्तार उद्देसगाः कात्तव्याः नयर मनुष्याया ममको यथो

दि ॥ ४१ ॥ १४ ॥ तेउलेस्सरासीजुम्म कजुम्म असुरकुमारा च काया उद्देसव्वति एवच । तेकासुगो राशियरम कुतयरम असुरकुमार उद्देसव्वन्
 विहायको त्रपत्रे इत्वादि इमहोज चयथा । चत्तार जेसु तेउलेस्सा पत्ति तेसु भाषितवथ । एतस्सावियय उद्देसव्विपे तेओलेस्साके तेउलेस्सिपे कजुम्बो । एव
 णदवि कण्हमत्तमरिमा चत्तारि उद्देसगा कायव्या । इम एव पवि कूयसयोसरोखा चारउद्देसगा चत्तार । सेवभते २ ति । तद्वति उद्देसव्वत्त ॥ २
 एव पञ्चनेराएवि चत्तारि उद्देसगा कायव्या । इम पञ्चनेरालेविपे पवि चार उद्देसगा चदवा । पचिदिउत्तिकाविया मरुत्ता वेनापियाण । व
 पेदो तिउवयानिक्क मनुष्य वेमाणिक । एणसि मत्तज्जा सेसा च पत्ति । एवामत्र विपे पत्तसत्ता इने मपत्तविपे मइो । सेवभते २ ति । तद्वति ए मग

॥ ४१ ॥ २८ ॥ जहा पम्हलेस्सा एय सुक्कलेस्साए चत्तारि उद्देसगा कायह्वा णवर मणुस्साण
 गमत्ते जहा उद्देसगासु सेस तथेय एए ठसु ऐस्सासु घउवीस उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा
 यीस उद्देसगा जयति, सेव जते ! जते ! जति ॥ ४१ ॥ २८ ॥ जत्रासिद्धियरासीजुम्मकऊजुम्म
 णेरउयाण जते ! कउ उययज्जाति जहा उद्देसगा चत्तारि उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा उद्देसगा
 उद्देसगा । सेव जते ! जते जति ॥ ४१ ॥ ३२ ॥ कणहलेस्सजवसिद्धियरासीजुम्मकऊजुम्म णेरउ

पिकोद्देशकेषु अप तत्रैवैत पदसु सारयासु बहुविधासुद्देशका लीपिका यत्वारः सर्वमेते अष्टाविंशत्युद्देशका ज्ञान्ति तव्य जदन्त । जदन्त । जदन्त ।
 इति ॥ ४१ ॥ २८ ॥ तत्रासिद्धिकरासिद्धियुग्मकतयुग्मनैरयिका जदन्त । कुत तत्पद्यते यथौपिकाः प्रथमका यत्वार उद्देशका सप्तमेय
 निरवशापमते यत्वार उद्देशका सप्तमे जदन्त । इति ॥ ४१ ॥ ३२ ॥ उद्देशकप्रथमसिद्धिकरासिद्धियुग्मकतयुग्मनैरयिका सप्त

॥ ४१ ॥ २८ ॥ जहा पम्हलेस्सा एय सुक्कलेस्सा एय चत्तारि उद्देसगा कायह्वा इम गळसेयानेविपे पपि चारउद्दे
 या जदन्ता । जदन्त मयुरसाय जमया जहा आदिकउद्देशकसप्तमेय सप्तमेय । जतकाविशेष मनुष्येने पासाया जिन यौधिकउद्देशाने विपे कड्या तिम क
 इया मय तिमश्लोक कड्या । एउ जम जेरसाय उठकीस उद्देशगा पादिका जत्तारि सप्तमे ते पद्माकोस उद्देशगा भवति । एउ उउ सेयानेविपे उठकी
 स उद्देशगा यौधिक चारउद्देशगा सगळार पद्माकोस उद्देशगा कुवे । सर्वमेते २ ति । तद्वति जेमगवन् ॥ ३८ ॥ सवसिद्धिय रासीजुम्म कऊजुम्म
 जेरउयाण भंते कया कड्याकति । भवसिद्धिक रासियुग्म जतयुग्म जारकी जेमगवन् विष्ठीवकी कपले इत्यादि । जहा पादिया पठमगा यत्तारिउद्दे
 सगा तत्रेव विरवसेस एए यत्तारिकउद्देशका । जिन यौधिक पादिसा चारिकउद्देशा कड्या । सेवमेते २ ति । तद्वति जेमगवन् ॥ ३२ ॥ कड्या
 जेरउय मवसिद्धिय रासीजुम्म कऊजुम्म जेरउयाणमेते कयो कड्याकति । कड्याकयो रासियुग्म जतयुग्म जारकी जेमगवन् विष्ठीवकी कपले ।

याग जते । कञ् उग्रयज्जाति जहा करहलेस्साए चत्तारि उद्देसगा जयति तथा इमेवि जयसिद्धियकरहलेस्से
 हिं चत्तारि उद्देसगा कायध्वा ॥ ४१ ॥ ३६ ॥ एव णीललेस्सजयसिद्धियहिवि चत्तारि उद्देसगा
 ॥ ८१ ॥ ४० ॥ एव काउलेस्सेहिवि चत्तारि उद्देसगा ॥ ८१ ॥ ४४ ॥ तेउलेस्सेहिवि
 चत्तारि उद्देसगा छहिया सरिसा ॥ ४१ ॥ ४८ ॥ पम्हलेस्सेहिवि चत्तारि उद्देसगा ॥ ४१ ॥ ५२ ॥
 सुक्कलेस्सेहिवि चत्तारि उद्देसगा छहियसरिसा एय एण्वि जयसिद्धिएहिवि अठ्ठावीस उद्देसगा जयति सेव
 जते ! जते ! ति ॥ ८१ ॥ ५६ ॥ अजवसिद्धियरासीजुम्मकण्ठुम्मेणेरहयाणं जते ! कञ् उग्रय

ज । जुत इत्यद्याते यया कान्तेशयाया धत्यार उद्देसगा जवन्ति तथा इमपि मयसिद्धिकण्ठुम्मेणेरहयाणं उद्देसगाः कण्ठुम्माः ० ४१ ॥ ३६ ॥
 एय नीमलभनवसिद्धिकेरपि यत्यार उद्देसगाः ० ४१ ॥ ४० ॥ एय कापोतलेवपेरपि यत्यार उद्देसगाः ॥ ४१ ॥ ४४ ॥
 तजोलेवपेरपि यत्यार उद्देसगा श्रीपिकोव्हेगकववृणाः ० ४१ ॥ ४८ ॥ पट्टलवपेरपि यत्यार उद्देसगाः ० ४१ ॥ ५२ ॥
 काण्ठुम्मेवपेरपि यत्याम्बुद्देसगा श्रीपिकववृणा एयमेतपि जवसिद्धिकेरप्यटाविण्णुद्देसगा जयन्ति तदय जदन्त । २ इति ० ४१ ॥ ५६ ॥

जहा कण्ठुम्मेणए चत्तारि उद्देसगा भवति यद्वाइमेवि । किम कृण्येयोगे विपे चारउद्देसगा इवे तिम एव पवि । मयसिद्धिय कण्ठुम्मेणेरहिया
 उद्देसगा कायधा । मयसिद्धि कृण्येयोगे सघाते चारउद्देसगा कण्ठुम्मा ३६ ॥ एवं नीमलेस्स मयसिद्धिएहिवि चत्तारिउद्देसगा । इम नीम
 लगे मयसिद्धि सघाते पवि चारउद्देसगा कण्ठुम्मा ४० ॥ एवं काउलेस्सेहिवि चत्तारिउद्देसगा । इम कापोतलेवपेरपि पवि चारउद्देसगा
 कण्ठुम्मा ४४ ॥ पट्टलवपेरपि चत्तारिउद्देसगा पाण्डिक्करिसा । मयसिद्धिय सघाते पवि चारउद्देसगा श्रीपिकववृणा कण्ठुम्मा । एवं
 एवपि मयसिद्धिचि चत्तारिउद्देसगा भवति । इम एव पवि मयसिद्धि सघाते पवि चत्तारिउद्देसगा इवे । एवंभते र ति । तउति इमगवन्

ज्ञाति जहा पठमी उद्वेसठे णयर मणुस्साण णेरइया य सरिसा ज्ञाणियइहा सेस तहेव सेय जते ! जते !
 सि, एय चउसुत्थि जुम्मेसु चत्तारि उद्वेसगा ॥ ६० ॥ कणहलेस्सा अन्नयसिद्धियरासी जुम्मेणेरह
 याण जते ! कठे उववज्जाति, एयचेव चत्तारि उद्वेसगा ॥ ६१ ॥ एय णोललेस्सअन्नयसिद्धि ए
 द्विय चत्तारि उद्वेसगा ॥ ६२ ॥ एय काउलेस्सेहिधि चत्तारि उद्वेसगा ॥ ७२ ॥ एय

अमवसिद्धिकराधियुग्मस्तपुग्मनैरयिका मइत्त । कुल उत्पद्यते यथा मयमाद्वैशको नवर मनुष्या नैरयिकवृथा प्रकितत्वाः शप तथैवै वष
 पुष्वपि युग्मपु वत्वार उद्वेसगा सारव मइत्त । इति ॥ ४९ ॥ ६० ॥ कणसण्यानवसिद्धिकराधियुग्मनैरयिका मइत्त ।
 कुल उत्पद्यते एव वैव वत्वार उद्वेसगा ॥ ४९ ॥ ६१ ॥ एव नीलसण्यानवसिद्धिकरेपि वत्वार उद्वेसगा ॥ ४९ ॥ ६२ ॥
 एव कापोतसेयैरप्युद्वेसगावत्वार ॥ ४९ ॥ ७२ ॥ एव तेषोसेयैरपि वत्वार उद्वेसगा ॥ ४९ ॥ ७३ ॥ पट्टसेयैरपि

इत्थादि ॥ ४९ ॥ अमवसिद्धिय रासीअव्य कइत्तुव वेरइयाच मते कथा उववज्जाति जहा पठमाउद्वेसगा । अमवसिद्धि क राधियुग्म उत
 युग्म नारनी हेममयम् बिज्जाबकी जपवे जिन पडिक्काउद्वेसगा कइत्ता तिम कइवा । अवर मनुष्याच वेरइयाय सरिसा भावियया सेसतइव । एत
 कावियेय मनुष्यने नारकीकरीया जाबवा मय तिमडोव कइवा । सेवमतेर ति । तइत्ति हेममयम् इत्थादि ॥ ६० ॥ एव चउसुत्थि जयेसु
 चत्तारिउद्वेसगा । इम चारेरेसुमनेविपे, चारवमउद्वेसगाभेविपे । कइत्तुव्या अमवसिद्धिय रासीअव्य वेरइयाच भते कपो उववज्जाति । अयसेगो
 अमवसिद्धि राधियुग्म नारकी हेम । अन् बिज्जाबकी जपवे इत्थादि । एयचेव चत्तारि उद्वेसगा । इमडोव चार उद्वेसगा कइवा ॥ ६१ ॥
 एव चीजकेरव अमवसिद्धिय चत्तारिउद्वेसगा । इम नीलसण्या अमवसिद्धिकवषाते पवि चारउद्वेसगा कइवा ॥ ६२ ॥ एव काउलेस्से
 द्विय चत्तारिउद्वेसगा । इम कापोतसगोवषाते पवि चारउद्वेसगा कइवा ॥ ७२ ॥ एव तेषोसेयैरपि चत्तारिउद्वेसगा । इम तेषोसे

तेउलेस्सेहिवि चक्षारि उद्देसगा ॥ ७६ ॥ पम्हलेस्सेहिवि चक्षारि उद्देसगा ॥ ८० ॥
 सुक्कलेस्से ख्खन्नवसिद्धिण्हि चक्षारि उद्देसगा एवं एएसु ख्ख्ठावीसाएयि ख्खन्नवसिद्धियउद्देसएसु मणस्सा णेर
 ह्यगमणेण णेतथा, सेव जते २ ! सि । एव एतेवि ख्ख्ठावीसा उद्देसगा ॥ ८१ ॥ ८४ ॥ सम्माहिठी
 रासीजुम्मफजुम्मणेरइयाण जते ! कच्छ उववज्जाति एव जहा पठमो उद्देसठे, एव चउसुयि जुम्मेसु चक्षारि
 उद्देसगा नयसिद्धियसरिसा कायथा, सेव जते २ ! सि ॥ ८८ ॥ कण्हलेस्सेसम्माहिठीरासीजुम्म

चत्वार उद्देसकाः ॥ ४१ ॥ ८० ॥ शुद्धसेश्याजवसिद्धिके चत्वार उद्देसका एवमतपु अष्टाधिसुवृक्षकेपु मनुष्या नैरयिकगमन था
 तप्या सारय जवत्त । जवत्त । इति । एवमेतेप्यष्टाधिसुवृक्षकाः ॥ ४१ ॥ ८४ ॥ सम्यवृष्टिराधिपुगमकृतपुग्मनैरयिका जवत्त ।
 कुत उत्पद्यते एवं यथा प्रथमोद्देसकाः एव चतुर्थेपि पुग्मेपु चत्वार उद्देसका जवसिद्धिकसदृशाः कालव्या सदेव जवत्त । २ इति ॥ ४१ ॥
 ८८ ॥ कण्हलेस्सेसम्माहिठीरासीजुम्मनेरयिका मवत्त । कुत उत्पद्यते एतपि कण्हलेस्सेसम्माहिठीरासीजुम्मनेरयिकाः कर्तव्याः ,

म्मासघाते पवि चारउद्देसगा कश्चा ॥ ७६ ॥ पम्हलेस्सेहिवि चक्षारि उद्देसगा । पम्हलेस्सेहिवि चक्षारि उद्देसगा कश्चा ॥ ८०
 सवर्भरसे यमवसिद्धिपि चत्वारिउद्देसगा । मुग्गकयो यमवसिद्धिकसघाते पवि चारउद्देसगा कश्चा । एव एएसु चक्षारोसाएयि यमवसिद्धियउद्देस
 उस मज्झया चेरएवमे वयथा । इम एवनेविये मत्तव नारको ममेवरो जावथा । सेवभते २ सि । तइति हेमगबन् । एव एतेवि चक्षारोसा उद्देसगा ।
 इम एव पवि चक्षारोस उद्देसगा कश्चा ॥ ४१ ॥ ८४ ॥ चक्षारोरोकस्य कश्चुप्य चेरएवमे भते कपो उववज्जाति एवं जान पठमो उद्दे
 सघपो । सम्यगइठो रागियरम नूगयरम नारको हेमगबन् विक्कवो छपजे इम निम पडिसा उद्देसगा कश्चा । एव चउसुवि जप्पेस चत्वारि उद्देसगा
 भवसिद्धियसरिसा कायथा । इम चारिं पुग्मनेविये चारउद्देसगा मवसिद्धिकसरोसा कश्चा । सेवभते २ सि । तइति हेमगबन् इत्यादि ॥ ८८

णेरइयाण ऋते ! कन्ठ उदयज्जाति, एण्वि करहलेस्ससरिसा चप्पारि वि उद्देसगा कायह्मा, एव सम्मद्धिठी
 सुयि नयसिद्धियसरिसा स्थठावीस उद्देसगा कायह्मा, सेव ऋते २ ! सि जाव विहरइ ॥ ४१ ॥ ११२ ॥
 मिच्छद्विठीरासीजुम्मकजुम्मणेरइयाण ऋते ! कन्ठ उववज्जाति एव एल्ययि मिच्छादिठीध्वज्जिलावेण स्थन्नय
 सिद्धियसरिसा स्थठावीस उद्देसगा कायह्मा सेव ऋते २ ! सि ॥ ४१ ॥ १४० ॥ करहपरिकय

एवं सम्पद्दुट्टिष्यपि प्रवचिद्विक्कसदुष्सा अष्टाविशत्युत्तरयाका कत्तव्या सदेव जइत्त । इति यावद्विहरति ॥ ४१ ॥ ११२ ॥
 मिप्यावृट्टिराशियुग्मकृतपुग्मैरपिका प्रइत्त । कुत इत्यद्यन्ते एवमत्रापि मिप्यावृत्त्यमित्तापनाप्रवचिद्विक्कसदुष्सा अष्टाविशत्युद्देसका कत्तव्या
 सदेव जइत्त । इति ॥ ४१ ॥ १४० ॥ कप्पपाचिक्कराश्रियुग्मकृतपुग्मैरपिका मवत्त ! कुत इत्यद्यन्ते एवमप्रवचिद्विक्कस
 दुष्सा अष्टाविशत्युद्देसकाः कर्त्तव्या सदेव जइत्त । इति ॥ ४१ ॥ १६८ ॥ सुत्तपाचिक्कराश्रियुग्मकृतपुग्मैरपिका जइत्त । कुत

करहलेस्य सन्नादिहो राशोज्य कडकज्य वेरत्तवाचमते कपो उपवव्वत्ति । कुच्चसेगो उच्चगहटो राशोवग्म मारको हेमवपम् विहाविको जपने । एण्वि
 कडकज्यसरिसा चप्पारिवि उद्देसगा कायका । ०४ पचि कुच्चसेगो सरोखा चार पचि कडका । एव सन्नादिहोमवि मवचिद्विक्कसरिसा अष्टावोसं ज
 उद्देसगा कायका । इम सन्नागहटीनेविये पचि मवचिद्विक्क सरोखा अष्टावीस उद्देसगा कडका । सेवभंते २ ति जाय विहरइ । तइत्ति हेमवपम् इत्थावि
 यावत् विचरे ॥ ११२ ॥ मिच्छद्विहो राशोज्य कडकज्य वेरत्तवाचं भंते कपो उपवव्वत्ति । मिप्याहटो राशियुग्म कृतपुग्म मारको हेमव
 वम् विहाविको जपने । ०४ एत्तदि मिप्याहटो पभिवचिद्विक्कसरिसा अष्टावीस उद्देसगा कायका । इम इत्तो पचि मिप्याहटो पभिसोपि
 करी पमवचिद्विक्क सरोखा अष्टावीस उद्देसगा कडका । सेवभंते २ ति । तइत्ति हेमवपम् ॥ १४ ॥ कडकपचिक्क राशोज्य कडकज्य विर
 रत्तवाचं मते कपो उपवव्वत्ति । कुच्चपाचिक्क राशियुग्म कृतपुग्म मारको हेमवपम् विहाविको जपने । एव मवचिद्विक्कसरिसा अष्टावीस उद्देसगा का

धानइमस्मिस्तुष्टिः । विवृतिपूर्वकगिराविरहादिदृष्टं कथमसंभ्रममिष्येयवापि ॥ १ ॥ एकवत्वारिषं शतं वृत्तितः समाप्त ॥ ४१ ॥
 अथ ज्ञानयसा ध्याख्याप्रस्ताः परिभाषानिष्ठिरसया गाभामाह-बुससीत्यारि ॥ चतुरतीति अतसइत्यादि पदाना मन्त्राङ्ग इति सम्बन्ध पदानि
 च विशिष्टसम्प्रदायस्यानि प्रवराको वर यदुक्ताम तेन पर्यकीत्यत्र स्त्रीता य त प्रवरवररानाटशिन सौः केवलसिद्धि रित्यर्थः प्रकृतानीतिर्योगः ।

रासीजुम्भकजुम्भनेरइयाण जते ! कतु उववजाति, एव अन्नवसिद्धिसरिसा अथाथीस उद्देसगा कायद्या,
 सेव जते २ ! सि ॥ ४१ ॥ १६८ ॥ सुक्तापस्क्रियरासीजुम्भकजुम्भनेरइयाण जते । कतु उवव
 जाति, एव एत्याधि जयसिद्धिसरिसा अथाथीस उद्देसगा नवति, एव एएण सध्वेवि त्वयउय उद्देसगसय
 जयति ॥ रासीजुम्भसय सम्मस ॥ ४१ ॥ १९६ ॥ जात्र सुक्तालेस्ससुक्तापरिकयरासीजुम्भकालि
 त्तगत्रेमाणिय जात्र जइ सकिरिया तेणेव जयगगहणण सिज्जति जात्र अतकरेति ? णो इणठे समठे, सेव

उत्पद्यत एवमथापि मवांसिद्धिबसदुया अष्टाविशत्युदयका मवन्ति एवमततानिसापन सर्वपि पक्वत्याचिकमुदरसकयत मवति ० राशि
 यथा । इम पमत्रसिद्धिब सरोखा अष्टाशोसकदुदया कइया । सेवमते र ति । तइति सेमगम् ॥ १६८ ॥ सवपत्तिब राशोखय कइजुय
 पररबाभं मते कया उववजाति । मुळपाच्चिक राशियग्म कृतयग्म आरको सेमगम् बिह्विकको जयते । एवं एत्याधि भवसिद्धिसरिसा अथाथीस उद्दे
 देमगा मवति । इम इको पदि भवसिद्धिब सरोखा अष्टाशोस कदुदया इवे । एव एएवं सववि कइयउय उद्देसग सयं भवति । इम एव सगगाए पदि
 पक्वो द्विषये उद्देदया दुवे ० राशोजुम्भसय सम्मस ॥ राशियुग्म शनक पूरायका ॥ ४१ ॥ १८६ ॥ जात्र सुक्तालेस्स सवपत्तिब राशोखय
 कइियाम वेमाचिक जात्र जइ सकिरिया तेणेव मवयइयच सिज्जति जात्र अतकरेति । यात्र मुळसयी मुळपाच्चिक राशियुग्म कइयाज वेमानिक य
 त्प सविव तिचकोल मवगइचेकरो सीके जात्र पत्तकरे । पाइयइसमठे । एअय समव गइो । सवमते र ति । तइति सेमगम् इम कइो । भगवं

मम विमर्ष निमग्न विषमं विस्मिन्ने जल यस्य दक्षिणतडापस्या एव तथा हेतुज्ञातामीष्टानिष्टायसापननिराकरणयो स्तिङ्गज्ञातानि सान्धेय विपुलो
महान् पगः कम्पानावतादिरया यस्य विद्यधिताचांषपमापगसापस्या एव तथा सहसमुद्रो स्मिप्रयचनोदधिगाम्भीयसापस्योत्सु, अथवा सापस्य
गाणादवाह-गुणे गर्भोर्पादिति विवशासो विवशास्य कद्वद्वत्या घः स तथति गाचार्यो ॥ नमो गायमाह एव गवइराण मित्यादयः पुस्तकलेखरुथा

गमगइ यंदिस्त्रा गमसिन्ता सयमेण तत्रसा श्युष्याण ज्ञायिमाणे विहरइ ॥ रासीजुम्भसय सम्भत्त ॥ ४१ ॥
सुत्राए जगयतीए १३८ श्युठतीस सतं सताण , उद्वेसगाण इचुलसीतसयसहस्ता पदान पत्रयरणणदसीहि
ज्ञायानायमणता पणत्ताएत्यमगसि ॥१॥ तथणियमधिणयवेलेो जततिसताणणयिमलविपुलजलो हेतुसतधि

श्रीपञ्चमस्तुया ध्विदयनापायानुयादयोतोयम् । श्रीरामचन्द्रगणिना निधिप्रमोचितज्ञातनीतः ० १ ०

याज्युत्तन्त्रयशुक्रपाचिकराशिपुमफतपुग्मयोमामिक (मचति) यावद्यदि सक्रियास्तैव प्रवयइवेन स्पेस्वन्ति यावदस्त कुवन्ति ? नापमया
ममय एदेउ जदगत । मदगत । इति जगवान् गौतम यमव जगयन्त त्रिःछत्याऽऽश्चिणमदक्षिणा करोति त्रि छत्यादक्षिणमदक्षिणा छत्या

रत्न परिद्वेष ममव भगवन्त श्रोगच्छोरेर्यामो प्रते वादे नमस्कार करोने । सयमेव तबसा अण्वाच भावेसावेविहरइ । सयमेव
रो मपेवरो शाजाप्रते भावतापवा विवरे । । राशोअमसय सम्भत्त । ए रागिगुम्भ गतक इवतालोसमा पूषययो । ४१ । ०

मपार ममवए पठतीममत्तं सताच १२८ उद्वेसगाव । सभन्था मगवतीमादि सवयतक एकशो पछनीसखे तिज्ञो पदिका ३२ गतकमहि पत्तारयत
क आरमशो तमाटे एक एकशोअ आबवा एव २२ पखे तेचोसना वळीमाशो सातयतकमहि वारे २ गतक पवात्तर गतकखे तिवारे वारसता वषरा
यो इरे पख बान्धोममा गतकमहि एकशोमयतक पने इवतालोसमा एकशोसखे इम सबमिथो एकशोपछनीस १२८ गतकखे तथा उद्वेदेया सगसा
६ १८२५ ते सवयान्त एगोने कइवा, दिवे भगवतीना परिमाव कइवाने खाले गाथा कइखे—उससीरसवसइच्छा पदाचंपपरपरबावइसीधि । मा

नगरभारतः प्रकटार्थां देति न व्याख्यातः ॥ इति नगवतीपञ्चमाङ्कवार्ताः समाप्ताः । यदुक्तमादाविहवापुयोये श्रीपञ्चमाङ्कीयतकुञ्जरोये । सुखा
 पिनस्योस्त्वितिपूर्वगुही मारभ्यतेवृत्तिवर्त्रिकेये ॥ १ ॥ समचिततत्पट्टवृत्तिवापु साहायकात्कैवलमत्रयत्तः । सद्गुद्विदाभ्यायगुञ्जालुमन्तु सुखपञ्चाये
 नगवत्ययेपा ॥ २ ॥ चान्द्रकुलेषुदृग्वचकल्पे महादुर्गोचर्मपत्रप्रदानात् । क्षयाभिव्यतास्त्रविद्याशाखासः श्रीवदुर्गामोमुनिनायकोपूत ॥ ३ ॥ तत्पुण्य

ति गवर चउत्यसए पठमविवसे स्थठ वितिय दिवसे दी उद्देशगा उद्दिसिज्कति, गधमाष्ट सताष्ट स्थारठ
 जावइय जावपवेइ तावइय एगदिवसेण उद्दिसिज्कति, उक्कोसेण सतपि एगदिवसेण मज्जमेण दोहि सत
 जह्मणेण तिहि दिवसेहि सत एवं जाव वीसइम सय गवर गोसाली एगदिवसेण उद्दिसिज्कति जदिठिठे
 एगेणचेव स्थायविलेण स्थुतसुठ स्थुणठितो स्थायविलेण तठेण स्थुणसुवति एक्कवीसवावीसतेवीसइमाइ
 सताइ एक्कोक्कीदिवसेण उद्दिसिज्कति चउवीसइम सय दोहि दिवसेहि तठउद्देशगा पञ्चविसइम सय दोहि

त नमस्तति, वणित्वा नमस्तस्य सयमेव तपसास्मानं ज्ञापयन्तिहरति ॥ राशिपुग्मशत समासम् ॥ ४१ ॥
 श्रीपुन्याचार्यलोकान्गणवददत्तचन्द्राजिर्ष्वरिचर्म्ये रादिदोरायबाहादुरभनपतिषिष्यसम्प्रार्थनम् ।
 सखीतः पञ्चमाङ्कप्रपितपुपुग्रतवेवचापानुवाद सीबोऽपकित्पिनेप्रमवचनपुठकारामचन्द्रकसिद्धिम् ॥ १ ॥

चमो दुवाचसमस्त यच्च पिण्गण्य । नमस्कारवापा हाश्यांग मन्त्रिपिठकप्रते पाबा—कुण्डसठिचयलया अनिचियकारटवेटिसकासा । सुखसेवया
 मगवतो मममतिमिरपवासेत ॥ १ ॥ इममोपरि सुचकित चरचके लक्षणा अनिचित कोरटवोट समान एववा श्रुतदेवता मगवतो प्रते मीचरो
 मतिना तिमिरकश्चि पाभरचमते पञ्चासकरे ॥ १ ॥ पञ्चतौय आदिमाच पञ्चपञ्चसयाच शार्दोणसेवा उद्दिसिज्कति । प्रमत्तोनेविषये मवम चाठ यतजना
 दायदाय उद्देश्या उद्देश्यकोजे । गवर पञ्चसह पठमदिवसे यत्र वितियदिवसे दा उद्देश्यया उद्दिसिज्कति । एतच्छाविसेव बोधायतकने विषये पदि

ह्यो गितसमुद्दिष्टार मद्रुन्धसम्पूषिदगीसमस्तात् । यन्मृतु शिष्ययरावर्मात्र यतीभूतज्ञानपरागवक्त्रो ॥ ४ ॥ एकस्यो सूरियरोजिनेधर स्यात्सप्तधान्यो
 नूविदुमागरः । तयोर्विंशत्यविदुदिनाप्यल एति। क्लृतेपानयश्चसूरिका ॥ ५ ॥ तयोरवविनेयाना तस्यदन्वानुवृता । श्रीमतांविनवन्त्राक्य सरप्र

दिवसेहि तठउद्देसगा वधिसयाइ श्यठसयाइ एगेण दिवसेण सठिसयाइ वारसएगेण एगिदियमहाजुम्मस
 याइ वारसएगेण, एव वेइदियाण वारस तेइदियाण वारस चउरिदियाण वारतएगेण श्यसखिपचिदियाण
 वारस सखिपचिदियमहाजुम्मसयाइ एक्कवीस एगदिवसेण उच्चिसिज्जति रासीजुम्मसय एगदिवसेण उच्चि
 सिज्जति ॥ १ ॥ गाहा ॥ थियसियथ्यरिवटकरा नासियतिमिरासुयाहिवादेवी । मज्जापिडेउमेह युहविद्युद्दण
 मसियाणिञ्च ॥ १ ॥ सुयदेययाएपणम्मिमो जिएपसाएणसिस्कियंणाण । श्यसपययणदेवो सतिकरतनमसामि
 ॥ २ ॥ सुयदेययाएअस्को कुण्ठमोवन्नसतिविरोहा । विज्जायथ्यतिज्जानी देउथ्यविग्घलिहत्तस्स ॥ ३ ॥

भूतायां प्रगत्यां अष्टविंशत्त्रिंशत् क्षतं क्षतकामा पन्थविश्वत्सर्पिकैकोनविंशतियतुमुद्युक्तानाम् ॥

अथैतस्याः परिमात्रमाष्ट-चतुर्योतिश्चातस्रश्चादि पदानाम्बर्बरश्चात्मदोषिः । आधात्राधाम्यनक्षानि प्रशस्तान्यथाङ्गे ॥ १ ॥ तयोन्मियमवित्त
 यवलो जयति सदात्रानवित्तविपुलजलो । हेतुक्षतविपुलवेगः सधुसमुद्रोगुणविसालो ॥ २ ॥ समास चाय जगवतीसूत्रसरकृतानुवाद् ॥
 तमो गीतनादिगणपरस्य । तमो जगवत्सै व्याख्याप्रकृत्यै । तमो धारशाङ्गाय गच्छिपिटकाय ॥ * ० * ० ॥

सेदिवसे पाठउद्देय्या बीजेदिवसे टावउद्देय्या उद्देय बीजे । अवमाथो सतापो पारु आवश्य जाय पबइ तावश्य एगदिवसेण उद्देवसिक्कति । न
 वमा यतव्वो माबीने जेतवा २ पबइ तेतसा एकदिवसो उद्देय बीजे । उच्चोवेचं सतपि एगदिवसेच मन्थिमेचं दाच्च टिवसेचि सत । उरकटव्वको यत
 च एक्केदिवसे मन्थमेवको वच्चदिवसे गतव्व । उच्चवेच तिचि दिवसेचि यत एव जाव वीसरस सय उवर गासाशा एगदिवसेच उद्देविसिक्कति । जयस्य

बभूवतमत्रकत्रतोपनाप्याहोपाकररगुरुद्विरनूरुवतस्मात् ॥ ५ ॥ जन्मगयादीन्प्रमानं सन्वन्शार्यायदानं सचिबे
 विवर्षिर् नवयानिबिदान । विद्याइकोपमानम्किञ्चिद्विशिष्यिबन् स्रपयोयोसमान तस्यापेराम्यसूरि सननभिसुगुरुः पापपूनीधमीरः ॥ ६ ॥ आ
 दिःमदुबमो परन्वयशामाहोविधि धेपगा मुत्याति सपसाधिपिः सुतरमानम्बोरविक्षनचामायासो गुणिकीयताबशोभिलांमातासुचमोत्समा
 नपान कसिभाजपासुघसिनाश्रीकृष्णसूरि कानः ० ७ ॥ स्याति खान्जलताक्ततोऽप्यजिनससम्यादपरमाखिनां खलिनार्सुपतिप्रकृतिमिरसोभय्य
 विप्लवयम् बावोकारिसत इति जिनसतछिगूतवगघातयन् स्पष्टानामुदिरिवाऽप्रमयमहिमः कस्यासुपुरियनो ० ८ ॥ जवाहबीसोतत्रवियद्वजस्य विमु
 क्तिपुष्पांसिमुरमुकस । रामपमोवियप्रमखरिद्यतनजातकान्तानैरयबन्त्रसूरिः ॥ ९ ॥ ततोकातारान् सखलजनतानखलनन सदाप्रायिवाशमखिइत
 मतिर्नैप्यपनः । सशस्यस्वरागीसमपुबमवि सूरिसुमचि प्रवकश्रीमिगुरुद्विरिद्वजगस्त्रीयमरुतः ॥ १० ॥ कातोद्वकखसूरिः समगत्याद्यतियप्रपवर

तोषे । दुनरपय सपित्तः कसहृयकीतनेवियुषः ॥ ११ ० भावनीश्रीकृष्णसुहृदोविष्णुदिवानन्वमकःमार्कियो बाग्मीसूरिरियप्रतापमित्यः पूर्वैवकाव्योप
 मः । भीत्याष्टीरियभीरुश्रीमूनिपतिगुनीवसुवैरुषो जातसगयिपसकचमयनःश्रीयदुसाममनुः ॥ १२ ० तत सूरिषरारक्त सदासुदोतनरमनुः । धरा
 रक्तुवरिवाद्येगुणैःसर्वीयकारिनिः ॥ १३ ० प्राप माप्रमकशाखइय मध्यकलाकस्थितिः प्रास्ताक्षःप्रतिमापरः प्रथमवाग्प्रागपवृष्टोपर । माखिना
 एपर मजःपरमनाहारीपरानित्यया व्यापारात्परपदुमेकमपुक्तमूरिद्वजगस्त्रीयनः ॥ १४ ० श्रीशोभरानसूरि सुचियाद्याध्विभितलिखद्वयूरिः । पदु
 तात्वादितगूरिस्तत्पदवाःमदस्यदासूरि ॥ १५ ० तत्पदवाविरुषाप्रकिइतमतिद्वस्यसुस्त्यामपुक्तः क्षत्रीवित्रऽइमवेधोस्वमवृगतुलोऽरागदाव सुवोचः ।
 यपरिजोयुगाशोमुस्तुगयिमुसामुलमकारिसुधर्मी मूर्तोपम चितीक्षाःचितपदपुगतः श्रीनिमाइवधनुः ० १६ ० य सङ्गस्त्रीयिगतकसई प्राप्नुवन्का
 लिकासाःप्रापेत्स्त्रीपतिभक्तवसने पुत्रिताप्रिर्भुमीन्त्रः । यसाभ्योलाभ्विभिरितसदाययत्तस्त्रीनिवायः श्रीलक्ष्मीवन्त्रइगणचङ्कुरिसत्यकातोऽपुत् ०

1

2

3

4

5

6

7

नवमः गुणमि न्यामि मद्रूपितं गुरु [तदुपरि योगदमयेन मूरि कृता सस्कृत टीका] श्रीर मेपराजगणि कृत जापा टीका युत

श्रीयुत राय पनपतिविष यशहुर कृत आगमसङ्ग्रह के

॥ पञ्चम आग जगयती सूत्र ॥ देही से प्राप्त
॥ इति भगवती सूत्रं पंचमाङ्गं समाप्तम् ॥

लौकागच्छीय श्री रामचन्द्र गणि कृत सस्कृतानुयाव युत

श्यापि नामकवस्त्री से सजाधित होक मुद्रित हुआ ।

इस पुस्तक पर रजिस्टरी हुआ है [बनारस जैन प्रभाकर प्रेस मानसबन्ध जलो] संवत् १९३८ । सं. १८८८ इकथी ।

भाषार्थ की विनयकर श्यामभार, बनपुर

॥ इति भगवती सूत्रं पंचमाङ्गं समाप्तम् ॥
देही से प्राप्त

